

श्री
जैन ग्रंथावली.

प्रसिद्ध कर्ता
श्री जैन श्वेताम्बर कॉन्फरन्स.
मुंबई

[प्रसिद्ध कर्ताएं पुस्तकना सर्व हक पोताना स्वाविनमा राग्या छे]

वीर सवव २४२५

विक्रम सन् १९६५

किंमत रु ३

मुंबईमां
(“इंदुप्रकाश स्टीम प्रेस ” मां छपाव्युं छे.)

अनुक्रमणिका

विषय.	लिष्ट नमर.	पृष्ठ
जैनगम	१ ...	२
जैन न्याय	२ . . .	७१
जैन फिलॉसोफी	३	९७
” ”	४ . . .	११४
” ”	५	१४७
जैन औपदेशिक.	६-७ .. .	१६७
जैन भाषासाहित्य	८	२९६
जैन विज्ञान	९	३४५

आ ग्रंथावलीमां जणावेळा सक्षिप्त अक्षरींनी परिभाषा.

घृ	घृहटिप्पनिका
पा १	पाटणनो भडार न १
पा २	पाटणनो भडार न २
पा ३	पाटणनो भडार न ३
पा ४	पाटणनो भडार न ४
पा ५	पाटणनो भडार न ५
पा ६	पाटणनो भडार न ६
जे जेमल	जेसलमेरनो भडार
जेसल वे	जेसलमेरनी हसविजयजीनी करेली तथा हीरालाले करेली वने टीपमा ए प्रथ नोंधिल छे
लीं	लींघडीनो भडार
रा	राभातनो जैनशाळनो भडार
भा-भाव	भावनगरनो भडार
अ १	अमदावादनो डेलानो भडार
अ २	अमदावादनो चचलवानो भडार
की	कोढायना भडार
मु	मुवईनो दशा ओशवाळनो भडार
मु भोईवाडो	मुवईनो भोईवाणामानो दीगवरीनो भडार
डे-डेकन	डेकन कोलेजनो भडार
राधन	राधनपुरनो भडार
जाम	जामनगरनो भडार
सु	सुरतनो भडार
प्रो मणि	प्रोफेसर मणिलाल नमुभाइण पाटणना भडारोनी करेली टीपमा आ प्रथ नोंधिल छे
नगीनदास-S K	खवातना श्री शातिनाथजीनो भडार
रि ६	रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो रिपोर्ट छट्टो
Dec	डेकन कोलेजनो भडार
A S	रॉयल एसियाटीक सोसायटीना रिपोर्ट
A S 4	रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो चौथो रिपोर्ट
A S 5	रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो पाचमो रिपोर्ट
A S 6	रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो छट्टो रिपोर्ट
P 3	विटसनना त्रिजा रिपोर्टमा ए प्रथ नोंधिल छे
P 4	विटसनना चौथा रिपोर्टमा ए प्रथ नोंधिल छे
P 5	विटसनना पाचमा रिपोर्टमा ए प्रथ नोंधिल छे
A H	विटसने अमदावादमा करेला कलेक्शनमा ए प्रथ नोंधिल छे
Gov	गहरमंट त रायल एसियाटिक सोसायटीनो रिपोर्ट
K K	विटसननी शाधखाल दरम्यान कोटाना भडारमा तेना जोवामा आवेला प्रथोमानो सदरहु प्रथ छे

भंडारोना नाम तथा चौकस ठेकाणानी माहिती.

नीचे जणावेला भंडारोनी टोपो अमारा तरफवी माणगो मोन्यीने नियार करावेनी छे. मद्रह भंडारोना जुदा जुदा नामो देखरेखा खातर जैनगमलीस्टना नामेना पेजमा नीचे प्रमाणे मोळ कोळम थापेला छे.—

पेला कोळममा वृहस्पतिपनिक्ता केजे सं. १५५६ मा कोई आचार्ये संस्कृतमा लखेल छे तेमा ते ग्रंथ नोबेल छे के केम ते जणाव्यु छे.

वाकीना पदर कोळममा नवरवार नीचे मुजबना भंडारो नोंवी तेमां ते छे के केम ते जणाव्युं छे.

- १ पाटणनो भंडार नं. १ ते झवेरीवाजमा श्रीपार्श्वनाथजीना भंडारने नामे ओटाजाय छे अने ते शेट वाटीलाल हीराचंदनी देखरेखमा छे.
- २ पाटणनो भंडार नं. २ ते संघवी पाढामा लोटी पोशालना उपाश्रयनो भंडार छे अने ते पाटवानी देखरेखमा छे
- ३ पाटणनो भंडार नं. ३ ते फोफलिया वाढानी आगळी शेरीनो भंडार छे अने ते गेट हाळाभाईनी देखरेखमा छे.
- ४ पाटणनो भंडार नं. ४ ते फोफळियावाढानी वखतजीनी शेरीमा संघनो जूनो भंडार छे अने ते सघनी देखरेखमा छे.
- ५ पाटणनो भंडार नं. ५ ते फोफळिया वाढानी वखतजीनी शेरीमा संघनो नवो भंडार छे अने ते पण संघनी देखरेखमा छे.
- ६ पाटणनो भंडार नं. ६ ते झवेरी वाढामा शा. चूनीलाल मूळचंदनो घरभंडार छे अने ते तेमनीज देखरेखमा छे
- ७ जेसलमेरनो भंडार ते त्याना संघनी देखरेख नीचे छे.
- ८ लीवटीनो भंडार ते त्याना सघनी देखरेख नीचे छे.
- ९ खमातनी जैनशाळानो भंडार ते गेट पोपट अमरचंदनी देखरेखमा छे.
- १० भावनगरनो भंडार ते त्याना संघनी देखरेखमा छे.
- ११ अमदावादनो डेलानो भंडार ते शेट मंगलदास ताराचंदनी देखरेखमा छे.
- १२ अमदावादनो चंचलवानो भंडार ते शेट उमाभाईना घरवाळ्य वाई चंचलभाईनी देखरेखमां छे.
- १३ कोडायनो भंडार ते त्याना सदागम प्रवृत्ति खाताना त्रस्टीओनी देखरेखमा छे.
- १४ मुवईनो दशा ओशवाळोनो भंडार ते मुवईमा वसता दशा ओशवाळभाईओनी ज्ञातिनी देखरेखमा छे अने ते माडवी बंदरपर आवेला श्री अनतनायजीना देरासरमा रहेल छे.
- १५ डेक्कन कॉलेजनो भंडार ते पुना शहरेमा खडकी उपर डेक्कन कॉलेजनो जे पुस्तकसग्रह छे ते छे अने ते सरकारनी देखरेखमा छे.

श्री जैन स्वैताम्बर कोन्फरन्स ओफीस
पायधुनी, पोष्ट नं. ४ मुवई.

उमेदचंद दौलतचंद वरोडीया.
आसिस्टन्ट सेक्रेटरि,



प्रस्तावना.



वि स्तीर्ण आर्षावर्तना सुस्थित प्रदेशोमा ज्यारे पचम महाज्ञानधारक चरम-
तीर्थकर श्री महावीरस्वामी विचरता हता, अने अचानरूपी अधकारमा
मूर्च्छित पडेलाल बालजीवोने नानरूपी जाज्वल्यमान सूर्यना प्रकाशवडे पदार्थनु
सत्य स्वरूप दर्शावी तेनु महात्म्य प्रत्यक्ष दाखला दर्लालोथी सिद्ध करी वतावी
तेमना उपर अनत उपकार करता हता ते समयना ते उच्चतम ज्ञानना
महात्म्यनु वर्णन करवु ते केवळ शगझगता अग्नि उपर हाथ मुकगथी थनार भावी चम
त्कारनो अनुभव करी अग्निनी प्रसरतानु वर्णन करवा सरखुज कहेवाय उता कुदरती
नियमे आवी प्रखर वस्तु पण केनी रीते काळना वहेवा साथे ओठापणने अगीकार करे छे,
ते जणाववा खातर अत्रे योदुक जणाववानी अगत्यता छे जेम जेम समय वितवा माड्यो
तेम तेम उपरोक्त महाज्ञानी प्रखरताए कुदरती राते समुद्रनी भरडी ओट जेवु स्वरूप
धारण कर्यु, अने ज्ञाननी न्युनता थती चाली महाज्ञानी तीर्थकर महाराजे पण पोताना
आगममा कालनु स्वरूप वर्णवता उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी एवा वे प्रकारना काळ
दर्शावी तेना छ भाग जणाव्या छे ए छ भागने कोई काळ कहे छे, कोई युग कहे छे
अने कोई आरा (आरक) कहे छे उत्सर्पिणी काळमा प्रत्येक वस्तुनु उत्कर्षणु होय छे,
अने अवसर्पिणीकाळमा अवनतपणु होय छे ते कुदरती नियमने अनुसरीने सामत चालता
अवसर्पिणी काळे पोताना स्वभावनो प्रभाव देखाइवानी शरुआत करी.

श्री महावीरस्वामी मोक्षगत थया तेमनी साथे ते महानाने जाणे मोक्ष जेवा
शुचिस्थानमा अचळवास करवानु पसद कर्यु होयनी! तेम धीमे धीमे ज्ञाननी न्युनता थवी
शरु थई पूर्व ते वलता पुण्यवान प्राणीओ स्वात्मशक्तिने क्षणमा तेना कर्तव्य स्थानमा
मूकी उपर जणावेछ महाज्ञान प्राप्त करता हता, अने ते ज्ञानने के जे आत्मनो सपूर्ण
प्रगट करेलो गुणज छे ते जाणिने पोताना आत्मरूपी भडारमा राखी अन्यना आत्मभडारमा
राखवा माटे अत्यत सहेलाइथी टुक महेनते सरळ मार्ग वताववाने शक्तिमान थता हता.

पण अफसोस! ए समय बदलायो अने जाधुनिक अवसरिणी कालांतगत छ काळमांना पांचमा दुःपम काळना प्रमावे ज्ञानरूपी समुद्रमां ओटनी गरुआन थई.

शाशन नायक श्री महावीरस्वामी निर्वाणगत थया पछी गौतमस्वामी, सुधर्मस्वामी, जनुस्वामी आदि पंचम महाज्ञानना धारक थया. पण तेमना मोक्षमा जवा साथे ज्ञान घटतुं चाल्युं. आवारविना जेवी आधेयनी स्थिति ते अनुसारे दिनप्रतिदिन वा ज्ञानना आधार न रया. छेवटे ते एटली हृद मुधी गुत थयुं के वीरपरमात्माना निर्वाण पःठी आशरे वसो वर्षना अंतरमा श्री भद्रबाहुस्वामी पछी तो श्रुत केवळीनी पण परिसीमा जेवु थयु. तेमज पूर्वां पण विच्छेद थता गया. भद्रबाहुस्वामीना वखतमां वार वर्षनेो भयंकर दुष्काळ पटतां तीर्थकर महाराजथी सांभळेली त्रिपदीना आगारे गणवर भगवाने रचेली सूत्ररूप आगममांनु वारमु अग नामे दृष्टीवाद जे अनेक विद्यावोथी भरपुर हतु तेनां पण लोप थयो.

आम ज्ञानरूपी समुद्रनो ओट थतो जोई वीरप्रभुथी ९९३ वर्षे एटले विक्रम सं. ६२३ मा दीर्घदृष्टी सूरिवर्य देवर्दिगणि क्षमाश्रमण महाराजे भविष्यमां ग्रनैः ग्रनैः सर्वथैव थनार नाश तरफ पोतानी ज्ञानदृष्टी फेरवी आत्मशक्ति वळे पोताना तेमज बीजा आचार्य भगवानोना स्मरणमां रहेला ज्ञानने पुस्तकारूढ कर्युं. आवो उद्धार वे जग्याए थयो. एक मथुरामा अने बीजो बलभीपुरमा के जे माथुरी अने बलभीवांचना रूपे हाउमां जणाय छे. आम आत्मशक्तिमां रहेनारा ज्ञानमाथी यत्किंचित् लखी शकाय तेदला शब्दो टुकाणमा पुस्तकरूपमा लखाया. आ पूज्य महाशय आपणा उपर अगणित उपकार करी गया छे. एटलुज नहि पण तेओए अणीना वखते आपणा धर्मना ज्ञानरूपी स्थंभोने जमीनदोस्त थवाना भयंकर भयमांथी वचाव्या छे. समयनी स्थितिनो विचार करीए तो आपणने चौकस रीते मालम पडशे के जो आ महाशये समयसूचकता वापरीने ज्ञानने पुस्तकारूढ करवानी हिंमत नहीं करी होत तो हालमां प्रथमना प्रमाणमां जे स्वल्प साहित्य पण आपणी नजर आगळ देखाय छे तेनो शतांश के सहस्रांश पण जोवाने आपणा चक्षु भागशाळी थात नहीं. ए बात निर्विवाद छे. शास्त्रमां कहेली आगमोनी *पदसंख्याना प्रमाण तरफ जोतां हालमा जे आगमो दृष्टिगोचर थाय छे तेनी पदसंख्या घणीज ओछी छे, अने तेमा पण अमुक अमुक स्थळे एक बीजा आगममा केदलीक वातो फेरफार जणाय छे. आ कारणथी केदलाक आगमोपर अविश्वास लावे छे. तेने अमे एटलुज

* आचारगमा ३६०० पद अने त्यार पछी दरेक अगमा वमणा वमणा पद कया छे. पदतुं प्रमाण पण मोट्ट छे.

फहीए छीए के आगमोमा जणाता फेरफारो तथा पृथ्वी आदिकनी वानतमा केटलाक खुलासाओ हालना समय प्रमाणे थइ शकता नथी ते मात्र आपणा असद् भाग्यने लींथि आगमोमा थएला मोटा घटाडाने तेमज आपणी अल्प समज शक्तिने आमारी छे, अने तेथी तेनापर अविश्वास न करता आपना वचनमा फेर होयज नहीं एम मानी कर्तव्य परायण थइ बाकी रहेला ज्ञाननी बने तेटली रक्षा करी तेनाथी सत्यार्थ साधवा तरफ लक्ष राखवु एज उचित छे

पूज्यवर्य देवर्दिगणि महाराजना पुस्कारूढ करविला आगमना ग्रंथोनी प्रतो पण हाल नजरे पडती नथी. एम कहेवु पडे छे, कारण के प्राचीनमा प्राचीन पुस्तक लख्यानी साल पण सबत् १००० नी अदरनी मळती नथी धारोके कागळ आटले लात्रो षखत न रही शके, पण ताडपत्रने रहेवामा बाधो देखातो नथी छता पण हाल जे ताडपत्रोनी नरुलो मळे छे ते पण ते समयनी मळती नथी जे साहित्यपर अनेक प्रकारनी आफतो पडी होय तेमा जो कांइ पाठातर देखाय अथवा अमुक धावतनो समयने अनुसरीने खुलासो न देखाय तो पण पोताना भाग्यनो दोष गणीने वाचनारे शकार्थी लाम नथी एम विचारी तत्वपर नजर करी हवे अवशेष रहेला साहित्यनी रक्षामा कटिवद्ध थवु एज उचित लागे छे अत्रे फहेवानी जरूर छे के कोन्फरन्से हनु तमाम साहित्यनो शोध पूरो कर्यो नथी तो फोइ महाशयने सबत् १२३ नी अगर ते अरसानी फोइपण प्रत उपलब्ध थाय तो ते जनसमूहनी जाण मोटे कोन्फरन्स ओफीसने लखवा कृपा करशे

आगमो मोटे आटली टुक हकीकत लखी हवे आपणे आगमनी टीकाओ तथा बीजा ग्रंथो तरफ दृष्टी फेरवीए

भगवानना निर्वाण घाद त्रण पाटसुधी केवल्य ज्ञानी भगवतो हता त्यारपडी छ थुतकेवळी थया छे त्यारपडी देवर्दिगणी महाराज सुधी पूर्वनु जान हतु परतु आवा धुरधर पूर्वाचार्योना करेला ग्रंथो पण विशेष दृष्टिगोचर थता नथी जे ग्रंथो जणाय छे तेमा श्री मद्रवाहुस्वामीना, आसिद्धसेन टीवाफरना, श्रीकाळीकाचार्यना अने एवा पांच सात आचार्योना करेला ग्रंथोज हालमा जणाय छे पण स्थूलभद्रनी अने तेमना पडी थयेला बीजा आचार्योनी वृत्ती समुद्रगी जणाती नथी आवा महान धुरधर पडित्तो अने जेमनुं शील केवळ परमार्थ करवानुज हतु तेवा महाशयो पोतानी आली जीदगीमा छती

शक्तिए एकाद ग्रंथ पण न लखे ए वनवु असभवित छे पण वन्वतो वचन देशमां पढता दुष्काळथी राज्यक्रातियोथी तथा धर्मना अगटाने लहने थता तोफानोथी आपणा अपूर्व ज्ञानीओनां वनावेला अथो आपणने मळी शकता नथी.

आ विषयमां हजु शोध करवानो घणो वाकी छे अने हालमां मळना अथोनो बचाव करी कोन्फरन्स ते तरफ पण ध्यान आपवा धारे छे प्रथम आ शोधनुं काम पूर्ण न करवानुं कारण आ प्रमाणे छे.

जनसमुहने तारवा तथा तेमने सत्यमार्ग बताववा जेमणे पोताना आयुष्यना छेडा-सुधी प्रयास करेलो अने जेमनुं ज्ञान अगाध हतुं, एवा महात्माओ प्रथो न लखे एम तो वनेज नहीं, पण ते वखते छापखाना विगेरेना अभावे लखेला अथनी एक अगरे वे प्रतो कोइ स्थळे होय अने ते अमदावादमां हालमा जेम एक भडारना गृहनो अमिथी नाश थता तेमां सैकडो कीमति अने जेनी बीजा नकल भाग्येज मळे तेवा अथोनो नाश थइ गयो तेम आवा पूर्वधर महाराजाओना वनावेला अथानो पण नाश थग्यो देवो जोइए एवुं अनुमान थाय छे. अने तेथी रहेलुं साहित्य वचावी लेवानु पहला धार्यु छे.

हालमां जे साहित्य मळ्यु छे अने मळे छे तेमां आगम शिवायना बीजा घणा अथो सवत् आठसँ पछीनी सालमां लखाएला मळे छे, अने जो अमाळ अनुमान खरुं होय तो जे साहित्य आजे काळना, राजक्रातिना अने रक्षकोना प्रमादना कारणथी नाश थतां वचेलुं छे. ते तमाम साहित्य वार आनीथी चौद आनी जेटलु संवत् ८०० पछीना सैकामां लखाएलुं जोवामा आवे छे.

बौद्धनुं पण आ समयमां पुरजोर हतुं भगवानना समकाळीन बुद्धदेवना मत धीमे धीमे पुरजोरमां आवतो जतो हतो. संप्रति महाराजाना प्रपिताए तेने आ देश अने बीजा देशमां पोतानी राज्यसत्ताने नीचे सारी रीते स्थापित कर्यो हतो, परतु आ देशमा आपणा धुरंधर पडीतो विद्यमान होवाथी आपणा धर्मने ते लोको काइ नुकशान करी शक्या नहोता. ज्ञाननी न्यूनता थता ज्ञानना धारक महात्माओ कमती थता बौवोने पण आपणा धर्मपर हल्लो करवातुं मन थयुं. आ समय संवत् ५२३ पछीनो गणवानो छे. आ समयमां शिलादित्य राजानी सभामां प्रतिज्ञापूर्वक वाद थयो वादमा एवुं ठरेलु के हरनारने देशपार कहाडवा. एमा वाधो हारवाथी तेओ देशपार थया एवो संभव छे विक्रम पछी कोईपण जैन राजा थयो होय तेवो इतिहासिक लेख जणातो नथी, अने तेथी

गुजरायमा शिलादित्य राजा ययो ते पहेलाना ग्रथोनो वखते मतना द्वेषथी वोद्धोण पण नाश कर्यो होय एम अनुमान बाधवाने कारण छे

उत्तरमाथी शकराचार्ये, दक्षिणमाथी कुमारिल भट्टे अने गुजरातमाथी मूळसूरिए बौद्धोने देशपार काढ्या त्यारपछीनु जैन साहित्य काइ काइ दृष्टिगोचर थाय छे

बौद्धोनो प्रथम विशेष जुलम होवानो समव छे कारणके तेम नहोत तो शकराचार्ये अने कुमारिल भट्टे बौद्धोनो नाम निशान पण आ देशमा रहेवा दीधु नहि, अने तेमनी राजाओ पासे फतल करावा तेम करवाने तेमने कारण मळत नहीं

शिलादित्यनी सभामा पण जेनोनो बौद्धोए प्रथम परामव करी गुजरातमाथी जैनोने हाकी कहाड्या हता आवे वखते बौधोना हाथमा जैन भडार आवे तो तेनो नाश करवा तेओ चुके नहीं एम मानवु छेक कारण विनानु नहीं गणाय

देवद्विगणी महाराज पछीवी छेक घनेश्वर सुधी शत्रुजय महात्म्यना फर्ता थया छे तेमनी बचेना ४०० वर्षोमा ते समयना फर्तानो करेलो तो एक पण प्रथ मळी आव्यो नथी आ सबधमा हमारी शोधखोळ चालु छे, अने जो कोई प्रथ मळरो तो ते अमे जाहेरमा मुक्का चुकीशु नहीं

प्रथम निराद थइ गया पछी पाठो मूळसूरिए बौद्धो साथे वाद कर्यो अने तेमने हराया, अने आ देशमा तेमनु नाम निशान पण रहेवा दीधु नहीं एक तरफवी वेदांतना आचार्य अने बीजा तरफथी जैनाचार्योए बौद्धनु जोर तोडपु, अने पोताने कृतकृत्य मानवा जेवो प्रसंग लाव्या, पण ते ज्ञानो वखत चाल्यु नहीं एक गइ अने चीनी आवी तेम आ देशमाथी एक आफत गइ अने तेने बदले मुसलमानो आयता थया तेथी प्रथो पुस्तकारूद फरी तेना रक्षणरूप महारोगा व्यवस्थित रीते प्रतो राखवानो प्रचार शरु थयो आम थवाथी पण अवशेष रहेला जाननो नाश सर्वथेव वध थयो नहीं केम के ठरी ठाम घेठाने थोडो वखत वित्यो नहीं पण्टलामा विधमना दशमा सैनामा प्यो वारीक वखत आवी लाग्यो के मुसलमान लोगो हिंदुस्तानमा आग्या तेमणे सोमनाथ छुटपु, अने देवालयोनो तथा तेमना पुस्तकोनो नाश कर्या लासो माणसोनो फनल थइ, अने करोडोनो माल हिंदुमाथी उपाढा गया आम करवानु कारण इस्लामी धर्म प्रवर्तानया जोर जुलम करयो पण हतु हिंदुओना धर्मना चिहोनो समुद्रगो विघ्नस थाय तो आ नवो धर्म प्रवर्त पण जाणी आर्य शास्त्रोनो नाश करवा लाया तेगना भयथी रक्षपार्थ

भंडारोमां राखेलु जैन साहित्य सेंकडो वर्ष सुधी बंध वारणे रहुं. तेथी परिणाम एवुं भय-
कर आव्युं के पूर्वना धुरंधर आचार्योए अपरिमित परिश्रम वेठी रचेला अद्भुत उपयोगी
ग्रंथो उद्देहीआदि जंतुओना भक्षणथी तेमज शरदी विगेरे कारणोथी नाश पामी गया.

दाखला तरीके अत्रे अमारी जाणना दुर्लभ्य तथा अनुपलब्ध ग्रंथोनी हुंकर नोंध
लेवानी अगत्यता जोइए छीए. महानिशीथ जेवा अत्युपयोगी छेद सूत्रनी टीका हालमां
क्यांय पण मळी गकती नथी. पंचकल्पना मूळनी स्थिति तेवीज जणाय छे, धरसेनाचार्य
रचित विधानुं निधान योनीप्राभृत जेनां सतावीश पीठ छे, तेनी पण जीर्णशीर्ण हालत
थवाथी नष्ट प्राय थयुं छे. हरिमद्राचार्य महाराजे रचेलं १४४४ प्रकरणोमांथी हालमा गण्या
गाठ्यांज मळी आवे छे. उमास्वाती वाचके रचेला ५०० ग्रंथो पैकी पांच ग्रंथो पण पुग
मळी आवता नथी, अने श्रीमद् हेमचंद्राचार्यकृत साडात्रण क्रौड श्लोकनो पण घणो भाग
मळतो नथी. मात्र बसो वर्ष अगाउज थएला उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराजे रचेला
सो ग्रंथो पैकी पण जूज ग्रंथो हय आवे छे. बाकी क्यां छे तेनो पत्तो पण लागतो नथी.
कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्रसूरिकृत हैमवृहन्न्यास क्यांय पण संपूर्ण स्थितिमां जोवामां
आवतो नथी. श्री हेमाचार्यना शिष्य श्रीमद् रामचंद्र सूरिए एकसो प्रबंधो रच्या हता.
तेमांना एक दशक जेटला प्रबंधो पण जोवामां आवता नथी विगेरे विगेरे. अनेक विद्वान्
आचार्योए रचेला तत्वोना ग्रंथो नाबुद थइ गया.

आवे समये ग्रंथोनी नाश अटकाववाने वाने सुखांमां जुना वखतनुं पिशाच
पेहुं ते ए के ज्यारे आपणा वडीलोए ग्रंथो प्रसिद्धिमां नहीं लावतां तेमनु उत्तम
रीति संरक्षण करवामांज श्रेय मान्युं. तो आपणे पण तेज मार्गनुं अवलवन
करनुं श्रेष्ठ छे. आवी अत्यंत खेदजनक अंधपरंपराना चकडोळामां हिंचका खातुं जैन
साहित्य वखत जतां नष्ट प्राय थजे एम जाणी हालमां राज्य कर्ती, दयाळु ब्रिटिश सरकारनी
सत्ता तळेना शांत समयमां “श्री जैन श्वेतांबर कोन्फरन्स” ना उत्पादक अने नेता
नररत्न शैठ फकीरचंद प्रेमचंद गेठ गुलाबचंदजी दड्डा एम्. ए., आदि धर्मपरायण
जैन कोमना आगेवानोए आपणा पूर्वाचार्योए अध्याग महेनते रचेला आपणा जैन साहि-
त्यना संग्रहस्थानो (भंडारो) क्यां क्यां छे अने तेमां क्या क्या ग्रंथो सुरक्षित रीति
अवशेष रखा छे. तथा ते ग्रंथो कैवी स्थिति भोगवे छे. तेनो तपास करी एक टीप
तरतमा प्रसिद्ध करवानी अत्यंत अगत्य छे एम जाणी कोन्फरन्स ओफीसना पुस्तको-
द्वार खाता तरफथी प्रसिद्ध भंडारोनी जाणवा जोग माहिती साधेनी उपयोगी टीपो करवा
माटे विद्वान पंडितोने रोकी ते कार्यने माटे मोकलवामां आव्या. तेमना प्रयासथी

पाटणना छ भडार, जैसलमेरनो भडार, लिंबडीनो भडार, तथा खमातनो भडार एम नवभडारोनी टीप तैयार करवामा आवी अने वाकीना भडारोनी टीपोनी नकलो उतरावी लीषी

आ रीते एकत्र करेली टीपो उपरथी प्रथोनी अकारादि अनुक्रमवार तारवणी करी विषयवार वर्गणी करवामा आवी छे मोटा मोटा भागो पृथक् पृथक् देखाडवा माटे तेने लिस्ट नवर आपी तेना अवयवोना अग्ररूप एक नाम आपवामा आव्यु छे

आ अग्ररूपनामो साथे चडतो लिस्ट नवर जोडवामा आव्यो छे तदनुसार तेना अग नव पाहेला होवाथी लिस्ट नवर पण नवज थया छे दरेक अगना अवयवोमा पृथक् देखाडवा माटे तेना वर्ग तथा क्लास पाडवामा आव्या छे आ अनेक वर्ग तथा क्लासयुक्त विषयोथी भरपूर लिस्ट-रूप पुस्तकनु “जैन ग्रंथवळी” एवु नाम आपवामा आव्यु छे आ पुस्तकना नवर पहेलामां आगम ग्रंथोनु लिस्ट छे आ लिस्ट आपता पृष्ठनी एक बाजुए ग्रंथनु नाम, तेनी श्लोक सख्या, ग्रंथना रचनारनु नाम तथा ते ग्रंथ विक्रमनी कइ सालमा रचायो छे ते जणायु छे अने सामेनी बाजुपर ते ग्रंथ कया भडारमा मौजुद छे ते जणाववा माटे उपर जणावेला भडारोना संक्षिप्त नाम जणाव्या छे तेमना पूरा नामनी ओळखाण माटे तथा चौकस स्थळ माटेनी वीगत आगळ आपवामा आवशे दरेक नाममा शक पडती बाबतोना विशेष सुलासा माटे जोईती फुटनोटस आपवामा आवी छे

नवर वीजामा जैन न्याय ग्रंथोनु लिस्ट छे आ लिस्टथी माईने छेवट सुधीना लिस्टोमा दाखल करेला ग्रंथोनी सपूर्ण माहितीनो एक पेजमात्र सारी रीते समावेश थतो होवाथी भडारोना नाम पण एकज पेजमा नोंध्या छे नवर त्रीजा, चौथा, पाचमामां जैन फिलोसोफीना ग्रंथोनु लिस्ट आपवामा आव्यु छे

नवर छमा जैन औपदेशिक ग्रंथोनु लिस्ट, नवर ७ मां जैन महात्म्य ग्रंथोनु लिस्ट नवर ८ मामा जैन भाषासाहित्यना ग्रंथोनु लिस्ट, अने नवर ९ मामा जैन विज्ञानना ग्रंथोनु लिस्ट आपवामा आव्यु छे

आ रीते नव लिस्टोना नव नवर पूरा थाय छे आ नव नवरोना नव लिस्टरूप ग्रंथवळी नामनु पुस्तक तैयार थयाथी आपणा महान पूर्वाचार्योप धर्मनी रक्षाना साधनरूप तात्विक ग्रंथो रची आपणा हितमाटे केटले बयो अपरिमित परिश्रम लीपो छे ते प्रत्यक्ष रीते पुरवार थयु छे

જૈન સાહિત્યને જ્ઞીલવાના ગોલીનોને આ ઁક ઁમદા માનમ સરોવર હાથ લાગ્યું છે. જૈન સાહિત્ય હાલમાં કેટલું અને ક્યા ક્યા વિધમાન છે. તેની જિજ્ઞાસાવાલા મહાગયોને આ ગ્રથાવલી વનતા લગણ ચોકસ માહિતી મેલવી આપવામાં અદ્વિતીય સાધન થયું છે. આ ગ્રથાવલીમાં માત્ર સસ્કૃત અને માગધી સાહિત્યજ દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતી લેલકો પળ જૈન ધર્મની અંદર ઘણા થયા છે, અને તેમાંના કેટલાક લેલકો તો હાલમાં ગુજરાતીના સારા ગણાતા લેલકોથી પળ વિશેષ ચડતા છે. તેઓના અલંકારમૂત ગણાતા કાદવરીની જેવા લેલ કવિતાના રૂપમાં શુદ્ધ ગુજરાતીમાં લખી ગયા છે. ગુજરાતી સાહિત્ય જો કે ૧૦૦૦ મા સવત્ પહેલાનું મલ્તું નથી તોપળ ઁક હજાર પછીનું ઘણું સાહિત્ય મલ્લે છે. આ સાહિત્યમાં સસ્કૃત કથાઓ ઁપરથી રચાણા રાસો, મગવાનની સ્તવનાઓ, સજ્ઞાઓ, અને વાલાવવોધ (માપાંતરો) નજરે પડે છે. અત્યાર સુધીમા વેપારાર્થે પુસ્તકો છપાવનારાઓ ઁવા રાસો, સ્તવનો, સ્તુતિઓ વિગેરે જુદા જુદા રૂપમાં છપાવી પ્રસિદ્ધ કરી પુસ્તક પ્રસિદ્ધિના કાર્ય સાથે ઘન મેલવવાનું પળ કાર્ય સાધ્યું છે. પળ વીજાઓ કરે છે તેમ કોઈપળ કર્તાના સમગ્ર લેલો અગર તેવા લલાળ ઁપર સારી ટીકા અગર લેલકનો ઁતિહાસ વિંગેરે આપી સારા ટાઈપથી અને સારા કાગલોથી પુસ્તક છપાવી તેને પ્રસિદ્ધ કર્યાનું દેલાતું નથી. મીમશી માળેકે છાપેલા રાસો વિંગેરે આમા અપવાદ રૂપ છે. કારળ કે તે સારા ટાઈપને સારા કાગલ ઁપર વનતા સુધી શુદ્ધ કરીને છાપેલા છે અને અત્યારે વહેલી સલ્યા હજુ તેવીજ વહાર પડેલી છે. આવા પુસ્તકો છપાવવાના કાર્ય તરફ હાલમાં શ્રી જૈનધર્મપ્રસારક સમા, વિદ્યાપ્રસારકવર્ગ, જ્ઞાન પ્રસારક મંડલી વિંગેરે ઁલોગ કરે છે. અને તે ગ્રથો માપામાં હોવાથી તેની નકલો પળ સારી સ્વપે છે. તેથી કોન્ફરન્સે તે માટે પ્રયાસ કરવાનો મુલતવી રાલ્યો છે. પળ આ ઁકાળે કલ્યા વિના ચાલતું નથી કે હાલમા જેમ શ્રી ત્રિપટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર મૂલને માપાતર સપાઈદાર કાગલ ઁપર છપાયું છે તેમ વીજા રાસો વિંગેરે પળ ઁકત્ર કરી વિવરળ સાથે ગુજરાતીના કાવ્ય ઁહનની પેટે છપાવવાની જલ્લર છે. પૂર્વોક્ત મડલીઓ ઁ ગુજરાતી સાહિત્યની જેમ વને તેમ તાકીદે શોધ અને ઁદ્ધાર કરવાનું કામ હાથમાં લેવાની જલ્લર છે. હાલમાં જેમ ઁકવાર છપાયેલા રાસો વિંગેરે પાછા ફરીને છપાયું છે તેમ ન કરતાં, જુદા જુદા મડલ-રોમા શોધ કરાવી ગુજરાતી સાહિત્યની નોંધ કરી તેમાથી જલ્લરી જે અનુકૂલ અને જેમા તલ્લનો સમાવેશ હોય તેવા ગ્રંથો પ્રથમ પ્રસિદ્ધિમાં લાવવાની જલ્લર છે. આમ કરવાથી ધર્મ અને અર્થ વને સઘાશે. ઁકતો સાહિત્યની શોધ થશે અને તેમ કરતાં કાઈ અપૂર્વ ગ્રંથો હાથ લાગ્યા તો તેનાથી દ્રવ્યપળ મેલવાશે. આ મડલોથી જુદો જુદો પ્રયાસ ન થાય તો પાઝાપ્રમાળે પૈસા આપવાની વ્યવસ્થા કરી હાલમા સંસ્કૃત પ્રાકૃતના ઁદ્ધારપર લક્ષ આપતી આ કોન્ફરન્સને ઁ કામ કરવામા મદદ આપવા કમર વાધશે ઁવી આશ્લ

છે અને તેમ કરતાં મુનિવર્ગ તરફથી પણ તેમને સહાયતા મળી શકશે ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલ સાહિત્ય અમે આ લિસ્ટમાં દાખલ કર્યું નથી તે વાદ કરતા ફક્ત સંસ્કૃત તથા માગધીમાં રચાયેલ જૈનસાહિત્ય અમારી અટકલ મુજબ લગભગ સાઠ લાખ શ્લોક જેટલુ થાય છે જો કે અત્યારે વિચમાન છે, તે પણ સઘલુ આ લીસ્ટમાં દાખલ થઈ શક્યુ નથી હજુ લગભગ આટલુજ બીજુ સાહિત્ય અમને નહીં મળેલા મહારોમાં તેમજ જુદાજુદા મુનિરાજના મહારોમાં હોવાનો સમ્ભવ છે તે સિવાય વિચ્છેદ ગણ સાહિત્ય વિગેરે તરફ જોતા જૈનસાહિત્ય ઘણુ વધેલુ હતુ અને તેની વરાવરી ફોર્સેપણ મતવાઢાણ કરી નથી તે આ પ્રયાવઢી તૈયાર થવાથી સિદ્ધ થયુ છે ઉચ્ચ શ્રેણીના તત્ત્વરુચિવાઢા દરેક સજ્જનોને આ પ્રયાવઢી ઘણી ઉપયોગમાં આવે તેવી છે

આ જૈન ગ્રંથાવઢી નામનુ પુસ્તક જૈનમાં પ્રથમજ ઉદયને પામ્યુ છે, અને કોન્પરન્સનો પણ આવુ એક ઉપયોગી પુસ્તક વહાર પાઢવામાં પ્રથમજ પ્રયાસ છે આ પુસ્તક તૈયાર થતા દરમિયાન તેની ંક એક નફલ હિંદુસ્તાનમાંના તમામ સાક્ષર મોફેસરોને મોકલવામાં આવી હતી જેમાંના દરેક મહાશયોણ સદરહુ પુસ્તક માટે પોતાના ઉચ્ચ અભિપ્રાય આપી તેના ઉપયોગી પળાની ફદર ડુઢી છે

આ રીતે જો કે આપણે આવો એક સાહિત્યનો મોમિયો (ગાર્ડ) મેઢવવામાં ફત્તેહમદ થયા છીએ તો પણ એ સાધનથી આપણુ કર્તવ્ય સમાપ્ત થયુ નથી અમે પૂર્વે જળાવી ગયા તેમ મુસલમાનોની જુલમી રાજ્યપદ્ધતિની યથાસ્થિત રીતે ક્રાતિ થતા હાલની બ્રિટિશ સરકારની ન્યાયી રાજ્યનીતિના શાત અમલમાં જ્યારે તમામ ધર્મોંઓ પોતાના ધર્મોં પુટ્ટી આપવાને માટે નાનાપ્રકારના શોધોમાં તઢ્ઢીન થઈ દિનપ્રતિદિન આગઢને આગઢ વધતાજ જાય છે ત્યારે આપણે લોકાલોક પ્રકાશક શ્રી મહાવીર સ્વામીના વશજો દિનપ્રતિદિન અધો સ્થિતિમાંજ અફઢાતા રહીએ એ કેટલુ શોચનીય ફહેવાય આપણી જાહો જલાઢીના સમયમાં આગ્ન, અમેરિકન, જર્મન, ઇટાલિયન, જપાનીઢ, આફ્રિકન આદિ મનુષ્યો જેઓ જ્ઞાન ઘસ્તુનુ મહાત્મ્ય નદિ સમજતા હોવાથી જેમને આપણે (ધારવેરીયન્સ) જગલી તરફે ઓઢઢલતા હતા તેજ આગ્ન આદિ લોફો તેમની શોધક ડુદ્ધિના વઢે ંટલા સુધારાના શિલરપર ઘઢી ડુક્યા છે કે સાયન્સઆદિ શોધોથી આપણા તત્ત્વવેઢાઓના શુદ્ધ વિચારોને પણ માન આપવા સામર્થ્યવાન થયા છે જ્ઞાનની ંદ્ધિ તથા જ્ઞાનરક્ષા તેઓ ંવી ઉત્તમ પ્રકારે સમજવા લાગ્યા છે કે પોતાના સાહિત્યની રક્ષા ફરવા ઉપરાત આપણા મહાત્મા, આચાર્યોએ રચેલા અમૂલ્ય પ્રયો જેનું હાલમાં આપણે દર્શન તો શુ પણ નામ પણ સામ ઢવાનુ ડુ શપ્થ થયુ છે તેમાં અપૂર્વ ંથો જમનીવી વિશાઢ લાયબ્રેરીમાં સુરક્ષિત રીતે

श्री ग्रंथविळीनुं कार्य अमे अमारी अल्प मति मुजव तेमां जणावेला ग्रंथनुं नाम, कर्तानुं नाम, श्लोकसंख्या तथा रचना काळना संवतनी चोकसी करवा माटे अमारार्थी बनती काळजी राखी पूर्ण लक्ष आप्युं छे. छतां भूल करवी ते मनुष्य मात्रनो स्वभाव छे. अने क्षमा करवी ए सज्जनोनुं शील छे ए उक्ती मुजव अमारा अल्प ज्ञानना योगे मतिदोष अगर प्रुफ सुधारती वेळाए दृष्टीदोषथी ग्रंथना नामनां, श्लोकसंख्यामां, कर्ताना नाममां, रचना काळमां, तथा पद्धति आदिमां जे कांइ भूल चूक थइ होय तेनी कृपापर सुज्ञो हंसनी पेटे उदार बुद्धि वापरी क्षमा करशे अने अमने लखी जणाववा तस्दी लेशे एवी अमे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करीए छीए.

विशेषमां विनंती करवानी के नीचे आपेली फुटनोटोमां अमे जे जे ग्रंथो दुर्लभ्य जणाव्या छे. ते ते ग्रंथो माटे विद्वान मुनि महाराजाओए खास लक्ष राखी शोध खोळ करी ते ग्रंथो दृष्टीगोचर थतां तेमनी हकीकत तथा अमे जणावेला ग्रंथना नाममां, श्लोकसंख्यामां, कर्ताना नाममां अगर रचना काळमां जे कांइ भूल तेमना जाणवामां आवे ते वावतनी सूचना आ कौन्फरन्स ओफीसना सेक्रेटरीपर मोकली आपवामां आवशे तो तेनो महाउपकार साथे स्वीकार करी हेरल्ड पत्र मारफत ते प्रसिद्ध करवामां आवशे. ॐ शांति:

पायधुनी मुंबई.
ता. १-३-०९

}

श्री जैन श्वेताम्बर कौन्फरन्स.

लिस्ट नं. १
जैनागम.

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्.
	अंग ११.			
१	आचारांग.			
	मूल	२५२५	सुधर्मस्वामि	
	निर्युक्ति गा. ३६२	४५०	भद्रवाहुस्वामि	
	चूर्ण	८३००		
	वृत्ति	१२०००	शीलाचार्य (शीळांक)	९३३
	दीपिका (प्र. श्रु.)		अजितदेव	
—	दीपिका	९२२५	खरतर जिनहंस	१५८२
२	सूत्रकृतांग.			
	मूल	२१००	सुधर्मस्वामि	
	निर्युक्ति गा. २०८	२६५	भद्रवाहुस्वामि	
	चूर्ण	९९००		
	वृत्ति	१२८५०	शीलाचार्य	
	दीपिका*	६६००	हर्षकुल	१५८३
—	दीपिका (सम्यक्त्व दीपिका)	१००००	साधुरंग	(Gov5)
३	स्थानांग.			
	मूल	३६००	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	१४२५०	अभयदेव	११२०
—	वृत्तिगत गाथावृत्ति	१३६०४	खर. सुमतिकल्लोल	१७०५
—	दीपिका	१०५००	नगार्पि	

* डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा पाने ४९ मा दीपिकाना कर्ता रत्नशेखर लख्या छे, अने ते प्रत

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्
४	समवायाग.			
	मूल	१६६७	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	३५७४	अभयदेव	११२०
५	भगवती.			
	मूल	१५७५२	सुधर्मस्वामि	
	चूर्णि	३११४		
	वृत्ति	१८६१६	अभयदेव	११२८
—	अवचूर्णि	२८००		
—	द्वितीयशतकवृत्ति	३७५०	मलयागिरि	
—	लघुवृत्ति	१२९२०	दानशेखर	
	बीजक	४९०	हर्षकुल	
६	ज्ञातधर्मकथा.			
	मूल	५४००	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	३८००	अभयदेव	११२०
७	उपासकदशा.*			
	मूल	८१२	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	८००	अभयदेव	
८	अंतकृद्दशा.			
	मूल	८९९	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	४००	अभयदेव	

* जेसलमेरनी वे टीपमा उपासकदशानी चूर्णि श्लोक ७५० नी ताडपर छे, अम लख्यु छे, पण ते अमारा

इतिहासिक	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	जेसलमेर	लीपडी	रधात	भावनगर	अमदावाद	अमदावाद	कोडाय	मुद्द	डकनको	रिमाक
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

धरया प्रमाण टीका होनी जेहये तो ते गान चारुग तपास करी नर्दा करती मोहये

नंवर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो सचत्
९	अनुत्तरोपपातिक.			
	मूल	१९२	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	१००	अभयदेव	
१०	प्रश्नव्याकरण.			
	मूल	१२५६	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	४६००	अभयदेव	
—	वृत्ति (वीजी)	७५००	नयविमल	
११	विपाक.			
	मूल	१२१६	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	९००	अभयदेव	
—	द्वादशांगी वृत्ति	पत्र ११७	प्रद्युम्नसूरि	De p 47*
	उपांग १२.			
१२	औपपातिक.			
	मूल	११६७	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	३१२५	अभयदेव	
१३	राजप्रश्नीय.			
	मूल	२१२०	सुधर्मस्वामि	
	वृत्ति	३७००	मलयगिरि	

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्
१४	जीवाभिगम.			
—	मूळ	४७००	सुधर्मस्वामि	
—	चूर्णि	१५००		
—	वृत्ति	१६०००	मलयगिरि	
—	लघुवृत्ति	११९२	हरिभद्र	
	”	पत्र ४३	देवसूरि	De p.62
१५	प्रज्ञापना.			
—	मूळ	७७८७	श्यामाचार्य	
—	वृत्ति	१४५००	मलयगिरि	
—	लघुवृत्ति	३७२८	हरिभद्र	
—	तृतीयपद संग्रहणी गा. १३३	१५०	अभयदेव	
—	” अवचूरि	४३०	कुलमंडन	
१६	जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति.			
—	मूळ	४४५४	सुधर्मस्वामि	
—	चूर्णि	१८७९		
—	वृत्ति (प्रमेयरत्नमंजूषा)	१८०००	शांतिचंद्र	१६५०
—	वृत्ति	१८३५२	धर्मसागर	१६३९
—	वृत्ति	१८२५२	हीरविजय	
—	वृत्ति	१३२७५	खरतर. पुण्यसागर	१६४५
—	वृत्ति	१५०००	ब्रह्मर्षि	

नं.पर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्.
१७	चंद्रप्रज्ञप्ति. मूल वृत्ति	२२०० ९५००	सुधर्मस्वामि मलयगिरि	
१८	सुर्यप्रज्ञप्ति मूल वृत्ति	२२९६ ९०००	सुधर्मस्वामि मलयगिरि	
२३	पंचोपांग. मूल वृत्ति	११०९ ७००	सुधर्मस्वामि श्रीचंद्रा	१२२८
२४	छेद ६. निर्शाथ. मूल बृहद्भाष्य भाष्य. गा. ६५२९ चूर्णि " विंशोद्देशक वृत्ति	८२१ १२००० ७५०० २८००० १६००	सुधर्मस्वामि जिनदासमहत्तर श्रीचंद्रा	

आ श्रीचंद्रसूरि ते शीलभद्रसूरि तथा धनेश्वरसूरिना शिष्य इता.

§ आ श्रीचंद्रसूरि ते मलघारि हेमचंद्रसूरिना शिष्य इता.

सूचिकांक	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	जसदमर	रायडा	सयात	भाजनगर	अमनवार	अमनवार	कोडाय	सुघर	अनरा
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

रिमात्र

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સંવત્
૨૫	નિશીથ વિંશોદેશક વૃત્તિ*	૧૦૦	પાર્શ્વદેવ	૧૧૭૩
	અવચૂર્ણિ.†		પ્રથમ્નાશિષ્ય	De p 47
	પર્યાય	પત્ર ૪૧		De.p.116
	માષ્યવિવેક.‡	પત્ર ૧૫૦	રત્નપ્રમશિષ્ય	
	વૃહત્કલ્પ			
	મુલ્લ	૪૭૩	મદ્રવાહુસ્વામિ	
	વૃહદ્માષ્ય§	૧૨૦૦૦		
	લઘુમાષ્ય	૭૬૦૦		
ચૂર્ણિ*	૧૪૭૮૦૫			

* આ વૃત્તિ વૃહદ્વિપનિકામાં નોંધેલી છે, પણ તે કોઈ મહારમાં દેખવામાં આવી નથી, તેથી હોવાથી એમ અનુમાન બધાય છે કે કદાચ વૃહદ્વિપનિકામાં તે મૂલથી નોંધાઈ હોવી જોઈએ. સિવાય સહાય કરી છે તો તે પ્રમાણે આ વ્યાખ્યામાં પણ તેમની સહાયતા સંબંધે કઈ લખેલું હશે તે પરથી

† અવચૂર્ણિ ડેક્કન કૉલેજમાં તાલપત્રપર લખેલી છે. તેના કર્તા પ્રથમ્નાસૂરિના શિષ્ય લખેલ છે પણ

‡ એના કર્તા રત્નપ્રમસૂરિશિષ્ય લખેલ છે પણ તે કોણ છે તે નક્કી કરવાનું છે.

§ ડેક્કન કૉલેજના રિપોર્ટમાં પેજ ૮૬ માં વૃહદ્માષ્યના શ્લોક ૮૬૦૦ આપેલા છે.

* ડેક્કન કૉલેજના પેજ ૪૯માં લખ્યું છે કે વૃહત્કલ્પની ચૂર્ણિના કર્તા પ્રલંબસૂરિ છે. અને માષ્ય

† આ શ્લોક સંખ્યા ઘવી રીતે છે કે શ્લો. ૧૧૭૦૦ ની સામાન્યચૂર્ણિ છે અને શ્લોક પની એક ટીપમાં શ્લો. ૧૪૭૮૦ નો આંક મલ્યો છે તે પરથી તે સંખ્યા કાયમ રાખી છે. છતાં

सुविधा	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	जलपत्र	लोडकी	खंभत	भालपत्र	अमदापत्र	अमनापत्र	कोडाय	मुपत्र	डुकानको	रिमांक
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

अे वषभे शोब वरया तथा रप्यानो ववत् वपावता ते भौचद्रसुरिकृत व्याख्यान मप्या देलाग
 श्रीचंद्रसुरिकृत मुनियुक्त चरित्रात अते तेमने वख्युं छे के पार्श्वदेव गणिए मपनी पोधी लखता तेमने
 ते नुन मद्र ही अम पग समय छे भाटे आ वावत जोष करी नही करयानी छे

ते कोण छे त तपाधी नही करयानु छे

वषा चूर्ण वभे तेमी तावववर लसेली छे कल्पानु वषत् १३३४ छे

३१०० नी विन्धवूर्ण छे तेम के लंका मेवता श्री १४८०० घाव छे अने ते मपनेवपाव
 वीपववने ए ववत थोवव करपी वीवए.

નંબર.	નામ	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સંવત્
—	હૃતિ	૪૨૦૦૦	તપાક્ષેમકીર્તિ.†	૧૩૩૨
—	લઘુટીકા.I	૧૩૧૪		
—	નિર્યુક્તિ.†	૬૨૫	મદ્રવાહુસ્વામિ	
૨૬	વ્યવહાર			
	મૂલ	૩૭૩	મદ્રવાહુસ્વામિ	
	માપ્ય ગા. ૪૬૨૨	૫૦૮૬		
	ચૂર્ણિ	૧૦૩૬૦		
	વૃત્તિ	૩૩૬૨૫	મલયગિરિ	
—	અવચૂરિ+ (લઘુવૃત્તિ)	૫૩ ૧૪૨		
૨૭	દશાશ્રુતસ્કંધ.			
	મૂલ:		મદ્રવાહુ	૮૯૦
	નિર્યુક્તિ ગા ૧૪૪	૧૮૦	મદ્રવાંહુ	
	ચૂર્ણિ	૨૨૨૫		
	વૃત્તિ	૫૧૫૦	બ્રહ્મર્ષિ.†	

† એમા આદિના શ્લોક ૪૬૦૦ મલયગિરિકૃત છે અને વાર્કીના ક્ષેમકીર્તિકૃત છે.

‡ એના કર્તા કોણ છે તે ડેલાવાલી પ્રત જોવાથી નક્કી થાય તેમ છે.

• દશ નિર્યુક્તિઓની ગાથામાં કત્પ તથા વ્યવહારની નિર્યુક્તિ ગણાવી છે, પણ તેમાંની આ દારની નિર્યુક્તિ માપ્ય મેગી હોવી જોઈએ. તે શિવાય તેની જૂદી પ્રત મળી નથી, માટે ઘોષક જનોએ

+ પાટળની ટીપમા અવચૂરિ લખેલ છે ને ડેલાની ટીપમા લઘુવૃત્તિ લખેલ છે, માટે તે એકજ શ્લોકસંસ્થા મેલવવી જરૂરની છે.

૬ કત્પસ્ત્ર એ દશાશ્રુતસ્કંધનુ આટમુ અવ્યયન છે અને તે શ્લોક ૧૨૧૬ નું ગણાય છે, તે વામા આવનાર હોવાથી તેના શ્લોક વાદ કરીને આ સૂત્રની શ્લોક સંખ્યા આપી છે.

† બ્રહ્મર્ષિ પાશ્વંચદ્રના શિષ્ય હતા અને તેણે વિક્રમ સવત્ ૧૬૦૦ ના અરસામા આ ટીકા કરી છે

वृद्धिप्रमाण	पाटण	पाटण	पाटण०	पाटण	पाटण	पाटण	जसपर	हाथडी	खात	भावनगर	अमरावती	अमरावती	कोडाप	मुंबई	इकनका	रिमाफ
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

वृद्धिप्रमाण नी नियुक्ति पत्र पाटणना पाचव्या नगरना भंडारमा तादपर लखायना मोतुद छे अने ०२व आ वृद्धिप्रमाण नी नियुक्तिनी पण कतारो करवा माते तेनी चोक्ष तपास करवांनी खास जरूर छे उ के केम ते बावतमा अमे सामान्य घोरणे एदु मा यु छ के ते एकज हस छता ते बावतमा तेना माये लदए तो आ सुप्रनी श्रेक सख्या २१०६ नी थाप ण आ लिष्टमा कतरसूत्रने जूदु सग

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्.
२८	पंचकल्प			
—	मूल. †	११३३	†	
	भाष्य गा. २५७४	३१८५	संघदास	
	चूर्णि. §	३२७५		
२९	महानिशीथ.			
	मूल. §	४५४८	मू सुधर्मस्वामि उद्धारकर्ता हरिभद्र.	

* पंचकल्पसुं मूल संवत् १६१२ सूधी मौजुद हतुं, पण हालमां ते गुम थयुं छे. एना सवधे एटलो पत्तो मल्यो छे के खवातमा गोरजी देवचंदजीना पासे जे पुस्तको छे तेमा ते प्रत पाना १० तपाश करवी जोइये छीए.

सदरहू सूत्र गुम यतां हालमां ४५ आगमनी गणतीमा तेना वदले जीतकल्प नामना सूत्रसुं

† पंचकल्पना कर्ता कोण हता ते संबधे भाष्यकारे मगलाचरणमा “वंदामि भद्रवाहुं” अेसुं पद कुलमंडनसूरिए तेना कर्ता संघदास जणाव्या छे एम सामल्युं छे. हवे वीजी रीते जोइये तो संघदास-

§ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमां पेज ६२ मां चूर्णिकार आम्रदेव लखेल छे. तो ते शा प्रमाण

§ वृहटिप्पनिकामां एनी लघुवाचना, मध्यमवाचना, अने वृहद्वाचना अेम त्रण वाचना लब्ध थाय छे.

॥ असलनी प्रत उद्देहीए बगाड्याथी तेमानो तूटतो भाग श्रीहरिभद्राचार्ये सधीने ते प्रतनो देवद्विगणिए सूत्रो पुस्तकारूढ कर्या अने विक्रम संवत् ५८५मा हरिभद्रसूरि स्वर्गवासी थया तेथी पुस्त-

सुरिष्वाण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	जसलमेर	लीयडी	खवात	भावनार	अमदाद	अमदाद	कोडाय	मुवद	डकनको	रिमार्क
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

बहु शोध करता पण अनी प्रत हाथ आवी नथी केकन कॉलेजना समहमा पण ते मली नथी पस
नी तेनी टीपमा ललेली जणाय ते तो ते त्या होषानो समथ छे, माटे सुत्ररुचि शोधक जगोए त्या

नाम गणवामा आवे छे

रख्यु छ तेथी एम अटकल थाय छे के ते भद्रबाहुत्वामिए रचेछु हरो-छता विचारामृतसमहमा
गणि तो एना भाध्यकर्ता छे, माटे ए बावत वधु तपास यवाथी नकी थाय तेम छे

उपरथी रले छे ते तपासवु जरुरु छे

अनुक्रमे श्री ३५००-४२००-४५४८ नी नोंधी छे, पण हालमा एनी गृहस्थाचमज उप-

उद्धार करेलो छे तेथी एना उद्धारकर्ता तरीके हरिमद्रसूरिन नाम नाथु छे विक्रम संवत् ५२३ मां
कारुणना समय अने हरिमद्रसूरिना स्वगवासना समयना अतरालमा आ सुत्रनी उद्धार थयो छे

सुदीक्षा	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	असंकर	रावडी	रावात	भावतार	अमदावाद	अमरावा	कोडाय	सुवई	इधनकी	रिमाक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

लइने चार मूठ गणाय छे पण अही औघानेशुक्ति, नदि तथा अनुबोगद्वारन साथ लइ गणतीनी

एम अनुमान याव छे के एनी नानो अने मोग एम मे घाचना हीवी जोइये माटे शारक जनोए ए

સંવર.	નામ.	શ્રેણી.	કર્તા	મર્યાદાનો સંવત્
	ટ્રિપ્લનક	૪૬૪૦	મલચારિ હેમચંદ્ર	
	વિશેષાવશ્યકવૃત્તિ	૨૮૦૦૦	મલચારિ હેમચંદ્ર	
	„ †	૯૦૦૦	મલચારિ	
—	જીર્ણવૃત્તિ‡	૧૪૦૦૦		
	દીપિકા	૧૧૭૦૦	માણિક્યશેખર	Dec.

* આ હેમચંદ્રમૂરિ તે પહેલા હેમચંદ્ર જાણવા તેઓ સિદ્ધરાજના સમકાલીન હતા. તેમના ગુરુના નામ બોલવાય છે.

† આ વૃત્તિ વૃહટ્ટિપ્પણિકામા નોંધાયેલી છે, પણ હજુ ઉપર નોંધેલા મંદારોમા ઉલ્લેખ થઈ નથી,

‡ આ જીર્ણવૃત્તિ પાટણમા તાદ્વપત્રપર છે પણ તે તૂટેલી દાલતમા છે, વાકી ધોટર્ષનના રિપોર્ટમા માટે તે ત્યાંથી મેલત્રી તેનો ઉદ્ધાર કરવો વટે છે.

૫ માણિક્યશેખરના નામ ધોટર્ષનના રિપોર્ટમાં નથી મળતુ પણ તેણે મૂઝ સૂત્રોપર દીપિકાઓ કરી ચિંતામાણિના કર્તા જયજેશ્વરના સત્તાનમા તે ચાલેલી છે તો આ નાણિક્યશેખર તે જાણના હોવા જોઈએ

वर्ग	पुरुष	महिला	कुल	संख्या	प्रतिशत	नोट
१	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	

टिप्पणी

अभ्युक्ति है कि १९६४ मा जीवसमाप्ति टीका रची है अने तेओ मलधारिना जन्म मा

तो गणनाकर्मोप माटे खास ध्याना राखी शोध करवी जाइये

गणनामाता तादपत्रा पुस्तकोतु रिपोर्ट आवेठ छ तेमा ते स १२०४ मा तादपत्रपर लखायली नार्थी छ

छे अेम ना रिपोर्ट परथा दस्तावे छे सेलरनी खासा अन्वयगच्छमा प्रविद्ध छे केमने उपदरा अेम अमाध अनुमान छ, छता दीरिका तैनी प्रसरित जोर काफी निगण करवी जाइये

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयाने संवत्.
	मूलावश्यकनी व्याख्याना परचूरण ग्रंथो.			
	पडाविधावश्यकसत्र वृत्ति	१५५०	नामिसाधु*	११२३
	„ (वदास्वृत्ति नास्त्री)†	२७२०	देवेंद्रमूरि	
	पडावश्यक वृत्ति(अर्थ दीपिका)	६६६४	रत्नशेखर	१४२६
—	पडावश्यक अवचूरि ‡			

एमना गुरुनु नाम शालिमूरि छे. एणे रुद्रकृत काव्यालंकारपर स. ११२५ मां टीता रची छे.

† वदास्वृत्तिने हालमा वृदारवृत्ति कहै छे पण तेनु आदिपद वदार होवाथी शुद्ध नाम वदास्वृत्ति छता पाठणनी टीपमा एकादजगे तेना कर्ता तरीके देवेंद्रमूरिनु नाम हाथ लाग्युं छे, पण देवकन कॉलेजना तेना कर्ता सोमतिलक जणाव्या छे. छता अमारा वारवा प्रमाणे एना कर्ता देवेंद्रमूरि एम कहेछुं होवाथी एने “ श्रावकानुष्ठानविधि ” एवा नामथी पण कोइ बेला ओत सूत्रव्याख्यारूप तपा श्रीदेवेंद्रसूरिकृत २७७० ’ आ परथी असलमा एनुं नाम पडावश्यक एसे एम

‡ पडावश्यकनी अवचूरि फक्त पाठणनी एक टीपमां आवेली देखाय छे, नेथी ओ अनुमान धादप्रतिक्रमणनी तिलनाचार्यकृत वृत्तिओ साथे लेखली हसे अजर तेमांथी जमुक भाग टाकी निर्णय थाय.

ક્રમ	વહાલો	પાટળ	પાટળ	પાટળ	પાટળ	પાટળ	પાટળ	જેસલ્પર	ટીવડી	સવાત	ભાવનગર	અમગઢ	અમગઢ	નોડાય	મુસઈ	હાલનકો	રિમાન
૧	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬	
	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	૨૧	૨૨	
	૨૩	૨૪	૨૫	૨૬	૨૭	૨૮	૨૯	૩૦	૩૧	૩૨	૩૩	૩૪	૩૫	૩૬	૩૭	૩૮	

૩ ઇનો કત્તા કોળ ડ ત વાવત તવાસ કરતા તેની ઘળી વરા પ્રતોમા તો ૫ ૬ ૧૧જ મલતુ નખા રિવાઈમા વેજ ૧૧૭ મા તેના કત્તા દેવકુશલસૂરિ લખ્યા છે તયા મરુચની ટીવમાં હોવા જોદયે, ઇતી આદિના કાપના ચોયા ચરણમા “ વશ્યામ્યનુગનરિધિ મુવોધા ” શ્વામા આવે છે મુસટિપ્પણિકામા એના માટે આનો ઉલ્લેખ છે “ પઠાવયક વૈષ્ણવદનાદિસવ પળ જળાપ છે અને કત્તા દેવેંદ્રસૂરિ છે ઇમ વધુ પૂજાર થાય છે શ્લોક સત્વાર્મા વહેન વેર છે

છે કે દરિવાવહી વૈષ્ણવદન અને યદનકની યનોદેવસૂરિહિત અવચૂરિ તયા સાધુપ્રતિજ્ઞમા અને આવચક ઊપર કોદિઈ અવચૂરિ જણી હોય તો તેમ પણ સમય છે માટે પુસ્તક ગોધે

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रचयानो संवत्.
	पडावश्यक विधि	२३७०	आंच० महीसागर	१४९८
	पडावश्यक लघुवृत्ति	२०००	कुलप्रभ †	
	ललित विस्तरा	१२७०	हरिभद्र	
	„ टिप्पनक	१८००	मुनिचंद्र ‡	
—	चैत्यवंदना वृत्ति	४८२	हरिभद्र	
—	„ (वालावयोधा). (जूनीगुर्जर)	७०००	खरतर तरुणप्रभ	१४११
—	चैत्यवंदना महाभाष्य गा०	९२२	शातिसूरि *	
	„ भाष्यवृत्तिः			
	चैत्यवंदना विचार (गाथातल्ल)			

* आ महीसागर उपाध्याय आंचलिक जयकेशरिसूरिना शिष्य होता.

† भेमनो रचेलो बाजो ग्रथ आराधनासत्तरी छे.

‡ मुनिचंद्रसूरि सं. ११७४ मां उपदेशपदना टीका रची छे. एमना हाये सं. ११८१ मा

¶ उत्तराध्ययन वृत्तिकर्ता थारापद्रगच्छना वादि वेताल शातिसूरि सं. १०९६ मां स्वर्गस्वामी स्वीकारिए तो पृथ्वीचंद्र चरित्रना कर्ता शातिसूरि के जेमणे ते चरित्र सं. ११६१ मां रच्यु छे ते वे शातिसूरिमांथा आ महाभाष्य कोणे कर्तु छे ते तेवा विशेष उल्लेख शिवाय जाणखु मुस्किल छे. माटे

एना माटे बृहट्टिप्पणिकामां नीचे मुजब उल्लेख छे:—“ चैत्यवंदनामहाभाष्य श्रीशांतीय

§ § ३। वे ग्रथ बृहट्टिप्पणिकामां नोंघायला छे पण त्या तेमना कर्ता तथा श्लोक संख्या नोंधेल माटे ते वास्त काह विशेष लखी शकालु नथी. चैत्यवंदनाविचारमाटे बृहट्टिप्पणिकामा आवो

सूचिकादिनांक	पाटण	पाटण	पाटण.	पाटण.	पाटण	पाटण	जेलम	रविदि.	संसात.	भायवगर	अमरातर	अमरातर	कोडिय	सुचर	हेकार	टिमांक
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

कलापकी ओपनिपुकिनी तेंडनी प्रत पाटणना मदारमा मोहुद छे

यजेल छे एम बेदेरे नोंबे करी छे तेने मांडारकर तथा पीटसने स्वीकरी छे एटले आरणे पण जुदा ठरे छे आ बीजा साठिठारे पीपलिया गच्छना स्पायक तरफे ओडलायला छे हवे ए छे वावत आ भाप्यनी सघाचार नाझी वृत्तिमा कर खुगछो होम छो ते ओबो मोहये

सूचकादिनांकपाटणदिवाण्य महामहपाणम तेतिनद गाया १२२"

नदी बर्षु दिवाणीरी ए छे के ते के प्रथ अमोने पण हुगुगल कीद टीनमा लोवाम आया नदी उज्जे छे — "सैयबदनाविचारो गायाबधेन मूत्रपायारूप",

नं०.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	ख्यात संवत्
—	चैत्यवदन कुलक		सरनर जिनदत्त	
—	„ वृत्ति	४४००	जिनकुशल	१३८३
—	„ टिप्पण	९६१	लक्ष्मिनिधान	
	भाष्यत्रय (६३-४१-४१)	१७५	देवेंद्रसूरि :	
	चैत्यवदना भाष्य वृत्ति (सवाचार नाम्नी)	१७५०	धर्मघोष §	
	„ अवचूरि	१०२७	सोमसुंदर	
	„ अवचूरि (बीजा)	४२५		Gov.
	चैत्यवदना भाष्य (गाथावद्ध)	१०८	पार्श्वचंद्र	Gov

१ आ कुलक केटली गायानु छे ते नोथायु नथी पण ते कुलकना नामे छे एटले वीस
+ लक्ष्मिनिधानगणिए टीकापर टिप्पण रचल छे माटे ते पदरमी के सोलमी सदीमां
चौकस मुदत जाणी सकाये.

२ त्रणे भाष्यनी गाथा १४५ छे तेना श्लो. १७५ नोंथा छे

३ देवेंद्रसूरि संवत् १३२६ मां स्वर्गवासी थया छे. माटे ते समयना पूर्वे आ ग्रंथ रचाये छे.

§ धर्मघोषसूरि देवेंद्रसूरिना शिष्य हता तेओ स. १३२७ मां गच्छाचार्य पदे आवेला छे,
तेमणे आ वृत्ति करेली छे तेपरथी केटलीक टीपोमा सवाचारवृत्तिना कर्ता तरिके धर्मकीर्तिनु नाम

५ सोमसुंदरसूरि सं. १४५७ थी १४९९ सूधी विद्यमान हता.

६ आ पार्श्वचंद्र ते जूना थया छे ते छे के सोलमी सदीमां थया ते छे ते ग्रंथ जोये मालम

उदाहरण	पाठन	पाठन	पाठन	पाठन	पाठन	पाठन	असलमर	खिबडा	खबानि	भावगार	अमदावाद	अमदावाद	कोडाय	मुई	लेखतकी	सिमान
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

पचीश गायानु अथना तेथी सहन वधु हसे चोकर प्रमाण टीका जोयापी मली शकरो
रख्य होशु जोइए छता ते गथमा ते वखतना कोइ आचार्यनु नाम आयु होतो ते परथा

तेओ प्यारे उपाध्याय पदे हता त्यारे तेमनु नाम धर्मकीर्ति इतु अने ते पदमा हता त्यारेज
पण आयु छे

रडे सदरहू मय देवनकॉलेजना समहमा छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	શુદ્ધિનો સંવત.
—	ચૈત્યવંદનચૂર્ણિ *	તા. ૧૭૮	સામાન્ય ?	
—	ચૈત્યવંદનચિત્રરણ	૮૪૦	રાજપ્રમ: †	૧૧૭૪
—	વૃહચૈત્યવંદન સતીક. ‡		દેવચંદ્ર	Dec.
—	ચૈત્યસાધુવંદન શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણ વૃત્તિ	૨૦૦૦	પાર્શ્વસૂરિ	૧૫૬
—	ચૈત્યવંદનાદિસ્ત્ર સાધુશ્રાદ્ધ પ્રતિક્રમણ પદપર્યાય મજરીમા	૫૦૦	અકલકકેવર †	
	દુર્ચાપાધિતી ધવચૂર્ણિ	૧૫૦		
—	ચૈત્યવંદનાવચૂર્ણિ	૮૪૦	પશોદેવ	૧૧૭૪
	વંદનકાવચૂર્ણિ	૭૨૦		
	ચૈત્યવંદનાવંદનક. પ્રત્યાસ્વાન વૃત્તિ	૫૫૦	તિલકાચાર્ય ×	
	ચૈત્યવંદનાદિવૃત્તિ (કુલપ્રદીપ) †	૨૪૫૮		

● આ પ્રત ફક્ત પાટણના એક મંદિરમાં તારવત્ર ઉપર લલાચલી દેવાય છે માટે એનો અક્ષર
આ નામ કદક અપૂર્ણ જેવું લાગે છે તેમ જ સંબંધે કદ ધૈતિહાસિક વિના નોંધાઈ નથી. પણ
† આ નામ આપતા ભૂલ કરેલી લાગે છે કેમકે સં. ૧૧૭૪માં તો મુનિચંદ્રસૂરિ ઉપદેશપદની ટીકા
છે કે જેમણે સં. ૧૨૩૬ માં ઉપદેશમાલાની ટીકા રચી છે માટે જેલમેરની ટીપ કરનારે કર્તાના
રત્ની છે તેજ જ ગ્રંથ હોયો જોઈએ.

‡ આ પ્રત ઢેકન કોલેજના લિસ્ટમા નોંધી છે તો તે સાચ નોવી જોઈએ.

§ પાટણની ટીપમા આ પ્રત કેવલ શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણ વૃત્તિના નામે નોંધેલી છે અને તેની શ્લોકપદ્યો

§ અકલકકેવરનો ઇતિહાસ મલી શક્યો નથી. દિગંધરમાં અકલક આચાર્ય યયા છે તે અને

× તિલકાચાર્યે સ. ૧૨૧૬ માં આવકલક લઘુવૃત્તિ રચી છે.

† આ વૃત્તિ વૃહદ્રિપ્તિકામાં નોંધી છે પણ કુપર નોંધાયલા મંદિરોમાં ઉપલબ્ધ થઈ નથી.

भैनागम लिस्ट.

श्रीशिष्यर्षि	पाटण.	पाटण.	पाटण.	पाटण.	पाटण.	पाटण.	त्रेसळवेर	लायडी	खवात	भावनगर	अमरावाद	अमरावाद	कोडाय	मुबई	इकनका	रिमांक
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

उदार यो घटे छे

शाहपत्रने फल होवांभी तेना कर्ता कोद्रे प्राचीन आचार्य होवां जोइए

रची छे तेमना शिष्य वादिदेवसूरि कुमारपालना वारे विद्यमान हुवां अने तेमना शिष्य ते रत्नमभ नाममां गोटी वाल्यो छे अमारा अनुमान प्रमाणे शोदेवसूरिए छ ११७४ मां भक्तचूर्णि

१२९७ आदि छे

भा अककक देव मुदा छे

नं.	नाम.	श्लोक	कृत	रचयिता नं.वत
	साधुश्राद्धप्रतिक्रमणचैत्य-			
	गुरुवंदन अवचूरि	८८०		
—	साधु प्रतिक्रमण वृत्ति	२२६	निलकाचार्य	
—	"	५४८	जिनप्रभ	१३६४
—	"	६७२	पार्श्वदेव *	
	श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र† गा. ५२	६०		
	" चूर्णि	४५०.०	विजयसिंह ‡	११८३
	" वृत्ति	१२५०	श्रीचंद्र	१२५२
	" लघुवृत्ति	२००	निलकाचार्य	
	" वृत्ति	५७७	पार्श्वसूत्रि	९५३

* पार्श्वदेवगणि सं. ११२१-थी ११९० सूची हता एवा पुरावा मले छे, एमणे सं.
छनां पाठगनी टीपमां एखुं नोंधातुं छे के यक्षदेवना सिध पार्श्वदेवे स. १५६ मां आ वृत्ति करी छे
सूत्रवृत्तिनो न एक भाग होवो जोइए एम बहु संभवे छे.

एने वंदितसूत्र पण कहे छे.

‡ आ विजयसिंह ते पीपलिया गच्छना शातिसूत्रिना सिध छे.

‡ आ वृत्ति ते पार्श्वसूत्रि प्रथम नोंधापली वे हजार श्लोकवाली वृत्तिनो ककडो छे.

जेनागम लिस्ट.

वृद्धिप्लिन	पाटण		पाटण		पाटण		पाटण		पाटण		पाटण		जसकर	लावडी	रधात	भावनगर	अमदावाद	अमदावार	कोडाय	मुंघ	डकनका	रिमार
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

११६० मा प्रायप्रवेशनी पत्रिका रचा छै तथा उरसगंहर स्तोत्रनी वृत्ति पण प्रमणे रची छै तो तेना अनुसारे पाश्र्वदेवकृत आ वृत्ति ते वृद्धिप्लिनिकामा नोंधेलो पाश्र्वकृत चैत्यसाधुवदन धायक प्रतिक्रमण

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्.
	१. भाद्रसामायिकप्रतिक्रमण सूत्रव्याख्याप्रकरण गा. २९३	३६५	जिनदेव	१३८३
	प्रतिक्रमण वृत्ति	७१८	जिनहर्ष * कुलमंडन +	१५२५ Gov. Gov.
	„ भवचूरि	१६२०		
—	प्रतिक्रमण वृत्ति †		(हुंबडगच्छीय) सिहदत्त-सूरि	
	प्रतिक्रमण क्रमविधि	९००	जयचंद्र ×	१५०६
	प्रतिक्रमण संग्रहणी § (प्रा.)	११५		Gov.
—	प्रयाख्यान स्वरूप गा. ३६०	४००	यशोदेव ¶	११८३
	„ वृत्ति ॥	५५०	„	„

* आ अंय माटे वृहट्टिप्पनिकामां नीचे मुजय चोफस नोंध छे:—

“ भाद्रसामायिकप्रतिक्रमणसूत्रव्याख्याप्रकरण ११८३ वर्षे जैनदेवं गा. २९३ ओ जिनदेवसूरि सोमलिलकसूरिना शिष्यहता तेमनो सक्षिप्त इतिहास जिनप्रभसूरिकृत तीर्थकल्पमांनानिकामां सं. ११८३ आपेक छे त्यां लिखितदोषधी तगढाना बदले एकडो लखायो लागे छे.

• आ जिनहर्षगणि तपगच्छना सोमसुंदरसूरिना शिष्य जयचंद्रसूरिनां शिष्य छे के जेमणे सं नोंध्या छे.

+ कुलमंडनसूरि संवत् १४४२ थी १४४५ सूधीमा हता.

† वृहट्टिप्पनिकामा एना माटे आ रीते उल्लेख छे:—“ प्रतिक्रमणसूत्रटीका दिगंबरी ”

× जयचंद्रसूरि ते सोमसुंदरसूरिना शिष्य हता.

§ आ अय डेकन कॉलेजमां छे, ते शिवाय बीजे मलतो नथी तो तेहुं छे तेनी तपास

¶ यशोदेवसूरिने कोई कोई जगोए यशोभद्रना नामधी पण कखेला छे, तेथी एम जणाय तेना कर्ता यशोभद्र लख्या छे.

! वृहट्टिप्पनिकामां आ वृत्ति नोंधी छे पण ते उपलब्ध यह नथी.

वृद्धिस्थिति	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	जैसलमेर	लीबडी	खवात	भावमार	अमदावा	अमदावार	कोडाय	मुम्बई	डिक्कनको	रिमाक
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

३६५ ॥ तेम छता ते गुम थाय छे माटे तेनी खास लख राखी नोच करवी जोइये कात्यायनीय वारकल्पमा आपेल छ, अने त्या तेमना माटे छ १३८३ नी नोंघ आपी छे वृद्धिस्थिति

१००२ मां विनाविस्थान विचारानुसंग्रह रचो छे सरकारी रिपोर्टमां भूलपी तेमने खरतर तरीने

करवी जोइये

उे के वखते सेओना बे नाम पण हरो दाखला तयके लीबडीना भडारमानी प्रत्याख्यान स्वरूपती प्रतमां

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्यानो संवत्.
—	प्रत्याख्यानचूर्णि	४००	(अजमेरमां छे)	
—	प्रत्याख्यानविचारणामृत गा २३७	२८०	शालिसूरि*	Gov. 5
—	प्रत्याख्यानस्थान विवरण	७००	जयचंद्र	
	पंचपरमेष्ठिविवरण † (प्राकृतगाथामय)	२५०	मतिसागर ‡	११६८
३१	दशवैकालिक.			
	मूल	७००	शय्यंभवस्वामी [§]	
	निर्युक्ति गा. ४४५	५५०	भद्रबाहुस्वामी	
	चूर्णि	७०००		
	बृहद्वृत्ति	६८५० §	हरिभद्रसूरि	
	वृत्ति	७०००	तिलकाचार्य	१३४६
	लघुवृत्ति	२६००	सुमतिसूरि †	
	लघुवृत्ति	२१००	आंच. विनयहंस	१५७२

* शालिसूरि ते कदाच शालिभद्रसूरि हरो के जे स. १२०४ मा हता.

† आ ग्रथ माटे बृहट्टिप्पनिकामा नीचे मुजव उल्लेख छे:—“ पंचपरमेष्ठिविवरण प्रा० गाथामय

‡ बृहट्टिप्पनिकाना नोधप्रमाणे ए आचार्य स. ११६८ मा हता. एटल जणाय छे, ते शिवाय

§ सुवर्मस्वामिना शिष्य जंबूस्वामि तेमना शिष्य प्रभवस्वामि अने तेमना शिष्य ते

§ बृहट्टिप्पनिकामा एतुं प्रमाण ७५५० आपेल छे ते सूत्र साथे छे एम लागे छे.

+ सुमतिसूरि वे थएला छे. एक देवभद्र तथा गुणचंद्रना गुरु अने प्रसन्नचंद्रसूरिना शिष्य अने सुमतिसूरिए ते करी छे एम लखेलं मले छे. परतु बोधकाचार्य ते कोण हता ते सबधे काइ जाणवामा

वृहद्विष्णु	पाटण	पाटण	पाटण.	पाटण	पाटण	पाटण	के सल्ले	लियाडी	एवात	भावनगर	अमदावाद	अमदावाद	कोडाय	मुर्वद	इकनका	रिमारके
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

पहलरकय ११६८ वर्षे मातिसागर गा २५० " ए ग्रय उपयोगी छता क्या पण उपलभ ययो नथी तेमना माटे वधु इतिहास मल्यो नथी

शस्यभवरवामि इता

बीजा लक्ष्मीसागरपुरिना सिध्व अने हेम निमलपुरिना पुक पण खुद दीसामां तो बीधनात्वायना सिध्व आव्यु नथी माटे आ बानत शोधक जनोए इतिहास सन्धि वधु शोध करी जोदये

नंवर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्.
—	„ अवचूरि		शांतिदेव *	
	„	१८००		
	„	१२००		
—	„ (शब्दार्थवृत्ति)	३०३३	समयसुंदर	अजमेर
	निर्युक्त्यवचूरि	पत्र ९		
	वृत्तिदीपिका	पत्र १११	माणिक्यशेखर	
३२	उत्तराध्ययन.			
	मूल	२०००	सुधर्मस्वामी	
	निर्युक्ति गा. ६०९	७००	भद्रवाहुस्वामी	
	चूर्णि	५८५०	गोवालिय महत्तर शिष्य †	
	बृहवृत्ति	१६०००	शांतिसूरि ‡	
	लघुवृत्ति	१२०००	नेमिचंद्रसूरि §	११२९
३६	वृत्ति	१४२५५	भावविजय	१६७९

* शांतिदेव ने शांतिसूरि ते एकज छे के जुदा छे ते चोक्स थवुं जोइए. अने जुदा सावित

† जो के इहा गोवालिय महत्तरना शिष्य ते कोण ते संबधे विशेष नाम आपेल नयी, पण अस्मरा छता कोइ चोक्स पुरावो मले तो वधु निर्णय थइ शके.

‡ आ शांतिसूरि ते थारापद्रगच्छीय वादिवेतालशांतिसूरि छे के जेमना माटे वेवरे एवी नांघ

§ एमनुं साधुपणामा देवेद्रनाम हतु पण तेओ सूरि थया त्त्यारे नेमिचंद्रना नामे ओल्खाया छे. सैद्धांतिक शिरोमणि तरीके पकाता हता.

संक्रियण	पाठण	पाठण	पाठण	पाठण	पाठण	पाठण	जसलमेर	लौकाडी	सुवात	भालनगर	अमरावाट	अमरावाट	कोडाय	मुंबई	डुकनको	रिमांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

यथ तो ते क्यारे हता ते पण चापयु जोदये

धारस्वाम्यां तजो जिनदास महत्तर हाय तो होय कारणके यजेता नाममा महत्तरनी अटक रहेली छे

दरी छे के तेओ संखत् १०९६ मा स्वगवाणी यथा छे

नेमने आ श्रुति उपसंख आह्वानांगणे, लघुपीरचरित्र तथा स्तानुष्ट चरित्र रच्ये छे अने तेओ

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સંવત્.
	વૃત્તિ	૧૫૦૦૦	શ્વર૦ લક્ષ્મીવલ્લભ	
	"	૧૪૦૦૦	કમલસંયમ	૧૫૪૪ Gor.
	"	૮૨૬૫	આંચ૦ કોર્ત્તિવલ્લભ	૧૫૫૨
	દીપિકા	૮૫૦૦	આંચ૦ ઉદયસાગર	૧૫૪૬
	દીપિકા*	૧૦૭૦૭		૧૬૩૭
	દીપિકા	પત્ર ૧૧૪	વિનયહંસ †	
	દીપિકા		હર્ષકુલ ‡	
	અવચૂરિ		અજિતદેવસૂરિ §	
	અવચૂરિ	૩૬૦૦	જ્ઞાનસાગર ¶	૧૪૪૧
—	અવચૂરિ	૬૧૧૬		
—	અવચૂરિ	૯૨૧૦		
	કથાઓ	૨૩૫૦	પદ્મસાગર	૧૬૫૭
	કથાઓ	૧૨૫૫	તપા પુણ્યનંદન †	

* આ દીપિકા રચાયતુ સવત્ નોધાયુ છે પણ કર્તાનું નામ મલ્યુ નથી તે મેલવવુ જોઈયે.

† આંચલિક વિનયહસે દશવૈકાલિકની લઘુવૃત્તિ અર્થાત્ દીપિકા સ. ૧૫૭૨ મા રચેલી છે.

‡ હર્ષકુલાણિણ સ. ૧૫૮૩ માં સૂત્રકૃતાગની દીપિકા રચી છે.

§ અજિતદેવસૂરિ સં. ૧૨૭૩ મા યોગવિધિ રચેલી છે તેમા તે પોતાના ગુરુનુ નામ (માનુ અવચૂરિ કોણે કરેલી છે તે ખુદ પ્રત જોવાથી માલમ પડે એમ છે.

¶ એમણે સ. ૧૪૪૦ માં આવશ્યકાવચૂરિ રચેલ છે.

† પુણ્યનંદન ક્યારે હતા તે સવત્ મલ્યો નથી, માટે પુસ્તક જોઈ તે નિર્ણય થશે.

कृष्णदेवप्राण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	जिभागम	दोवडा.	खयात.	भवनगर	अमरावाद	अमरावाद	कोडाय	मुचई	देकनको
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

रिमाक

एवम आषे हे मती बीना भजितदेवभूरि ते मुत्तियद्रुमिना पाटे मण्य हे मटे ए रेमाथी आ

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સંવત્.
૩૩	પિંડનિર્યુક્તિ.			
	મૂલ ગા. ૭૦૮	૮૩૫	મદ્રવાહુસ્વામી	
	વૃત્તિ	૪૦૦૦		
	લઘુવૃત્તિ	* ૩૧૦૦	વીરાચાર્ય †	
	વૃહદ્વૃત્તિ	૬૭૦૦	મલયગિરિ	
	અવચૂરિ	૨૮૩૨	માણિચ્ચશેખર	
૩૪	ઓઘનિર્યુક્તિ.			
	મૂલ ગા. ૧૧૬૪	૧૩૫૫	મદ્રવાહુસ્વામી	
	ભાષ્ય ગા. ૨૫૭૦	૩૦૦૦		
—	‡ ચૂર્ણિ			
	વૃત્તિ	૬૮૨૫	દ્રોણાચાર્ય ‡	
	વૃત્તિ	‡ ૭૫૦૦	મલયગિરિ	
	દીપિકા	૫૭૦૦	માણિચ્ચશેખર	

* એમા આદિના શ્લોક ૧૩૫૦ હરિમદ્ર સુરિકૃત છે. અને વાકીના વીરાચાર્યકૃત છે.

† વીરાચાર્ય માટે વૃહદ્દિષ્ણનિકામા એવો ઉલ્લેખ છે કે “ દેવાચાર્ય શિષ્ય વીરાચાર્યવા. ’” હવે છે. એમ સમયસુદરકૃત અદ્વલક્ષીની પ્રશસ્તિમા છે. જુવો રિપોર્ટ ચોથો પેજ ૬૯ માટે એ દેવાચાર્યના લિખિત દોષ થયો માનિયે તો સ. ૧૧૬૨ મા જીવાનુશાસનની વૃત્તિના કર્તા દેવસૂરિ થયા તેમના

‡ સસૂત્ર વૃત્તિના શ્લોક ૭૫૦૦ છે.

§ ચૂર્ણિ વૃહદ્દિષ્ણનિકારને પણ ઉપલબ્ધ થઈ નથી તેથી તે લાંબા વલતપર ગુમ થઈ ગયેલા છે.

†† એમણે અમયદેવસૂરિકૃત નવાંગીવૃત્તિઓ શોધી છે. માટે તે સ. ૧૧૨૦ મા હતા.

‡‡ સસૂત્ર શ્લોક સંખ્યા ૮૯૭૦ છે.

ग्रहस्थिति	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	जसभरे	लीबडी	रावात	भावनगर	अमरावत	अमरावत	कोडाय	मुयद	हुतनका	रिमाक
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

देवाचार्यनु नाम सरतर गच्छनी पहावलीमा ३६ ग पाटमा छे अने तेमना पाटे नमिचद्रूपि यएला गिप्य वीराचार्य थरा होय तो होय ते गिवाय मुहदियनिजामा जो गुदना बदले चिपयद लगनानो गुद वीरचन्द्र ह्या ते वीराचार्य ह्य तो तम वा वरते होय

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्	
३५	अवचूरि	३२००	ज्ञानसागर	७३३	
	उद्धार	१११	—		
	नंदि				
	मूल	७००	देवर्द्धिगणि †		
	चूर्णि	१५००	—		
	लघुवृत्ति	२३००	हरिसद्र		
	वृहद्वृत्ति	७७३२	मलयगिरि		
	—	लघुवृत्ति टिप्पनक § (विपमपदपर्याय)	३३००		श्रीचंद्र
	—	सर्वसिद्धांतविपमपदपर्याय	२५९५		श्रीचंद्र
	—	अवचूरि	१६०५		देव्यावसूरि ‡
३६	अनुयोगद्वार.				
	मूल	१८९९	आर्यराक्षित		

† देवर्द्धिगणि ए वीरप्रभुथी १९३ वर्षे एटलेके विक्रम सं. ५२३ मां सूत्रो पुस्तकारूढ करता

§ आ वने अथ जूदा जूदा छे के केम ते विपे विचार करता तेना कर्ता एक होवार्थी एम बीजी सख्या सरखीज थई रहे छे ते परथी ते एकज अथ होय तो पण होय माटे ए वावत वने अथना

‡ चचलवाना भंडारमा रहेली आ अवचूरिना अते तेना कर्ता देव्यावसूरि लखेल छे. पण ए देव्यावसूरि नहि पण देवसूरि होउ जोईये.

રુકવિગ્ગિ	પાટણ	પાટણ	પાટણ.	પાટણ.	પાટણ	પાટણ	જેલગર	લાવડી.	સવાત.	ભાવનગર	અમદાવાદ	અમદાવાદ	કોલ્યા	મુવદ	દેવનરી	રિમાકં
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦

મગલાચરણ થઈને આ ગિરિવટ રત્ની ભંગેલ છે

ભાગે છે કે પેઠી સ્ત્રોતરૂપા નદિના સૂત્રને સાથે ધર ટાકી હોય તો તે વાદ કરિએ તો લગભગ પેલી તથા આઘત તનારપાથી નવી નિળય માય એમ છે

આમ વિચિત્ર ભાગ છે તેથી વપતે તેમા લિખિતદોષ હોય તો શેય અને તેમ હવે તો પના કષ્ટાતુ ગમ

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्.
—	चूर्णि लघुवृत्ति बृहवृत्ति पयन्ना १०.	२२६५ ३००० ५८००	जिनदासमहत्तर हरिभद्र मलधारी हेमचंद्र	
३७	चतुःशरणः* मूल गा. ६४ वृत्ति अवचूरि	८० ८००	वीरभद्रगणि † आंच० भुवनतुंग ‡ गुणरत्न †	
३८	आतुरप्रत्याख्यान. मूल गा ८४ वृत्ति अवचूरि	१०० ४२०	आंच० भुवनतुंग गुणरत्न	
३९	भक्तपरिज्ञा. मूल गा. १७१ अवचूरि	२१५	गुणरत्न	

* एतु व्रीडुं नाम " कुशलानुवधि अध्ययन " एतु पण छे.

† आ वीरभद्र महावीर प्रसुना शिष्य हता एम तेनी टीकामां लखेछं छे तेथी आराधनापताकाना

‡ भुवनतुंगसूरि आचलिक जयशेखरसूरिना बारे हता तेमणे व्रीडो ग्रंथ सीताचरित्र नामनो रचेल छे.

† गुणरत्नसूरि सोमसुंदरसूरिना गुरुभाई हता. तेमणे पद्धर्शन समुच्चयनी टीका तथा सं. १४६६

संख्या	नाम	वर्ग	मूल्य	वर्ग	मूल्य	वर्ग	मूल्य	वर्ग	मूल्य	वर्ग	मूल्य	वर्ग	मूल्य	वर्ग	मूल्य	वर्ग	मूल्य
१	पाटण	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	पाटण	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	पाटण	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	पाटण	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	पाटण	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	पाटण	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	पाटण	७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	पाटण	८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	पाटण	९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	पाटण	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११	पाटण	११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	पाटण	१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	पाटण	१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	पाटण	१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	पाटण	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१६	पाटण	१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७	पाटण	१७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१८	पाटण	१८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	पाटण	१९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२०	पाटण	२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२१	पाटण	२१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	पाटण	२२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	पाटण	२३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२४	पाटण	२४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२५	पाटण	२५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

कक्षा वीरभद्र के जेणे ते स १०७८ मा रवी हे ते अने आ वीरभद्र वृदा हे

मा दि नारतलछुचय रचेल हे

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्.
४०	संस्तारक. मूल गा १२१ अवचूरि	१५५	गुणरत्न	
४१	तंडुलवैचारिक. मूल गा. ४०० वृत्ति	५०० पत्र ३८	विजयविमल †	
४२	चंद्रवेध्यक मूल गा. ११४	२००		
४३	देवेंद्रस्तव. मूल गा. ३०३	३७३		
४४	गणिविद्या. मूल गा.	१०५		
४५	महाप्रत्याख्यान. मूल गा. १४३	१७६		
४६	वीरस्तव. मूल गा. ४३	५०		

चतुःशरण, आतुरप्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा तथा संस्तारक ए चारे पयन्नानी अवचूरिओ मलीने

† एमणे स. १६३४ मां गच्छावार पयन्नानी वृत्ति रचेल छे.




उपसंहार.



आपणामा पिस्तालीश आगम कहेवाय छे तेना वऱले उपला लिस्टमा ४६ नम्बर थया छे, ते नम्बरे जणाववानु ए ठे के, पिस्तालीश आगमनी गणतरीमा पिंडनिर्युक्ति अथवा ओष-निर्युक्ति ए वेमार्थी गमे ते एक लईने गणाय छे, पण अमे आ लिस्टमा ते वऱे गणी छे, तेथी ए नम्बर वऱ्यो छे परंतु आपणा पिस्तालीश आगमो माहेलु एक सूत्र नामे पचकल्प आज्ञाल उपलभ्य शतु न होवार्थी ते एक सूत्र उणु पडै छे, एटले तेनी ऊणाइना वदलामा अहीं एक नम्बर वऱतो देखाय छे ते पूरो थइ रहैता आपणी पिस्तालीश आगम हाल विद्यमान होवानी मायत्ता कायम राखी शक्याय एम छे माटे आ लिस्टमा आपेला ४६ नम्बरौने ४५ सर्गकेज गणना एबी अमारी नम्र सूचना छे

आ गीते अहींगण आगना पत्रिऱ पिस्तालीश आगम तेमनी पचागी साथे हालमा जे प्रमाणे उपलभ थया छे, ते प्रमाणे नोंध्या छे

प्रसिद्धकर्त्ता



.

.

.

.

.



अवशिष्ट आगमो.

પૂવપ્રદર્શિત પિસ્તાલીશ આગમના અંતર્ભૂત રહેલા છતાં

ક્ર.સં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સમય.
૧	પર્યુપણાકલ્પ †			
	મૂળ	૧૨૧૬	મદ્રવાહુસ્વામી	
	ત્રિયુક્તિ ગા. ૬૮	૯૫	”	
	નિરુક્ત	૧૫૮*	વિનયચંદ્ર †	
	ટિપ્પન	૬૪૦	પૃથ્વીચંદ્ર †	
	સંદેહ વિપૌપધી વૃત્તિ	૩૦૪૧	જિનપ્રમ†	

૧ આ ઢગે સૂત્રો પિસ્તાલીશ આગમના પેટામાજ સમાય છે અને તે કયા કયા આગમના નામના વિશેષ સ્મરણના અર્થે રૂઢા તેમને નંવરવાર નોવવામાં આવ્યા છે.

† આ સૂત્ર દશાશ્રુતસ્કથના આઠમા અવ્યયન રૂપે છે, છતા તે અલગ લખાતુ હોવાથી વલી એ વારસે શ્લોક પ્રમાણ હોવાથી અને “ વારસામૂત્ર ” ના નામે પળ ઓલલવામા આવે છે. એ એ સૂત્ર છેદવ્રય હોવાથી પ્રથમ સમા સમક્ષ વંચાતુ ન હતુ પળ વિક્રમ સ. ૫૨૩ મા આનંદપુર સમાસમક્ષ વચાય છે.

* ઢેકન કૉલેજના રિપોર્ટમા એના શ્લોક ૪૦૦ આવ્યા છે. પળ વૃહટિપ્પનિકામા એના શ્લોક

† એમણે મલ્લિચરિત્ર નામે મહાકાવ્ય સ. ૧૨૮૬ મા રચેલ છે. તથા તેજ વર્ષમા ઉદય

† પૃથ્વીચંદ્રસાગે સદરહૂ ટિપ્પનના પ્રાતમા આ પ્રમાણે પ્રશસ્તિ આપી છે. શીલમદ્રસાગેય ધર્મવૌપ

† એમ શ્લોક ૨૪૬૮ સુધી કલ્પસૂત્રની વ્યાખ્યા છે અને ત્યારકેડે શ્લોક ૫૭૩ કલ્પસૂત્રની

हाल अलग ओळखवामा आवता दश अवशिष्ट सूत्रो १

कुठ्यापि	पारुण	पारुण	पारुण	पारुण	पारुण	पारुण	पारुण	सकरीर	लोकडी	रवात	गानगर	भ्रमशास्त्र	अभंगद	फांडाय	सुवद	सुनकी	रिमाके
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५			
छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	छे	
छे	.	.	छे	.	.	छे	छे	छे	.	छे	छे	छे	
छे	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	छे
छे	.	छे	.	.	.	छे	.	.	०	०	०	०	०	०	०	०	
छे	छे	०	०	०	०	०	०	०	०	०	छे	

पटामा समाप छे ते दरेकना नाम साथे जोडेली पूत्रनोगमा तगावसामा आवगे छता तेमना

इहा ते त्रुदु गण्यु छे एतु मूलनाम पसुपणाकल्प छे, छता हल ते कल्पसुपना नाम वधु प्रसिद्ध छे. सूत्रनी आदिमा स्थानरवली छे ते देवद्विगीणुत छ, अने वासीगा भाग मद्रनाहुरगामिस्तुन छे (वदनगर) ना भुगसेन राजानी समा तेना पुत्रना मरणनो चोक निवारना ते वचायु स्वारथी ते

१५८ आय्या छे

सिद्धत घमनिपिष्टि पण तेमा सुसारी छे

तठिप्य यगोभद्र तठिप्य दचयेनगाणि अने तेना गिप्य ते शुष्ठीचद्र.

त्रिपुष्टिनी व्वाख्याना छे.

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्यानो संवत्.
	किरणावली	४८१४	धर्मसागर	१६२८
	सुबोधिका	६०००	विनयविजय	१६९६
	कल्पकल्पलता	७७००	समयसुंदर †	
	कल्पमंजरी	६०००	रत्नसागर §	Gov
	प्रदीपिका	३३००	संघविजय	१६७४
	कल्पद्रुकलिका	४१०९	लक्ष्मीवल्लभ	Gov. ‡
	कल्पदीपिका	३५३२	पं. जयविजय	१६७७
	कल्प लघुटीका	१०००		
	अवचूरिरूपवृत्ति	२०८५	उदयसागर §	
	अवचूरिलेश †	७००	महीमेरु	

† समयसुंदर उपाध्याय विक्रमनी सतरमी सदीमा थएल छे.

§ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा पेज २७५ मा एना कर्ता सहजकारि लख्या छे, परंतु अजमेरनी

‡ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा एना श्लोक ४५०० नोख्या छे.

† आ कल्पदीपिका श्रीभावविजयजी वाचके शोधेली छे.

§ उदयसागर वे थया छे:—एक स. १५५७ मा श्रीपालकथाना रचनार लब्धसागरना गुरु रचौ छे. ह्वे आ वृत्तिकार ए त्रेमायी कया हजे ते विषे अमार धारखुं एवु छे के ते बीजा उदयसागर

† आ अवचूरिलेश सदेहविपौपधि ऊपरथी उद्धृत करेल छे.

वर्णनिका	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	पाटण	नेसलमेर	लीरडी	सवात	भानुगार	अमरावार	अमरावार	केडाप	मुर्षर	कनका	रिमार्क
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

तीसरा रत्नगार लगे ३ छे माटे एनी प्रज तपशी नही परख जोरये

तथा बीना अन्वगच्छना आगाव पण उदयगार यथा छे के नेम्णे च १८०४ मां राजसन्धानिका
 हां कारणके आ सुप्रवर दरफ मच्छयानानी पूर्नी पूर्ती टीका पर छे

नं.बर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्
	अवचूरि	२२००	—	
	कल्पांतर्वाच्य *	२५००	कुलमंडन	
	”	१८००	सोमसुंदर	
	”	१९००		
	”	१५००		
	कल्पसमर्थन	१०००		Gov
	कल्पचर्चा पत्र ३५ (प्रा.)			

* चंचलवेनना भंडारनी टीपमा रत्नशेखरकृत तथा जिनहंसकृत कल्पातर्वाच्य नोधेला छे.

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्
२	जीतकल्प ४			
	मूल गा. १०५	१३०	जितभद्रगणि	
	चूर्णि	१०००	सिद्धसेन ५	
	टिप्पणक(विपमपदव्याख्या)	११२०	श्रीचंद्र	१२२७
	वृत्ति	१८००	तिलकाचार्य	१२७३
	विवरण	५४३		
	भाष्य	३१२५		
	सार § पत्र २१		मेरुतुंग	

४ छ छेदमा पचकल्प हालमा गुम थइ जता तेना स्थले आ जीतकल्पने केटलाएक गण-
जुहु गणु छे. वाकी परमार्ये तो ते पण छेदग्रंथमाथी उद्धृत करेले होवाथी छेदग्रंथ तयिके
१ सिद्धसेन नामना पाच आचार्य नीचे प्रमाणे थया जाणवामा आव्या छे.—

१ सिद्धसेन टिवाकर ते वृद्धवादिसूरिना शिष्य हता. तेमनु वीजुं नाम कुमुदचंद्र हतु

२ सिद्धसेनगणि ते दिन्नगणिशिष्य—सिंहसरिताच्छिष्य भास्वामिना शिष्य हता अने तेमणे

३ सिद्धर्षि ते सूर्याचार्य शिष्य देलमहत्तर शिष्य दुर्गस्वामि शिष्य सद्दिसूरिना शिष्य

४ सिद्धसेनसूरि ते देवभद्रसूरिना शिष्य अने यशोदेव सूरिना गुरु हता एमणे स. ११४२

५ सिद्धसूरि ते उक्केग गच्छना देवगुप्तसूरिना शिष्य हता एमणे सं. ११९२ मा वृहत्-

ह्ये आ जांतकल्पनी चूर्णि ए पांच आचार्य माहेला कवा आचार्ये रची छे ते सवधे विचार

तो मूलकार जिनभद्रगणिनी पूर्वे थइ गया छे एटले तेमनी ते रचेली संभवी शके ज नहि-वाकी
कया आचार्ये ते रची छे ते सवधी चोकस निर्णय सदरहु चूर्णिनी प्रत नजरे जोवाथी ज
जीजा आचार्य सिद्धर्षिनी ते रचेल होवी समवित लागे छे.

§ आ सार पत्र २१ नो चचलवाईना भडारना टीपमा नोंधेल छे.

ક્રમ	પાટણ	પાટણ	પાટણ	પાટણ	પાટણ	પાટણ	જેસમ્બેર	લેંચડી	પાવાત	ખાવતાર	ખમરાવાર	ખમરાવાર	કોહાપ	મુનર	કનકો	રિમાફ
૧	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૨	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૩	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૪	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૫	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૬	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૭	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૮	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૯	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૧૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૧૧	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૧૨	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૧૩	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૧૪	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
૧૫	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	

તરીમા હ્યે છે પરુ પંચકળ્પના માધ્ય અને જૂર્ણ કાયમ દાવાથી અમે એને ત્વા નદિ ગણતા હઈ જ ગણાય તો તેમા પણ કાદ વાષા જેવુ નથી

અને તેમને સમ્મલિષ્પ તથા વલ્યાણમદિસ્ત્તવ ધોરે રચેલ છે
 તત્વાપની દીવા રચી છે
 હતા તેમા ઇ ૧૬૨ મા અપમિતમવપ્રવચ તથા અપદેગમાશ્વની વૃષ્ટિ રચી છે
 મા પ્રવચાણરોદાસની વૃષ્ટિ રચી છે
 પ્રસમાશ્વની વૃષ્ટિ રચી છે

જરતા એમ માલમ પટે છે કે પણ આચાર્ય સિદ્ધચેનરિવાકર તથા ચીત્ર આચાર્ય સિદ્ધચેનગણી શ્રીજા પ્યોષા તથા પાતના આગમમાથી ધોરણ પણ તે રચી દારી નોદણ. હ્યે ઇ પ્રમાણી પર ગહે તેમ છે તા ત્રિશાસુ અને તે પ્રત જોદ નિગય કરવાતા છે અમાય અનુમાને

संख्य.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्
३	यतिजीतकल्प *			
	मूल	५००	सोमप्रभ \$	
	वृत्ति	५७००	साधुरत्न	१४५६
४	श्राद्धजीतकल्प *			
	मूल गा. २२५	३००	तपा धर्मघोष	
	वृत्ति	२६४७	सोमतिलक †	
	अवचूरि			
	लघुश्राद्धजीतकल्प			
	मूल गा. ३० ¶	३६	तिलकाचार्य	
	वृत्ति ¶	११५	तिलकाचार्य	

* यतिजीतकल्प तथा श्राद्धजीतकल्प ए जीतकल्पसूत्रना पेठा सूत्र जेवा होवार्थी परमार्थे ते
\$ सोमप्रभसूरि स. १३१० थी १३७० सूधीना कालमा विद्यमान हता.

† सोमतिलकसूरि संवत् १३७३ मा सूरिपदे आव्या अने सं. १४२४ मां स्वर्गवासी थया
सत्तरिसयठाण नाभे प्रकरण पण एमणे ज रचेल छे.

कोढायनी दीपमां वृत्तिना कर्त्तानु नाम पण धर्मघोष आप्युं छे पण ते मूल होवी
¶ बृहत्सिद्धिपन्निकामा आ वे ग्रंथ माटे नीचेमुजव उल्लेख छे:—

“सिरिवीरजिण नमिउं—इतिश्राद्धजीतकल्पस्य सूत्रवृत्ती श्रीतिलकीये गा. ३० वृ. ११५”
संबंधे वधु शोधखोल करवानी जरूर छे.

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સવત્
૫	પાશ્ચિક સૂત્ર*			
	મૂલ	૩૦૦		
	વૃત્તિ	૨૭૦૦	યશોદેવ	૧૧૮૦
	અવચૂરિ	૭૦૦		
	ચૂર્ણિ †	૪૦૦		
	વિપમપદપર્યાય મંજરી ‡		અકલંકદેવ	
૬	ક્ષમણ સૂત્ર §			
	મૂલ	૧૫		
	અવચૂરિ			

*પાશ્ચિકસૂત્ર એ આવશ્યક સૂત્રના પેટા વિભાગનું સૂત્ર છે, કારણકે તેમા પાશ્ચિક દિવસે ગણાય છે.

† જેસલમેરની હંસવિજય મહારાજે કરાવેલી ટીપમા તાડપત્રના પહેલા વંધનમા જ પાશ્ચિક-માટે તે ચૂર્ણિ છે કે અવચૂરિ અથવા વિવરણ છે તે તપાસી નહીં કરવું જોઈયે છીએ વૃહત્તિપ્પનિકામા “ પ્ર. ર્ચાપયિકી ૧ ચૈત્યવદના ૨ વદનક ૩ ચૂર્ણય. ૧૧૭૪ વર્ષે યશોદેવકૃતા કેમ તે પણ તપાસવાનું છે.

‡ પદપર્યાયમજરી માટે વૃહત્તિપ્પનિકામા આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે “ ચૈત્યવદનાદિ સૂત્ર ૧ લાગે છે કે સાદુપ્રતિક્રમણમા પાશ્ચિકનૂત્રનો પદપર્યાયમજરી પણ અંતર્ગત આપો હશે.

§ ક્ષામણાસૂત્રને પાશ્ચિકક્ષામણાસૂત્ર પણ કહે છે અને એ સૂત્ર પાશ્ચિક સૂત્રના પ્રાતે આવતું હોવાથી તે કોઈ કોઈ ન્યલે અલગુ પણ લિખિત મલે છે. તેથી દ્રહા તેને અમે વિશેષ સ્મરણાર્થે જૂદું નોંધ્યું છે.

वृद्धिपानि	पाटण	पाटण	पाटण.	पाटण	पाटण	पाटण	जमलमेर	लौक्यडी	स्रधात	गवमगर	अमदाबाद	अमदाबाद	कोडाय	मुबई	कानका	क्रमांक
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	६
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	७
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	८
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	९
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१०
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	११
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१३
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१४
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१५

करवाना प्रतिजमणना विगत आपेली हे, अने प्रतिक्रमण ए पढान्दयक मातु शोधु आयश्यक

प्रतिक्रमणचूर्णि नाधा हे ते परधी इहा ते टाकी हे, छता ते रीता भडारीमां उपलघ थद नथो

प्र इ १५० चे ८४०, व ७२७ " ए प्रमाणे उल्लत छ तो तदतगत आ चूर्णि छे के

साधु २ आदप्रतिक्रमणदन ३ पदपयायमजयाऽकलकदयस्रीया " ए उल्लेतपरधी एम

तनी साधेज गणाय छ अन तेना अवचूरि रण पाधिक सूत्रनी अवचूरिना मात आवे हे छता

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो सवत्
७	वन्दित्तु सूत्र गा. ५४*	६५		
८	ऋषिभाषित †			
	मूल	८१५		
९	संसक्तनिर्युक्ति ‡ गा. ६४	८०	भद्रवाहुस्वामी	
१०	विशेषावश्यकसूत्र § गा. ३६२५	४०००	जिनभद्रगणि	

*- वन्दित्तुसूत्र ते श्राद्धप्रतिक्रमण होवाथी आवश्यकसूत्रनु पेदा सूत्रज छे तेना व्याख्याना ग्रथो ते नोप्या नथी. इहां फक्त ते पण एक सूत्र तरिके गणाय छे एवुं जणाववा खातर ते नवरवार

† ऋषिभाषितना पिस्तलीग अव्ययन अथवा भाषित छे. नंदिसूत्रमा चौरासी आगमना नाम हती एम दशनिर्युक्तिना नामोनी गाथा ऊपरथी जणाय छे, पण ते निर्युक्ति हाल उपलब्ध थती

‡ आ निर्युक्ति कोई सूत्रपर नथी पण अळगी रहेल छे, ते चौदपूर्वघर भद्रवाहुस्वामिनी

§ आनुं बीजु नाम महामात्र पण छे तेना व्याख्यात्रयो पूर्वे आवश्यक सूत्रना पेदांमा ते मदा-मानवामा आवे छे एवु खास जणाववा खातर तेने नवरवार आपी इहा नोधवामा आय्यु छे.

वर्ग	पाठण	पाठण	पाठण.	पाठण	पाठण	पाठण	नेसलमेर	लिवडी	लवात	भावनगर	अमदावाद	अमदावाद	कोडाप	मुंबई	कनका	रिमाक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	

पूर्व आवश्यक सूत्री व्याख्याना परचूरण अथोनी व्याख्यामा नोंधवामा आव्या छे, तेथा इहा नोंधवामा आव्यु छे

जाप्या छे त्या एतु नाम कालिक सूत्रोमा गणाव्यु छे एना ऊपर भद्रनाहुत्वामिण नियुक्ति करेली नथी आ सूत्र उत्तराध्ययनना पेगमा गणी शकाय एवी रचनावाट छे

रचेल होवायो पिढनियुक्ति तथा ओपनियुक्तिना माफक सूत्रतरके गणिये ता गणी शकाय तेम छे

भाष्यनु नोंध लेता त्या नोंध्या छे आ रचले आ ग्रथने पण आगमसुत्रना पेठामा सुत्र तरिने ज



अवशिष्ट पयत्ना.

नं.बर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो संवत्
	अवशिष्ट वीस पयन्ना.			
	—			
	वीजी गणत्रीए १० पयन्ना.			
१	अजीवकल्प गा. ४४	५५		
२	गच्छाचार गा. १३८	१७५		
	वृत्ति	५८५०	विजयधिमल*	१६३४
	अवचूरि	१५६०	वातरपि	
	अवचूरि	१६००	हर्षकुल	R. 6
	अवचूरि	४००		
३	मरणसमाधि गा. ६५६	८३७		
४	सिद्धप्राभृत‡ गा १२०	१५०		
	वृत्ति	८५०		
५	तीर्थोद्धार § गा. १२३३	१५६५		

* विजयधिमलगणि ते आनदधिमलयूरिना शिष्य हता.

डेक्कन कॉलेजना रिपोर्टमा पेज १२३ मा आ वृत्तिना कर्ता मलयगणि लखेला छे. ते भूलथी नोट टैगणे इतिहास पण जोवामा आव्यो नथी.

† मरणसमाधिने मरणविधि अथवा मरणविभक्ति पण कहेवामा आवे छे.

‡ एने प्राकृतमा सिद्धप्राहुटो कहे छे.

§ एने प्राकृतमा तिर्योगातिवन्द्यु कहे छे.

वक्रप्राणि	पाटण	पाटण	पाटण.	पाटण	पाटण	पाटण	नेसलमेर	खिवडी	खयात	भावनार	अमरवार	अमरवार	काडाय	मुद्र	विकाका	रिमांक
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

कलेला होवा जेदये फारण के त नाम कोइ देवाणे ताषामा आयु तथा तथा मर्यागीपथ

नं०.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्यमानो संवत्.
६	आराधनापताका गा. ९९३	१२००	वीरभद्र ण	१०७८
७	झीपसागर प्रज्ञप्ति गा. २२३	२८०		A. S.
८	ज्योतिष्करंडक वृत्ति (ससूत्र)	१८५० ५०००	मलयगिरि	
९	अंगविद्या	९०००		
१०	तिथिप्रकीर्णक त्रीजी गणत्रीए १० पयन्ना.			
१	पिंडविशुद्धि गा. १०३	१२५	जिनवल्लभ §	
	वृत्ति	४०००	श्रीचंद्र ‡	११८०
	लघुवृत्ति	२८००	यशोदेव	११७६
	दीपिका (लघुवृत्तिरूपा)	५५०		

ण वीरभद्र सम्बन्धी विशेष इतिहास मळ्यो नथी. परंतु संवत् मळ्यु छे. वृहद्विष्णुनिकामा

§ जिनवल्लभगणि विक्रमनी चारमी सदीना मध्यमा हता.

‡ श्रीचंद्रसरि ते मलधारि हेमचंद्रसरिना शिष्य छे. तेमणे संवत् ११९३ मा मुनिसुवतस्वामिनु चरित्र के नेमना गुह हेमचंद्रसरिनी संवत् ११६४ मा स्वहस्तलिखित पोथी पाटणमा मौजूद छे. एम किलहाने " एगसावनरुम्भे " भुलथी छपायु छे ते परथी पिटर्सनसाहिव गोथो खाथो लागे छे. आ वृत्ति माटे श्रुतिशान श्रीचंद्र ते मलधारि हेमचंद्रमूर्तिनांन शिष्य छे एम चोक्कस निर्णय याय छे.

† आ वासिष्ठा वृहद्विष्णुनिका शिष्याय उपर वतावेल् नोटिंग भंडारमा उपलब्ध थइ नथी.

वृद्धिप्राप्ति	पाठण	पाठण	पाठण,	पाठण	पाठण	पाठण	त्रैलोक्य	रिविडी	रुवात	भावना	भद्रावाद	भद्रावाद	कीर्त्या	मुद्र	सूक्त	रिमां
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

आराधनास्तानि माटे आगे उल्लेख है " आराधनास्तानि १०७८ वर्षे वीरभद्राचार्यकृता १९३३ "

रच्युंते पिठधनना पाचमा रिपोटमा मुनिसुत्रचरित्र रच्यानु धनत् १९२१ आपेल है ते भू करी है कारण
 पोष करी है रिपोटमा सतम पाने आ चरित्रनी प्रगति आवल छ त्वा " एगवाउछहरे " ना उदले
 पाठपनी एग टीपमा पाशदेवनी सहाय्यतापी आ श्रुति रची छ एम पण लग्ग छ त परपी आ

वृद्धिप्राप्तिवाना एना माटे आगे उल्लेख है " दीर्घाका एगुशक्तिपा ५५० "

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સવત્
	દીપિકા અવચૂરિ		અજિતદેવ §	૧૬૨૭
	„ અવચૂરિ	૬૦૦	શ્રીચંદ્ર U	
	વૃત્તિ (દીપિકા)	૭૦૩	ઉદયસિંહ *	૧૨૨૫
	પંજિકા †	૨૦૦		
૨	સારાવલિ ગા. ૧૧૬	૧૪૫		11 Dec.
૩	પર્યંતારાધના ગા. ૬૨		સોમસૂરિ +	Re. 5
૪	જીવધિભક્તિ ગા. ૨૫		જિનચંદ્ર	R. 5
૫	કવચ પ્રકરણ ગા. ૧૨૩		જિનચંદ્ર §	R. 5.
૬	યોનિપ્રાભૂત †	૮૦૦	ધરસેનાચાર્ય	૧૩૦

§ આ અવચૂરિ ફક્ત પાટણના એક મહારમાં જોવામા આવી છે. અને તેના કર્તા મહેશ્વર આ અવચૂરી કેટલા શ્લોકની છે તે પુસ્તક જોયે નક્કી થાય તેમ છે.

U આ કર્તાનું નામ શક પઢતું લાગે છે. અને તે સંબધી વીજે કોઈસ્થલે પુરાવો જોવામા કરેલી છે તેનો તપાસ કરી નક્કી કરવું જોઈયે.

* આ ઉદયસિંહસૂરિ તે માણિક્યચંદ્રસૂરિના શિષ્ય હતા. ઉદયસિંહસૂરિએ સંવત્ ૧૨૫૩ મા ૧૨૮૬ મા તે ટીકા પૂર્ણ કરી. ત્યાર પછી આ વૃત્તિ રચી છે.

† આ પંજિકા સંબધી ઐતિહાસિક વિના મઠી નથી.

¶ સારાવલિ પયનાને માટે ડેક્કનકૉલેજના રીપોર્ટમા પેજ ૪૯ મા એમ લખ્યું છે કે સરયાવલિ

+ સોમસૂરિ તે કોના શિષ્ય હતા તે સંબધી વિશેષ હકીગત મઠી નથી.

§ આ જિનચંદ્રસૂરિ તે જિનેશ્વરસૂરિના શિષ્ય અને નવાગામયદેવસૂરિના ગુરુ હતા. તેમણે સંવેગ-

† આ ગ્રંથ ફક્ત ડેક્કન કૉલેજમા છે તે શિવાય વીજે કોઈ ઠેકાણે ઉપલબ્ધ થતો નથી. તપાસ કરી તેની શ્લોકસંખ્યા વિગેરેનો નિર્ણય કરવો જોઈયે.

એના માટે વૃહટ્ટિપ્પનિકામા આવો ઉલ્લેખ છે. “ યોનિપ્રાભૂત વીરાત્ ૬૦૦ ધારસેન ”.

बहुभाषी	पाठ्य	पाठ्य	पाठ्य	पाठ्य	पाठ्य	जेसुमेर	लावडो	खवात	गामर	भमदाबाद	भमदाबाद	कोडाय	मुवई	कनको	रिमांक
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

मूरिना शिष्य अजितदस आपेल छै महेश्वरसरिए सवत् १६७३ मा विचाररहायन प्रकरण रच्यु छै
 आवतो नया अन ते पच जेसुमेरना महारमा छै एम हावालले गायु छै ता ते कोणे
 श्रीमभसरिए रचेल धर्मविधि उपर टीका रची छै परख ते टाफाना नास थता तमणे सवत्
 पश्चा पत्र ७५ तेर हॉटीवाड्य ता ते घु छै ते पुनक तपासी नर्मी करनु जाइए छीए.
 रगाला नामे माये प्रय रचेल छै
 जेसुमेरमा छै एम गायु छै पण त तां प्रटक छ ता से डेवलकोत्तमा पूण छै के ताँ वने

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સવત્
૭	અંગચૂલિયા §	૮૦૦		
૮	વંગચૂલિયા ८	પત્ર ૫		
૯	વૃદ્ધચતુઃશરણ ગા. ૯૦	૧૧૫	દેવેન્દ્રસૂરિ	S. K.
૧૦	જંતુપયત્રો	પત્ર ૪૫ લાઇન ૫		Dec.

§ આની શ્લોકસંખ્યા કેટલા પ્રમાણની છે તે ચોક્કસ નિર્ણય થયો નથી. કારણકે પાટણની પરતુ કોડાયની ટીપમા તેના શ્લોક ૮૦૦ ચોક્કસ આપેલા છે તે ઉપરથી તે પ્રમાણે હાં આપેલ છે.

८ વંગચૂલિયાનું સ્વરૂપ નામ તો વંગચૂલિયા છે, એનું વીજું નામ “સુયદીહુપ્પત્તિ અક્ષયણ” પણ છે. વાના મંડારમા તેના કર્તા યશોભદ્ર જણાવેલ છે. પરતુ તે સત્ત્વથી વીજો કોઈ વિશેષ પુરાવો મલ્યો નથી.

वहादरपान	पाटण	पाटण	पाटण,	पाटण	पाटण	पाटण	असलमेर	लौवडी	स वात	भावनगर	भयशावा	अमलावा	फोडाय	मुवई	कुनको	रिमांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	

एक टीपमा तेना श्लोक १७२८ आपेल छे अन र्थगर्हानी टीपमा तेना १६४८ आपेला छे
उता ए मानत चोपस कर्यानी रास नरर छे

अगचूलिया तथा घगचलिया काण रच्या छे, तेनी चाकस भादिती मग्नी नथी परतु अमदानादना चचल-

चोरासी आगमना संक्षिप्तनाम.

एकताळीस सूत्र.

अंग ११	उपाग १२	छेद ५	मूळ ५	छूटक ८
१ आचार	१ औपपातिक	१ निशीथ	१ आवश्यक	१ कल्पसूत्र
२ सूत्रकृत	२ राजप्रश्रीय	२ वृहत्कल्प	२ दशवैकालिक	२ जातकल्प
३ स्थान	३ जीवाभिगम	३ व्यवहार	३ उत्तरव्ययन	३ यतिर्जातकल्प
४ समवाय	४ प्रजापना	४ दशाश्रुत	४ नदि	४ श्राद्धजीतकल्प
५ भगवती	५ जंद्द्वीपप्रजति	५ महानिशीथ	५ अनुयोगद्वार	५ पाक्षिक
६ ज्ञात	६ चद्रप्रज्ञति	(छ छेदमानो पंच	(पिंडनिर्युक्ति तथा	६ क्षामणा
७ उपासकदशा	७ सूर्यप्रज्ञति	कल्प हाल मळतो नथी	ओघनिर्युक्तिने निर्युक्ति	७ वंदितु
८ अतद्धद	८-१२ निरयाव-		ओ साधे टाकी छे)	८ ऋषिभाषित
९ अनुत्तरोपपातिक	ल्यादि			
१० प्रश्रव्याकरण	(पचोपांग)			
११ विपाक				
श्लो० ३५३३९	श्लो. २५८३३	(श्लो. ७१०५)	(श्लो. ५४२९)	(श्लो. ३३४१)

त्रीस पयना.

पहली गणत्रीए.	वीजीगणत्रीए.	त्रीजीगणत्रीए.
१ चतुःशरण	१ अर्जावकल्प	१ पिंडनिर्युक्ति
२ आतुरप्रत्याख्यान	२ गच्छाचार	२ सारावली
३ भक्तपरिजा	३ मरणसमाधि	३ पर्यताराधना
४ सस्तारक	४ सिद्धप्राभूत	४ जीवाविभाके
५ तंदुलवैचारिक	५ तीर्थोद्धार	५ कवच
६ चंद्रवैश्विक	६ आरावनापताका	६ योनिप्राभूत
७ देवेंद्रस्तव	७ द्वीपसागरप्रजति	७ अंगचूलिया
८ गणिविद्या	८ ज्योतिष्करडक	८ वगचूलिया
९ महाप्रत्याख्यान	९ अगविद्या	९ वृद्धचतुःशरण
१० वीरस्तव	१० तिथिप्रकीर्णक	१० जवूपयन्नो
(श्लो. १९५५)	(श्लो. १५५९२)	(श्लो. २९२५) कुल २०६९२.

वार निर्युक्ति.

१ आवश्यक	४ आचाराग	६ वृहत्कल्प	९ कल्पसूत्र	१० पिंडनिर्युक्ति	(सूर्यप्रजति तथा	(कुले श्लो.
२ दशवैकालिक	५ सूत्रकृदग	७ व्यवहार		११ ओघनिर्युक्ति	ऋषिभाषितनी नि	८७३५)
३ उत्तरव्ययन		८ दशाश्रुत		१२ ससक्तनिर्युक्ति	र्युक्ति मळती नथी.	

एक महाभाष्य.

विशेषावश्यक ४००० | (श्लो. कुल ११०४७५)

सूचना.

आ शीते आपणा पिस्तालींग आगम तथा त्रीश अवशिष्ट आगम तथा नव नियुक्तिओ मळने एकदर चोराशी आगमो आपणा जैनधर्मरूप महाप्रामादना स्तरुपे विराजमान रहेला छे

ए चोराशी आगमोना सूठनी एकदर श्लोकसल्या सुमारे एक लाख दश हजार ना लगभग थाय छे तेथी ए चोराशी आगमोना उतारो लेनो होय तो दर हजारे पाच रुपिया ल्यामणी अने दश रुपिया शोधामणीना गणता कुले रुपिया १६५० खरच आवे तथा कोई दुर्लभ्य आगमनी शोध गोल माटे र ३५० वधु खरचवा योग्य गणिये तो पण कुले वे हजार रुपियानी रकममाथी आ काम पार पाडी शकय तेम छे माटे आवा काममा पोताना द्रव्यनो सदुपयोग करवा कोई पण आगमभक्त श्रद्धालु सदृहस्थ खरी संतथी वहार पडे तो थोडा खरचे मोटु काम करी शके तेम छे

अमे आशा राखिये छीये के अमारी आ नम्र सूचनाथी कोई पण महाशय जागृत थरने जाते अथवा वीजाने समजावने आ दुका खरचनु उपयोगी काम अवश्य हाथ धरी सपूर्ण करी उत्तम पुण्यनो भागीगर थरोज

विशेष सूचना.

विवाय ए स्तरुपी आगमोना टेकरुपे रहेला भाष्य-शूर्णि-श्रुति-अत्रचरि-दीपिका टिप्पण धगेरे तेमनी व्याख्याना आत्मधरो माथे गणित तो आरवा जिनप्रवचननी श्रोनसरया सुमारे चौदपदर लाखना लगभग थया जाय छे आ आरवा जिनप्रवचननो एक स्थळे समष्ट करवा माटे तेनी अतिगुद्ध एव नफल रतगवधी होय तो ऊपरना डिमाथे पदरलाख श्रोनना रुपिया साडीवाधीम हजार थाय छ आ ते माथे तेमाना दुर्लभ्य प्रथोनी शोध गोल करवा माटे जूग नूदा स्थळे माणनो मोनलानी पत्तो मेठवी प्रतो मेठवता जे खरच लाग ते माटे रुपिया सातआठ हजारानी रकम धमरिए तो

कुले खरच रुपैया त्रीश हजार लागे छे. जो आटलुं काम कोई धनाह्य शेठ अथवा गर्भश्रीमत महाशय पार पाडवा इच्छे तो ते पण कोई रीते दुष्कर के दुस्साध्य नथी कारण के आपणी जैनकोममां द्रव्य खरचनार उदार पुरुषोन्नो कशो टोदो नथी, पण तेमनुं लक्ष्य आवी वावतोपर खेचावुं जोईये.


श्री जैन श्वेतांबर कॉन्फरन्स ऑफिस,
चंपागल्ली-मुंबई, ता. १-२-०७

} मोहनलाल चुनीलाल दलाल,
आसिस्टंट सेक्रेटरी,



लीस्ट नंबर २.

—
जैन न्याय.



जैनन्याय.

नं०	नाम.	क्रमां०.	वर्ता	रज्या नो स.	क्या छे ?
	वर्ग १ लो				

	मोटा ग्रथो.				
१	अनेरातनयपताका	३५००	हरिमद्रसूरि		वृ, पा ४ स, डेकन.
	वृत्ति	८२५०	"		वृ, पा १
	टिप्पन	२०००	मुनिचन्द्र		वृ, पा ३ को
२	ओपातनादप्रवेश A	७००	हरिमद्रसूरि		वृ, पा ४-५भा अ, १, अ २
	अवचूरि	पत्र १७			अ २
३	उपादसिद्धिप्रकरण B	—	चन्द्रसेन C	१२०७	S K.

A अमदावादनी चालयना भराती दीवमा " जनघातनाप्रवेगारसूरि " एम लखु छे मेधी पण्ठे आ मयो देवा नामथा पण ओळगतामा आनजो द्दम

B आ मय पना सख छता ते दुख्य ते ते पण मयाग्य गोपितायत लड मयताप पण मदारमा छे पण ते मगर हारांत तर्पित कयता दासतभाता क व), ओ छेओ ते भडार काजो एका कौदी कायता नथी ए पनी आरुणगी पाउ छे आन मयम मंगेनी लावन पर रहेनी टुअन प्रयना मथी परेण टायव मयनी लेनी आन मयण छे

आ मय मयंन छे ता नदि तथा अरुना म को पणनमा म क मियण म २०१ मी ओर छे मूळपना अदिशरता अभाता ता छे तां अन्व छे — मयमदप्यन-
मयमुपनादप्रवेश ।

C क मयम मयुमयिता मिय द्दम देवा दीवामां मे दुख मय आ छे न म कयो छे. मयम मयुमयिता मिय द्दम देवा दीवामां मे दुख मय आ छे न म कयो छे. मयम मयुमयिता मिय द्दम देवा दीवामां मे दुख मय आ छे न म कयो छे.

નંબર	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચ્યા નો સ	ક્યાં છે ?
	વૃત્તિ	૫૦૦૦	ચંદ્રસેન	૧૨૦૭	S. II.
૪	તત્વાર્થ સૂત્ર.A	૨૨૫	ઉમાસ્વાતિવા- ચક		વૃ, મુદ્રિત.
	માપ્ય B	૨૧૪૨	"		વૃ, પા. ૩-૪ કો. મુદ્રિત
	વૃત્તિ	૧૮૨૮૨	સિદ્ધર્ષિ C		વૃ, પા. ૩-૪ લી.
	વૃત્તિ D	૧૦૮૦૦	યશોભદ્ર E		પા. ૫.
	લઘુવૃત્તિ F	૧૦૦૦૦	હરિભદ્ર G		હેક્કન રિપોર્ટ પેજ ૧૪૫
૫	તર્કમાપા	૮૦૦	યશોવિજય		પા ૪-૫ સ. Gov. 6.

A આ સૂત્રને તત્વાર્થાલિંગમ તથા મોક્ષગાદ્ય પળ કહેવામા આવે છે. એ સૂત્રો શ્વેતાકર તથા દિગવર વન્ને માન્ય કરે છે, તેથી એનાકુપર વન્ને પદ્ધોના આચાર્યોએ જુદી જુદી વ્યાખ્યા કરી છે. આ કારણથી આ જગોએ એની શ્વેતાવરાચાર્યકૃત વ્યાખ્યાઓ નોંધી છે અને આના ચોથા વર્ગમાં દિગવરકૃત વ્યાખ્યાઓ નોવવામા આવશે.

B આ માપ્યનાં કર્તા ઉમાસ્વાતિવાચક પેતેજ છે એમ એની ટીકાના આગ્રહનું અવલોકન કરતા જણાય છે. પાટળની એક ટીપમા તત્વાર્થની નાગરવાચકકૃત એક વૃત્તિ શ્લો. ૨૮૯૦ ની નોંધી છે, પણ તે અમારા અનુમાન પ્રમાણે માપ્યજ હોવું જોઈએ. કારણ કે માપ્યની પ્રાને તે નાગરવાચકે રચ્યું છે એમ લખ્યું છે અને નાગરવાચક તે હુદ્દ ઉમાસ્વાતિનુ વીજુ નામજ છે આ વાવતની સ્વાતરી કરવી હોય તેણે પીટર્સનના ત્રીજા રિપોર્ટમા પેજ ૮૩ થી ૮૪ મા નોંધેલો તત્વાર્થ-વૃત્તિનો પ્રાતનો ઉલ્લેખ વાચી જોવો.

C આ સિદ્ધર્ષિ તે દિગ્ગણિગિપ્ય સિદ્ધમૂરિ તચ્છિપ્પ માસ્વામિના શિષ્ય છે.

D આ વૃત્તિ ફક્ત પાટળની પાંચમી ટીપમા નોંધાઈ છે એટલે તે દુર્લભ્ય જેવી છે.

E આ યશોભદ્રસરિ તે યર્મવોપસૂરિના શિષ્ય હોવા જોઈએ એમ અમારુ ધારવું છે, અને પીટર્સનના પેલા રિપોર્ટના ૭૬ મા પેજમાં પ્રત્યાખ્યાનસ્વરુપ નામના ગ્રંથની પ્રાતગાથામા સં. ૧૧૮૨ મા તે ગ્રંથ યશોભદ્રસૂરિએ રચ્યો છે એમ જણાવ્યું છે તે યશોભદ્ર તે આજ યશોભદ્ર છે એમ અમારું અનુમાન છે પણ ચોક્કસ નિર્ણય પુસ્તક જોયાથીજ થઈ શકે તેમ છે.

F આ લઘુવૃત્તિ ફક્ત હેક્કન કૉલેજમા મળી આવી છે અને તે હેક્કન કૉલેજના રિપોર્ટમા પેજ ૧૪૫ મા નવર ૩૬૯ મા નોંધેલ છે. માટે એ ગ્રંથની પણ નકલ ઉતારવાની સાસ જરૂર છે.

G આ હરિભદ્રસૂરિ તે પહેલા હરિભદ્રસૂરિ છે કે ત્રીજા હરિભદ્રસૂરિ છે તે નક્કી કરવાની સાસ અગત્ય છે.

क्र.सं.	नाम	शुक्र	कर्त्ता	रचयिता नाम	क्या है ?
६	द्रव्यानुयोगचारया 'A'	पत्र ४५	भोजनपद्धति B		अ १
७	द्रव्यालंकारतक C	४००	प रामचन्द्र गुणचन्द्र D		घृ
८	नयचक्रनाल L		महावादि F		अ १

A आ ग्रथ अमदावादन टलना मन्तरा टापमा नौधायले छे माटे ते दुर्लभ्य होवाथी तेनी नफल करायी लेगानी छात चरर छे

B भोजनपद्धति श्रवार छ के दिगवर छे तेमज ते क्यारे रचेल छे ते वगेरे हनित ग्रथ चावाथा मालम पडे तेम छे

C आ ग्रथ वृहद्विष्णुनिनामा गार्थ छे छता ते हनु सुधी अमने उपग्रथ यथे नथी ग्रथना नामपरधान त वृद्धु उपथेनी अने सरत हने एम न्णाय छ माटे एना ग्रथनो विगय वथा मल्लवाना रास जन्धीयात छे

D प रामचन्द्र ते अमार अनुमानग्रमणे हेमाचरना गिप्य रामचन्द्रगणि होना जोहये केमके तेमना रचेल जैनानर ग्रथोमा तेमज प ना हल्लबाबयान पोतान ओठगाने छे तेथी वृहद्विष्णुनिनामारे ता इल सोये भाळग्याया छे आ तेमना साथ गुणचन्द्र नाम छ त गुणचन्द्रनामना पे आचाय यथा छ तेमना बीजा होना गेह्य पदेल गुणचन्द्रगिरि स ११२९ मा प्राहुन दीरचरित रचेल छ, एते ते ती हेमाचरनी पूरे यह मवा छ पण बीजा गुणचन्द्रगिरि के जेणे हेमचिभनकर दीजा रनी छे ते आ गुणचन्द्र छ जो ते रामचन्द्रगिना वनाता होवाथा वन्ने हेमाचरना गिप्य होय ता पण होय, छता तेवय गिप्य ग्रथ चावाथी यह एक

E एतत्प्रमाणे दुष्टमा उपरचना गामे पण आग्रसमा आने छे वता गर विमल पोताथी ता "दादगार" एता गर आरनाल्लु एषु विनेण पण असाय छे ए ग्रथनु मूळ वटणा श्रावणु एते तागशाग गथा आयु गणे पे वीर विदार सुगिहवाचना फल ते ग्रथ होय तमने त हनित अण अणय जषारवा वृथा करनी एनी तेमने गम विनी करवामा आने छ

F महावादि आतां दीरनिनामी ८८४ वने एते के विमल स ४१४ मा पत्रगिप्य एषु छे एय प्रमारत परिधना कतेछु छे एनी गौध धर्यतता होना एषायाग ३ गिप्यता मय भागमा पत्र ईतात छ महावादिण सगिप्युतर दीजा रनी १ एत वृहद्विष्णुनिनाम उ म ८ एत व दीजा हा उपर गणि तथा एना बीजातर भोजनपद्धति एता दु एतर पण एता एत छ गिप्य री छ जा महावादि आतां एत ताग वा वनी एता एता एता विना एता उ अि वी एथी ते ता ताग एत एत एत गी एता १ ४७ ७

नं०	नाम	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यो नो सं	क्यां छे ?
	वृत्ति A	१८०००	सिद्धपिं		वृ. पा. ली. को. मुं.
	नयचक्र B		देवचंद्र C		मुद्रित.
९	नयरहस्य	५९१	यशोविजय		पा. ५.
१०	न्यायप्रवेशकसूत्र.	१०८	हरिसिद्ध		वृ. पा. ४.
	वृत्ति	८८७	"		वृ. पा. २५.
	टिप्पण D		श्रीचंद्र	१९६८	वृ.

A नयचक्रना टीकाकार कोण छे ते तेनी लॉवडीना भंडारमा रहेली प्रतमा जणाववामां आव्यु नथी तेमज वृहत्टिप्पनिकाकारे पण तेना कर्त्तानुं नाम आप्यु नथी. छता पाटणनी टीपमाथी एवी नॉव मळे छे के तेना कर्त्ता सिद्धपिं छे. तो आ सिद्धपिं पूर्वे जीन-कल्पगुप्तनी फुटनोटमा जणवेल्ल पांच निदसेन नामना उरिओमाथी क्या सिद्धपिं छे ते शोधवानी जरर छे तेमाटे विद्वान् सुनिमहाशयोने विनिति करवामा अवि छे के तेमना पण्ठे जो सदरहु टीका मौजुद होय तो तेना अतमा तेना कर्त्ता माटे जे कर्त्त प्रशस्ति लेख होय तेनी नकल कान्फरन्स ऊपर मोकलाशी आपवा महेरवानी करवी.

B आ नयचक्र प्रकरणरत्नाकरना भाग पेलामा छपायलु छे, अने ते सूत्ररूपे नहि पण विस्तारित गद्यमा गुजराती भाषामा रचायलु छे.

C आ देवचंद्र ते खरतरगच्छना देवचंद्रजी महाराज छे के जेमणे चौविगी रची छे. ते ओ विक्रमनी अद्वारमी सदीनी आखरमा विद्यमान हता एउ सुभळवामां आव्यु छे.

D आ टिप्पण फकत वृहत्टिप्पनिकामां नोवायलु देखाय छे, वीजे स्यळे उपलब्ध थयु नथी. वृहत् टिप्पनिकामा तेनामाटे आबो उल्लेख छे:—

“ न्यायप्रवेशकटिप्पण ११६८ वंश श्रीचंद्रीय ” श्लोकसंख्या कई आपी नथी. माटे आ ग्रथ पण जे कोई सुनिमहाशयना जाणवामा के जोवामा आव्यो होय तो जेमणे ते विषे अमने माहिती आपवी तथा तेनी श्लोकसंख्या सूचववी.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	पञ्जिका A	१७००	पाश्वदेव	११६९	S L. जे
११	न्यायालोक	१२००	यशोविजय		पा, ४ डेका
१२	न्यायावतार	९२	सिद्धसेन B		वृ, पा, १-२
	वृत्ति	१९००	हरिमद्र		वृ, पा, १, २.
	वृत्ति (विजी) C		सिद्धव्याख्या निर D		वृ,
	टिप्पण	९५३	देवभद्रमलधारि E		पा, १.-४ -५,
१३	न्यायसङ्खाद्य	५५००	यशोविजय	१५१५	अ २ S K मुद्रित
१४	न्यायामृततरंगिणी		यशोविजय		प आणदसागरजी

A पञ्जिकानी प्रत रसाता शातिनायना महारमा छे एम पांसनना रिपोर्टमा ते महास्त्री नोंध आपेल छे तेमा देग्नायछे, तथा तेना आद्यतौ उल्लेख पेल रिपोर्टमा पेच ८१ मान १२३ म् जावल छे जेसलमेरना द्वियलालकृत तथा इसविजयनीकृत टापमा ए पञ्जिकानी नोंध छे

B आ सिद्धसेन ते सिद्धसेनदिवानर होवा जोइये एम अमाल अनुमान छे वृहत्तिट्पिनिकामा एनामाटे जावो उल्लेख छे —

“ न्यायावतारसून सिद्धसनयि तद्विचिहारिभद्री सू ३२ वृ २०७३ ”

ए उल्लेखमा तेना मूठना श्लो ३२ ररया छे, पण पाठणना टापमा तेना श्लो ९२ आपेल छे तेप्रमाण अमे इहा तेना ९२ श्लो नोंध्या छे

C आ वृत्ति वृहत्तिट्पिनिकामा तेना कत्ताना नामगथे नोंधा छे पण तेना श्लोकाख्या तेमा नोंधी तथा, तेम एनी प्रत हतुलगण अमार जोवामा जावा नथी मोटे तनी श्लोकख्या आनी नथी

D आ सिद्धव्याख्यानिर ते स ९६२ मां उपमितभवप्रपञ्चना रानार तथा उपदेगनास्त्री टीकाका करनार सिद्धि छे फन्ने उपदेशमागसर वीणी टीका रचनार रत्नप्रमथरए, तमन “ व्याख्या-नृतूदासीन ” एतु विगेषण आपेल छे तुमो रिपोर्ट ३ पेच १६८

E मन्धार देवभद्रवरि ते मलधारि हेमचन्द्रगौरविष्य श्रीचन्द्रगौरिना गिष्य हए तेमणे श्रीचन्द्रगौरकृत मनुसमरणीनी टीका रची छे ते ॥ तेरमी सरागी गदभागमा थवा होवा जोइय

नं०	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्यो ना स	क्यां छे ?
१५	पंचविमर्श A	पत्र १९	उदयप्रभ B		डेकन रि. पेज ४१०
१६	प्रमाणग्रथ C	पत्र १०८	गुणरत्न D		डेकन.
१७	प्रमाणप्रमेयन्याय E	ताडपत्र २२४			जेसलमेर.
१८	प्रमाणमीमांसा F		हेमाचार्य		वृ. जे.
	वृत्ति	२५००	,,		वृ जे पा. ५ डेकन.

A पंचविमर्श ए नाममा वच्चे हेतुपदनो अव्याहार करीए तो एनु श्रीजु नाम पंचहेतुविमर्श एनु यह शके ए ग्रथ पण दुर्लभ्य जेवो लागे छे. माटे अवध्य उतारवा योग्य छे.

B उदयप्रभसूरि वे थया छे. एक द्वितीय हरिभद्रसूरिना शिष्य विजयसेनसूरिना शिष्य हता. तेमणे वस्तुपालमत्रिनी हकीकतनु सधपतिचरित्र अथवा धर्माभ्युदय महाकाव्य रचेल छे. वळी तेमना नामनो एक शिळालेख सवत् १२८७ मा कोतरेलो मळी आव्यो छे. एम विल्सन साहेबे एशियाटिक रीसर्चिसना १६ मा अकमा पेज ३०९ मा नोंव करी छे. बीजा उदयप्रभसूरि रविप्रभसूरिना शिष्य अने महिपेणसूरिना गुरु हता. तेमणे प्रवचनसारोद्धारना विपमपद-र्याय रचेल छे ए बीजा उदयप्रभ पण चौदमी सदीनी शुरुआतमा थएला होवा जोईए केमने तेमना शिष्य महिपेणसूरिए स. १३४९ मा स्वाद्वादमंजरी रची छे.

हवे आ पंचविमर्श कया उदयप्रभे रचेल छे ते सवधे अमार अनुमान ए छे के ते महिपेण-सूरिना गुरु बीजा उदयप्रभ होवा जोईए. छता चोकस पुरवारी माटे ग्रथ जोवानी जरूर छे.

C आ नाम अपूर्ण लागे छे. छता ए पण दुर्लभ्य ग्रथ छे माटे एमा शु हकीकत छे ते जाणवा माटे तेनो उतारो लेवानी खास जरूर छे

D गुणरत्नसूरि देवमुदरसूरिना शिष्य हता. तेमणे सं. १४६६ मा क्रियारत्नसमुच्चय रचेल छे. तथा पडदर्शनसमुच्चयनी टीका पण तेमणे रचेली छे.

E आ ग्रथनु नाम पण विचित्र लागे छे. छता ते जेसलमेरनी वच्चे टीपमा तेज नामे नोंधेल छे, ते साथे तेना कर्त्तानु नाम के श्लोकसख्या आपी नथी. तेथी ते संवधे बीजो कशो खुलसो मळ्यो नथी. पण ए अपूर्व ग्रथ होवायी एनी पण नकल उतारवानी खास जरूर छे.

F प्रमाणमीमांसानु मूल केटला श्लोकनु छे ते माटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे. ए ग्रथ तेनी टीका सहित पंन्यासजी श्रीनेमिविजयजी महाराज पासे पण छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कृत्ता	रच्यतास	पृथा छ ?
१०	प्रमाणसमग्र A	७१२			वृ
२०	प्रमाणसुदर B	८०४	पद्मसुदर C		पा ४, अ २
३१	प्रमालक्ष्यालक्षण D	३३००	सुदिसागर F		पा ५ जेसलमेर
२३	प्रमेयस्तवोद्य	१६८०	चंद्रप्रभा F		वृ पा १-४-१-१०.१

A आ प्रथम नाम पण वृत्तविषयविशामापी मय्यु छ एतामटे त्या आता उद्येय छे —

“ प्रमाणसमग्र प्रकरण १ प्रस्ताव पैग ७१२ ”

आ उद्येयवर्गी देखय छ के जा प्रथ पण पनी सलग होये जोरये तो आता अपूर प्रथ माटे निरुप गोप शोच परवा आता मुनिमठळन म्हाप विनवि पत्रगा आये छ

B आ प्रथ जैतवापनो छे के परातता नापपर जैहान व्यागना प्रथ छ ए सप्रथ गिणव ते प्रथ गोवाया पर गयो

C पद्मसुदरगणि तागपुरीय तागाठमा बएल छे तेथो स १६१२ थी १६६१ सूपी अठवली गभासा निवगत रद्वन ल वेमना मला बीन प्रथ आपगा छ तेथो छ १६१५ मा सपमान-सुदर महापद्य मल छे तथा स १६२५ मा पाप तापताय रीर छे तथा प्रकृतभातामा गोला त्रिकुणभिरुयात रीर छ, एम पियताता घोषा विगतमा वेमता ताग कये नोप करी छ

D आ प्रथ पण सलग उताया दोम छ ते वेमने री पत्र टंयमा तेंबदु छ

E सुदिसागरगणि ततवशविचार अभिप्रेतकी गुद वि तारयाम्ना सतागत हग एकी सुदिसागर व्यागना विक्रम छ १०८० मा रीर छ

F च प्रथम ५ एता छे एक प्रमाणसुदर विषय जो पनेकगणिता गुद प्रमाणसुदर छे म उपरान्त वि प्रथमि वेगवगी तागत छे अन बीन सन्निहति वि प्रथमसुदर एता छ के एकी स १९८० मा प्रमाणसुदरि स्पष्टना करी । बीन पत्र सुदिसागर सुदिसागर एता छे । प्रथम नशा कता स प्रमाणसुदर एता छे । प्रथम प्रथम एता छे । प्रथम प्रथम एता छे ।

ક્રમ	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૨૩	યુક્તિપ્રકાશ A	૩૦૦	પદ્મસાગર B		પા. ૫
૨૪	યુક્તિપ્રવોધ C		મેઘવિજય D		ટેકન
	વૃત્તિ	૫૦૦૦	"		ટેકન.
૨૫	સ્ત્નાકરાવતારિકા E	૫૦૦૦	સ્તનપ્રભ F		૪ સુલભ્ય
	ટિપ્પન		રાજશેખર G		પા. ૧
	"	૨૧૦૪	જ્ઞાનચંદ્ર H		પા. ૧
	આઘ્યશ્લોકશતાર્થ	પૃ ૩૧			અ. ૧

A આ ગ્રંથ એના નામપરથી તો ન્યાયનો હજો એમ લાગે છે, છતાં વસ્તુ ચર્ચાગ્રંથ હોય તો પણ હોય તે માટે તે ગ્રંથ કોઈ મુનિમહાશય પાસે હોય તો તેમણે તેમાં શી રચીકત છે તે જણાવવા અમારી નમ્ર વિનંતિ છે.

B પદ્મસાગરગણિ તે ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયના શિષ્ય હતા. તેમણે સં. ૧૬૩૩ માં નવપ્રકાશ તથા તેની વૃત્તિ રચી છે.

C આ ગ્રંથ પણ તેની ટીકાસાથે સાસ ઉતારવા યોગ્ય છે.

D મેઘવિજયજી ઉપાધ્યાયે સ. ૧૭૫૭ માં હૈમશબ્દાનુશાસનપર ચંદ્રપ્રભા નામની ટીકા રચેલી છે.

E સ્ત્નાકર એટલે સ્યાદ્વાદસ્ત્નાકર તેમાં પ્રવેશ કરવા માટે અવતરણ કરાવનાર તે સ્ત્નાકરાવતારિકા એમ એના નામનો અર્થ છે.

F સ્તનપ્રભસૂરિ તે વાદિદેવસૂરિના શિષ્ય હતા. એમણે સ. ૧૨૩૮ માં ઉપદેશમાલ્લાની દોષટ્ટી નામની ટીકા રચી છે.

G રાજશેખરસૂરિ મલધારિ ગચ્છના હતા. અને તે સં. ૧૪૦૫ માં હતા. એમ ગુહ્યે નોંધ કરી છે. એમ પીટર્સનના ચોથા રિપોર્ટમાં જણાવેલ છે. એમણે ચૌવીશ પ્રવંધ તથા કથાના ચોરાશી ગ્રંથ રચેલ છે.

H જ્ઞાનચંદ્રગણિ ક્યારે હતા તે માટે કંઈ ઇતિહાસ મળ્યો નથી તેથી આ ટિપ્પનના અંતે રહેલ પ્રશસ્તિ લેખ જોવાથી તે માલમ પડી શકે તેમ છે.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે ?
૨૬	વાદરત્નાકર A	૧૧૫૦			હેકન
૨૭	વાદિવિજય	૭૪૮	સાધુવિજય B		પા ૪-૫ કો
૨૮	શાસ્ત્રવાત્તાસમુચ્ચય વૃત્તિ	૭૦૦૦	હરિમદ્ર	સ્વોપન્ન	પા ૫, કો હે પે ૨૦૯ પા ૫મા
	વૃત્તિ (સ્યાદ્વાદ્ધકટપલતા)	૧૩૦૦૦	યશોવિજય		પા ૫, કો
૨૯	(૧) પદ્દર્શનસમુચ્ચય વૃત્તિ	૮૬	હરિમદ્ર		૪ સુલભ્ય મુદ્રિત
	વૃત્તિ (વીજી)	૪૨૫૨	"		પા ૧-૪
	વૃત્તિ (ત્રીજી)	૫૨૨૮	વિદ્યાતિલક D		અ ૨
	અષ્ટચૂરિ	૫૩૬			કો
	(૨) પદ્દર્શન સમુચ્ચય	૨૪૦	રાજશેખર E		પા ૩, લો, હેકન
૩૦	સમ્મતિતક ગા ૧૬૮ વૃત્તિ	૨૧૦	સિદ્ધસેનાદિવાન્સર		૪ સુલભ્ય
		૨૧૦૦૦	પ્રયુભ્નશિષ્યામ ચદેવ F		૪ "

A આ ગ્રંથ કોનો રચેલ છે, તથા તેમાં ગી હવાનત છે, તે માટે તેની પ્રત તોગાની સાથે નક્કર છે

B સાધુવિજયગણિ ક્યારે થયા છે તે સંગ્રહે વધુ હકીમત મળી નથી, પણ તેઓ હીરવિનયસરિના પૃષ્ઠી થપ્પી છે એમ તેમના નામપરથી જાણા શકાય છે

C ગુણરત્નસૂર માટે પ્રમાણપ્રથના નીચે નોટ આવી છે તે જુઓ

D વિદ્યાતિલક એ સોમતિલકવરિત ગાનુ નામ છે તેઓએ સ ૩૩૮૯ મા વીયકલ્પના એટલેહ વીરકલ્પ રચ્યુ છે નિાદેવસૂરિ ઇમના શિષ્ય હતા

E રાજશેખરસૂરિ માટે રત્નાન્સરાવતારિકાના ટિપ્પનની રાઇનમાં તેમના નામ નીચે આપેલી નોટ જુવા

F આ અમયદેવસૂરિ તે રાજગચ્છના પ્રયુભ્નસૂરિના શિષ્ય હતા આ અમયદેવસૂરિ તે ઘણુ કરીને ઉત્તરાખ્યના વૃહદ્વૃષ્ટિગર વાદિવત્તાલ શાતિયરિ વુ જેઓ સ ૧૦૯૬ માં રંગગાલી થયા છે તે જામણે તે ટીંગાના પ્રાતે પોતાના પે ગુરુ નામે સવદેવસૂરિ તથા અમયદેવસૂરિ જણાવ્યા છે તેમજા હોવા જોઈએ અને એ પ્રમાણે તેઓ વિન્નમતી અર્ગાવારની સદીમાં હતા એમ જણાય છે

ક્રમ.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સ.	ક્યાં છે ?
	વૃત્તિ A	૭૦૦	મહુવાદિ		૫.
	વૃત્તિ B				૫.
૩૧	સર્વશાસિદ્ધિપ્રકરણ	૭૩૦	હરિભદ્ર		વૃ.જેસલ, ઘ.૨, ડેકન
૩૨	સિદ્ધાંતરત્ન C	૧૦૦૦	વિનયચંદ્ર D		ડેકન.
૩૩	સિદ્ધાંતરત્નાવલી E	૮૫૦	જિનોદયશિષ્ય હેમસૂરિનાશિષ્ય F		ડેકન.
૩૪	સુવોધમંજરી G વૃત્તિ	પત્ર ૩			ઘ. ૨ ઘ. ૨
૩૫	સ્યાદ્વાદમજરી		૩૦૦૦	મહિષેણ	૧૩૪૫
૩૬	સ્યાદ્વાદરત્નાકર H	૧૩૦૦૦	વાદિદેવસૂરિ I		વૃ પા. ૧,૨, જ.ઘ.૧ ૧ ઘ ૨ કો ડેકન.

A આ વૃત્તિ વૃહત્તિષ્પનિગરે શ્લોકસંખ્યા સાથે નોંધી છે, છતાં તે દુર્લભ્ય ચર્ચ પડી છે, માટે એવા અર્પૂર્વ ગ્રંથોનો પત્તો લગાડવા માટે આપણા મુનિમહારાજાઓએ સ્વાસ્થ્ય રાક્ષ્ય રાક્ષ્યુ વગેરે છે.

B આ શ્રીજી વૃત્તિ માટે વૃહત્તિષ્પનિકામા આ રીતે ઉલ્લેખ છે:—“ સમ્મતિવૃત્તિરન્યકર્તૃકા.”

C આ ગ્રંથ ન્યાયનો છે કે વ્યાકરણનો છે તે જાણવા માટે તેની પ્રત જોવાની જાણ જરૂર છે.

D વિનયચંદ્રસૂરિ સ. ૧૩૨૫ માં કલ્પનિરુક્ત રચેલ છે.

E આ ગ્રંથના આઠતમો ઉલ્લેખ પીટર્સનના ચોથા રિપોર્ટમાં પાને ૧૨૪ માં આપેલ છે.

F જિનોદયસૂરિ સ્વરત્તરગચ્છમા ૫૪ માં પાટે થયા છે. તેઓ સ. ૧૪૧૫ માં આચાર્યપદે આવ્યા અને સ. ૧૪૩૨ માં સ્વર્ગવાસી થયા. તેમના શિષ્ય હેમસૂરિ થયા અને તે હેમસૂરિના શિષ્યે આ ગ્રંથ કરલ છે.

G સુવોધમંજરી એ ન્યાયનો ગ્રંથ છે કે વ્યાકરણનો છે કે ઔપદેશિક ગ્રંથ છે તે ચોક્કસપણે ગ્રંથ જોઈ માલમ પહે, પણ ત્યાં લગણ અમે એને હજી ન્યાયગ્રંથમાં નોંધ્યો છે.

H સ્યાદ્વાદરત્નાકર ચોરાસી હજાર શ્લોકનો હતો. એમ પરપરાથી સાબળેલ છે. વૃહત્તિષ્પનિકામા તેના શ્લોક ૩૬૦૦૦ નોંધ્યા છે. પરંતુ હાલમાં તે તે તેર હજારનો અર્પૂર્ણ ગ્રંથજ મળે છે. આ એક સ્વરેસર સેદની વિના છે કે આવા ઉત્તમ ગ્રંથ માટે જો પૂરી કાઢાંજી રાલવામાં આવી હોત તો તેની આવી દુર્લભતા નહિ થાત. પણ ધ્યારે અમૂલ્ય તાલપત્રોના મહાર કોઈને પણ વતાવ્યા વગર લાગા વચ્ચે લગણ વંધ વારણે રચાયો હશે ત્યારેજ આવા ઉત્તમ ગ્રંથો નષ્ટપ્રાય જેવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા છે. વિશેષમાં એજનાવડું પહે છે કે હજી પણ જો આપણા લોકો સુલભ્યગ્રંથોના ઉતારા પર ઉતારા કરાવતા રહી અર્પૂર્વ પુસ્તકોના ઉદ્ધાર માટે તદ્દન વેદરૂઠા રહેશે તો એ અર્પૂર્વ ગ્રંથો ટુક મુદતમાં ગુમ થઈ જશે એમાં જરાઈ સશય નથી.

I વાદિદેવસૂરિ એ નામના વાદિ એ વિશેષણ છે અને દેવસૂરિ એ નામ છે. તેઓ મુનિચંદ્રસૂરિના પાટે થયા છે. તેઓનો જન્મ સ. ૧૧૪૩ માં, દીક્ષા ૧૧૫૨ માં, સૂરિપદ ૧૧૭૪ માં અને સ્વર્ગ ૧૨૨૬ માં થયો છે. એટલે, તેઓ હેમસૂરિના સમકાલીન હતા. તેમણે સં. ૧૧૮૧ માં સિદ્ધરાજની સભામાં દિગંધર કુમુદચંદ્રને હરાવ્યો હતો. વળી તેમણે સં. ૧૨૦૪ માં ફલોધીમા પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે.

નંબર	નામ	શ્લોક	વર્ત્તા	રચ્યાનો સ	પૃથા છે ?
	વર્ગ ૨ જો ----- નાના ગ્રંથો.				
૧	કટકોદ્ધાર A	૪૮૦			પા ૪
૨	ચાંદનમહન B	૮૫૦	પરમાનદસૂરિ C		જેસ ગ્લેર
૩	જૈનન્યાય D	૨૫૦૦			"
૪	ત્રૈવેણગોષ્ઠી E	૮૯૭	મુનિસુદર	૧૪૫૫	પા ૩ ૪ ૫ જ ૨ કો
૫	નયપ્રકાશ F શુદ્ધિ	૮૪૦	પદ્મસાગર G "	૧૬૩૩	પા ૫ કો.

A કટકોદ્ધાર એકલા ૪૮૦ શ્લોકનો છે કે વમ તે શક પદ્મી વિના છે વમને કોડાયના મહારમા પ્રમાણપ્રથેયજ્ઞિકાની પ્રતના અંતે તે લખલ છે અને તે શ્લોક ૧૫ થા ૨૦ નો હશે એમ પ્રોપેસર રવજીભાઈ જણાવે છે

B આ નામ અચોક્ષ્ણ જણાય છે, કારણકે આ વહ વિશેષનામ નથી પણ સામાય નામ છે અને પ્રયુ નામ તો જાણ કરીને વિશેષનામ જ હોયુ જોઈયે

C પરમાદસૂરિ સ ૧૨૨૧ મા વિદ્યમાન હતા, (જુનો પીટલના શીતા સિંધુના પેન ૬૯ મઠ આપેલો પ્રાસ્તિક્ષેપ્ર) એમણ ગર્ગવિદ્યુત કમરિપાન પ્રયની ટીકા તથા વ્રજગ્યાવિધાન નામે ગ્રંથ રચેલ છે એમની વશાયલી આ પ્રમાણે છે —

મદ્રેશ્વરસૂરિના ગિપ્ય શાલિસૂરિ તથા અમવદવસૂરિ હતા અને એ અમવદવસૂરિના શિષ્ય પરમાનદ સૂરિ થયા

D આ નામ પણ અચોક્ષ્ણ લગે છે જેલભેરના ટીપ કરનાર દીરાલાલે કોણ જાણે ના કારણે આવી અચોક્ષ્ણ ટીપ કરી છે તે માલમ પડયુ ગથી માટે જેસલમરની ટીપ કરીને વાદ નીષપના હાથે કચરવાની જરૂર છે, પણ દિલગિરી એ છે કે એ મહારના રહનો હવે પરિને ટીપ કરતા આપ એમ લાગયું ગથી

E આ ગ્રંથ ન્યાય તથા શાસ્ત્રિય વાદને યાગુ પડે તેવો છે

F નવપ્રકાશને નવપ્રકાશસ્તવન પણ વહેરામાં આને છે, કારણ કે તે શુદ્ધિરૂપ છે

G પદ્મસાગર ઉપાખ્યાય ધમગગતા ગિપ્ય હતા.

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ્થાન	ક્યાં છે?
૬	નવપ્રદીપ A	પત્ર ૮			મા.
૭	ન્યાયતત્ત્વ B	૨૫૬			જેસલ.
૮	ન્યાયાષ્ટાધ્યાયી C	પત્ર ૨૫			પા ૪
૯	પ્રમાણસાર D	૩૦૦	હર્ષમુનિ E		લોં.
૧૦	પ્રમાણાંત સ્તવ F	૧૨૦૦	ચશોદેવ G		જેસલમેર.
૧૧	લિંગલિંગિવિચાર II	૧૫૦૦			"
૧૨	વિપ્રવક્ત્રમુદ્ર I				ડેઘાન.
૧૩	શ્વેતાંબરદર્શનસિદ્ધિ J	૫૧૦			વૃ

A નવપ્રદીપ કોણે રચેલ છે તે માટે ભાવનગરથી સમર મેલપ્રગનાં છે.

B આ નામ પણ હીરાલાલે નોંધેલું છે એટલે શક પડતું છે.

C ન્યાયાષ્ટાધ્યાયી પાટણની ટીપમા જૈનકૃત જણાવી છે એટલે તેના મળે એ અમે હા હા તેને નોંધી છે. છતાં શક રહે છે કે વલતે તે ગાંતમપ્રણીત ન્યાયસૂત્ર તો નહિ હોય, માટે આ પુસ્તક જોવાની પણ સાચા જરૂર છે.

D પ્રમાણસાર જૈનન્યાય ગ્રંથ છે કે પરમતના ન્યાયપર જૈનકૃત વ્યાખ્યાયગ્રંથ છે તે સંબંધે કરી નોંધાયુ નથી એટલે તે ગ્રંથ જે મુનિમહાગયે જોયો હોય તેમણે તે હકીકત જણાવવાની કૃપા કરવી.

E હર્ષમુનિ એ ટુકુ નામ છે માટે હર્ષકાર્તિ, હર્ષમૂળણ કે હર્ષવર્દન એ ગ્રંથ પેકો કયુ નામ હશે તે તેની વિશેષ માહિતી મળ્યાથી માલમ પડે તેમ છે.

F જેસલમેરની વસ્તે ટીપમા આ નામ નોંધેલ છે.

G, H. આ નામો પણ જેસલમેરની હીરાલાલની ટીપમા નોંધેલા છે, એટલે તેમના માટે તથા તેના કર્તાના નામ માટે અને શ્લોકસંખ્યા માટે શક રાસવો પડે છે. આ ગ્રંથ સ્વી રીતે તો સ્વદનમંડનનો હોવાથી તે વર્ગમા ગણવો ઘટિત છે, પણ અમે એમા ન્યાયનો વિશેષ ભાગ હશે એમ માનીને હા નોંધ્યો છે.

I આ ગ્રંથ પણ ઊપરના ગ્રંથ મુજબ સ્વદનમંડનનો જ હશે પણ તેમા પણ ન્યાયનો મુખ્ય ભાગ હશે એમ ધારી હા નોંધ્યો છે.

J સદરહુ ગ્રંથ ફક્ત વૃહદ્વિપ્નિકામા નોંધેલો દેખાય છે. પણ કોણે સ્થલે તે ઉપલબ્ધ થયો નથી.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
१४	पडदर्शनदिङ्मात्रविचार A				वृ
१५	पडदर्शनस्वरूप B	पत्र ३			नो
१६	पणमतनाटक C				पा ३
१७	सप्तनयविचरण D	पत्र ८			अ, १
१८	सप्तभगीप्रकरण E	पत्र १०			अ १
१९	सर्वज्ञपरीक्षा F	पत्र ४			जेसलमेर
२०	स्त्रीनिवाणसिद्धि G				रेकन
२१	स्याढादफलिका	४०	राजशेखर	१२१४	पा ४
२२	स्याढादभाषा	६००	शुभविजय	१६६७	पा ५
२३	हेतुखडनपाडित्य		सुमति साधु H		प आनद सागरपी

A B आ ते नानरडा निरघ छे बेले निरघ वृहत्त्रिप्पनिनामा नोंधेल छे बीजे निरघ नोटायमा छे

C आ ग्रय जेम इहा नोंया छे तेम तेन नाटकना विभागमा पण परीने नोंधवामा आयसे

D E सप्तनयविचरण तथा सप्तभगाप्रकरण कोना रचेल छे त प्रत जोवार्थी भालम पढे

F सर्वज्ञपरीक्षानी जयलभेरी बने टीपमा नोंध छे

G आ ग्रय अने वृहत्त्रिप्पनिनामा, नोंधेल केवलभुक्तिस्त्रामुक्ति प्रकरण के जे शब्दानुशासनात्तर शान्टायने करे छे ते पत्र छ के जेम ते माटे तेनी प्रत जोपाना जरूर छे

H आ सुमतिसाधु ते सोमसुदर सुरिा पाटे भवेत् लक्ष्मीसागर सुरिा शिष्य हता अने तेओ विक्रमना योग्मी सदीना मध्यमा यपन छे

નંબર	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ	ક્યાં છે ?
	વર્ગ ૩ જો. → ← વાદસ્થળો.				
૧	અનેકાંતવ્યવસ્થાપન A	૨૦૦			વૃ.
૨	અગ્નિશીતત્વસ્થાપનાવાદ				હેક્કન.
૩	અપશબ્દસ્વરૂપ	૧૦૦	કીર્તિચંદ્ર B		પા. ૫.
૪	અપશબ્દનિરાકરણ C	૨૧૫			વૃ.
૫	અપૌરુષેયદેવનિરાકરણ D	૫૧૧	યશોદેવ E		વૃ.
૬	ઈશ્વરનિરાકરણ				હેક્કન.
૭	પ્રકાશમયજ્ઞાનદર્શનવાદ F	પા. ૩			કો.
૮	ગણધરવાદ G				હેક્કન.
૯	તમોવાદ				હેક્કન.
૧૦	દૃષ્ટાંતદૂષણ				હેક્કન

A. C. D. આ ત્રણે વાદસ્થળ વૃહત્તિષ્પનિકામા નોંધેલા છે તેપરથી એમની નોંધ કરી છે વાકી ઉપલબ્ધ થયા નથી.

B કીર્તિચંદ્ર ક્યારે થયા છે તેસબંધી વિશેષ જાણવામાં આવ્યું નથી.

E આ યશોદેવસુરિ તે સિદ્ધરાજના વચ્ચેમાં સં. ૧૧૮૦ માં જેમણે પાલિકસૂત્રની વૃત્તિ રચી છે તે હોવા જોઈએ, એમ અમો ધારીએ છીએ, છતાં ત્રય મહ્યાથી ચોકસુ સ્વાતરી થઈ શકે તેમ છે.

F આ વાદ વિશેષાવશ્યકની ટીકામાંથી હુદો કતારેલ છે એમ કોહાવવાલા પ્રો. સ્વર્જાભાઈ કહે છે કે મને પ્રાદ છે.

G આ વાદ પણ વચ્ચે વિશેષાવશ્યકની ટીકામાંથી ઉદ્ધરેલ હોય તો હોય.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	पक्षा	रचयिता	क्या छे ?
११	नास्तिकनिराकरण	१७			लीपडी
१२	परब्रह्मोत्थापनस्थळ	२४६	भुवनसुदर A		पा ५ को
१३	परहेतुतमोभास्करस्थळ B	पत्र १५			अ २
१४	परिणामिवस्तुव्यवस्थापन	८०			वृ
१५	पचदशानखडन	पत्र ३			को. १
१६	प्रत्यक्षानुमानाधिकप्रमाण निराकरण	५१९	यशोदेव		वृ
१७	यतिप्रतिष्ठास्थापनस्थळ C	पत्र २६	अजितदेव D	११८५	वृ
१८	षष्ठ्यवस्थापनस्थळ				वृ
१९	वेदखडन	१०	कीर्तिचंद्र		पा ५
२०	वेदयाह्यतानिराकरण E		हरिभद्रस्मृति		डकन
२१	शब्दनिराकरण F				डेकन जेसळ

A भुवनसुदरस्मृति मुनिसुदरस्मृतिना वारे हता

B आ ग्रथ जैनकृत छे के केम तेनो चोरुस निणय ग्रथ जोयाथी यई शने तेम छे

C E आ वे स्थळ पण पक्त वृहत्स्पिनिकामा नोंधायला छे तेपरयो इहा नोंध्या छे

D अजितदेवस्मृति मुनिचंद्र तथा मानदेवधारना शिष्य हता

E आ ग्रथ खास उतारवा योग्य छे कमके ते अपूव ग्रथ छे

F आ ग्रथ अने वृहत्स्पिनिकामा नोंधायलो अपरादनिराकरण ए एवज छे के केम

ते प्रत जोयाथी जणाइ सके तेम छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૨૨	પદ્દર્શનખંડન	પત્ર ૨			પા. ૪
૨૩	સર્વજ્ઞવાદસ્થલ A				ડેકન.
૨૪	સર્વજ્ઞવ્યવસ્થાપનાવાદ B				કો વૃ.
૨૫	સર્વજ્ઞવ્યવસ્થાપનાસ્થલ C				ડેકન.
૨૬	સર્વસ્થલ D				ડેકન.
૨૭	સર્વાર્થનિરાકરણસ્થલ	૨૫૦	રવિપ્રભ E		પા. ૪-૫, ડેકન. સં.
૨૮	સક્ષેપેણસર્વજ્ઞસિદ્ધિ F				ડેકન, જ.

A. B. C. D. આ ગ્રંથ એકજ છે કે જૂદા જૂદા છે તે જાણવા માટે તેમની પ્રતો જોવી જોઈયે.

E રવિપ્રભસૂરિ ઉદયપ્રભ તથા વિનયચંદ્રના ગુરુ હતા અને તેઓ તેરમી સદીનાં વચગાળે યયા હોવા જોઈયે.

F આ ગ્રંથ માટે જેસલમેરની દસવિજયજીકૃત ટીપમાં સર્વજ્ઞસિદ્ધિ ઇટલુજ નામ લખેલ છે અને તે તાડપત્ર ૮ ની છે એમ નોંધ્યું છે. ભાવનગરની ટીપમાં પણ તેજ નામની પ્રત છે.

નંબર	નામ	શ્લોક	કક્ષા	રચનાનો સ	ક્યા છે ?
	વર્ગ ૪ થો.				
	—••••—				
	દિગમ્બરકૃત ન્યાયગ્રંથો.				
૧	અધ્યાત્મતરંગિણી ટીકા		શુભચંદ્ર		૪ પા ૨
૨	અ-ચાતિવાંદ †		પ્રમાદેષ		†
૩	આત્મીમાલા A		સમતભદ્ર B	૧૨૫	ડેકન
	ટીકા		વસુનદિ		ડેકન
	ભ્રમ્ય		અકલ્પદેવ		ડેકન
	વૃત્તિ (અષ્ટસાહસ્રી)	૮૦૦૦	વિશ્વાનંદ		હે મુ મોરવાડો ૨
૪	આત્મપરીક્ષા	૨૦૦	"		,
	ધૃત્તિ	૪૫૦૦	"		લી ડેકન
૫	આલાપપદ્ધતિ		દેવસેન		મુદ્રિત.

† આવી નિશાનીવાલા ગ્રંથો સુરતના શેઠ મગવાનદાસ કન્યાણદાસ ક જ-ના વિટર્સન સાહરને ત્યાં નોંધરીમા હતા, તેમના પ્રાઈ-ટેટ રીપોટમા મોંઘ્યા હતા તે પરથી મુગ્ધના દિગમ્બર પાંડેત પત્રાલાલજીયે ડતારો કરેલ હતો તે ડતારો અમને મલ્લતા તેપરથી આ ગ્રંથો અમ અત્રે નાખ્યા છે પરંતુ તે ગ્રંથો ક્યા પણ ઉપલબ્ધ થયા નથી, માટ જે જે ગ્રંથના નામ આગલ અને તેના સ્થલના રાજામા † આ ચિહ્ન જાવામા આવે ત તે ગ્રંથ દુર્લભ છે એમ જાણવું, ગ્રંથની તયા કતારની માહિતી માટે જૂદી નિગાળીઓ કરી છે તો આવા દુર્લભ ગ્રંથોની જોધલોલ કરી દિગમ્બર મુગ્ધને તેનો પુનરુદ્ધાર કરવો ધવી અમારી તમને ડાસ કરાને સૂચના છે

A આત્મીમાલા તે ગધસ્તિમહામાપ્યના મૂલની ૧૧૫ કારિનાઓ છે અને તને દેવાગમ-સ્તોત્ર પણ વહે છે

B સમતભદ્રશ્યામિણે તત્વાથની વૃત્તિ રચી છે તે શિવાય યુક્ત્યનુગામન, સ્તનકરદવ, સ્વય મૂસ્તોન, અને ઝિનનાતન પણ તેમણેજ રચેલ છે સ્ત્રાકરટનુ અપરામ ઉપાસકા-ગયન છે

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૬	જિનસત્તાલંકાર †		સમંતમદ્ર		†
૭	જીવાસ્તિત્વવાદ A	૩૫૦			ડેક્કન.
૮	તત્ત્વત્ત્વની ટીકાઓ:—				
	ગંધહસ્તિ મહામાખ્યB	૮૪૦૦૦	સમંતમદ્ર		†
	ટીકા (પહેલી)	૨૪૦૦	પ્રમાચંદ્ર (તત્ત્વ- પ્રકાશિકા)		ડેક્કન.
	ટીકા (વીજી) (સર્વાર્થસિદ્ધિનામ્ની)	૬૦૦૦	પૂજ્યપાદસ્વામી (દેવનંદી)		ડે. સુ. મોદવાડો ૨
	ટીકા (ત્રીજી)	૧૧૦૦૦	શ્રુતસાગર		ડે. મથુરા.
	ટીકા (ચોથી)	૮૦૦૦	ધર્મભૂષણ (ન્યા- યદીપિકા)		ડેક્કન. મુદ્રિત.
	ટીકા † (પાંચમી)	૩૨૫૦	વિવુધસેન		†
	ટીકા † (છઠી)		લક્ષ્મીદેવ		†
	ટીકા † (સાતમી)		શુભચંદ્ર		†
	ટીકા † (આઠમી)		પ્રમાચંદ્ર (ત- ત્ત્વપ્રકાશિકા)		†
	ટીકા † (નવમી)		યોગીંદ્રદેવ (તત્ત્વ- પ્રકાશિકા)		†
	ટીકા † (દશમી)		દેવીદાસ		†

† આ ચિન્હ માટે પાછલપાને અવ્યાતિવાદ ઉપરની નોટ જુઓ.

A આ ગ્રંથ ડેક્કન કૉલેજના રીપોર્ટમાં નોંધેલ હોવાથી તે પ્રમાણે તેને અમે હ્યાં નોંધ્યો છે પરંતુ તે ન્યાયનોંધ છે કે સંડનમંડનનો છે તે ગ્રંથ જોઈ નક્કી કરવું જોઈયે.

B ગંધહસ્તિ મહામાખ્ય તે તત્ત્વત્ત્વની વૃહત્વૃત્તિ છે. અને તે ચોરાસી હજારની હતી એમ પરંપરાથી સામલેહું છે. તે પ્રમાણે તેને હ્યાં ટાકી છે. પરંતુ તે વૃત્તિ હાલમાં ક્યા પણ ઉપલબ્ધ થતી નથી.

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા	રચનાનો સ.	ક્યા છે ?
	ટીકા (અચાર્યી) †		યોગદેવ		
	ટીકા (ચાર્યી) † (સુસ્રયોધિની)	૫૦૦	રવિનાથિ		†
	રાજધાર્તિક	૧૯૦૦	મકલક શિષ્ય		હેકન
	રાજધાર્તિકાલકાર	૧૩૦૦	મટ્ટાકલક		મુ મોરવાદો ૨
	તરંગાનુશાસન †	૫૦૦	નાગચંદ્રમુનિ		†
	તત્ત્વદ્વીપકા †		પ્રહ્લદેવ		†
	તત્ત્વસત્		દેવસેન A		હેકન.
	ટીકા †		સકલધર્મી B		†
	દ્વીપિકા †	૬૦૦	યાલચંદ્ર		

† આ ક્ષિદ્ર માટે પેજ ૮૭ મા અખ્યાતિનાદ ઉપરની નોટ જુઓ

A દિગ્ગજર દેવસેન પ્રથમ થયા છે —

એક દેવસેન છે ધીરસેનના શિષ્ય અને અમિનગતિના ગુરુ હતા આ દેવસેનને માટે અમિનગતિની રચેલ ધર્મપરીચાના પ્રગતિરત્નેશ્વરના નોંધ છે

શ્રીમા દેવસેન તે વિમલસેનના શિષ્ય હતા અને તેમને મારમપ્રદ રોલ છે એમ પીટણના ગાંધીના સ્પોર્માં નોંધુ છે

શ્રીમા દેવસેન મટ્ટરક છે સમસેનના શિષ્ય હતા તેઓનો જન્મ સરવ ૧૫૧ માં થયો છે અને તેમને ઇ ૧૯૦ માં દાગાદાર રચેલ છે તે સિવાય તનુવાર અને અર્ધભાગ ૧ થી પ્રથમ પ્રાકૃતમાં તેમને રોલ છે અને નવાજ સમ આજીવનકાલ ઇતિહાસમાં રહ્યા છે. પછી તેમને ૨૧૦ ધર્મપ્રદ પણ ઇતિહાસમાં હતા એમ વિટણને નોંધુ છે

હવે આ પ્રથમ આગ્રાવમાંથી સત્યગાતા કરનાર દેવસેન છે આ શ્રીમા દેવસેન છે એમ જોશ્ય નિગમ થય છે

B માં યદ્યપીઠિ તે વચનદિવા શિષ્ય હતા અને તેમને તારાનંધ ધારિત્ર રોલ છે એમ વિટણને સિદ્ધ પાવમાની નોંધુ છે થમના માટે યેવેરે ઇતિ નોંધ કરી છે કે તેઓ ઇ ૫. ૧૫૨૦ માં વિવરના હતા

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ	ક્યાં છે ?
	તત્ત્વાર્થસાર	૮૦૦	અમૃતચંદ્ર A		ડે. કો. મું. મોશ્વાડોર
	દીપિકા	૧૮૦૦	સકલકીર્તિ		ડેક્કન.
	તત્ત્વાર્થાલંકાર §		વિદ્યાનંદ		§
	શ્લોકવાર્તિકોદ્ધૃતકારિકા	૨૫૦			ડેક્કન.
	સ્ફોટકવૃત્તિ B				અ. ૨
૯	તત્ત્વાનુશાસન §		સમંતભદ્ર		§
૧૦	તર્કશાસ્ત્ર		શુભચંદ્ર		§
૧૧	તર્કભાષા C	તાડ ૭	યતિ મોક્ષાકર- ગુપ્ત		પા. ૨
૧૨	તર્કદીપિકા §		વાલ્કિસિંહ		§
૧૩	તર્કપરીક્ષા §		વિદ્યાનંદ		§
૧૪	તર્કવાદ §		પ્રમાદેવ		§
૧૫	તર્કામૃત §		આશાધર		§
૧૬	તત્ત્વવિનિશ્ચય §		વર્ધમાનકવિ		§
૧૭	દષ્ટિવાદ D	પત્ર ૪૨			ડેક્કન.
૧૮	દ્રવ્યગુણપર્યાયનિરૂપણ	૩૦૦	દેવસેન		જેસલમેર. !

A આ અમૃતચંદ્રસૂરિયે કુદકુંદાચાર્યકૃત સમયસારપર આત્મલ્પ્યાતિ નામની ટીકા રચી છે. વહીં એક દિગમ્બર પટ્ટાવહીમા તેઓ સવત્ ૧૬૨ માં વિદ્યમાન હતા. તેમણે પ્રવચનસારટીકા પચાસ્તિકાયાટીકા, તત્ત્વાર્થસાર, પુરુષાર્થસિદ્ધયુ અને તત્ત્વદીપિકા પણ રચેલા છે એમ પીટર્સનનાં જોયાં રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે.

§ આ ચિન્હ માટે દિગમ્બર ન્યાયની શરૂઆતમાં અભ્યાસિવાદ ઉપરની નોટ જુઓ.

B આ સ્ફોટકવૃત્તિ અમદાવાદના ચંચલવાના મંડારની ટીપમા નોધાઈ છે. તે પ્રમાણે તેને અમે હાં નોંધી છે. તેસંબંધી વિશેષ ખુલાસો પુસ્તક જોયે મહી શકે તેમ છે.

C આ તર્કભાષા પાટળ નક્કર વીજામાં તાડપત્ર ઉપર લખેલી છે.

D આ ત્રય ડેક્કન કોલેજમાં છે. તે શિવાય વીજે કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવ્યો નથી. તે તે શુ છે. અને તે કોણે રચેલ છે તેની તપાસ કરવી જોઈયે.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે ?
૧૯	(૧) નયચક્ર વૃત્તિ	૧૮૦	દેવસેન "		હે મા મથુરા હેકન
૨૦	(૨) નયચક્ર †		ધર્મસાગર		†
૨૧	નયઘાદ †		પ્રમાદેવ		†
૨૨	ન્યાયવીપિકા	૮૦૦	ધર્મભૂષણ		મુદ્રિત
૨૩	ન્યાયકુમુદચક્ર A યાયકુમુદચક્રોદય	૧૬૦૦૦	અક્લકદેવ પ્રમાચદ્ર		વૃ વૃ મુ ગુલાલવાદી.
૨૪	ન્યાયવિનિશ્ચયાલકાર †	૩૦૦૦૦	અક્લકદેવ		†
૨૫	ન્યાયવિનિશ્ચયવૃત્તિ		અનતઘીર્ય		કોંડાય
૨૬	ન્યાયસદર્થસપ્રહ	પત્ર ૫૧૩			હેકન
૨૭	ન્યાયામૃત †		આશાધર		†
૨૮	પરીક્ષામુલ્ય વૃત્તિ (પ્રમેયરત્નમાલા)	પત્ર ૪૨ ૧૫૦૦	માણિક્યનવિ અનતઘીર્ય		વૃ હેકન મુદ્રિત
૨૯	પત્રપરીક્ષા				વૃ
૩૦	પ્રમાણપ્રમેયકલિકા B	૬			હે કો વૃ

† આ ચિહ્ન માટ પેજ ૮૭ મા અન્યાસિવાદ ઉપરની નોટ જુઓ

A આ મય વૃદ્ધત્વિપ્પનિકામા તેની વૃત્તિસાથે નોંધાયો છે અને તેના માટે ત્યા આલો ઉલ્લેખ છે -
" ન્યાયકુમુદચક્રસૂત્રવૃત્તી દિગ્વરી અક્લકદેવપ્રમાચદ્રકૃતે સ, વૃ ૧૬૦૦૦ "

B પ્રમાણપ્રમેય કલિકાના મૂલકાર કોણ છે તે જાણવામા આવ્યુ નથી

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં	ક્યાં છે ?
	વૃત્તિ	૨૦૦૦	નરેન્દ્રસેન		ડે. કો.
	વૃત્તિ	૨૮૭૩	શાંતિસૂરિA		વૃ. પા. ૨
૩૧	પ્રમાણનિર્ણય *		વિદ્યાનંદ		*
૩૨	પ્રમાણમોમાંસા *		"		*
૩૩	પ્રમાણવિલાસ *	૨૦૦૦	ધર્મભૂષણ		*
૩૪	પ્રમાણદીપિકા *		પ્રભાચંદ્ર		*
૩૫	(૧) પ્રમાણનૌકા		વાદિસિંહ		*
૩૬	(૨) પ્રમાણનૌકા *		વીરસેન		*
૩૭	પ્રમાણપરીક્ષા	૧૪૦૦	વિદ્યાનંદ		ડે. જયપુર.
૩૮	પ્રમિતવાદ "		પ્રેમાદેવ		*
૩૯	પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડ	૧૨૦૦	પ્રભાચંદ્ર		વૃ પા. ૨-૪ સં. મો:- હવાડો.
૪૦	ભાપામંજરી	૨૪૦૦	મટ્ટાકલંક		ડેકન.
	વૃત્તિ	૮૦૦૦			ડેકન.

A આ શાંતિસૂરિ તેમના નામ ઉપરથી તે શ્વેતામ્બર હોવા જોઈએ. અને આ ગ્રંથ સરસ હોવાથી તેના ઉપર તેમણે આ ટીકા રચી હોવી જોઈએ. આ કારણ કે શ્વેતામ્બર આચાર્યોણ અન્યમતિના ગ્રંથોપર પણ ટીકાઓ રચેલી છે. આ વૃત્તિની પ્રત તા. મો. મહિપત્ર ઉપર લખાયેલી પાટળમાં મોજૂદ છે. માટે તેનો ધ્યાન કરી ઉતારો કરી લેવાની જરૂર છે.

* આ ચિન્હ માટે પેજ ૮૭ માં અવ્યાસ્તિવાદ ઉપરની નોટ જુઓ.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચનાનો સ	ક્યા છે ?
૪૧	યુક્તિચિંતામણિ †		સોમદેવ A		†
૪૨	યુક્તિવાદ †		પ્રમાદેવ		†
૪૩	યુક્ત્યનુશાસન ઘૃત્તિ	૨૭૮૨	સમતમદ્ર વિદ્યાનદ		૧૬૨ ૬૬૨
૪૪	રાજમાર્તેન્દ્ર †		પ્રમાચદ્ર		†
૪૫	ધાન્યમકારવ્યાખ્યા	પત્ર ૨			૪
૪૬	ધાગ્વિલાસ B	પત્ર ૬૭			૪ ૨
૪૭	ઘાદમર્જરી †		વાલિરાજ		†
૪૮	ઘાદિકૌશિકમાર્તેન્દ્ર †		પ્રમાચદ્ર		†
૪૯	વિશ્વતરવપ્રકાશ		ભાવસેન ત્રૈવિ ઘદેવ		મુ શોદવાહો ૨
૫	ઘૃહત્પંચનમસ્કાર ઘૃત્તિ	૫૦૦			લોંગડી

† આ ચિદ્ર માટે દિગ્ગરવૃત્ત ન્યાયની શરૂઆતમાં અધ્યાત્મિવાદ ઉપરની નોટ જુઓ

A આ સોમદેવે યશસ્તિલક નામે કાવ્ય શકે ૮૮૧ ઇટલે વિક્રમ ઇવત્ ૧૦૧૬ માં રચેલ છે, અને તે ડેક્કન કૉલેજમાં માજૂર છે વિટસન ચોયા રિપોર્ટમાં તેમની આપ્રમાણે વસાવઢી લીધી છે પેહેલા દેવસપતિલક તેમના પાટે યશોદેવ તેમના પાટે નૈમિદેવ અને નૈમિદેવના પાટે સોમદેવ યથા છે

B આ પ્રથમ ઝમદાવાદના પચ્ચલગ્ના મહારાની ટીપમાં નોંધ્યો છે અને તે ન્યાયનો હશે એમ ધારીને તેને અમે દ્રહા નોંધ્યો છે પરંતુ યજ્ઞે તે સાહિત્યનો વળ હોય માટે તેમાં શુ છે અને તે કોણે રચેલ છે તે નક્કી કરવા માટે તે પ્રત મુજબોનજર જોવાના જરૂર છે

નંબર	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યા નો સં.	ક્યાં છે ?
૫૧	વૃહત્પદ્ધર્શનસમુચ્ચય † ટીકા †	૬૦૦૦	સિદ્ધસેન A ગુણરત્ન B		† †
૫૨	સપ્તમંગીતરંગિણી		વિમલદાસ		મુદ્રિત.
૫૩	સંશયિવદનવિદારણ	૧૦૩૨	શુભચંદ્રશિષ્ય		અ.૨ મું. મોદવાડો.૨
૫૪	સુખબોધાર્થમાલાપદ્ધતિ	પૃષ્ઠ ૧૫	દેવસેન		ડેકન.

† આ ચિન્હ માટે દિગમ્બર ન્યાયની શરૂઆતમા અવ્યાતિવાદ ઉપરની નોટ જુઓ.

A આ સિદ્ધસેનસૂરિ તે સિદ્ધસેન દિવાકર છે. સિદ્ધસેન દિવાકરને શ્વેતામ્બર તથા દિગંબર વચ્ચે માને છે. તેમનું અપરનામ કુમુદચન્દ્ર હતું અને તે નામપરથીજ દિગમ્બરો તેમને દિગમ્બર તરફ માને છે.

B આ ગુણરત્નસૂરિ શ્વેતામ્બર હોવા જોઈએ. કારણ કે શ્વેતામ્બરાચાર્ય હરિભદ્રસૂરિકૃત પદ્ધર્શન સમુચ્ચયની ટીકા પણ ગુણરત્નસૂરિયેજ રચેલ છે. શ્વેતામ્બરાચાર્ય ગુણરત્ન ત્રે તથા જાણવામાં આવ્યા છે. એક માળિક્યસૂરિના શિષ્ય હતા, અને વીજા દેવસુંદરસૂરિના શિષ્ય કે જેમણે હરિભદ્રસૂરિકૃત પદ્ધર્શન સમુચ્ચયની ટીકા વિ. સં. ૧૪૬૬ ના અરસામા રચી છે. તે પ્રમાણે આ સિદ્ધસેનકૃત પદ્ધર્શનની ટીકા પણ તેજ ગુણરત્નસૂરિયે રચી હોવી જોઈએ એમ અમારું અનુમાન થાય છે. છતાં આ ટીકા કોઈ સ્થળે ઉપલબ્ધ થાય તો તે કયા સમયમાં થઈ છે, અને આ ગુણરત્ન કોણ હતા તેનો તપાસ કરી નક્કી કરવું જોઈએ.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे P
वर्ग ५ मो					
—					
परमतना न्यायग्रथोडपर जना चार्योण करुला न्यारयाग्रथो					
१	अभावप्रथव्याख्या A	पत्र ९२			डेकन रिपोट पेज १२४
२	कदलितिप्पन		नरचंद्रसुरि B		पा १
३	कदलिपत्रिका		राजशेखर		वृ
४	तकफकिफा	७१७	क्षमावत्याण C		डेकन
५	तर्कभाषाशास्त्रिक	१३००	शुभचिजय	१६६३	लीचडी
६	तकरहस्य दीपिका		गुणरत्न D		पा ४
७	न्यायबिंदु	१२९५	मदनवादि		पा ४ जे
८	न्यायसारवृत्ति	२९००	आचलिक जय- सिंह L		वृ अ २५ १ राधनपुर

A भा व्याख्या कोणे रचेल छ ते चोत्रम नागना माट प्रथ जोनाता नमर छे

B नरचंद्रसुरि शिष्य उदयप्रभसुरिण छ १२९० मा उदयसामाळानी वर्णिका वृत्ति रची छे माटे नरचंद्रसुरि तेरमी सदीना वरगाळ होवा चोदव

C क्षमावत्याण उपाध्याय ओगर्गीसमा सदीमा हता

D गुणरत्नसुरि छ १४६६ मा हता

E कदलिहसुरिण छ १४३६ मा उदयसामाळानी रचेल छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં.	ક્યાં છે ?
૯	ન્યાયાલંકાર ટિપ્પન	૧૦૦૦૦	અમયતિલક A		જેસલમેર.
૧૦	મહાવિદ્યાવિહંવનાવૃત્તિ ટિપ્પન	૨૦૭૦ ૬૫૭	ભુવનસુંદર "		પા. ૪ પા. ૪ લિયડી. કો.
૧૧	લક્ષણસંગ્રહ B	૬૧૨	રત્નશેખર C		ડેકાન.
૧૨	સત્પદાર્થી	૧૨૦૦	જિનવર્ધન D		પા. ૧, સં. અ. ૨

A અમયતિલક ઉપાધ્યાયે સં. ૧૩૩૨ માં દ્વયાશ્રયની ટીકા રચેલી છે.

B આ ગ્રંથનું નામ સ્વતંત્ર લાગે છે, છતાં અમે તેને હા હા વ્યાખ્યાગ્રંથમાં નોંધ્યો છે, માટે પુસ્તક જોવાથી તે જો સ્વતંત્ર જૈનન્યાયનો ગ્રંથ જણાય તો તેને જૈનન્યાયના ત્રીજા વર્ગમાં નાખવો જોઈએ.

C રત્નશેખરસુરિ ૧૫૦૨ થી સ. ૧૫૧૭ સૂધીમાં હતા.

D જિનવર્ધનકૃત આ ગ્રંથ પંચમાતના મહાર્ણમાં સં. ૧૫૧૧ માં લખેલ છે માટે તેના અગાઉ જિનવર્ધન ગણિ હોવા જોઈએ.

लीस्ट नंबर ३.



जैन फिलॉसोफि.

હરિભદ્રસૂરિકૃત ગ્રંથો.

નંબર	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં	ક્યાં છે?
૧	અનેકાન્તજયપતાકા A વૃત્તિ ,, ટિપ્પન	૩૫૦૦ ૮૨૫૦ ૨૦૦૦	હરિભદ્ર B સ્વોપદ્ય મુનિચંદ્ર		વૃ., પા. ૧-૪ વૃ. પા. ૧. કોડાય જેસલ.
૨	અષ્ટકસૂત્ર C વૃત્તિ	૨૫૬ ૩૩૭૪	હરિભદ્ર જિનેશ્વર	૧૦૮૦	વૃ. પા. ૧સુલભ્ય વૃ., પા ૧-૨,કો.
૩	ઉપદેશપદ વૃત્તિ	ગા ૧૦૪૦ ૧૪૦૦૦	હરિભદ્ર મુનિચંદ્ર	૧૧૭૪	વૃ., પા. ૨ કો. વૃ., પા. ૧-૪ કોડાય

A આ ગ્રંથ પૂર્વે જૈન ન્યાયના પાઠામાં નોંધાયો છે, પરંતુ આ પાઠામાં હરિભદ્રઠરિણ રચેલા ગ્રંથો અનુક્રમવાર નોંધવામાં આવનાર હોવાથી એને રૂઢા પણ નોંધવામાં આવેલ છે.

B હરિભદ્રસૂરિ વિક્રમ સંવત્ ૫૮૫ માં સ્વર્ગવાસી થયા છે. તેઓ યાત્રિની મહત્તર પાસે કોષ પામેલ હોવાથી પોતાના નામ સાથે “ ધર્મતો યાત્રિનીમહત્તરસુનુ ” એવું વિશેષણ જોડે છે. એમણે ૧૪૪૪ પ્રકરણો રચ્યા હતા એમ પ્રશસ્તિલેખો પરથી માલમ પડે છે, પરંતુ દિલગિરીની વાત છે કે તેમાંના હાલમા અમોને ગળ્યાને ગાઠ્યા પ્રકરણોજ હાથ આવ્યા છે. હરિભદ્રસૂરિણ તથા પ્રશોધિતેયજી ઉપાધ્યાયે રચેલા કેટલાક પ્રકરણો અમદાવાદમા પન્યાસ દયાવિમલજી મહારાજના મંડારમાં મોજૂદ છે એમ સાંભલવામાં આવ્યું છે. હાલમા તે મંડાર પ. સૌમાગ્યવિમલજી મહારાજના હસ્તગત છે અને શ્રીમાન્ શેઠ મનસુલમાઈના ભાઈ જમનાભાઈ મગુમાઈ જેવા ધાર્મિક પુસ્તકપત્રી દેખેલમાં છે, તો તેઓ અથવા શેઠ જમનાભાઈ તે મંડાર ઉઘડાવી તેમાંના પુસ્તકો રેલાડવા વાત્રત અવગ્ય લક્ષ આપશે એવી આશા છે.

! આ સૂત્રમાં જૂદા જૂદા વત્રીશ અષ્ટકો છે.

નંબર	નામ	શ્લોક	કત્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે ?
	કૃત્તિ (વૉર્ગી) A	૬૪૧૩	ધર્મમાનસૂરિ B		જેમલમેર.
૪	જરૂદ્વીપ સમ્રટ્ણી C	ગા ૩૦	હરિમદ્ર		સુભ્ય
૫	જ્ઞાનાદિત્ય પ્રકરણ D		હરિમદ્ર		પા. ૨, P 4
૬	દર્શનસસત્રી ગા ૧૫૦		હરિમદ્ર		પા. ૩ કોહાય
	અવચૂરિ		શિયમહન		પા. ૩
૭	દેવેન્દ્રનરવેન્દ્ર પ્રકરણ E		હરિમદ્ર		ડેક્કન. પેજ ૨૦૨
	ટીકા		મુનિચદ્ર		ડેક્કન
૮	ધર્મવિદુ	૨૭૩	હરિમદ્ર		કૃ, પા, ૧-૩-૫
	કૃત્તિ	૩૦૦૦	મુનિચદ્ર		કૃ, પા ૧૩, સુભ્ય
૯	ધર્મસમ્રટ્ણી ગા ૧૩૨૬	૧૭૫૦	હરિમદ્ર		કૃ ૧ પા. મુ

A આ કૃત્તિ જેમલમેરના રમે ટીપોમા તાડપપર લખેલી તેના કત્તાના નામ સાથે નોંધાદ છે પણ રીજા કાર્ડવળ મહારમાં જાનામા આવી નથી, માટે જરૂર તેનો ઉતારો થવો જોઈયે

B આ ધર્મમાનસૂરિ તે જિનેશરસૂરિના ગુરુ હતા તે છે કે વીના છે તે પુસ્તકની પ્રસાસ્તિ મેલ્લવ્યાથી માલમ પઢી શકે તેમ છે

C કેટલીક ટીપોમાં ણી ૧૧૨ ગાયા નોંધાદ છે

D આ પ્રકરણનુ પ્રાકૃતમા "નાનાદત્ત" ણુ તામ છે તે પરથી ક્રેટ, વેર તથા પીટર્સને તેને સસ્કૃતમા નાનાચિત્રકના નામે ણ નોંધુ છે અને પીટર્સન રિપોર્ટ ચોયામા હરિમદ્રવરિના નામ નાચે તે તેમણે રચેલ છે ણ જનાવ્યુ છે

E આ પ્રકરણ ડેક્કન કૉલ્જના રિપોટમા પેજ ૨૦૦ માં તેની કૃત્તિ સાથે નોંધેલ છે આ પ્રકરણ તેના નામ ઉપરવો તે વહુજ સરસ લગે છે, ણ રિપોર્ટમાં તેની પત્રસરયા કે કાદ દક્ષીકત જણાવેલ નથી, પરંતુ મથનુ નામ અને કતાના નામ માત્ર જણાયા છે માટે ડેક્કન કૉલ્જમા રહેલા આ અપૂર્વ પ્રકરણની શોધલોલ કરી તેનો પત્રો મેલ્લવી તુરત ઉતારો કરાવી લેવાની અરવત જરૂર છે હમણાં સુધી મળી છે કે ણ મથ પ આણદસાગરજી પાસે ણ છે

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
	वृत्ति A (सूत्रमिश्रा)	११०००	मलयगिरि		वृ., पा., २-३-४.
१०	धूर्ताख्यान (प्रा)	६०२	हरिमद्र		पा. ४.
११	न्यायप्रवेशकसूत्र.	१०८	हरिमद्र		वृ. पा. ४.
	वृत्ति	८८७	स्वोपत्र		पा. २-५
१२	पंचाशक B	११८४	हरिमद्र		वृ. पा. २-३-४, को
	वृत्ति	७४८०	अभयदेव	११२४	वृ सुलभ्य.
	प्र. पंचाशक चूर्णि C	३२००	यशोदेव	११७२	वृ. पा. १-५.
१३	पंचवस्तुक	१७९४	हरिमद्र		वृ. पा. २
	वृत्ति	५०५०	स्वोपत्र		वृ पा. ४, कोडाय
१४	पांच सूत्र D	२१०	हरिमद्र		वृ. पा. २-३.
	वृत्ति	८८०	स्वोपत्र		वृ. पा २-४-५.
१५	यतिदिनकृत्य E	५००	हरिमद्र		A. S. उ, अ. १.

A आ वृत्तिने माटे वृहत्पिप्पनिकामां आवो उल्लेख छे:—“ धर्मसंग्रहणीवृत्तिर्मलयगिरिवा सूत्रमिश्रा ११०००-१०५०० प्रत्यतरे ”

B पंचाशक १९ छे एम वृहत्पिप्पनिकामा नोद्यु छे.

C आ चूर्णि माटे वृहत्पिप्पनिकामां “ आद्यपचाशकचूर्णिः ११७२ वपे यशोदेवीया सभावाच्य ३२०० ” आवो उल्लेख छे.

D वृहत्पिप्पनिकामां एना माटे चोकर उल्लेख नीचे मुनत्र छे:—

“ पांचसूत्रं प्राकृतमुख्य वृत्तिश्च हरिमद्री सू. २१० वृ. ८८० पापप्रतिघातगुणवीजाधान १ साधुधर्मपरिभाषना २ प्रत्रज्याग्रहणविधि ३ प्रत्रज्यापरिपालना ४ प्रत्रज्याफल ५ सूत्ररूपं.”

E यतिदिनकृत्य केदला श्लोकनुं छे ते संवधी निर्णय थयो नथी. अमदावाचना डेलाना मंडारनी दोपमां तेना पत्र १५ छे एम नोथिल छे, माटे डेलाना मंडारमानी प्रत नजरे जोयाथीज तेनो चोकर निर्णय थइ शके तेस छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रचया नो स	क्या छे ?
१६	योगविंदु वृत्ति	५२० १६२०	हरिमद्र स्वोपन्न		वृ पा १-४, को वृ पा १-४५
१७	योगद्विंदुसमुच्चय वृत्ति अचसूरि	२२३ ११७५ ४५०	हरिमद्र स्वोपन्न साधुराजगणि		पा १३, कोडाय पा १३, कोडाय A S कोडाय
१८	योगशतक A गा १०१		हरिमद्र		S K
१९	लग्नशुद्धि गा १२८ B		"		पा ३ S K कोडाय
२०	लोकतत्परिर्णय	१७०	"		वृ कोडाय
२१	वीरागदकथा C	पत्र ८	"		अ २
२२	वेदवाद्यतानिराकरण D		"		हे
२३	शास्त्रवातासमुच्चय लघुवृत्ति	७०००	स्वोपन्न		{ पा ५ डेकन पेज २०९ मा

A अ शतक पत्र खगोलमा शान्तिनाथजीना भटारमा ताडपत्रपर लयेत छे एम पीटसनना रिपोर्मा नोंथु छ ते शवाय शीजे कोडपण स्थले उपलव थयु नथी माटे तेनो उतारो करावा लवानी तरु छे

B आनु अपरनाम लग्नुंइलिना पण छे जुवो रिपोट पहरो पेज ८८

C अमदावादन चचलशाना भटारमा जा कथा हरिमद्रसुरिए रचेल छे एम नोंथु छे परत त सनधा बाजो कोर विशेष पुरावो जोवामा आब्यो नथी माटे ते कौण रची छे ते नामत नकी कखा माटे तेना प्रत जोरानी तरु छे

D पाटसनना पेला रिपोर्मा पेज १२६ मा जा भयना कर्त्ता हरिमद्रसुरि जणाव्या छे

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्या- नो सं	क्यां छे ?
२४	वृत्ति (स्याद्वादकल्पलता) श्रावकधर्मतंत्र A वृत्ति	१३०००	यशोविजय हरिभद्र मानदेव		कोडाय. डेकन पेज २०९ डेकन पेज २०९
२५	पद्दर्शनसमुच्चय. वृत्ति	४२५२	हरिभद्र गुणरत्न		पा. १-३-४. पा. ३-४
२६	षोडशक वृत्ति	३३० १५००	हरिभद्र यशोदेव		वृ. पा १-३-४ को. वृ सुलभ्य.
२७	समरादित्यचरित्र (प्रा) „ टिप्पन	१००००	हरिभद्र मतिवर्धन		पा. ४-५, A. S. A. S.
२८	सर्वज्ञसिद्धिप्रकरण B	७३०	हरिभद्र		जेसलमेर वृ.
२९	संबोधप्रकरण C	२०५४	हरिभद्र		अ. १, GOV..6,
३०	साधुप्रवचनसारप्रकरण D	पत्र ९	हरिभद्र		अ. २

A डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा पेज २०९ मा श्रावकधर्मतंत्र नामे ग्रंथ तेनी वृत्ति साथे नोधेल छे. पण ते अमोने अत्यार सूधी कोई पण जगोए उपलब्ध थयो नथी, अजायबनी वात ए छे के त्या पण तेनी श्लोक सख्या पण लखी नथी. माटे शोधक जनोए गुम यता आवा उपयोगी ग्रथनी डेकन कॉलेजमा शोध खोल करी अगर ते ज्या होय त्यांथी तेनो पतो भेलथी उतारो करावी लेवो जोइये.

B आ प्रकरण फक्त जेसलमेरनी हसविजयजी महाराजनी टीपमां नोंधायु छे, ते शिवाय बीजे कोइपण स्थळे उपलब्ध थयु नथी माटे जेसलमेरना भडारमानी प्रत उपरथी तेनो खास उतारो लेवो जोइये. हमणा खबर मळी छे के ते भावनगरमा तथा प. आनदसागरजीना पासि पण छे.

C एनुं अपरनाम तत्वप्रकाशक छे. डेलाना भडारमा ते पत्र ८८ नु छे एम नोष्नुं छे परतु ते केटल्य प्रमाणनु छे तेनो चोक्स निर्णय डेलाना भडारमानी प्रत नजरे जोयाथीज थइ शके.

D आ नाम शक पडतु लागे छे अने ते फक्त अमदावादना चंचलवाना भडारनी टीपमां नोंधायुं छे. ते शिवाय बीजे कोइ विशेष पुरावो जोवामा आव्यो नथी. माटे तेनु खरं नाम शु छे तेनो निर्णय करवो जोइये.

सूचना:—आ ग्रयो उपरांत हरिभद्रसूरिए जे सूत्रो उपर टीकाओ रची छे ते जैनगमना लिस्टमां नोंधाइ छे.

यशोविजयवाचककृत ग्रथो.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रूपा नो स	क्या छे ?
१	अध्यात्मोपनिषत्	२३१	यशोविजय A		छपाय छे,
२	अध्यात्ममतदलन		"		छपाय छे
३	अध्यात्मसार	१३००	"		पा ४ को मुद्रित
४	अध्यात्ममत परीक्षा वृत्ति	४०००	यशोविजय स्वोपन्न		पा ५ पा ५
५	उपदेशरहस्य वृत्ति	३७००	यशोविजय स्वोपन्न		कोडाय. को
६	कमप्रवृत्ति टीका	१३००	यशोविजय		पा ३ को
७	गुरुतत्त्वनिर्णय वृत्ति	६८७१	"		पा ५ को पा ५ को
८	ज्ञानबिंदु	१२५०	"		छपाय छे

A आ यशोविजयगणि ते नयविजयगणिना शिष्य हता अथ तेमणे विजय स १७४२ मा श्री मल रात्रागो राठ रचेल छे तेमणे काशीमा पडितोने पोर्तने सभासमथ "वायविगारद" तथा "महामहोपायाय" ना पद भेळया हता, अन तेमणे सो ग्रंथ रचता तेजेने याभाचाय पद आप-सामा आन्यु हतु

ક્ર. નં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ.	ક્યાં છે ?
૯	જ્ઞાનસાર A વૃત્તિ		યશોવિજય દેવચંદ્ર		મુદ્રિત. અ. ૧
૧૦	તર્કભાષા B	૪૦૦	યશોવિજય		પા. ૪-૫, સં. Gov6
૧૧	દેવધર્મપરીક્ષા		”		મુદ્રિત.
૧૨	ઢાન્નિશઢાન્નિશિકા વૃત્તિ		” સ્વોપન્ન		અ. ૧ કો. પા. ૩-૫
૧૩	ધર્મપરીક્ષા વૃત્તિ	૫૫૫૦	યશોવિજય સ્વોપન્ન		પા. ૩ અ ૧ પા. ૩ અ. ૧
૧૪	નયરહસ્ય C	૫૧૧	યશોવિજય		પા. ૫
૧૫	નયોપદેશ ટીકા D	પત્ર ૧૧	યશોવિજય સ્વોપન્ન		પા ૩, અ. ૧ અ. ૧
૧૬	ન્યાયાલોક	૧૨૦૦	યશોવિજય		પા ૩, Gov

A એમા વત્રીસ અષ્ટકો છે.

B એને “જૈનતર્કભાષા” પણ કહે છે.

C આ ગ્રંથ ફક્ત પાટણની ટીપમા નોધાયો છે. માટે આ દુર્લભ્ય ગ્રંથનો ઉતારો કરાવી લેવાની ળાસ જરૂર છે.

D આ ટીકાનુ નામ નયામૃતતરંગિણો છે અને તે પં. આળદસાગરજી મહારાજ પાસે પણ છે.

नं०	नाम	श्लोक	वृत्ता	रचयिता	क्या छे ?
१७	न्यायपट्टसाध A	५५००	यशोविजय		अ २ SK मुद्रित
१८	प्रतिमाशतक टीका B	का १०८ ६०००	यशोविजय स्वोपन		मुद्रित पा ३
१९	प्रतिमास्थापनन्याय	पत्र ४	यशोविजय		कोडाय.
२०	भाष्यरहस्य C (प्रा) टीका D	गा १०१ पत्र ३२	यशोविजय स्वोपन		यशत अ १
२१	मार्गपरिशुद्धि	पत्र १०	यशोविजय		कोडाय
२२	मुक्ताशुक्ति E		यशोविजय		
२३	यतिलक्षण समुच्चय	२६३	यशोविजय		पा ३-५
२४	धैर्याग्यकल्पलता	६७५०	यशोविजय		पा ५, यशत
२५	षोडशक वृत्ति	१२००	यशोविजय		भावनगर.
२६	सामाचारि प्रकरण I वृत्ति	पत्र ३२	यशोविजय स्वोपन		भावनगर, भावनगर

A एतु शिबु नाम महाभारत खर पत्र छ । पीठन एतयात गान्धियायत भारतनी तौव गाँ तातत राजा विराटमा पत्र १९४ मा सदरतु प्रतु एतयातो छ । १७३६ 'गाथा' ७

B पयात आनन्दमयाजा तयात छ के आ टीका उपयात जनी एत एतयात जगत आर १२०० ती पूरगिता ग उता आचार २ ती छ एत तयात हल्लमा छे

C आ प्रारत प्रतुव माताना रगोटे छ । जने छे एतयात भरण ७

D अमरकान्दना टयात अशरमा) गा टीका पत्र ३० ती तौण्ट छ

E आ एत त ५ प्रकरणतयात प्रथमता ये एतत छ । एत ५ एतयात । तयात १

F १। प्रकरण एक भागमानी टीकाने तनी वृत्ति रूपे तौण्टु छ

नंबर	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता	रचया- नो स	क्यां छे ?
२७	स्याद्वादकल्पलता A	१३०००	यशोविजय		पा. ५
२८	स्तोत्रत्रय B				
	संखेश्वर स्तोत्र	का ११२	यशोविजय		खंवात.
	गोडीपार्श्वस्तोत्र	का. १०८	यशोविजय		खंवात.
	समीकापार्श्वस्तोत्र	का ९	यशोविजय		खंवात-
२९	स्तोत्रावलि	पत्र ७	यशोविजय		अ १

A हरिभद्रसूक्तित शास्त्रवार्ता समुच्चयना उपर आ टीका रचेली छे.

B आमा त्रण स्तोत्रो छे तेमना नीचे क्रमवार नाम नौथ्या छे, आ त्रणे स्तोत्रना काव्य अपूर्व छे. माटे उतारवा बायक छे, आ स्तोत्रनी प्रत यशोविजयजीए स्वहस्तेज लखी होय एम लागे छे.

नंबर	नाम	श्लोक	वर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
	महो० श्रीयशोविजयजी कृत न मळता दशग्रथ. A				
१	छद्दश्चूडामणिटीका		यशोविजय		
२	ज्ञानाणव		यशोविजय		
३	विमत्यालोक		यशोविजय		
४	पातजलकेवत्यपाद्भृत्ति		यशोविजय		
५	मगलपाद्		यशोविजय		
६	मागशुद्धि पृचारि		यशोविजय		
७	लताद्वय		यशोविजय		
८	विधिवाद		यशोविजय		
९	सिद्धात तरु परिष्कार		यशोविजय		
१०	स्याद्वादहर्म्य		यशोविजय		

A आ दश ग्रथो नापरन्त ओंपीस तरक्या प्रगट यता मासिन इरैडना सन १९०६ ना एप्रिल मासना अस्मा टाइटल पेनर नोंधाया छे, त परथी तेमा नामो अने इहा दशाया छे परछु जत्यत दिलगिरीनी वात ए छ के, आ उपर जणावैला दश ग्रथोना नाम जाणवामा आव्या उता तमानो एक पण ग्रथ अत्यार सुधीमा हाथ लग्यो तथा ता सुख मुनि महाराजाओने अमार नम्र सूचना ए छ के, एमानो जे जे ग्रथ तजोत्रा पासे होय ता ते अगर त क्या जगाए मळी शक्ये त जाणवामा जायु होय तो ते सत्रथा माहिती अमने लखा जणावना कृपा करवी उपरलि जाया अस्तुपयोगा सुम यता ग्रथोने प्रजासामा लखवा तेजोए ननतो प्रयास करवो जोरवे

आ रात अत्यार सुधीमा अमोने उपर जणाया मुनर यणाविजयजी उपाध्याये रचैला ग्रथो कुल जोगणचारिसन हाथ आव्या छे, त प्रमाणे आ लिस्टमा दाखल कया छे त शिवाय तेमना रचला कटलर प्रकरणो विद्यमान होवा छता हाथ लग्या नथी जनायवी ए भाय छे के, ते प्रकरणो घणान टर सुदतमा एल सुमारे जर्सीसो वपना दरमियान सुम थइ गवा लाग छे छता तेमाना नेटलर प्रकरणो जमदानादना पयाण दयाभिमलजी महाराजा भदारमा उ एम सामळयामा आवु छे तो ते महाराजा र किा जा सुम यता ग्रथोनी पटैली मोगी रट्टो काइपण रीत पृथी पाठी सखल सधना आभारज पान थो एनी इमारी तेमन नम्र प्रायाता उ

क्र.सं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रचयिता- नो स	क्यां छे ?
	कोडायमां अवशेष रहेला कटकाना नाम.				
१	तत्वविवेक A		यशोविजय		
२	स्याद्वादमंजूपा B		यशोविजय		
३	(कूपना दृष्टांत परग्रथ)C		यशोविजय		

A तत्वविवेकनु फक्त प्रथम पत्र कोडायमा छे.

B महिषेणसूरि रचित स्याद्वादमंजूपा उपर यशोविजयजीए आ स्याद्वादमंजूपा रची छे, तेना द्वापटना थोडाक पाना के कोडायमा छे.

C आ ग्रथनु फक्त प्रथम पत्र कोडायमा छे.

अध्यात्मना ग्रथो.

क्र.सं.	ग्रंथ	पृ.सं.	वर्ण	परिच्छेद	वर्णितेति
१	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र	१	पृ. १-४ काशी
१	पूर्व	२०	सुविमुद्र A	१	पृ. १ काशी
१	पूर्व (पृ. १)	२०८८	सुविमुद्र	१२१८	पृ. २५०
१	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र B	१	पृ. १ काशी
१	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र C	१	पृ. १ काशी
२	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र D	१	पृ. १ काशी
३	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र E	१	पृ. १ काशी
४	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र F	१	पृ. १ काशी
५	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र G	१	पृ. १ काशी
६	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र H	१	पृ. १ काशी
७	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र I	१	पृ. १ काशी
८	संस्कृतसूत्रम्	५०	सुविमुद्र J	१	पृ. १ काशी

A १५० पृ.सं. काशी १९००

B १५० पृ.सं. काशी १९००

C १५० पृ.सं. काशी १९००

D १५० पृ.सं. काशी १९००

E १५० पृ.सं. काशी १९००

F १५० पृ.सं. काशी १९००

G १५० पृ.सं. काशी १९००

H १५० पृ.सं. काशी १९००

I १५० पृ.सं. काशी १९००

J १५० पृ.सं. काशी १९००

K १५० पृ.सं. काशी १९००

L १५० पृ.सं. काशी १९००

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्यानो सं.	क्यां छे ?
९	आत्मानुशासन टीका	७० नाड १४७	पार्श्वनाग	१०४२	पा. २-३. पा २
१०	आत्मानुशासन		गुणभद्र A		A. S.
११	आनदसमुच्चय B				वृ.
१२	उपदेशरत्नमाला	३१००	सकलभूषण (दिगं)	१६२७	A. S.
१३	चारित्रसार	१५००	चामुडराज C (दिगं)		A. S.
१४	चिह्नसमाधि प्रकरण D	३००	(वृटक)		जेसलमेर
१५	जिनप्रवचनरहस्यकोश	३०२	अमृतचंद्र		पा ३-५
१६	ज्ञानप्रकाश E	गा ११३			पा. २.
१७	ज्ञानदीपिका F				वृ.
१८	ज्ञानतरंगिणी	पत्र ३६	(ज्ञानभूषण दिगं)	१५६०	पा. ५

A गुणभद्रसुरि त्रण यया छे जेमा ते दिगवर थया अने एक खेतावर छे. हवे आ ग्रथकार कया गुणभद्र छे ते ग्रंथ तपाव्याथी मालूम पड़े छता अमारा बारवा मुजव ते दिगवर होवा संभव छे.

B एना माटे फक्त बृहत्त्रिग्निकामा नीचे मुजव उल्लेख छे:—

“ आनदसमुच्चयोऽध्यात्मशास्त्रं बहुप्रकरणमथ ” ते उपरात कई माहिती मळी नथी.

C चामुडराज स. १०३५ मा हता एम श्रवण वेल्गोलाना लेखमां छे एम पीटर्सनना चोथा रिपोर्टमा नोंथु छे.

D आ प्रकरण फक्त जेसलमेरनी दीगालले करेली टीपमा नोंथु छे अने ते वृटक छे एम जगान्वेल छे. पण ते संवेदी तपास करता कई पण पुरावे मळतो नथी, ते कोणे रच्यु छे अने तेनु खरं नाम शु छे ते वावत नक्की करवा जेसलमेरना भडारमानी तेनी प्रत नजरे जोया वगर खात्री थवी मुश्केल छे

E आ ग्रंथ फक्त पाटणना बीजा भंडारनी टीपमा नोंवायो छे, अने ते प्राकृतमा रचावेलो छे माटे उतारवा योग्य छे.

F ज्ञानदीपिकाने माटे बृहत्त्रिग्निकामा “ ज्ञानदीपिका पिंडस्थान्दिव्यानवाच्या ” आ रीति उल्लेख छे, पण ते क्या पण उपलब्ध थई नथी माटे शोवकजनोए ते कोणे रची छे अने क्या छे ते वावत शोवखोल करी तेनी प्रत भेळवी उतारो करावी लेवो जोइये.

नं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रज्या- नो सं.	क्या छे ?
३१	परमात्मप्रकाश (दूहा)	३४५	योगाद्रदेव		डेकन P. ७.
३२	परमसुखद्वारिशिका टीका A	४० ताड ६५.	जिनप्रभ		जेसलमेर. पा २
३३	पञ्चनदिपचविंशतिका		(दिग) पञ्चनदि		पा १ लॉयडी.
३४	परमानन्दपंचविंशतिका	पत्र १			अ. १
३५	प्रबोधसार	५००	(दिग) यशःकीर्ति		A. S.
३६	पुरपार्थसिद्ध्युपाय टीका B	२२७	(दिग) अमृतचंद्र		पा. ३-५. A. S. A. S P. 4
३७	बुद्धिसागर	४०२	संग्रामसिंह		पा. ५ डेकन.
३८	मनःस्थिरीकरण विवरण	२३००	महेंद्रासिंह C		पा. २
३९	योगप्रदीप	१२७०	शुभचंद्र		पा १-३-५
४०	योगकल्पद्रुम	४१५	विरूपाक्ष		वृ पा १-४
४१	योगसार	२०६	योगचंद्र D		वृ ३-४ लॉयडी.

A आ टीका फक्त पाठना बीजा भडारनी टीपमा नोधी छे पण ते कोणे रची छे ते संबन्धी हकीकत जाणवामा आयी नथी छता ते ताडपत्र पर लखेली होयाथी तेनी नकल करावी लेवानी जरूर छे.

B टीका तेना मूळ साथे पिटर्सनना रिपोर्ट चोथामा नोधी छे. पण ते केटला श्लोकनी छे, ते सबधी केंद्र हकीकत आयी नथी. तो ते कोणे रची हसे अने केटला श्लोक प्रमाणनी छे त बाबत तपास करी नकी करवी जोइथे.

C आ महेंद्रासिंहसरि ते आचलिक धर्मशोध समिना शिष्य के जेमणे शतपदिका नामनो अश्र विक्रम सं. १२९४ मा रचेल छे, ते छे के बीजा छे त प्रशस्ति जोये मालम पडे तेम छे.

D आ योगचंद्र क्यारे थवा छे ते जाणवामा आव्यु नथी.

लीस्ट नंबर ४.

—००००—
जैन फिलॉसोफी.

प्रक्रियाग्रथो.

क्र.सं.	नाम	रुगक	वक्ता	रव्या नो स	क्या छे ?
	वर्ग १ लो				
	कर्मग्रथो A				
	(१) कर्मप्रवृत्ति B मा ४१५	६००	शिवशर्म C		वृ पा ३ सुलभ्य
	चूणि D	७०००			वृ पा २ जे स
	टिप्पनरु	१९२०	मुनिचन्द्र		वृ जेसल D
	वृत्ति (सखुव)	८००	मलयगिरि		वृ पा ३-४ सुलभ्य
	वृत्ति	१३०००	यशोविजय		पा ३ मु को
	(२) पंचसग्रह F		चन्द्रपिमहत्तर		वृ
	वृत्ति G		स्वोपश		वृ
	वृत्ति	१८८५०	मलयगिरि		पा १-२-३ लीं

A आ मयाळा नीच कर्मसबधी वणनना पाच ग्रथ नोंप्या छे

B एने प्राकृतमा "कर्मप्रवृत्ति" कह छे ए ग्रथ कर्मप्रवाद नामना पूर्वमाधी उद्धत करेल छे एम तेमा तणावु छे दिगमरागायमा नमिचन्द्रसैदानिक रचैगी बाजा कर्मप्रवृत्ति आठरे श्येन अदीलता छे जने ते पाठना न ४ तथा ६ वाळा भडारमा छे

C निवशमगिरि देवर्द्धिगाणनाभमणधी पूर्वे थह गवा छे केमके नदियुवनी स्थविरावलीमा कम्मपय-टिपु नाम आपल छे तेधी ए ग्रथ अत्यंत प्राचिन छे.

D एमा वदनादि आठ करण दणवला छे

E तेसलभरता ते टापमा एन विपेयुषि तराणे नोंप्यु छे

I पंचसग्रहमा गतक-सतनिना-कथाप्रामुत-सुद्धम जने कर्मप्रवृत्ति ए नामता पाच ग्रथमा छे

G आ वृत्ति वृत्तिप्रवृत्तिनामा नोंपी छे एण ते काद भडारमा उपग्रथ यर नथी एता माठ ते टिप्पनिनामा त ते मुनव उतरल छे —

"पञ्चसग्रहव गतक १ शरतिना, २ कथाप्रामुत, ३ सुद्धम, ४ कर्मप्रवृत्ति, ५ समदात्मकवृत्ति एतासलभरतिना पणनविना त"

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ	ક્યાં છે ?
	દીપક A (૩) પાંચ પ્રાચીનકર્મગ્રંથ	૨૫૦૦	જિનેશ્વર શિષ્ય વામદેવ B		નર્ગીનદાસ
	(૨) કર્મચિપાક	ગા. ૧૬૮	ગર્ગર્ષિ C		નર્ગીનદાસ
	વૃત્તિ	૯૨૨	પરમાનંદ D		વૃ નર્ગીન. હેક્કન પા ૬
	ટિપ્પન	૪૨૦	ઉદયપ્રમ E		વૃ. ઇ. ૨
	(૨) કર્મસ્તવ	ગા. ૫૭			વૃ નર્ગીનદાસ
	માધ્ય F	પત્ર ૧૦			પા. ૨—૫
	વૃત્તિ	૧૦૯૦	ગોવિંદાચાર્ય G		વૃ પા. ૫ હે. લી. કો.
	વૃત્તિ		હરિભદ્ર H		પા. ૨
	ટિપ્પન	૨૯૨	ઉદયપ્રમ		વૃ.

A આ દીપક તે કોઈ દીપકનામની વૃત્તિ હોવી જોઈએ.

B આ વામદેવસૂરિનો વધુ ઇતિહાસ જાણવા માટે પ્રશસ્તિ જોવાની જરૂર છે.

C ગર્ગર્ષિને ઉપમિતિભવપ્રપચ્ચાની પ્રશસ્તિમા સિદ્ધર્ષિએ પોતાના ઠીક્ષાદાયક ગુરુ તરીકે જણાવ્યા છે. હવે સિદ્ધર્ષિએ તે કયા સ. ૯૬૨ મા રચી છે, માટે ગર્ગર્ષિ ત સમયના પૂર્વે યયા છે.

D પરમાનંદસૂરિની વશાવલી આપ્રમાણે છે:—

“ મદ્રેશ્વરસૂરિ-શાતિસૂરિ-અમયદેવસૂરિ અને પરમાનંદ તેઓ કુમારપાલના રાજ્યમાં સં. ૧૨૨૧ માં હતા. એમ સ્વત્રાતના નર્ગીનદાસના મહારમા રહેલી તિલકસુદરી અને રત્નચૂડની કથાના પુસ્તકમા નોધ છે. જુવો રિપોર્ટ ૩ પેજ ૬૯.

E ઉદયપ્રમસૂરિએ સં. ૧૨૯૯ મા ઉપદેશમાલ્લાની કર્ણિકાવૃત્તિ રચેલી છે.

F આ માધ્ય પાટળના મંડારમા તાડપત્ર ઉપર લલેલ છે.

G ગોવિંદાચાર્યના ગુરુતુ નામ દેવનાગ છે.

H પાટળની ટીપમા આ હરિભદ્રને જિનદેવના શિષ્ય લલ્યા છે.*

नं०	नाम	श्लोक	यत्ता	रक्या नो स	क्या छे ?
(३)	धधस्वामित्व				
	वृत्ति	५६०	हरिभद्र	११७२	वृ जेसल
(४)	पडशीति A		जिनवल्लभ		वृ सुलभ्य
	भाष्य				पा ३-५
	वृत्ति	८५०	हरिभद्र	११७२	वृ पा ?
	वृत्ति (भा)	८०५	रामदेव B		वृ जेसल
	वृत्ति	२०००	मलयगिरि		वृ पा २-४-५
	वृत्ति	१६३०	यशोदेव		वृ
	विपरण	पत्र ३२	मेरवाचन		अ २
	अवचरि	७०			ख
	उद्धार	१६००			ख
(५)	शतक	गा १११	शिवशम		उक्तन
	भाष्य	गा २५			डे पा ३
	चूणि	२३८०			टू पा २-३ जे अ २
	वृत्ति	१७४०	मलधारि हेमचन्द्र		वृ पा ४-५ डे
	टिप्पन	९७४	उत्तयप्रम		टू
	अवचरि	पत्र २५	गुणरत्न		पा ४

A प* तिविनु धातुं नाम आगमिष्यत्यन्विचारसार दे

B रामदेवगणि पितरन्मग्यरिता गिय ह्या

नंबर	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचया- नो स.	क्यां छे ?
२	क्षेत्रसमास				
	(१)'नमिऊण' क्षेत्रसमास ^A	गा. ३७	जिनभद्रगणि		पा. २-४ ली. डेकन.
	वृत्ति	३०००	सिद्धसूरि (देवगुप्तशिष्य)	११९२	वृ पा. १-२-५
	वृत्ति	७८८७	मलयगिरि		वृ. पा. ३. डे. को
	(२)'नमिऊणसजल'क्षेत्र ^B	गा. १२७	जिनभद्रगणि		पा. ३ भा.अ.२ली खं.
	वृत्ति	३२५६	विजयसिंह	१२१५	पा. ४-५ भाव.
	वृत्ति	२०००	आनंदसूरि (जिनेश्वर शिष्य)		पा. ५ लीं.
	वृत्ति	३३३२	देवानंद (पद्मप्रभशिष्य)	१४५५	पा. ५ अ. २
	वृत्ति	५११	हरिभद्रसूरि ^C		वृ.पा १-३अ.२. जे डे.
	(३)'नमित्तुवीरं'क्षेत्रस. ^D	गा. ३४१	श्रीचंद्र		नर्गानदास.
	वृत्ति ^E	१०००	देवभद्र	१२३३	वृ

A. आ क्षेत्रसमासने साधारण रीते वृहत् क्षेत्रसमासना नामथी ओळखवामा आवे छे, तेनी आदिमां " नमिऊण सजल जलहर " ए प्रथमपद होवाथी अमे तेनी विशेष ओळख कराववा सोटे ते नामे इहां नोंधो छे.

B आ क्षेत्रसमासने लघु क्षेत्रसमासना नामे ओळखवामा आवे छे, तेना कर्त्ता जिनभद्रगणि छे एम पीटर्सनना पेला रिपोर्टमां पाने २६ मे नोथ्युं छे. छातां ते सबधे तेनी टीकापरथी चोकस निर्णय थई शकसे. आ क्षेत्रसमासनी गाथाओ कोई प्रतमां थोडी वधु तो कोईमा थोडी कमी मळे छे मोटे टीकापरथी ते नक्की करवा जोईये. एनुं आदिपद पण " नमिऊण सजलजलहर " छे, वली आ ग्रंथने जंवूदीपप्रकरण तरीके पण ओळखवामा आवे छे.

C आ हरिभद्रसूरि याकिनीसुनु छे के बीजा छे ते प्रत जोवाथी जाणीशकाय तेम, छे.

D एनुं आदिपद " नमित्तु वीरं सयल्लयसाहग " छे.

E आ वृत्ति वृहत्तीट्ठणनिकाकारे वृहत्क्षेत्रसमासनी वृत्ति तरीके नोधी छे, पण अमाग अनुमाने ते आ क्षेत्रसमासनी होवी जोईये. कारणके मूलकार श्रीचंद्रसूरि आ वृत्तिकारना गुप्त थाय छे मोटे गुरुना ग्रंथपर शिष्ये टीका करी होवी जोईये. छाता चोकस निर्णय ग्रथ जोये थई शके पण ते ग्रथ हज्जुगण अमने कोई भडारमां हाथ लाग्यो नथी.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे?
	(४) पद्मदेवीय क्षेत्रस० A	गा ६५६	पद्मदेव B		पा २
	(५) वीरजय' क्षेत्रस० C	२६२	रत्नशेखर D		पा १-३ मुद्रित
	वृत्ति	१६००	स्वोपज्ञ		पा १-३-४ सुलभ्य
	(६) सरकृत क्षेत्रस E	५०७	उमास्वातिनाचक्र		वृ पा ४ अ १-२
	वृत्ति	२८००			अ १

A आ क्षेत्रसमासनु आदिपद जणासु नथी एन्ले तेने कृताना नामे जोळपावको पङ्को छे एनी गा ६५६ उ के श्लोक ६५६ उ ते माटे ग्रथ तपासवानी जरूर छे

B पद्मदेवसुरे ते थया छे त्या एक पद्मदेव मानतुगसुरिना पाटे विरान्तार हता अने वीजा मलधारि नरचद्रसुरिना वशमा थया जे श्रीतिल्व उपाध्यायना गुह हता आ ग्रीचा पद्मदेवसुरि स १२०१ थी १२९६ ना समयमा हता अने पेला पद्मदेव स १२९२ मा हयात हता माटे समकालीन गणी शक्राय ते शिवाय पाटखने पाचमा रिपोटमा ग्रीजा पद्मदेवसुरि लक्ष्मचद्रगणिना गुह तरिके तुदा जणाव्या छे, पण अमारा धारवा मुजर तेओ ऊपरना ते पद्मसुरिमाना एक होवा जोइय कारणके फक्त सिप्पना नामपरथी ग्रीजा पद्मदेवसुरि थया होय एम मानी शकतु सुदरेल छे

हवे आ व पद्मदेवमाथी कया पद्मदेवसुरिए आ ग्रथ रच्यो छे ते ते ग्रथनी प्रशस्ति जोपाथी जणाय तेम छे, माटे ए ग्रथनो जायत तपासवानी जरूर छे

C आ क्षेत्रसमासनु आदिपद " वीरजयसेहरण्य " एवु छे जा क्षेत्रसमास आजनाल शास्त्रोमा विशेष प्रचलित छ

D रत्नशेखरसुरिए स १४९६ मा अथदीपिका नामे पद्मावदयकनी वृत्ति रची छे

E आ सरकृत क्षेत्रसमास चार आदिकनो छे पाण्णनी दीपमा तेना श्लोक ५०७ एलेला छे, जमदावादीनी चचलवाना मडारनी दीपमा श्लोक १३२१ आपेला छे अने डेलानी दीपमा ते सर्गीक जणावने तेना पत्र ४४ नोंप्या छे, ते माटे डेलानी ग्रथ तपासा चौकशी करनी नोइदी छे आ क्षेत्रसमासने जनदीपसमास पण वदे छे

श्रुति	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो स.	क्यां छे ?
५	वृत्ति	पत्र १४	रूपचंद्र A		अ. १
	अवचूरि				पा. १
	भहादंडक (अवचूरि)				पा. ३
	नवतत्वना ग्रंथो.				
	(१)नवतत्व B	गा. ५३			मुद्रित.
	वृत्ति	ताड.५४	अंवप्रसाद C	१२२०	पा. १-२.
	वृत्ति				कुळमंडन
	वृत्ति		देवेंद्र		अ. २
	वृत्ति		समयसुंदर		अ. २
	वृत्ति	४००			लीवडी
	विवरण	१३००			डेकन.
	अवचूरि		हर्षवर्धन		अ. २
	अवचूरि		साधुरत्नसूरि D		पा. १-३-४
	(२) नवतत्वविचार E	१२८			पा. ४ अ. १

A रूपचंद्रमुनि गई सदीमां थया छे ते छे के बीजा कोई छे ते प्रत जोयाथी मालम पडे तेम छे.

B नवतत्व कोण रच्यु छे ते जाणवामा आव्यु नथी केमके तेना प्राते कर्त्तानुं नाम मळतु नथी.

C अंवप्रसाद ए नामना माटे पाटणभा रहेली ताडपत्रनी प्रत फरी तपाशवी घटे छे.

D साधुरत्नसूरि स. १४५६ मां यतिजीतकल्पनी टीका रची छे.

E आ ग्रंथ सस्कृतमा छे. अमदावादाना डेलाना भंडारनी टीपमां तेनुं नाम नवतत्वविचारसार आयु छे अने ते पत्र ८ नु नोखु छे.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચનાનો સ	ક્યા છે ?
૬	સારોદ્ધાર A	ગા ૮			હેક્કન
	(૩)નવતત્ત્વગાથા B		દેવગુપ્ત C		વૃ
	ભાષ્ય	ગા ૧૫૩	નવાગીવાર અ		વૃ હેક્કન
	વૃત્તિ	૨૪૦૦	મયદેવ	૧૧૭૪	વૃ હેક્કન પા ૩-૪
	(૪)વૃહદ્ભવતત્ત્વ D		યશોદેવ		હેક્કન
	સમ્પ્રહણીના પ્રયો				
	(૧)જિનમદ્રીય વૃહદ્	મા ૫૨૦	જિનમદ્રગણિ		પા ૪ ય
	સમ્પ્રહણી E	૨૫૦૦	શાલિમદ્ર F	૧૧૩૯	વૃ પા ૩ ૪ ૫ હેક્કન
	વૃત્તિ	૫૦૦૦	મલ્લયગિરિ		વૃ સુલભ્ય
	વૃત્તિ G	પત્ર ૪૭	જિનવહ્લમ		લેસલમેર ધે

A આ નવતત્ત્વવિચારણાસારોદ્ધારની જાઠ ગાથા છે અને તેનું આદિપદ “ અરહતા મગવતા ” એવું છે તે હેક્કનજૌલેનમા તાડપત્ર ક્રમ છે

B “ યગનિહ સમ્મદ્દ ” इत्यादि नवतत्त्वनी गाथाओ છે

C દેવગુપ્તવૃત્તિ અપરનામ વિનચંદ્ર છે તેઓ ઉકેશમચ્છના હતા અને તમણ ૪ ૧૦૭૩ માં પાત રચેલા નવપદમ્પરણક્રમ “ શ્રાવનાનદી ” નામના વૃત્તિ રચી છે

D વૃહદ્ભવતત્ત્વ કેટલી ગાથાનું છે તથા કોણે રચેલું છે તે સમ્પ્રી વદ્ પળ ફકીરત મઝતા તથા માટે એ સમ્પ્રી હેક્કનજૌલેનમાની તેની પ્રત તપાસવી જોઈએ છાયે

E આ સમ્પ્રહણાનું આદિપદ “ નિદ્ધવિય અદ્ધકમ્મ ” એવું છે

F શાલિમદ્રના શ્લોકે વીજ્ઞાનના રિયોટમા શીલમદ્ર નોંધ્યા છે, પણ વૃહદ્ ટિપ્પણિનામા તમણ પાઠગાની ઠીનોમાં તથા ટેલાગી ઠીપમાં શાલિમદ્ર નામ મળે છે, માં રિયોટમા નામનેર થયુ લખે છે અથવા કદાચ તમના પે નામ પણ હોય તો હોય

G વિનવદ્ધમદ્ધરિણ કરેલા સ્વત્ત્ર પ્રથ મને છે, પણ તેમને કેટલા વૃણ કોઈ પણ જાગવામાં આવી ત્યા, માટે આ વૃણ તેમનેજ કોઈ છે કે કેમ તે માટે તેની પ્રત પરિને નજરે લોવાની વસ્તુ રહ છે

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचया- नो स.	क्यां छे ?
	(२)प्रतिक्रमण संग्रहणी	गा. १६९			खं.
	(३)श्रीचंद्रीय संग्रहणी A	गा. ३१३	श्रीचंद्र		सुलभ्य.
	वृत्ति	३५००	मलधारि देवभद्र		सुलभ्य.
	अवचूरि	१६००	”		पा. १-३-४
	(४)संस्कृत संग्रहणी B	पत्र १६			भ. २
	(५)हारिभद्री जंबूद्वीप संग्रहणी वृत्ति	गा. ११२ ६६७	हरिभद्रसूरि प्रभानंद	१३९०	मुद्रित. पा. २-४-५
	(६)हारिभद्री लघुसंग्रहणी	गा. ३३	हरिभद्र		मुद्रित.

A आ संग्रहणीनुं आदिपद “ नमिउं अरिहंताई ” एवु छे.

B आ संस्कृत संग्रहणी कोणे रचेली छे ते माटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे.

નંબર	નામ	શ્લોક	કત્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે ?
	ધર્મ ૨ જો <hr/> મોટા ગ્રંથો.				
૧	ધમ્મસુવપ્રવરણ A	૩૨૭૦			પા ૨
૨	પ્રવચાસદોહ B વૃત્તિ C	ગા ૨૫૦			વૃ પા ૨-૬ વૃ
૩	પ્રવચનસારોદ્ધાર ગા ૧૬૦૬ વૃત્તિ વિપમપદ્ધર્પણ લઘુપ્રવચનસારોદ્ધાર E	૨૦૦૦ ૧૬૫૦૦ ૩૨૦૨ ૫૧ ૪	નેમિચદ્ર D સિદ્ધસો ઉદયપ્રમ E શ્રીચદ્ર	૧૨૪૨	મુદ્રિત વૃ પા ૧ ૨ ૪કો તુ વૃ પા ૧-૨ સ મરૂચ

A આ નામ પ્રાકૃત છે તેનું સ્ફુટ રૂપ ધર્મશ્રુત યદ્ શકે-પળ પાટળના ટીપમા "ધમાસુવપ્રવરણ" ના નામે નોંધ્યું છે માટે તેનું સ્ફુટરૂપ કેવું યાવ તે પ્રથમ તથા તેની અંદર ફક્તિત નોંધ નિર્ણય યદ્ શક તેમ છે તે કારણે અમે હા તેને પ્રાકૃત નામથી નોંધ્યું છે

B વૃદ્ધવૃત્તિપ્તિકામા અને " પવયણસદોહ " ઇવા પ્રાકૃતનામથી નોંધ્યું છે પરંતુ તેને અમે હા સ્ફુટ નામથી નોંધ્યું છે

C પ્રવચનસદોહની વૃત્તિ પદ્ધતિ વૃદ્ધવૃત્તિપ્તિકામા સ્ફેલી જણાય છે, પણ તે અમારા જોવામા હજીલગણ આવી નથી, માટે જે મુનિમહારાજ પાસે તે પ્રથમ હોય તેમણે તેની શ્લોકસંખ્યા લખાવવી

D નેમિચદ્રવરિષ્ઠ પ્રણ યથા છે એક સવદેવસૂરિના શિષ્ય અને પૂર્વીચદ્ર ચરિતના કર્તા શાલિવરિના શુક, વીજા સરતરણચંદની પટ્ટાવલ્લીમા નોંધેલા ઉચોત્તમવરિના શુક, અને શ્રીના સ ૧૧૨૯ મા ઉત્તમ ધ્યયનની લગુણિત રચનાર નેમિચદ્રવરિષ્ઠ ક જાઓ સૈદ્ધાંતિ-નિરોમણિ તરીકે ઓલ્લાપાયા છે આ ધરણેમાથા યથા નેમિચદ્રવરિષ્ઠ, આ પ્રથમ રચ્યો છે તે માટે એની ટીપામાથી સુલભો મેલ્લવા જોયે

E ઉદયપ્રમવરિષ્ઠ સ ૧૨૯૯ મા ઉપદેશમાલાના વર્ણિતવૃત્તિ રચ્યો છે

F આ પ્રથમ આનંદસાગરની મહારાજ પાસે પણ છે

न	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो स.	क्यां छे ?
४	लोकप्रकाश	१७६२१	विनयविजय	१७०८	सुलभ्य
५	विचारसार A	गा. ८९७	प्रद्युम्नसूरि B		वृ नगीनदास.
६	शास्त्रवार्त्तासंग्रह	पत्र ५४	शांत्याचार्य		भाव.
७	स्थानप्रतिद्वार C	३५४०			पा. २

A विचारसार माटे बृहत्पिप्पलिकामा आवो उल्लेख छे:—“ विचारसारप्रकरण प्रद्युम्नसूरिकृतं सोपयोगिवहसंग्रह गा. ८९७.” माटे बहु थोडे ठेकाणे हाल मळे छे.

B प्रद्युम्नसूरि आठ थया छे:—

१ प्रद्युम्नसूरि—ते यशोदेवसूरिना शिष्य अने मानदेवसूरिना गुरु हता, मानदेवसूरिना शिष्य विमलचंद्र थया अने तेमना शिष्य उद्योतनसूरि थया. एमणे सर्वदेवसूरिना मार्फत वडगच्छनी स्थापना स. ९९४ मा करावी माटे उद्योतनसूरिथी पूर्वे चौथी पेहेडीए थएला तेमना दादागुरु प्रद्युम्नसूरि स. ९०० ना लगभग थया होय एम मानीए तो मानी शकाय तेम छे.

२ प्रद्युम्नसूरि—सर्वदेवसूरिना शिष्य. सर्वदेवसूरिए सं. ९९४ मां वडगच्छनी स्थापना करी माटे तेमना शिष्य आ प्रद्युम्नसूरि स. १००० ना अरसामा थया गणी शकाय.

३ प्रद्युम्नसूरि—एओ राजगच्छना हता अने तेओना शिष्य अभयदेवसूरि थया के लेमणे सम्मतितर्कनी टीका रची छे. ए अभयदेवसूरिना शिष्य शातिसूरि थया अने ते संवत् १०९६ मा स्वर्गवासी थया तेपरथी एम अनुमान बाधी शकाय के तेमना दादागुरु स. १०५० ना अरसामा होवा जोहये.

४ प्रद्युम्नसूरि—ते यशोभद्रसूरिना शिष्य हता. तेमना शिष्य गुणसेन थया, तेमना शिष्य देवचंद्रसूरि थया अने तेमना शिष्य ते हेमसूरि थया. हेमसूरिना गुरु देवचंद्रसूरिए सं. ११६० मा प्राकृत शाति-चरित्र रचेल छे तो तेमनी चौथी पेहेडीए थएला प्रद्युम्नसूरि स. ११०० ना लगभग थया मानी शकाय. आ प्रद्युम्नसूरिए मूळशुद्धिप्रकरण रचेलु छे. के जेनु बीजु नाम स्थानकप्रकरण छे अने तेना ऊपर हेमसूरिना गुरु देवचंद्रसूरिए वृत्ति रचेली छे.

५ प्रद्युम्नसूरि—ते सं. ११५९ मां पूर्णिमापक्षना स्थापनार चंद्रप्रभसूरिना गुरु थया छे.

६ प्रद्युम्नसूरि—ते बुद्धिसागरसूरिना शिष्य अने देवचंद्रसूरिना गुरु स. १२९२ मा थएला छे.

७ प्रद्युम्नसूरि ते स. १२९४ मा थएला धर्मघोषसूरिना शिष्य देवप्रभसूरिना शिष्य हता. एटले तेओ स. १३२५ ना अरसामां थया गणी शकाय.

८ प्रद्युम्नसूरि ते कनकप्रभसूरिना शिष्य हता तेओए सं. १३२२ मां विवेकर्मजरीनी टीका गोवी छे तथा सं. १३३४ मा शालिभद्र चरित्र शोधेल छे.

आ रीते आ आठ प्रद्युम्नसूरिओमाना सातमा देवप्रभसूरिना शिष्य प्रद्युम्नसूरिए आ विचारसार प्रकरण रचेलु छे (जुवो पीटर्सनना रिपोर्ट त्रीजानो पेज २७०)

C आ ग्रंथनु नाम पण अपूर्व जेजु लागे छे छता तेमां श्री विना छे ते ग्रंथ जोयाथी जाणी शकाय माटे पाटणमा ताडपत्रपर रहेला आ ग्रंथनी नकल उतराववी जोहये.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે ?
	વર્ગ ૩ જો —+— સપ્તહ ગ્રંથો.				
૧	અનેકશાસ્ત્રસારસમુદાય A	૧૧ ૦		૧૬૮૫	હેક્કન
૨	અનેકપ્રથવિચારસપ્તહ	પન્ન ૩૯			અ ૧
૩	કર્મોદિવિચાર સાર				હેક્કન પેજ ૧૭૨
૪	શાધાચિચાર	૭૦૭			પા ૪
૫	શાધાસહસ્રી B		સમયસુદર		પીટર્સનરિપોર્ટ૩મા અ
૬	પ્રથમસારસમુદાય	૩૪૦	કુલમદ્ર		હેક્કન
૭	જીવાજીવચિચારીવિવરણ C	૩૦૦૦			જેસલમેર
૮	દ્રવ્યપર્યાયસ્વરૂપ C	૬૦૦			જેસલમેર
૯	નાનાચિચારસપ્તહ	પન્ન ૨૦			અ ૧
૧૦	નિ શેપસિદ્ધાંતવિચાર D	૩૬૭૦	વિમલસુરિશિ પ્ય ચદ્રકીર્તિ		નગીનદામ

A હેક્કનફોલિંગમા એ ગ્રંથની પ્રત સ ૧૪૬૧ મા લગાયલી મોજુદ છે

B આ ગ્રંથ પીટર્સનના ત્રીજા રિપોર્ટમા અમદાવાદના પુસ્તકોના આચતના ઉતારા લતા ત્યા નોંધ્યો છે.

CC આ બે ગ્રંથ જેસલમેરના ટીપમા ફીચરલાલે નોંધ્યા છે અને તે તૂટક છે એમ જણાવુ છે અમારા ધારણા મુતવ પેલો ગ્રંથ જીવનવિચારુ જ વિવરણ હોય તો હોય માટે તેની પ્રત જોઈ નકા કરણુ જોડમે આવે.

D ણના જે રાજ છે પેલા સહમા શ્લોક ૨૦૦૦ છે અને ધીનામા શ્લોક ૧૬૭૦ છે આ ગ્રંથની પ્રત સ ૧૨૧૨ માં લટેલી સ્વાતના નગીનદાસગોઠના મહારમા મોજુદ છે ણના અપરનામ "સિદ્ધાંતવિચાર" ત્યા 'સિદ્ધાંતોદ્ધાર' ણવા છ (જુનો પેલો રિપોર્ટ પેજ ૩૨-૩૩)

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्या- नो स	प्यां छे ?
११	प्रवचनविचारसार A		नयकुंजर B		पा. १-३ को.
१२	पंचसप्तत्यधिकार	पत्र ४६			डेकन रिपोर्ट पेज ३०
१३	पंचास्तिप्रबोधसंबंध		शुभशील		डेकन
१४	विचाररत्नसंग्रह	१४०००	जयसोम	१६५७	पीटर्सन रिपोर्ट ३ मां अमदावाद
१५	विचाररत्नसार	पत्र २३			अ. १
१६	विचाररत्नाकर	९६१०	कीर्तिविजयगणि		पा. २-३-४ ५ को.
१७	विचारसारसंग्रह	७११३			पा. ४
१८	विचारसारसंग्रह (वीजो)	पत्र १८			अ. १
१९	विचारशतक	पत्र ४५	समयसुंदर		अ. १
२०	विशेषशतक	पत्र ५७	समयसुंदर		अ. १
२१	विविधरत्नाकर	१८०००			कोडाय.
२२	शास्त्रसारसमुद्धार C	१३००			जेसलमेर.
२३	श्रुतविचार D				पा. ४

A आ प्रथमा जूदा जूदा आळावा सघरी नोधेल छे.

B नयकुंजर उपाध्याय अद्वारमी सदीमा हता एम सांभळ्यु छे.

C जेसलमेरनी टीपमा हीरालले आ ग्रंथ "सस्कृतगद्य-तूटक" करीने नोधेल छे. माटे ते शो प्रथ छे तेनी तपास करवी जोइये.

D आ श्रुतविचार प्राकृतमां छे एम पाठगनी टीपमा नोध्यु छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रुच्य नो स	क्या छे ?
२४	पट्कायस्थितिबिचार A	२००			जेसलमेर
२५	सारसमुच्चय	पत्र ८			डेकन पेज ६५
२६	सिद्धांतविचार	७२२	समयमाणिक्य		पा ४
२७	सिद्धांतविचारसंग्रह	पत्र १६५			अ १
२८	सिद्धांतशुद्धी	पत्र १२१			पा ४

A जेसलमेरनी दीपमा हाणलाले आ मय नोंधेल छे, पण ते कोई ग्रंथेना वृत्ति छे के केम ते
अक पढती बिना छे

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रचया- नो सं.	क्यां छे ?
१७	द्रव्यप्रकाशप्रकरण A				अ. १
१८	पदार्थस्थापनासंग्रहप्रकरण	गा. ११९	वर्द्धमानसूरि B शिष्य चक्रेश्वर		लीवडी.
१९	पुद्गलपरावर्त्तस्वरूप प्रकरण अवचूरि	पद्य २			अ. १ अ. १
२०	पुद्गलभगप्रकरण अवचूरि C	पद्य ७	नयविजय D		अ. १ डेकन पेज २१५
२१	पंचनिर्ग्रंथीप्रकरण अवचूरि पंचनिर्ग्रंथीप्रकरण E (बीजुं)	गा १०५ २६०	अभयदेव यशोविजय		पा. २-३-४ सुलभ्य. पा. ३-५ डेकन
२२	पंचलिङ्गीप्रकरण F वृत्ति लघुवृत्ति	गा. १०१ ६६०० १३४८	जिनेश्वर जिनपति सर्वराज		पा. ४ ली. पा. १-४ डेसल पा. ४

A आ त्रय संग्रहणीना सरखो छे.

B आ चक्रेश्वरसूरिना माटे स. ११८७ मां दश पुस्तक लखवामा आव्या छे. जुवो रिपोर्ट ५ मानो पेज ५८.

C डेकनकॉलेजना रिपोर्टमां एने " विवृत्ति" तरीके नोधी छे.

D आ नयविजयगणी ते यशोविजयजी उपाध्यायना गुरु छे के केम ते प्रत जोवाधी जाणी सकाय तेम छे.

E डेकनकॉलेजना रिपोर्टमां पेज ३० मां आ प्रकरण नोधेल छे. पण कर्त्ताना नाममा शक रहे छे माटे तेनी प्रत नजरे तपासवानी जरूर छे.

F लीवडीनी टीपमां एनी गाथा ५२ नोधी छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या ले ?
	टिप्पन A		जिनपाल B		पा १ अ २ डे
२३	प्रवचनसारप्रकरण C	३००			जेसल
२४	वधोदयप्रकरण				अ १
	• अचचूरि	पत्र ५			अ १
२५	बंधहेतुदयविभंगीप्रकरण		हर्षकुल		अ १ डेकन
	वृत्ति	७००	आनदविजयD		अ. १ डेकन
२६	भावप्रकरण	गा ३०	विजयविनल	१६२३	पा ३ लॉ
	अचचूरि	पत्र ७	स्वोपन्न		पा ३ लॉ
२७	मोहनीयवधप्रकरण	पत्र २			अ १
२८	मडलप्रकरण	गा ९९	विनयकुशल		पा. ३
	वृत्ति		"	१६५३	पा ३
२९	रत्नसचय				पा ३ थो
३०	विचारमजरीप्रकरण	पत्र ७	नगोप		अ २ राधणपुर
३१	विचाररत्नायनप्रकरण E	गा. ८७	महेश्वरसूरि	१५७३	नगीनदास
	अचचूरि				अ १

A आ टिप्पन चचलनाईनी दीपमा पत्र १५९ नु नोंथु छ, पण अमाय धारता मुतर तनी
आदिमा काइ बाजी प्रथ ह्ये अने प्रातमा आ टिप्पा ह्ये

B जिनपालनाणिए स १०९४ मा चचरीनी वृत्ति रची छे

C हीरालाले मा प्रथ सृफ लरिं-तंधेड छे, मडे वे तपानी नवी करुं वेदये के ते
धोने रच्ये छे

D अमदायादना डेलानी दीपमा एना कथा यानरिं लग्ना छे

E डेलानी दीपमा एउ नाम " विचारप्रकरण-महेश्वरसूरि " एम करिं नोंथु छे

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यता सं	क्यां छे ?
३२	विचारसारप्रकरण चृत्ति	पत्र ५ पत्र ४२	देवचंद्रजी स्वोपद्र		अ. १ भाव. अ. १
३३	श्रावकप्रतिमाप्रकरण अवचूरि	पत्र ५			भरुच. भरुच.
३४	श्रावकवक्तव्यताप्रकरण	गा. १०३			लीवडी.
३५	श्रावकव्रतभंगप्रकरण अवचूरि	२२०			पा. ३ जेसल पा ३
३६	पट्टव्यप्रकरण	पत्र ८			अ. १
३७	समवसरणप्रकरण अवचूरि	१९५	धर्मघोष		पा ३—४ पा. ३—४
३८	संवरद्वारप्रकरण	पत्र ८			अ. १
३९	साधुप्रतिमाप्रकरण A				जेसलमेर.
४०	सिद्धदंडिकाप्रकरण		देवेंद्रसूरि		भाव. अ. १. डे.
४१	सिद्धांतसारप्रकरण	१००	प्रद्युम्नसूरि B		जेसलमेर.
४२	सिद्धांतोद्धारप्रकरण	गा. १२३	वर्द्धमानसूरिशिष्य महेश्वर		लीवडी.

A आ प्रकरण हसविजयजीए करेली जेसलमेरनी टीपमा नोंथ्यु छे.

B आ नाम हीरालाले नोंथ्यु छे माटे ते तपाशी नक्की करवानु छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	वर्ग ५ मो. —०००— नाना प्रकारणो-हास बीजो				
१	अद्वैतप्रवचनव्याख्या A				गनीनदास.
२	आगमोद्धारगाथा	गा ७१			लौवडी
३	कालचक्रविचार	गा ८५			लौवडी जेसलमेर
४	गुणस्थानकविवरणगाथा	गा १७			ख
५	चत्वारिंशद्दसगाथाविघरण	पत्र ३	देवेंद्रसूत्रि		पा ३
६	जयूहीपञ्चावगणितपद	पत्र ८			पा ३
७	तत्त्वसारगाथा				जेसलमेर वे
८	तिरिनरयसूत्रगाथा				पा ३
९	नरक्षेत्रविचार	पत्र १४			पा ४
१०	पुद्गलपरावर्त्तगाथाविचार	गा १०			ख
११	पचनिर्ग्रथविचार	पत्र ९			पा २
१२	भूयस्कारादिविचार	पत्र २			ख १
१३	धातुप्रयोगादिविचारगाथा त्रिवृत्ति B	५५७	विजयदेव		घृ
१४	सम्मतगुणा	गा ११			ख
१५	सूत्रमधिकारगाथा वृत्ति	पत्र ४			डेणन
१६	स्वप्नविचार	पत्र ११			पा ४

A गाथांना अठ गनीनदासता भगवतां त ताण्यथर ताक छे

B भा वृत्ति वृत्तिमनिद्यागां त्रिंशो ८ पा अन्त ३ पद तर्फी

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	ग्रन्था- नां स.	क्यां छे ?
	वर्ग ६ ठो.				
	स्थानपदोपलक्षित ग्रंथो.				
१	तीर्थकरस्थानप्रकरण A	गा. १५०	जिनवल्लभ		जसलमेर
२	पदस्थानकप्रकरण वृत्ति	गा. १०२ १६३८	नवांगी वृत्तिकार अभयदेव		नगीनदास. पा. ४
३	एकवीसठाणप्रकरण वृत्ति	गा. ६४ ताड ५८	सिद्धसेन		पा. १-२-४ सुलभ्य. पा २
४	विहरमान एकवीसठाण० अवचारे		शीलदेव		पा. ३ पा. ३
५	अष्टावनठाणप्रकरण	गा. २०६			ख.
६	सत्तरिसयठाणप्रकरण	गा. ३५५	सोमतिलक	१३२७ B	पा. १-३-४ सुलभ्य.

A हीरलले नोंवेळ छे, तेथी शक रहे छे के तेना नामना भूल होमी जोइये-क्रेमके दोडको गाथापरथी ते जिनवल्लभवृद्धित सार्द्धशतक के जे कर्मग्रंथना पेटामा नोंवायु छे ते होइु जोइये-माटे ते सवधे तपाश करवानी जरूर छे.

B खमातनी दीपमा स. १३८७ नोंव्यु छे, माटे प्रत तपाशी नकी करवानुं छे.

न	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	वर्ग ७ मो A				
	सरयापत्तोपलक्षित प्रकरणो				
	विशिक्षा.				
१	सिद्धसुखाविशिक्षा B				डेफन
	पचविशिक्षा				
१	सम्यक्तरपचविशिक्षा				अ १
	अपचरि				अ १
	द्वात्रिंशिक्षा.				
१	जीवभेदद्वात्रिंशिक्षा				अ १
२	लोकनालद्वात्रिंशिक्षा				सुलभ्य
	अपचरि	१७५	धर्मभेदन		पा १ डेफा
	पट्त्रिंशिक्षा				
१	हरियापही पट्त्रिंशिक्षा				
	वृत्ति	१०३७	जयसोम	१६४४	पा ४
२	हरियापही पट्त्रिंशिक्षा				अ १ डेफन
	वृत्ति	८००	स्वोपत		अ १ डेफा

१ आ पगमां प्रकवो एगरी पक्षिभा, पक्षिभा-वश्रीडीओ-उशीदीनो-मचा गका-नो-जने

पगमां एकविंश बटन जमता नोपी छे

B डेफनां 'त्रमां अिदमुत्त'तिका पप १० नी तौनी छ तो ते मगीह हापी जारवे

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
३	गुरुगुणपट्टत्रिंशिका वृत्ति	१२९७	वज्रसेन A रत्नशेखर		सुलभ्य. पा. ३-४ भाव.
४	दानपट्टत्रिंशिका वृत्ति B अवचूरि		विनयरत्न		पा ३ जेसलमेर पा. ३
५	निगोदपट्टत्रिंशिका वृत्ति	६५३	धर्मघोष रत्नसिंह C		वृ. पा. २-३ खं. वृ. पा. २-३
६	परमाणुविचारपट्टत्रिंशिका वृत्ति		धर्मघोष रत्नसिंह		वृ पा २-३ वृ. पा. २-३
७	पुद्गलपट्टत्रिंशिका वृत्ति		धर्मघोष रत्नसिंह		वृ. पा. २-३ खं. वृ. पा. २-३

A वज्रसेनसूरि ऋण थया छे. पेला वज्रसेन ते वइरस्वामिना शिष्य हता, वीजा वज्रसेन ते विजय-चंद्रसूरिना शिष्य हता अने वीजा वज्रसेन ते रत्नशेखरना गुरु हेमतिलकसूरिना गुरु हता. आ, वीजा वज्रसेनसूरिने अलाउद्दीन बादशाहे कीमती पोपाक तथा फरमानो आप्यो, हतो एम वेवरे नोध करी छे. आ ऋणमाथा अमारा धारवा मुजय वीजा वज्रसेनसूरिए आ पट्टत्रिंशिका रची होवी जोईये, केमके तेमना प्रशिष्ये ते अग्रपर टीका रची छे एम लागे छे.

B जेसलमेरनी टीपमां आ वृत्ति नौंधी छे पण कदाच ते अवचूरिज हशे एम लागे छे. छतां चोक्रुष निषेय करवा मोटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे.

C रत्नसिंहसूरि विनयचंद्रसूरिना शिष्य हता. विनयचंद्रसूरिए सं. १३२५ मा कल्पसूत्रनु टिप्पण, माटे रत्नसिंहसूरि सं. १३५० ना अरसामा होवा जोइये.

D एनु वीजा नाम खडपट्टत्रिंशिका छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रख्या नो.स	पया छे ?
८	पौषधपदात्रिंशिका घृत्ति		जयसोम	१६४५	पा ४ पा ४
९	वधपट्टत्रिंशिका घृत्ति		धमघोष रत्नासिंह		वृ पा २ ख घृ पा २
१०	भावपट्टत्रिंशिका A अवचूरि	पय ५			अ १ अ १
११	सिद्धातपट्टत्रिंशिका घृत्ति	७२७			अ १ पा ३ अ १

A भावपट्टत्रिंशिकातुं मीनु नाम रहस्यपट्टत्रिंशिका छे

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रचया ना सं.	क्यां छे ?
	पंचाशिकाओ. —o—				
१	त्रिपष्टिशलाका पंचाशिका				अ. १
२	पूजापंचाशिका (सावचूरि)	पत्र १६			अ. १
३	द्विचारपंचाशिका(सावचूरि)	पत्र ५	विजयविमल		डेकन
४	शतपंचाशिका				भाच.
५	समवसरणपंचाशिका				अ.२
६	सिद्धपंचाशिका A		देवेंद्रसूरि		वृ. पा.३-४ डेकन
	वृत्ति	७१०	स्वोपन्न		वृ.
	अवचूरि	३२८			पा ३-४

A डेकनकॉलेजना रिपोर्टमा सिद्धपंचाशिकाना कर्त्ता विद्यासागर जणाव्या छे. (जुवो नं. ३२३)

परंतु ते अमारा धारवा मुजव अवचूरिना कर्त्ता होवा जोइये.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कृत्ता	रच्यमाने	क्या है ?
	सत्तारिओ				
१	अगुलसत्तारि	-	मुनिचन्द्र		पृ ३
	अवचूरी				पा ३
२	आगमोद्धारसत्तारि				जेसलमेर
३	आवश्यकसत्तारि A		मुनिचन्द्र		भाय
	वृत्ति	१०४०	महेश्वर		पा ४ भाय
४	परणमत्तारि				जेसल
	वृत्ति B	३०००			जेसल
५	पालसत्तारि		धर्मचोप		पा ३-४
६	गुरुगुणसत्तारि		सोमचन्द्र		जेसलमेर
७	दर्शनसत्तारि C		हरिमद्र		पृ ३ पा ३
८	दानसत्तारि				अ २
९	द्रव्यसत्तारि		लावण्यवाचक		अ १
	वृत्ति	पत्र ३८	स्वोपश		अ १ भरुच
१०	यात्रासत्तारि				अ १
११	धनस्पतिसत्तारि		मुनिचन्द्र		पा ३

A एतु वीरु नाम " कारिसत्तारि " हे

B अगुलसत्तारि नौपी हे तथी तेना श्रीकण्ठकार एक रह हे

C अत्रुत्तिवृत्तिसत्तारि द्वायवर्णना रचना १२० श्लोकी हे आ प्रपुत्र अररत्तम एवदका अत्रुत्तिवा हे अने हे नामे तेने औत्तरेत्तिक प्रयोगां दीदा एव अत्रुत्ति एव नौपी हे इहां एवदिकाको एव नौपी एव प्रपुत्र मूलु नामत्र नौपी हे

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्या- नो सं.	क्यां छे ?
१२	विचारसत्तरि वृत्तिB अवचूरि	४३१६ ५००	महेंद्रसूरि A विनयकुशल -		पा. ३ भरुच डेकन. भरुच. पा. ३
१३	विनयसत्तरि				अ. २
१४	सुयणासत्तरि C वृत्ति	पत्र ७९			जेसल. जेसल.
१५	सूक्ष्मार्थसत्तरि टिप्पन		चक्रश्वरसूरि		लीयडी. लीयडी.

A महेंद्रसूरि हेमसूरिना शिष्य हता एम सोमप्रभसूरिए कुमारपालप्रतिबोधना प्राते जणव्युं छे.
जुवो रि. ५ पेज ३९

B डेकनकॉलेजना लॉस्टमां पेज १४७ मां विचारसत्तरिना कर्ता विनयकुशल लखेल छे ते भूल छे.

C जेसलभरनी वे टीपमां या नाम लखेल छे, माटे तेनु सत्कृतलुप सुजन-त्तपन-के सूचना करखु ते अनिश्चित थई पडे छे, माटे ग्रथ जोवाधी तेनो निर्णय थई शके तेम छे.

श्रीजैनध्वेतांवर कॉन्फरन्स ऑफिस
गिरगांव पोष्ट नं. ४-मुंबई.

न्यालचंद लक्ष्मीचंद सोनी.
ऑसिस्टंट सेक्रेटरी,

नं०	नाम	श्लोक.	कर्त्ता	रचया नो स	क्यां छे ?
	वर्ग ८ मो.				
	—				
	प्रक्रियाने लगता स्तवस्तोत्र				
	स्तव				
१	कायस्थितिस्तव A वृत्ति		कुलमडन रत्नसिंह		धृ पा २ अ १२ पा २ अ २
२	चैत्यप्रतिष्ठातिस्तव (साव)	पत्र १०	देवेंद्रसूरि		कोडाय
३	देहस्थितिस्तव वृत्ति	गा २४	कुलमडन		पा २ अ पा २
४	पुद्गलपरायणस्तव B (साध)	का ११			डेकन
५	मयस्थितिस्तव (सावचूरि)				पा २
६	योनिस्तव				पा २-३
७	लब्धिस्तव (सावचूरि)				पा २-३, अ १
८	लोकातिकस्तव				पा २
९	शाभ्यतयिबसरायास्तव (साव)		देवेंद्रसूरि		पा ३ भाष
१०	समयसरणस्तव	गा २४			लीयडी
११	सम्यक्त्वस्वरूपस्तव (साध)	गा २५	देवेंद्रसूरि		पा २-३ गे दे भाष

A चरवाहना मंदारनी टीरमा कायास्थितिग्रन्था कथा कुलमडनस्य रचना छे

B आ पुद्गलपरायणस्तव रचयिता छे एम देवेंद्रसूरि रचना कर्ता छे

नंबर.	नाम	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यो- नो सं.	क्यां छे ?
	स्तोत्र				
	A				
१	दुःपमाकालभ्रमणसंघस्तोत्र	पत्र ३	विजयानंद धर्म कीर्ति		अ. १
२	युगप्रधानस्तोत्र (साव)	पत्र १४			अ. १
३	सम्यक्त्वरहस्यस्तोत्र	पत्र ३	सिद्धसूरि		पा. ३

A आ स्तोत्रना प्रांते एषु पद छे के ' सिरिविजयाणंदधम्मकित्तिपय ' ए परथी एम कागे छे के विजयानंदसूरिनुं अपरनाम धर्मकीर्तिसूरि हने.

लीस्ट नंबर ५.

—
जैन फिलॉसोफि.

ક્રિયાવિધિના ગ્રંથો.

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કત્તા	રચ્યાનો સ	ક્યાં છે ?
	વર્ગ ૧ લો. —○○○○— પ્રકરણ ગ્રંથો.				
૧	અજ્ઞાતોચ્છપ્રકરણ A વૃત્તિ	૨૧૬	આનંદવિજય		પા ૪ પા. ૪
૨	અમહ્યદ્વાત્રિશિકા	પત્ર ૩			અ ૧
૩	આચારદિનકર	૧૨૫૦૦	જયાનંદાશિષ્ય વર્દ્ધમાન B		પા ૨—૩-૪
૪	આચારપ્રદીપ	૪૦૬૦	રત્નશેખર	૧૫૧૬	પા ૩-૪
૫	આચારવિધિ (પ્રા) " (સંસ્કૃત)	પત્ર ૧૭			માવ. નગીનદાસ.
૬	આચારોપદેશ	પત્ર ૧૧	ચારિત્રસુંદર		પા. ૩
૭	આલોચનારત્નાકર C	પત્ર ૪	વિજયગણિ		ડેક્કન પેજ ૨૭
૮	આલોચનાવિધાન	ગા. ૮૪			ડેક્કન.

A આ પ્રકરણ પાઠનમાં છે, અને તે કોઈ આલાચારૂપ છે કે સ્વતંત્ર ગાથાવદ્ધ છે તે પ્રકરણનાં પ્રત નજરે તપાસ્યાથી માલમ પડે તેમ છે.

B આ વર્દ્ધમાનસૂરિ તે ઉદ્યોતનસૂરિના શિષ્ય વર્દ્ધમાનસૂરિ થયેલા છે તે નહિ પણ ત્યારકેડે વિક્રમસદાતની ચૌદમી સદીમાં તે નામના આચાર્ય થયેલા છે તેમણે આ આચારદિનકર રચેલ છે. સદરહુ પ્રથના પ્રાતે ચોકશ સવત્ આપેલ છે, પણ તે ટીપમા નોધાયહું નથી માટે જિજ્ઞાસુજનોએ તે પ્રથની પ્રશસ્તિ જોઈ લેવી.

C ડેક્કનકૉલેજના રિપોર્ટમાં એનું નામ " આલોકનરત્નાકરપંચમી " એવું આપેલ છે, પણ અમારાં અનુમાનપ્રમાણે તે પ્રથની પાંચમી લહરી પૂર્ણ થઈ હશે તે પરથી તે નામ સાચે જોડી દીધી લાગે છે.

ન	નામ	શ્લાક	કર્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે ?
૯	શુન્યાવહી પ્રકરણ	પત્ર ૧૭			હેક્કન.
૧૦	જીતસારસમુચ્ચય	પત્ર ૧૧			અ. ૧
૧૧	દાનવિધિપ્રકરણ	શા ૨૫			ઠીવડી
૧૨	ધર્મવિધિ (પહેલી)		શ્રીપ્રભ A		માવ.
	વૃત્તિ	૫૫૨૦	ઉદયસિંહ	૧૨૮૬	શુ ભાવનગર
	વૃત્તિ	૧૧૧૪૨	જયસિંહ		શુ
	ધર્મવિધિ (બીજી) B	૬૯૪૦	નમ્રસૂરિ C		જસઠ વે
૧૩	ધર્મસપ્રહ	૧૫૬૦૮	માનવિજય		સુલભ્ય-હપાય છે
૧૪	ધૂમાવલિકા	૨૦૦	જયમૂવણ D		જેમલ
	વૃત્તિ E	૨૫૦	સમુદ્રાચાર્ય		શુ
૧૫	પર્વપત્રિકા F		શીલાચાર્ય		શુ
૧૬	પૂજાપ્રકરણ	૧૦	ઉમાસ્વાતિ G		પા. ૪
૧૭	પૌષ્ઠપ્રકરણ		જયસોમ		માવ. -

A શ્રીપ્રભસૂરેની સ્વોપહટીના સ ૧૨૫૩ મા નામ પામી શ્રીપ્રભસૂરિ ઉદયવિંદસૂરિના દાદાગુરુ હતા ઇટલે તેઓ સવત્ ૧૨૦૦ ના પછી યયા હોરા જોઈયે

B જેઠલખેરની વે ટીપમા આ ગ્રંથ નોંધેલ છે અને તે તાહપત્ર ઉપર લલેલ છે

C વપ્પમટિસૂરિના ચરિત્રમા નોંધ્યું છે કે વપ્પમટિસૂરિ સ ૮૯૫ મા દિવગત યયા તેમના વે નિષ્ય હતા ઇન નમ્રસૂરિ અને વીજા ગોવિંદગણિ તે શિવાય સ ૧૩૬૮ મા વીજા નમ્રસૂરિ વળ યપ્લા છે કે જેમા વૃષ્ણારિના શાપ્ય હતા માટે ઇ તેમાયા કાળે આ ગ્રંથ રચ્યો છે તે પ્રસાસ્તિ જોયાથી માલમ પટે

D હપાલાલે આ ગ્રંથ નોંધ્યો છે, માટે તેના કર્તા વગેરેનો ચોક્કસ નિળય કરવા માટે પ્રત જોયાની જરૂર છે

E વૃત્તિમાટે વૃત્તિવિનિકામા આ પ્રમાણ ઉલ્લેખ છે — “ ધૂમાવલ્યાદિવૃત્તિ કુસુમાવલ્યાદિવલ્યા સમુદ્રાચાર્યટ્ટા ૨૫૦ ” પરંતુ આ ગ્રંથ હજુલગી ઉપલબ્ધ યયા નથી

F વૃત્તિવિનિકામા ઇનામાટે ઇવો ઉલ્લેખ છે કે “ શ્રીશાસ્ત્રિવેતાલીયપવપત્રિના ક્ષપનવિષ્યાદિ વાચ્યા ધીશીલાચાર્યોયા ” આ ગ્રંથ વળ અમને ઉપલબ્ધ યયો નથી.

G વપ્પાનુ નામ પ્રસિદ્ધિને અનુસરી આપ્યું છે

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં	ક્યાં છે ?
૧૮	વૃત્તિ પૌષ્ઠવિધિપ્રકરણ	૨૩૩	જયસોમ જિનવહુમ		ભાવ. પા. ૧-૪-૫
૧૯	વૃત્તિ પ્રતિક્રમણક્રમવિધિ †	૩૫૫૫	જિનચંદ્ર	૧૬૧૭	પા. ૧-૪-૫
૨૦	પ્રતિષ્ઠાકલ્પો:—*	૮૧૧	જયચંદ્ર	૧૫૦૬	પા. ૩-૪
	A કલ્પ પહેલો(પ્રતિષ્ઠાપ૦)	૧૧૯૨	પાદલિતસૂરિ H		પા. ૪ ભાવ.
	B ,, બીજો(પ્રતિષ્ઠાવિધિ)	પત્ર ૧૮	તિલકાચાર્ય		અ. ૧
	C ,, ત્રીજો(પ્રતિષ્ઠાવિધિ)	પત્ર ૧૩	નરેશ્વર		અ. ૧
	D ,, ચોથો(પ્રતિષ્ઠાવિધિ)	૪૮૦	ગુણરત્ન		ડેક્કન.
	E ,, પાંચમો	૧૧૦૦૦	સકલચંદ્ર		લીં. ડેક્કન.
	F ,, છઠો	૪૯૫			પા ૩-૪
	G ,, સાતમો	૪૦૦			લીં.

† આ ગ્રંથ જૈનાગમના લિસ્ટમા પેજ ૩૨ માં નોંધાયલો છે, છતાં તેમા ક્રિયાની વિધિ બતાવેલી હોવાથી આ સ્થલે પણ તેનું નામ નોંધ્યું છે.

* પ્રતિષ્ઠાકલ્પ અનેક છે, તેઓમાંના જે જે કલ્પો ટીપમાં નોંધાયા છે તે ઇહાં નીચે ટાક્યા છે. વહીં એવું સંમત્તાય છે કે હરિમદ્રસૂરિ તથા સમુદ્રાચાર્યના રચેલ પ્રતિષ્ઠાકલ્પ પણ છે, પણ તે ક્યા છે તે અમારા જાણવામા નહિ આવ્યાથી અમે તેમના નામ ઇહાં ટાક્યાં નથી. માટે જે મુનિમહાશયોને તે કલ્પો ક્યા છે તેની ખબર હોય તેમને અમને તે બાબત લખી જણવવી.

A આ પ્રતિષ્ઠાકલ્પને ' પ્રતિષ્ઠાપદ્ધતિ ' પણ કહે છે અને તે સંસ્કૃતમાં છે.

B આ પ્રતિષ્ઠાકલ્પને ' વિવધ્વજદંડપ્રતિષ્ઠાવિધિ ' એવા ન્વમથી ટીપમાં નોંધવામાં આવ્યો છે.

C, D આ બે પ્રતિષ્ઠાકલ્પોને ' પ્રતિષ્ઠાવિધિ ' ના નામથી ઓલખાવેલ છે.

E, F, G આ ત્રણેને ' પ્રતિષ્ઠાકલ્પ ' એવા સદ્વા નામથીજ ટીપમાં ઓલખાવ્યા છે તેમાંનો સાતમો પ્રતિષ્ઠાકલ્પ જરા મિશ્રસંસ્કૃતમા લખાયલો છે.

H પાદલિતસૂરિએ શત્રુંજયકલ્પ તથા તરગવર્તીકથા નામે ગ્રંથ રચેલ છે, તેઓ ક્યારે થયા તે નામતની ચોક્કસ સાલ જાણવામા આવી નથી. પરંતુ તેઓ શ્રીધનપાલ તથા શ્રીહિમચંદ્રસૂરિથી ઘણા પહેલાં થયેલા છે તેમને પ્રાકૃત ભાષામા ' પાલિત ' તથા ' પાલિતય ' એવા નામે ઓલખવામા આવે છે, અને પાલિતાણાના શહરનું નામ તેમના નામ પરથીજ પહેલું કહેવાય છે.

ક્રમ	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે?
	A કલ્પ આઠમો (પ્રતિષ્ઠાવિધિ ધાન)	૩૬૦			હેકન.
	„ નવમો (જિનપ્રતિષ્ઠા) B				૪ પા ૩
	„ દશમો (વિંશપ્રવેશ વિધિ) C	૨૧૨			પા ૫
૨૧	પ્રત્યાલ્યાનવિચારણા D	પા ૨૩૭	શાલિસૂરિ		હેકન.
૨૨	મુક્તિયુક્તિયોગવિધિ	પત્ર ૧૮	હર્ષકુલ		અ ૨
૨૩	યતિઆહારવર્ણવતિ				અ ૧
૨૪	યતિદિનચર્યા	પા ૩૧૬	દેવસૂરિ		પા ૩-૪
	ઘૃત્તિ	૩૫૦૦	મતિસાગર		પા. ૪ અ ૨ માવ.
	ઘૃત્તિ	પત્ર ૫૧	ભાવદેવ		માવ
૨૫	વિધિપ્રવા	૩૫૭૪	જિનપ્રમ	૧૩૬૩	પા ૧-૩-૪
	„ E	૩૩૦૦	ઉદયકર F		રિપોર્ટ ૬

A આ આઠમાં કલ્પને ' પ્રતિષ્ઠાવિધાન ' ના નામથી ઓલલાવલ છે

B નવમા કલ્પને શુદ્ધત્વનિકામાં ' જિનપ્રતિષ્ઠા ' પદ્યના ઉદ્દેશથીજ નોંધેલ છે અને પાટણની ટીપમાં ' જિનવિંશપ્રતિષ્ઠાવિધિ ' એવા નામથી નોંધેલ છે

C દશમા કલ્પને પાટણની ટીપમાં ' વિંશપ્રવેશવિધિ ' ના નામે નોંધેલ છે એ કદાચ પ્રતિષ્ઠાકલ્પ નાદિ હોય તોપણ તેનો વિભાગરૂપ ગણીને અમે દ્રશા તેને પ્રતિષ્ઠાકલ્પના પેટામાં ગણ્યો છે

D આ પ્રથમ પૂર્વે જૈનાગમના લિટ્ટમાં પેજ ૩૪ માં " પ્રત્યાલ્યાનવિચારણામૃત " એવા નામ થી નોંધાયેલ છે, છતાં તેમાં ક્રિયાનુક્રમની વિધિ વર્ણવેલ હોવાથી દ્રશા પણ નોંધ્યો છે

E F આ પ્રથમ નામ રિપોર્ટમાં ' વિધિપ્રવાક ' એવું આપેલ છે તે જૈનાચાર્યકૃત છ કે કેમ તે શક પદ્ધતી વિના છે એમકે તેના કર્તાનું નામ ઉદયકર નોંધ્યું છે તે નામના કોર્ડ જૈનાચાર્ય ધયા જાળવામાં આપ્યા નથી, માટે તેની પ્રત તપાસવાની જરૂર છે

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ.	ક્યાં છે ?
૨૬	વિવેકવિલાસ વૃત્તિ	૧૩૮૫	જિનદત્ત A		સુલભ્ય.
૨૭	શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય વૃત્તિ અવચૂરિ	પત્ર ૧૨૫ ગા. ૩૪૪ ૧૨૮૨૦	ભાનુચંદ્ર દેવેન્દ્રસૂરિ ,,	૧૬૭૧ ૧૪૧૧	પા ૩ અ. ૧ સુલભ્ય. વૃ પા. ૨-૩-૪ કો.
૨૮	શ્રાદ્ધવિધિ વૃત્તિ	૬૭૬૧	રત્નશેખર	૧૫૦૬	પા. ૩-૪ કો. સુલભ્ય
૨૯	શ્રાદ્ધવિધિવિનિશ્ચય		હર્ષભૂપણ		પા. ૪ અ. ૨
૩૦	શ્રાવકધર્મપ્રકરણ વૃત્તિ	૧૫૧૩૧	લક્ષ્મીતિલક	૧૩૧૭	પા. ૧ પા. ૧ લીં.
૩૧	શ્રાવકધર્મોધિકાર B	૧૦૦	ગુણશીલ C		જેસલમેર.
૩૨	શ્રાવકધર્મવિચાર D				જેસલમેર.
૩૩	શ્રાવકવિધિ E વૃત્તિ F શ્રાવકવિધિ (ઘીજી) G		ધનપાલ સંઘચંદ્ર ગા. ૨૨		ડેક્કન પેજ ૧૭૧ લીંબડી.

A આ જિનદત્તસૂરિ તે વાયડગચ્ઠના છે, તેઓ સ. ૧૨૭૭મા વસ્તુપાલના વચ્ચતમા વિદ્યમાન હતા.

B. C મૂલગ્રથ તથા કર્તાનુ નામ હીરાલાલે નોંધેલ હોવાથી શક પડતા લાગે છે માટે તેની પ્રત તપાશવાની જરૂર છે.

D આ પ્રકરણ પળ હીરાલાલના જ નોંધમા છે, પળ તે કેટલા શ્લોકનુ છે વગેરે હકીકત નોંધી નથી માટે તેની પળ પ્રત તપાશવાની જરૂર છે.

E આ શ્રાવકવિધિ અને ધર્મવિધિ તે એક જ ગ્રથ છે કે જૂદાજૂદા છે તે માટે પ્રતો તપાશવી જોઈયે.

F આ વૃત્તિ પ. આનંદસાગરજીના જોવામા આવેલી છે એમ તેમણે જણાવ્યાથી હા નોંધી છે.

G આ ઘીજી શ્રાવકવિધિ ગા. ૨૨ની છે તે કદાચ શ્રાદ્ધવિધિનુ મૂલજ હશે, એમ અમારુ અનુમાન છે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रचया नो स	क्या छे ?
	वर्ग २ जो — विधि ग्रथो				
१	अनुष्ठानविधि	१०४६			पा २ नगीनदास
२	अर्हदभिषेकविधि*	१००	चादिवेताळ		जेसलमेर
३	दृष्टप्रकारपूजाविधि				पा २
४	भाराधनाविधि*				जेसलमेर
५	आलोचनापदसंग्रह A				धृ
६	ऊनोदरिकादितप				डेफन
७	उपधानविधि	ताड७१			पा २
८	उपधालपौपधविशेषविधि		चम्रभरसूरि		लॉवडी.
९	उपधानस्वरूप B		देवसूरि		धृ
१०	उपासकपाठ C				डेफन
११	उपासकप्रतिमाविचरण				जामनगर
१२	जिनस्नात्रविधि *	६०	चादिवेताळ		जेसलमेर.
१३	तपोयोगविधि टीका *	१०००	(वृष्टक)		जेसलमेर
१४	दृष्टविधि D	पत्र ३			जेसलमेर वे

* आ निशानीयाला ग्रथो ईयालले करेला टीपमापो मळ्या छे तेथी तेमनी खरी खातरी माटे तेमनी प्रतो जोवानी जरूर छे

A B आ वे ग्रथ वृहत्कटिप्पनिकामा नोंधेला छे, पण ते उपलब्ध थया नथी

C आतुं नाम उपासकपाठ छे क उपासकपथ छे ते इभेजा सेलिंगपरथा नकी यह शक्यु नथी माटे तेनी प्रत जावानी जरूर छे

D दृष्टविधि ते शी बाबतनो ग्रथ छे ते जणायु नथी कदाच ते ज्योतिषनो ग्रथ होय तोपण होय माटे तेनी प्रत जोड नकी करवानु छे

क्र. सं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य- ना सं.	क्यां छे ?
१५	नांदिविधि (प्राकृतपद्य)*	५००	(त्रुटक)		जेसलमेर.
१६	पल्योपमोपचासविधि A			१२६०	नगीनदास.
१७	पूजाविधि *	६००	जिनप्रभ		जेसलमेर.
१८	पौपधविधि		चक्रेश्वरसूरि		ठीं.
१९	प्रत्याख्यानस्थानविवरण B	१५०	जिनप्रभ		जेसलमेर वे.
२०	प्रत्याख्यानस्थानविधि + (सर्दीक)	१५००			जेसलमेर.
२१	मुखवस्त्रिकाप्रतिलेखनाविधि- कार	२४०			पा. ४.
२२	मुद्राविधि	पत्र ४८			पा. ३.
२३	यतिप्रतिक्रमणाविधि				पा. २.
२४	यतियोगविधान				जेसलमेर वे.
२५	वंदनस्थानविवरण	१५०	जिनप्रभ		जेसलमेर वे.
२६	शांतिपर्वविधि	२६९	जिनप्रभ		जेसलमेर.
२७	श्रावकप्रतिक्रमणाविधि	ताड ८९			पा २
२८	पडावश्यकविधि C	२३७५	आंचालिक मही- सागर	१३९४	पा ४
२९	स्थापनाकल्पविधि	पत्र ४			पा. ३

A आ ग्रंथ स. १२६० मा ताडपत्रपर लखेलो खंवातना शैठ नगीनदासना भडारमा छे एम रिपोर्टमा नोंधुं छे.

B अगाऊ जैनागमना लीस्टमा पेज ३४ मां प्रत्याख्यानस्थानविवरण श्लोक ७०० नुं जयचंद्रसूरिकृत नोंधेल छे ते अने आ ग्रंथ जुदा छे एम लागे छे.

C आ ग्रंथ पूर्वे जैनागम लीस्टमा पेज २४ मा नोंधायलो छे, छता ते विधिदर्शक ग्रंथ होवायी तिने दहा पण नोंधो छे.

नं०	नाम	श्लोक	कृता	रचया नो स	क्या छे ?
	वर्ग ३ जो				
	सामाचारीना ग्रंथो.				
१	अभयदेवसूरिद्वृतसामाचारी A	१५००	नवागीकार अ भयदेव		पा ३
२	आचारविधिनाम्नीसामाचारी	१०५०			पा ४ डेकन
३	भाचलिकधार्द्धसामाचारी	पत्र ५३			अ १
४	ओषसामाचारी B	१५००			डेकन
५	कुलमडनसूरिद्वृतविचारामृत सग्रह C	२२००	कुलमडन	१४४३	पा १ ३ ४ सुलग्न
६	गच्छसामाचारी D				जेसलमेर हसविजय
७	जिनचंद्रसूरिद्वृतसामाचारी E	ता २८१	जिनचंद्र		पा २
८	जिनसूरिद्वृतसाधुसामाचा० F	१५१२	जिनसूरि		पा २-५
९	जिनवल्लभसूरिद्वृतप्रतिमण सामाचारी G	गा ४	जिनवल्लभ		ली

A एतु अयत्नाम साधुसामाचारी पण छे ए ग्रंथ पूर्वे आचारविधिना नामे नोंपायो छे तेन होयो जोइये छता इहा सामाचारिना वर्गनो प्रक्रम होवार्थी इहा पण तेनु नाम नों उ छे

B ओषसामाचारी ते वरते ओषानियुक्तिना नाम पेरथी नोंघार्ई होय तोपण होय भाटे तपाम करवी जोइये

C आ विचारामृतसग्रहनामनी सामाचारी भाटे इहत्पि निफामा नीचे मुनय उल्लेख छे —

“ प्रवचनपात्रिकादिपत्रविंशत्याधिकारप्रतिमदा आलापका १४४३ वर्षे श्रीकुलमडनसूरिया ”

D जेसलमेरनी हसविजयनीए छोरी टीपमा गच्छसामाचारी एतु मोघम नाम छे पण ते कया गच्छी छे ते नषी करया भाटे तेनी प्रत तपावणी जोइये

E F आ ये सामाचारीनो कदाच एष पण होय केमके तेमना कथाना नाममा लगमग मळता एतु छे, भाटे तेनी प्रतो तपावणी जोइये

G आ सामाचारी पकत चालीस गाथाना मुल्क जेरी छे.

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्या- ना सं.	क्यां छे ?
१०	तपासामाचारी A	७०८			वृ.
११	तिलकाचार्यकृतपूनमिया सामाचारी B	२५००	तिलकाचार्य		राधन जेसलमेर.
१२	देवगुप्तसूरिकृतश्रावकसा- माचारी वृत्ति C	पत्र ५ १२००	देवगुप्त देवगुप्त		वृ. अ. २ वृ.
१३	देवप्रभमलधारीकृतसामा- चारी E		देवप्रभमलधारि		वृ.
१४	नरेश्वरसूरिकृत सामाचारी	४००२	नरेश्वरसुरि F		पा ५. लॉ.
१५	भावदेवसूरिकृतयतिसामा- चारी वृत्ति	गा १५४ पत्र ५०	भावदेव मतिसागर *		खं. खं.
१६	यशोविजयवाचककृतसामा- चारी वृत्ति	पत्र ३२	यशोविजय स्वोपज्ञ		भाव. भाव.

A वृहत्पिप्पिकामां आ सामाचारी नोंवी छे पण अमारा जेवामा हजु नथी आवी, माटे जे कोई मुनि महाशय पासे ते होय तेमणे अमने तेनी हकीकत जणाववा कृपा करवी.

B जेसलमेरनी टीपमा हीरालले एनी श्लोकसंख्या २५०० नी नोंधी छे.

देवगुप्तसूरिकृत श्रावकसामाचारिनी वृत्ति उपलब्ध यई नथी माटे ते पण जेमनापासे होय तेमणे अमने खबर आपवी.

D आ सामाचारी माटे वृहत्पिप्पिकामा नीचे मुलत्र उल्लेख छे:—

“सामाचारी १३६ अधिकारा मलधारि देवप्रभसूरिया”

E आ सामाचारिनुं अपरनाम सूरिवल्लभसामाचारी पण छे.

F पाटणनी टीपमां कुलप्रभशिष्य नरेश्वर लख्या छे तयारे लॉवडीनी टीपमां कुलप्रभशिष्य घनेश्वर सुरिए रची एवुं लख्युं छे, माटे ते नरेश्वरसूरिकृत छे के घनेश्वरसूरिकृत छे ते माटे पाटणनी प्रत तपाशवी जोइये. तेमज पाटणमा एनी श्लोकसंख्या ४०४२ लखेल छे तयारे लॉवडीमां ३७०० छे छता मंथ तेनो तेज छे केमके लॉवडीनी टीपमा पण तेनु अपरनाम सूरिवल्लभ आपेल छे.

* पूर्वे यतिदिनचर्यानी वृत्ति मतिसागरकृत नोंधार्ई छे तो ते अने आ एकज लागे छे,

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
१७	आवकसामाचारी A	११७५			पा १-२-४-५
१८	श्रीचन्द्रसूरिद्वितसुशोधासा माचारी	१३११	धनेश्वरशिष्य श्रीचन्द्र		पृ पा १
१९	सामाचारी	पत्र ११			पा ३
२०	सामाचारी (वीजी)	२०००			पा ५
२१	हरिप्रमसूरिद्वितसाधुसामा चारी	५२७	हरिप्रम B		पा ३-५ अ १
२२	हरिभद्रसूरिद्वितश्रावकसा माचार्य C	१२००	हरिभद्र		जैसलमेर

A एनामाटे वृहत्कल्पनिर्णामा आ प्रमाणे उल्लेख छे —“ सामाचारी सुशोधा सानुष्ठानगोचर
धनेश्वरशिष्य श्रीचन्द्रीया १४५०-१२२१ ” आ प्रमाणे त्या तेना श्लोकसख्या पण भिन्न भिन्न नोंधेडी छे
येथी अमे इहा पाठनी टीपमा नोंघायली श्लोकसख्या नोंची छे

B इलानी टीपमां हरिप्रमना बदले हरिभद्रनाम लखेल छे

C हीरालाले कचानु नाम हरिभद्र लखु छे पण ते शक पढती विना छे कदाच ते द्वितीय
हरिभद्र होय तो होय छता चोवश निर्णय माटे प्रत वपाशी जोयानी जरूर रहे छे

खंडनमंडनना ग्रंथो.

नंबर	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्या- नो सं	क्यां छे ?
१	अंचलमतदलन	१०००	हर्षभूपण	१४८०	पा ३-४-५
२	अंचलमतस्थापन A	पत्र २५			अ. २
३	आचरणाशतक B				वृ.
४	आचरणोपन्यास C	४००			A. S.
५	उपधाननिराकरणसाधि D	पत्र ५			अ २
६	औष्टिकमतोत्सूत्रदीपिका	७१६	धर्मसागर	१६१७	पा. ३-५०
७	औष्टिकमतोत्सूत्रोघ्वाटन कुळक	२२	,,		पा ४
८	कालस्वरूपद्वात्रिंशिका E		जिनदत्त F		पा. १ जेसल.
	वृत्ति		जिनपाल G		पा. १

A आ ग्रंथ फक्त अमदावादना चचलवाइना भडारनी टीपमा नोंधेल होवायो तेने इहा नोंधयो छे पण ते सवधी ऐतिहासिक विना मळी नयी.

B वृहत्तटिप्पनिकामा "आचरणाशतक चरणसहस्रोदधिसत्क शतपदीपूर्वपक्षरूप" आवो उल्लेख छे.

C आ ग्रंथ फक्त एतिहासिक सोसायटीमा नोंधायो छे, माटे ते दुर्लभ्य छे.

D आ ग्रंथ पण चंचलवाइना भडारनी टीपमा नोंधयो छे ते शिवाय वीजे स्थळे उपलब्ध ययो नथी-

E जेसलमेरनी टीपमां एनु नाम कालस्वरूपकुळक नोंधु छे.

F जिनदत्त नामना त्रण आचार्य यया जाणवामा आव्या छे:-

(१) जिनदत्तसूरि ते वायडगच्छीय जीवदेवसूरिना शिष्य हता. तेमणे विवेकविलास नामनों ग्रंथ रचेल छे, अने तेओ वस्तुपालनी वारे सं. १२७७ मा इद्यमान हता.

(२) जिनदत्तसूरि ते खरतर जिनवल्लभगणिना शिष्य अने जिनचंद्रसूरिना गुरु हता. ते ओनो जन्म सं. ११३२मा दीक्षा सं. ११४१ मा सूरिपद सं. ११६९ मा अने स्वर्गवास सं. १२११मा ययो हतो. एमणे सदेहदोलावलि प्रकरण विगेरे ग्रंथो रच्या छे.

(३) जिनदत्तसूरि ते देवसूरिकृत जीवानुशासनना शोधनार अने सप्तगृह नामना स्थळे रेहनार हता तेओपण सं. ११६२ ना अरसामा थएला छे.

हवे आ कालद्वात्रिंशिका आ उपर जणावेल त्रण आचार्य माहेला कया जिनदत्ताचार्ये रची छे ते वावत विचार करता एनु मालम पडे छे के ते खरतर जिनदत्तसूरिएज रची होवी विशेष सभवित लागे छे. छता चोक्कस निर्णय ग्रंथ जोयाथी थई शके तेम छे.

G आ जिनपालसूरि ते जिनपतिसूरिना शिष्य हता. एमणे सं. १२९३मा द्वादशकुलकनी टीका रची छे.

ક્રમ	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે?
૯	કુપક્ષકોશિકસહસ્રકિરણA	૧૭૮૮૨	ધર્મસાગર		પા ૩, ૪-૫ જે
૧૦	કુમતાહિવિપજાગુલી અપરનામ(હિતોપદેશ)	૫૧૮	રત્નચદ્ર	૧૬૭૭	પા ૩, છોંવઠી
૧૧	કેવલિપ્રકરણB (તાહ)				P ૪ જે
૧૨	કેવલિમુક્તિસ્ત્રીમુક્તિપ્રકરણ ,, સમ્રહશ્લોક	૯૦૦ ૬૯			૫૫ પા ૨ ૫૫ પા ૨
૧૩	ચરનરમનનિરૂપણ વિધિC	શાલ્ય પત્ર ૬૭			અ ૨
૧૪	ગણધરસાર્ધશતક ઘૃત્તિ	૨૮૫ ૬૦૦૦	જિનદત્ત D	મુમતિગણિ E	૧૨૯૫ પા ૧-૨ પા ૧૩ અ ૨જે સુ

A એનુ વીનુ નામ પ્રવચનપરીક્ષા છે

B આ કેવલિપ્રકરણ ડેફનશોલેજમા છે તે સસ્કૃતમા રચાયલુ છે અને તાહપનપર લખેલુ છે માટે તે કેવલિપ્રકરણ છે કે કેવલિમુક્તિસ્ત્રીમુક્તિ નામનુ પ્રકરણ છે તે નક્કી કરવા માટે તેના પ્રત જોવાની જરૂર છે

C આ નામ શક પદ્ધતુ લાગે છે અને તે અમદાવાદના ચન્નલ્યાહના મઠારની ટીપમા નોંધેલ છે, તો તેનુ સરુ નામ ગુ છે અને તે ફોળ રચેલ છે તે બાબત નક્કી કરવા તેના પ્રત જોવાની જરૂર છે

D આ જિનદત્તવૃત્તિ માટે પાઠલ પાને કાલદ્વારિશિકા ઉપરની નોટ જુઓ

E મુમતિગણિ બ યયા છે પેલા મુમતિવાચક તે કચારલ્લકોશના કરનાર દેવમદ્રવૃત્તિના મુદ્દ હતા દેવમદ્રવૃત્તિ ત પ્રથ સ ૧૧૫૮ મા રચેલ છે વલ્લા મશ્વારવચરિત્રના કતા શુભચદ્રગણિના મુદ્દ પળ તેજ હતા શુભચદ્રગણિય વીરવચરિત્ર સ ૧૧૩૯ મા રચલ છે માત્રા મુમતિગણિને માટે પાટળ તયા જસજ્જભેરની ટાપોમા તે જિનપતિવૃત્તિના શિષ્ય હતા એમ નોંધેલ છે જિનપતિવૃત્તિ સ ૧૨૭૭ મુદ્દા વિદ્યમાન હતા

હય ધા ઘૃત્તિ રચ્યાનો સવન્ ૧૨૯૫ આપેલ છે તે પર્યા આ ઘૃત્તિ માત્રા મુમતિગણિવજ્જ ૨વી છે એમ ચાક્રમ્ નિળમ થાય છે

નં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
	લઘુવૃત્તિ		સર્વરાજગણિ A		પા. ૧
૧૫	ગણધરદ્વૈશતક B		સોમચંદ્ર C		ધ. ૨
૧૬	ગુરુતસ્વપ્રદીપ D	૨૪૫			પા. ૧
૧૭	ચર્ચરી		જિનદત્ત		પા. ૧
	વૃત્તિ	૩૩૫	જિનપાલ	૧૨૯૪	પા. ૧ કો.
૧૮	ચર્ચાગ્રંથ E	૧૭૦૦			લૈવડી.
૧૯	ષાર્ચિક F	૪૮૦			પા. ૫
૨૦	ચેલપ્રતિષ્ઠાપ્રકરણ G(તાડ)				P. 5
૨૧	તપોટમતકુદ્દન	૧૧૦	જિનપ્રમ H		પા. ૩, જેસલ.

A એમણે પંચલિંગીની લઘુવૃત્તિ પણ રચી છે.

B આ ગ્રંથ અમદાવાદના ચંચલના મહારાજની ટીપમાં નોંધેલ હોવાથી આમાં નોંધ્યો છે. પણ વસ્તે ગણધરસાઈશતકનું વીજુ નામ તો નહીં હોય તે વાસ્તવે તેની પ્રત જોઈ નક્કી કરવું જોઈએ.

C આ સોમચંદ્રસૂરિ તે રત્નશેખરસૂરિના શિષ્ય હતા. એમણે સ. ૧૫૦૪ માં કયામહોદધિ નામે ગ્રંથ રચેલ છે.

D એનું વીજુ નામ “ઉત્સૂત્રકદકુદ્દાલ” છે.

E આ ગ્રંથ લૈવડીના મહારાજની ટીપમાં નોંધાયો છે પણ તે સંબંધી ઐતિહાસિક ક્ષેત્રમાં તેમજ તેનું સ્વરૂપ નામ શુ છે તે જાણવામાં આવ્યું નથી. તે કોઈ સ્વરતર આચાર્યે રચ્યો હોવો જોઈએ.

F સદરહૂ ગ્રંથનું પણ વિશિષ્ટનામ જાણવામાં આવ્યું નથી.

G આ પ્રકરણ ફક્ત પિટર્સના પાંચમાં રિપોર્ટમાં નોંધેલ છે માટે તે ઉતારવા યોગ્ય છે.

H જિનપ્રમસૂરિએ વિક્રમસવત્ ૧૩૬૪ માં સાણુપ્રતિક્રમણની વૃત્તિ રચી છે. (જુવો પેજ ૩૦) જેસલમેરની ટીપમાં હીરાલાલે તે શ્લોક ૮૦૦ નું છે અને જિનપ્રમશિષ્ય ગુણપ્રમસૂરિએ રચ્યું છે એમ નોંધ્યું છે. પરંતુ અમારા જાણવા પ્રમાણે તે જિનપ્રમસૂરિએ રચેલ છે અને તે શ્લોક ૧૧૦ જેટલાજ પ્રમાણનું છે. વસ્તે ગુણપ્રમસૂરિએ તેની પ્રત લખાવી હોય તો હોય એ વાસ્તવની સ્વાધી કરવા માટે જેસલમેરના મહારાજની તેની પ્રત નજરોનજર જોવાની અગત્ય છે.

नंबर	नाम	श्लोक	कत्ता	रच्या नो स	क्या छे ?
२२	द्वादशजल्प	पत्र ११	हारीसूरि A		अ १
२३	दिगवरखडन B	१५८			पा ५
२४	द्विजवदनचपेटा C		हेमचद्र D		घृ पा ३
	,	पत्र ४	हरिभद्र		को
२५	द्विजवदनवज्रसूत्री		(यौन्दाचार्यकृत)		वृ अ २, पा ४
२६	धर्मपरीक्षा	१७३९	अमितगति E दिगवर		वृ पा ४.

A आ हारसूरि ते हरिविजयसूरि छे तेओ स १५८३ यो स १६२५ सुधीमा हता

B आ नाम पण सामान्य लागे छे माटे तेनु ररु नाम शु छे ते पाटणना भडारमानी तेनी प्रत जोई नकी परखु जोइये

C द्विजवदनचपेटाने माटे वृहत्पिप्पिनिकामां " द्विजवदनचपेटा विप्रजात्यादिनिराकरणमाच्या " आ राते उल्लेख छे

D आ नाम पाटणनी टीपमा नोंघेल छे, कोढायनी टीपमा ते हरिभद्रसूरिए रचेल छे अने पत्र चारुनी छे एम जणाव्यु छे ए परथी एम जणाय छे के वलते ए रते आचार्योए जूरी जूरी चपटा रची हने

E आ अमितगति ते दिगवर माधवसेनना शिष्य हता भाडाकर रिपोट १८८२-८३ मा पेज विस्त्राण्डिमर्मा एमणे सुभाषितरत्नसदोह नामे प्रथ स १०५० मा रचेल छे एम जणाव्यु छे वृहत्पिप्पिनिकामा एना माटे " धर्मपरीक्षा परउमयासंभधनावाच्या दिगवरामितगतिहता " आवो उल्लेख छे

नं.पं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्यार- नो सं.	क्यां छे ?
२७	धर्मपरीक्षा A	१८५०	जिनमंडन B		पा. २
२८	धूर्ताख्यान(प्रा.) निजतीर्थिक कल्पितकुमत निरास C	६०२	हरिभद्रसूरि द्वि.हरिभद्र		पा.४-५ वृ.अ.१
२९	पर्वस्तनावली	११४४	जयसागर D	१४७८	अ. २
३०	पंचविचार		दयावर्द्धन E		A S.
३१	पर्युपणस्थिति	२५८	हर्षभूषण	१४८६	पा.५
३२	पर्युपणशतकप्रकरण वृत्ति	पत्र ७	धर्मसागर "		भावनगर. भ.व जामनगर
३३	प्रश्नार्चितामणि	२६००	वीरविजय	१८६८	खं.
३४	प्रश्नोत्तरपंचाशिका	पत्र २०			अ. १
३५	प्रश्नोत्तरसाद्विशतक	पत्र ५७			अ. १
३६	प्रतिमाहुंडी	२०००			A. S.
३७	पूर्णमागच्छीयविचार	पत्र ८०			A. S.

A आ ग्रंथ खास उतारखा योग्य छे.

B जिनमंडनगणि सोमसुंदरसूरिना शिष्य हता. एमणे कुमारपालप्रबंध सं. १४९२ मां रचेल छे.

C आनु वीजु नाम तत्वबोधप्रकरण छे. बृहत्कल्पिका नाम तेना माटे आवो उल्लेख छे:—“निज तीर्थिककल्पितकुमतानिरासापरनामक तत्वबोधप्रकरण हरिभद्रायां आचलिकपौर्णमतछिद्र ५०४०”.

D आ जयसागर उपाध्याय ते खरतर जिनराजसूरिना शिष्य हता. एमणे सं.१४९५ मां सदेहदोलानवली उपर विधिरत्नकरडिका नामनी लघुटीका रची छे.

E दयावर्द्धनगणि विक्रमनी सोलमी सदीना अंतमा थएला छे.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચનાનો સ	પૃથા છે ?
૩૮	વૌદ્ધમીમાસાદલા A	૨૦૦૦	યશોદેવ		જેસલમેર
૩૯	ભવિષ્યોત્તરોદ્ધાર B				૫૫
૪૦	મિથ્યાત્વમધનચ્ચરીપ્રકરણ C	૧૩૦	જિનવહ્નમ D		૬ પેજ ૨૦૮
૪૧	* ઘાદિવિચાર (સ)				૬ પેજ ૩૧
૪૨	* ઘાસૌતિકપ્રકરણ E	૫૦	ગુણરા F		ડેકન
૪૩	* વિચારશ્રેણિ	પત્ર ૭	મેહુતુગ		ડેકન
૪૪	વિનયમ્બુજગમયૂરી G	૧૨૨			પા ૫
૪૫	વિસવાદશતક H		સમયસુદર	૧૬૮૫	રાપોર્ટ. ૩

A આ ગ્રંથ હીરાગણે નોંધ્યો છે તે જો ઇજ નામે અને ઇજ કર્તાઈ રચેલો હોય તો તે ત્યાહ ઉતારવા યોગ્ય છે, પણ અમને તે બાત શક રહે છે, માટે જેસલમેરમા તેના પ્રતની તપાશકરવાની જરૂર છે

B ભવિષ્યોત્તરોદ્ધારમાટે વૃહત્તિપ્પિત્રમા નીચે મુજબ ઉલ્લેખ છે —“ભવિષ્યોત્તરોદ્ધાર પરસમય મહુસ્વરૂપવાચોજૈનકૃત પરસમયજ્ઞાનાય ” આ ઉલ્લેખ પરથી જણાય છે ક તે વહુ ઉપયોગા ગ્રંથ હશે પણ તેની પ્રત હજુલગણ કયાણ ઉપલબ્ધ થઈ નથી

C D આ ગ્રંથ અમારા ધાગવાપ્રમાણે તો જિનદત્તસૂરિકૃત ચ્ચરીગ જોવી જોડ્યે ઊતા ડેકનકો લેજના રિપોર્ટમા તેના કર્તા જિનવહ્નમ જણાયા છે માટે તેની પ્રત નવરે તોવાની જરૂર છે

E એનુ નીતુ નામ મુલત્રાંકવા પ્રકરણ છે

F ગુણરાજસૂરિઈ ૧૪૬૬ માં ત્રિયારત્નસમુચ્ચયામા ગ્રંથ રચેલ છે

G આ ગ્રંથ ધમસાગર ઉપાધ્યાયના શિષ્ય પદસાગરે વિનયવિજયની ઉપાધ્યાયના ઉપર આશેપરૂપે રચેલ છે એમ સામઢવામા આવ્યુ છે

H વિસવાદશતકમા સુત્રોમા પરસ્પર જે વિરોધ આવે છે તે તતા યો છે

* આ નિશાનીનાઢા ગ્રંથ ડેકનકોલેજમા છે તે ઉતારવા યોગ્ય છે.

क्र. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
४६	शतपदी	५४५०	महेंद्रसिंह	१२९४	वृ. पा. १-२-५
४७	लघुशतपदी	१५७०	मेरुतुंग		पा. ४.
४८	भावकप्रतिष्ठानिषेधविचार	गा. १२९	चक्रेश्वर		अ. २.
४९	पट्टत्रिंशज्जल्पनिर्णय		भावविजय		भाव. को. डेकन.
५०	पोडशकीवृत्ति A	१०००	धर्मसागर		डेकन पेज १४७
५१	सच्चित्तचित्तस्वरूपनिर्णय B	६००			जेसल.
५२	सर्वमतनिर्णय C				जेसल.
५३	सेनप्रश्न	४३८७	शुभाविजय		पा. ५. सं.
५४	संघपट्टक D		जिनवल्लभ		पा. १. कोडाय.
	वृत्ति	३६००	जिनपति		पा. १. को. डेकन.
	वृत्ति	१६००	हर्षराज		डेकन.
	लघुवृत्ति	५००	लक्ष्मीसेन	१३३३	पा. ५
	अव्यञ्जरी	१२२			पा. ४

A ए वृत्तिनुं नाम गुरुत्वप्रदीपिका छे.

B हीरालालनी टीपमां आ ग्रंथ नोंघ्यो छे.

C आ ग्रथ पण हीरालालेज नोंघ्यो छे. जो नाम प्रमाणे ग्रंथ भोजुद होय तो ते खास उपयोगी छे—पण तेनु तेनुं नाम हशे के नहि ते शक भरेल वात छे.

D संघपट्टकने लघुसंघपट्टक करीने लखेलुं घणीं प्रतोमां जणाय छे, छतां वृहत्संघपट्टक हजुलगण क्या होय एम जाणवामा नथी आवुं तेथी एम लागे छे के लघुशब्द त्या वृहत्नी अपेक्षा राख्यावयरज लागु पाइवामा आव्यो होवो जोदये.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
५५	सदेहदोलावलि वृत्ति	१९८	जिनदत्त		पा १
	लघुवृत्ति	४७५०	प्रबोधचन्द्रगणि	१३२०	पा १-४-५ को
		१५५०	जयसागर उपाध्याय	१५२५	पा १ कोडाय
५६	सदेहविपौषधि A	१८१२			पा २-४
५७	सदेहसमुच्चय	पत्र ६	ज्ञानकलश		पा ४ म १-२
५८	स्त्रीनिषाणप्रकरण B				P 5
५९	स्त्रीमोक्षविवाद	ताड २५			नगीनदास
६०	हीरप्रश्न	१४००	कीर्तिविजय		पा ३, ख

A कल्पसूत्रनी वृत्तिनु नाम पण सदेहविपौषधि छे, छता पाण्णनी टपोना नोंध प्रमाणे आ अथ नोई जूटोज लागे छे, मोटे अमे ते टपोना भरोसे ए अथने इहा नोंधो छे छता तेनी प्रतो तपासी चोकस निणय करवानी खास जर छे

B आ अथ अमारा धारया प्रमाणे पूर्वे 'यायना लिखमा तेना बीजा वगमा जे "स्त्रीनिषाण विधि" नामे अथ नोंधेल छे तेज होवो जोइये

लिस्ट नबर ६.

जैन औषदेशिक

जैन औपदेशिक.

नं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता.	रचया नो स.	क्यां छे ?
	वर्ग १ लो. —०००— प्रकरण ग्रंथो. अ.				
१	अंतरंगप्रबोध (प्रा.) A				पा. ४
२	अंतरंगसंधि (प्रा.)	२०६	रत्नप्रभ B	१३९२	पा. २ डेक्कन.

A आ अतरंगप्रबोध प्राकृतमा रचायलो छे, पण ते उद्देही भवित छे.

B रत्नप्रभ नामना पाव आचार्य थमा जाणवामां आव्या छे:—

- (१) रत्नप्रभसूरि—ते वादिदेवसूरिना शिष्य अने स. १२३८ मा उपदेशमालानी दोघट्टी वृत्तिना करनार हता.
- (२) रत्नप्रभसूरि—ते प्रत्युम्नसूरिना वशमा देवानदगरि थया, तेमना वे शिष्य एक परमानद अने बीजा रत्नप्रभगरि थया. आ रत्नप्रभसूरि पण तेरमी सदीना आखरीमा होवा जोईयं.
- (३) रत्नप्रभसूरि—ते यशोदेवसूरिना शिष्य मानदेव अने तेमना शिष्य ते रत्नप्रभसूरि थया. तेथो स. १३०८ मा विद्यमान हता.
- (४) रत्नप्रभसूरि—ते आ अतरंगसविना करनार छे, एम पिटर्सनना रिपोर्ट पाचमामा जणाव्यु छे.
- (५) रत्नप्रभसूरि—ते नरचन्द्रसूरिना शिष्य हता. एमणे बीवा गाममा भ्रातृ पडित गुणभद्र तथा श्रावक. श्राविकाना सहाय्यथी स. १४१८ मा धर्मविधिप्रकरण तथा तेनी वृत्ति लखावी हती. एटले अतरंगसविना करनार रत्नप्रभसूरिना समयमा अने एमना समयमा योटुक अतर रहे छे. ते परथी आ सविना करनार आ पाचमा रत्नप्रभसूरि होय तो होय

आ रीने आ पाच रत्नप्रभसूरिमाना कया रत्नप्रभसूरिए आ अतरंगसवि रच्यो छे, ते वावत चौरस निर्णय थतो नथी. कारण के रिपोर्ट पाचमाना पेज १२७ मा आ ग्रथनी प्रशस्ति लेना प्रान्ते ' श्रीवर्मप्रभसूरि रत्नप्रभकृतिरियम् ' एवी नोध करेल छे. ते परथी आ रत्नप्रभसूरि धर्मप्रभसूरिना शिष्य हता के आ वे जणा मळीने आ सधि रचायलो छे, अथवा तो उपर जणावेल पाच आचार्यमाना कया आचार्यो ते रचेल छे ते वावत शक रहे छे. माटे ए वावतनो निर्णय तेथो कोइ विशेष परागे गज्जण नगर थयो मुक्केल छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो को स	क्या छे ?
३	आ आगमअष्टोत्तरी वृत्ति	पत्र १२	अभयदेव चन्द्रमुनि A		पा ३-४ को अ. २
४	आत्मनिंदाएक				पा ३
५	आत्मप्रबोध	६३००	जिनलाम	१८८३	लौं को सुलभ्य
६	आत्मशिक्षा	पत्र १०			अ १
७	आत्मोपदेशमाला	पत्र १०			अ २
८	आदिनाथदेशना वृत्ति	१६३६ पत्र ५१			ख भाव अ १
९	आराधना " (वीजी)	गा ८५	अभयदेव अजितदेव B		नगीनदास, जेसल पा ३
१०	आराधनापत्रक	गा ३३९			नगीनदास
११	आराधनासत्तरी	गा ७०	कुलप्रभ C		नगीनदास

A आ चन्द्रमुनि ते श्रीचन्द्रखरि हरो अने तेजो अभयदेवसूरिना प्रशिष्य होवाथी पोताना दादागुहना पथ उपर तेमणे आ वृत्ति रची होवी जोइये

B पाटणना दीपमा आ अजितदेव महेश्वरखरिना शिष्य हता एम जणाण्यु ठे सवत् आपेल नयी

C कुलप्रभखरिने माटे जैनागम लिख पेज २४ मा तेमना नाम नीचेनी नोट पुओ

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यानो.सं.	क्यां छे ?
१२	इ. श्योपदेश	५१	दिगं. विद्यानंद		वृ. पा. ३. डेकन.
१३	उ. उपदेशकल्पद्रुम A		(अपूर्ण)		नगीनदास.
१४	उपदेशकंदलि गा. १२०	१५२	आसड B		पा. २ ३-४-५ सुलभ्य.
	वृत्ति	७५००	बालचंद्र C		वृ. पा. ३ ४-५ सुलभ्य.
१५	उपदेशचिंतामणि	गा. ४५०			पा. ३-४ अ. १
	वृत्ति	१२०६४	आंच. जयशेखर	१४३६	वृ. पा. १-३-४ सुलभ्य.
	वृत्ति (वीजी)	पत्र २६०	मेरुतुंग		अ. २
	अवचूरि	४३०५	जयशेखर	१४३६	पा. ३-४ अ. २
	अवचूरि (वीजी)	११६४			लीं.
१६	उपदेशतरंगिणी	३३००	रत्नमंदिर		जेसलमेर को.
१७	उपदेशपद्	गा. १०४०	हरिभद्र		वृ. पा. २ को. डेकन.

A आ उपदेशकल्पद्रुम खत्रातना शेट नगीनदासना भडारमां छे एम पिउसंन रिपोर्ट त्रीजामां नोण्यु छे, पण त्वापण ते अपूर्ण छे.

B आ आसडकविए विवेकमंजरी विक्रम संवत् १२४८ मां रच्ये छे. तेओ भिल्लमाल कुलना कट्टकरजना पुत्र हता.

C बालचंद्रकवि ते हरिभद्रसूरिना शिष्य हता. तेओने कविनी अटकथी विशेष ओळखवामां आवे छे माटे अमे पण तेमने तेज अटकथी ओळखाव्या छे. तेमणे आ वृत्ति रच्यानो संवत् चोक्क जणावेल नथी. पण मूळकार आसडकवि सं. १२४८ मां विद्यमान हता, एटले आ वृत्ति संवत् १२७८ ना लगमगमां थई होवी जोईए. पिउसंन रिपोर्ट पांचमामा तेमनी वशावळी आ रीते आपी छे:-

चंद्रगच्छमा पहेला प्रद्युम्नसूरि तेमना पाटे चंद्रप्रभसूरि तेमना पाटे घनेश्वरसूरि थया. घनेश्वरसूरिना चार शिष्ये हता वीरभद्र, देवसूरि, देवभद्र अने देवेंद्रसूरि. देवेंद्रसूरिना पाटे भद्रेश्वरसूरि थया. तेमना पाटे अमयद्वैवसूरि थया के जेओ आसडकविना गुरु हता. आसडकविना पाटे हरिभद्रसूरि अने हरिभद्रसूरिना पाटे आ बालचंद्रकवि थया छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक.	कर्ता	रच्य नो.स	क्या छे ?
	वृत्ति	१४०००	मुनिचन्द्र	११७४	वृ पा १-४ को
	वृत्ति (बीजा)	६४१३	धर्ममान		जेसलमेर
१८	उपदेशप्रासाद	पत्र ३१			भाव डेकन,
	वृत्ति	१००००	विजयलक्ष्मी A		डेकन
१९	उपदेशमाला	गा ५४४	धर्मदास B		पा १ २ ३ ५ सुलभ्य
	वृत्ति (प्राकृत) C		जयसिंह	९१३	वृ
	वृत्ति (हेयोपादेया)	९५००	सिद्धपि		वृ पा २-५
	वृत्ति (कणिका)	१२२७८	उद्यप्रभ	१२९९	वृ पा २
	वृत्ति (दोषद्वी)	११७६४	रत्नप्रभ	१२३८	वृ पा १ २ ५ डेकन.
	वृत्ति	७६००	रामविजय	१७८१	जेसल लॉन्डो
	विवरण	पत्र १२४	सर्वानन्द		अ २
	लघुवृत्ति	४१७०	सिद्धपि		वृ पा १ भाग

A आ विजयलक्ष्मासुरि ते पिटर्सन रिपाट बीजाना पत्र २१३ मा जणावेलु दुडकोत्पत्ति ग्रथना करनार तेज ए छ के, कोह बीजा छे ते भारत परा खाती आ वृत्तिनो प्रगस्तिल्ल जोयाधीज यई शके तेम छे

B आ धर्मदासगणे गृहस्थावासमा विजयविजयपुरना विजयसेन नामना राजा हता तेमने वैराग्य यथाथा एमणे श्रीमहावीर स्वामी पासे दीक्षा ग्रहण करा तेमने उग्र तपोबलपी अवधिज्ञान उत्पन्न यथु एमनी धर्मदासगणि आ रामपी प्रसिद्धि छे एमणे स्वपुत्र रणसिंहने प्रतिबोधवाने मोटेज आ उपदेशमाला रची हती एनु आदिपद "नमिऊण जीणवरिदे इदनरिदाचिए तिलेय गुण" एखु छे

C आ वृत्ति पत्र वृहत्पिप्पिकामा नोंघायली छे, पण ते इजमुधी कथा पण उपलब्ध यई नथी

वृहत्पिप्पिकामा एना माटे "उपदेशमालावृत्ति प्रा कृष्णार्थशिष्य जयसिंहपरिहृता ९१३ वर्षे" आ रीते नोंघ करी छे श्रेयसख्या आपा नथी

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
	અવચૂરિ	૨૦૦૦	ધર્મનંદન		પા ૪ ડેક્કન. ભાવ.
	અવચૂરિ	૧૫૦૦	જયશેખર		પા. ૪
	અવચૂરિ		અમરચંદ્ર	૧૫૧૮	પીટર્સન રિપોર્ટ ૫
	ગાથાશત્કાર્થ	પત્ર ૨૭			અ. ૧
	કથા		જિનમદ્ર A	૧૨૦૪	નગીનદાસ.
	ઉપદેશમાલા B (ત્રીજી)	ગા ૫૪૨			નગીનદાસ.
	ઉપદેશમાલા (ત્રીજી)	ગા. ૩૦	પદ્મસાગર		જેસલમેર.
૨૦	ઉપદેશમણિમાલા				પા. ૨
૨૧	ઉપદેશગ્નકોશ	ગા. ૬૨	જિનેશ્વર C		પા. ૩-૪ ભાવ.
	વૃત્તિ	૨૫૦૦	દેવમદ્ર D		નગીનદાસ.
૨૨	ઉપદેશરત્નમાલા	ગા ૨૫			લીં.
૨૩	ઉપદેશરત્નાકર	પત્ર ૧૨	મુનિસુંદર		પા ૩, કો. ભાવ.
	વૃત્તિ	૭૬૭૫	સ્વોપત્ર		પા. ૩-૪ કો ભાવ.

A આ જિનમદ્રચૂરિ શાલ્મિષ્ટમૂરિના શિષ્ય હતા. તેમના માટે પિટર્સન રિપોર્ટ ત્રીજાના પેજ ૮૩ માં આ પ્રયત્નો નોંધ લેતા પ્રાંત "શાલ્મિષ્ટમૂરિણ સિલ્કેદિ ૩ સિરિગિણમદ્રમુર્ગદેદિ" ના નીચે નોંધે છે.

B આ ઉપદેશમાલાની ગાથાઓ પણ પહેલી ઉપદેશમાલાને મળતીજ છે, પણ તેનો આચત ભાગ તે જાન સુદીજ લાગે છે. તેજુ આદિપદ "સુપદેવત્ર ત્ર વદે વાસુપદ્યાણ સિરિત્રય નાણ" આજ છે તે વચ્ચે આ ઉપદેશમાલા લલન સુદીજ છે છે.

C આ જિનેશ્વરુરિ તે જ્યાં જિનેશ્વરુરિ છે તે વાગત તેવો કોઈ વિશેષ પુસ્તકો જાણવામા આવે નથી.

D આ દેવમદ્રચૂરિ મુર્ગદે વા પેરિશિષ્ટ ડીના મઝી મઝી નથી. પણ વં. જાણવવાગતી જાણવામા આવતા સુધય આ દેવમદ્રચૂરિ તે ઇપદેશીની થીંગના કરનાર મઝઝાર દેવમદ્રચૂરિ હતા તેજુ.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रचया नो स	क्या छे ?
२४	उपदेशरसायन A वृत्ति	२७९०	जिनदत्त जिनपाल		पा १ डेकन पेज ११४ पा १
२५	उपदेशरहस्य वृत्ति	३७००	यशोभिजय स्वोपश		अ १ को अ १ को
	उपदेशरहस्य B (बीजो)	५०			जेसलमेर
२६	उपदेशशतक C उपदेशशतक E (बीजु) वृत्ति	पत्र ४८	मेरुतुग D त्रिमल	१७९३	डेकन पेज २३ पा ४-५ अ २
२७	उपदेशसप्ततिहा	२१०० F	सोमधर्म	१६०३	पा १-४ को
२८	उपदेशसत्तरी वृत्ति	७२७५	क्षेमराज		पा. ३ भाव पा ३ भाव

A आ ग्रथने केटलीफ प्रतोमा उपदेश रसायनना नामे ओळटावेल छ, त्वारे कटलीक प्रतोमा तेनु नाम उपदेशरसाळ आप्यु छे परतु तपास करता तनु खरु नाम उपदेशरसाळज ठे

B आ ग्रथ हीरालले नोंधेल हागधी शक पटतो छे, माटे तेनी प्रत जोवाना जरूर छे

C एनु अपरनाम "महापुरुषचरित्र" छे ते ससृतमा रचायतु छे एम डेकनकोलेना रिपोर्टमा जणाव्यु छे ते परधी एम लागे छे के वरते ते टीका ह्यो छता चोत्रस निणय माटे तेना प्रत तपासवानी जरूर छे

D आ मेरुतुगदुरि चद्रप्रभसुरिना शिष्य हुता एमणे प्रसवचितामणि खवत् १३६७ मा रच्यो छे

E आ शतक जागळ शतकना बगमा नोंधरामा आवयो पण तेमा उपदेशानो विषय होवाधी दृश पण नोंधु छे

F आ श्लोकस्था कोडायना टीपमा नोंधेन होवाधी ह्या टाकी छे पाठणनी टीपमा तेनी श्लोकहरया साथे थानेफ तपान्त छे ए ग्रन्थ तेनु चोत्रस प्रमाण जे मुनिमहाशयने खरर होय नेमो ते अमोने लती जणानस वृपा करवी

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रच्यानो.स.	क्यां छे ?
२९	उपदेशसंग्रह	पत्र ७			अ. २
३०	उपदेशसार A (गद्य)	ताड ३०६			पा. २ भाव. भरुच.
	„ B (धीजो)	पत्र ३३			अ. १
३१	उपमितिभवप्रपंचा (कथा)	१६००	सिद्धर्षि	९६२	पा. २-३
	„ उद्धार C	२३२८	देवसूरि D		वृ. पा. २
	„ सारसमुच्चय	१४६०	वर्द्धमान		वृ. नगीनदास.
	„ सारोद्धार	५७०	देवेंद्र E	१२८९	वृ. पा. १-२-५
	„ सारोद्धार	पत्र ९३	रत्नसूरि F		राधनपुर.

A, B. आ वने ग्रंथ एकज छे के जुदा जुदा छे ते नकी करवा माटे तेनी प्रतो जोवी जोईए.

C उपमितिभवप्रपंचोद्धार माटे बृहत्पिप्पलिकामा नीचे मुजव उल्लेख छे:—

“ उपमितभवप्रपंचोद्धारः स. देवसूरिकृतः २३७० अनु. ”

D देवसूरि नामना चार आचार्य थया जाणवामा आव्या छे:—

एक देवसूरि जीवानुशासनना करनार वीरचंद्रसूरिना शिष्य हता.

वीजा देवसूरि मुनिचंद्र अने मानदेवसूरिना शिष्य हता, ने वीजा देवसूरि ते धनेश्वरसूरिना चार शिष्य. वीरभद्र, देवसूरि, देवभद्र अने देवेंद्रसूरि एमाना वीजा अने चौथा देवसूरि ते विजयसिंहसूरि शिष्य अभयदेव तच्छिष्य श्रीचंद्र अने तेना शिष्य देवसूरि थया अने तेमणेज आ उद्धार रच्यो छे.

E आ देवेंद्रसूरि अमार धारवा प्रमाणे धनेश्वरसूरिना उपर जणावेल चार शिष्यमानाज होवा जोईए. छता चौकस पुरावा माटे प्रत जोवी जोईए. एमणे चंद्रप्रभचरित्र सवत् १२६४ मा रचेल छे.

F आ नाम अपूर्ण छे माटे तेनुं खर नाम शु छे ते नकी करवा माटे राधनपुरना भडारमानी तेनी प्रत तपासवानी जरूर छे.

नं०	नाम	श्लोक	वर्ता	रच्यना स	क्या छे ?
३२	ऋषिमडलसूत्र A वृत्ति (पेली) वृत्ति (बीजी) वृत्ति (त्रीबी) वृत्ति (चोथी) D वृत्ति (पाचमी) वृत्ति (छठी) अवचूरी	गा २१० ७५९० १८००० ४२०० ४००० प ३६१ प १३५	धर्मगोप पद्ममंदिर शुभमर्दन B हर्षनदन C आच भुवनतुग हर जिनसागर कीर्तिरत्न		वृ पा ३-४ अ २ डेकन पा ३ डेकन. ली अ. १ अ. २ पा ३
३३	ऋषिमडलस्तव E वृत्ति	गा. २७१ ४६१४			वृ वृ
३४	ऋषिमडलस्तोत्र (स) F	७०	मेरुतुग		वृ

A एना माटे वृहत्सिप्पिनिकामा " भक्तिभरोतिऋषिमडलयुत गा २१० " आ रीते नोंध छे एनु अपरनाम महर्षिकुल पण छे

B आ शुभमर्दनगणि ते सोमसुदरखरिना सगानमाना साधुविजयगणिना शिष्य हता, एटले तेओ विक्रमनी सोलमी खदीना मय्यमा यथा होवा जोईए

C आ हर्षनदन उपाध्याय अदारमी सदाना शकआतमा यथा छे तेज होम जोईए

D आ वृत्ति पत्त लॉरडीना भंडारनी टीपमा नोंधा छ, पण ते त्या श्लोक ४००० सुधीनी एटले दशार्णभद्रनी क्या लगी छे मकाना थोडाक भाग अपण छे

E ऋषिमडल स्तवने प्राकृतमा इरिमडलस्तव एम कहनाय छे वृहत्सिप्पिनिकामा एना माटे ' इरिमडलेत्यादि ऋषिमडलस्तव गा २७१ " आनो नोंध छे एने महर्षिस्वय पण कहे छ आ स्वय तेनी वृत्ति साथे वृहत्सिप्पिनिकाा नोंधो छे, पण हनुसुधी अमोने ते क्या पण उपलब्ध थयो नया माटे सदरुद्रु मयनी तेना वृत्ति साथे ज्या होय त्याधी पत्तो मेळववा जोईए

F आ स्तोत्र सस्कृतमा रचायल्ले छे अने तेनी ७० कारिकाओ छे वृहत्सिप्पिनिकामा तेना माटे " ऋषिमडलस्तव स मेरुतुगसरिक्त कारिका ७० " आनो उल्लेख छे

ન	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યા- નાં સં.	ક્યાં છે ?
૩૫	પ, एकोनविंशत्भावना				અ. ૧ કો.
૩૬	ક, कथानककोश	ગા. ૩૦	જિનેશ્વર		હાં.
૩૭	કર્પૂરપ્રकरण वृत्ति	૩૫૦ ૧૭૬૮	હરિસાધુ		મુદ્રિત. પા. ૧-૨ કો.
૩૮	अवचूरि कस्तूरीप्रकरण वृत्ति	૧૨૬૦ કા. ૧૮૨ પત્ર ૨૬	જિનસાગર હેમવિજય A	૧૫૫૧	પા. ૪ પા. ૩ સં. ભાવ.
૩૯	कृष्णयुधिष्ठिरधर्मगोष्ठी B	૪૬૮			ડેક્કન પેજ ૧૧૪
૪૦	कामघट C				ડેક્કન પેજ ૩૩
૪૧	क्षपकशिक्षाप्रकरण	પત્ર ૮			અ. ૧

A આ હેમવિજયગણિ સેનસૂરિની વારે થયેલા છે.

B આ ગ્રંથ ડેક્કન કૉલેજના રિપોર્ટમા પેજ ૧૧૪ માં નોંધીને નોંધ્યું છે કે તે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને ગુર્જર ભાષામાં રચાયેલો છે. પણ તે કોણે રચેલ છે તે સંવધી કરી શકી શકાતા જાણવામા આવી નથી, તેથી શક્ય રહે છે કે વલ્લભે તે અન્યમતિનો પણ હોઈ શકે, માટે આ વાતની ચોકસાઈ ખાતરી કરવા માટે તેની પ્રત તપાસવાની જરૂર છે.

C સદરહુ ગ્રંથ પણ ડેક્કન કૉલેજના રિપોર્ટમા તે પ્રાકૃત અને ગુર્જર ભાષામાં રચાયેલો છે એમ જણાયું છે, પણ તેના નામ ઉપરથી શક્ય પડે છે માટે તેની પણ પ્રત જોવાથી નિર્ણય થઈ શકે.

क्र.सं.	नाम	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य नो स	क्यां छे ?
	ज.				
५०	जयंतीप्रश्नोत्तरसंग्रह		मानतुंग		वृ. डेकन.
	वृत्ति A	६६००	मलयप्रभ	१२६०	वृ. डेकन.
५१	जीवदयाप्रकरण	गा. ११७			नगीनदास.
५२	जीवसबोध	१००			डेकन.
५३	जीवानुशासन		देवसूरि B		पा. ४
	वृत्ति	२२००	(स्वोपगत)	११६२	पा १-४
५४	जीवोपदेशपंचाशिका				पा. २
५५	जीवोपालंभप्रकरण	गा. २५			नगीनदास.
	श.				
५६	ज्ञानचतुर्विंशतिका (सं.)				डेकनपेज ३४
५७	ज्ञानदीपिका C		ज्ञानविजय.		डेकन.
५८	ज्ञानपंचाशिका D	७५			जेसल.
५९	ज्ञानादित्यप्रकरण E	गा. ८३	हरिभद्र.		पा. २

A. आ वृत्ति माटे वृत्तद्विष्पनिकामा नांचे मुजव उल्लेख छे:—

“ भगवती १२ श. उद्देशगतजयतीप्रश्नोत्तरसंग्रहप्रकरणस्य मानतुंगीयस्य वृत्तिर्जयति-
चरित्रवाच्या प्रा. मु. १२६० वर्षे मलयप्रभी ६६०० ” आ उपरथी आ वृत्ति फक्त
डेकन कॉलेजमा छे. तेथी ते उतारो करवा योग्य छे.

B आ देवसूरि वीरचंद्रशूरिना शिष्य हता एटली हकीकत जाणवामा आवी छे.

C ज्ञानदीपिका प्राकृतमा रचाएली छे अने ते ट्वा साथे छे.

D आ ज्ञानपंचाशिका जेसलमेरनी टापमा हीरालाले नोंधी छे, पण ते जैनाचार्यकृत छे के
अन्यमतिनी कएली छे ते वाचत शक रहे छे माटे तेनी प्रत फरी तपासवी जोईए.

E आ प्रकरण हरिभद्रशूरिकृत ग्रंथोना वर्गमा नोंव्यु छे. परतु तेमा उपदेशनो विषय दोवाथी
इहा पण नोंधवामा आव्यु छे.

નંબર	નામ	શ્લોક	વર્ત્તા	રચ્યા નો સ	વ્યા છે ?
૬૦	જ્ઞાનાકુશ A	પા ૨૮			શુ ઘ ૧
	ત				
૬૧	તત્ત્વવિદુ B	૭૧			શુ
૬૨	તીર્થમાલાપ્રકરણ	પન ૮			ઘ ૧
	ક				
૬૩	દર્શનમાલા C (સ)	૭૦૦			જેસલ
૬૪	દર્શનશુદ્ધિપ્રકરણ D	ગા ૨૨૬	ચંદ્રપ્રમ		ચ લા
	શુત્તિ	પન ૮૬	વિમલગણિ E	૧૧૮૪	પા ૧
	શુત્તિ	૩૮૦	દેવમદ્ર F		શુ પા ૧૨૪૫ લીં
	અવચૂરિ	૬૪૦			ડેફન
૬૫	દશદષ્ટાતર્ગીતા (પ્રા)	પન ૪	સોમવિમલ G		ડેફન

A આ જ્ઞાનાકુશ કુલક જેતુ લાગ છે છતા તેના નામ અપરથી તે પ્રથ પળ હોઈ શકે માટે હાલ અમે તેને પ્રથ ધારીને દશ નોંખે છે

B આ તત્ત્વવિદુ સૂક્તરૂપે છે

C આ નામજ શક પદ્ધતિ લાગે છે કારણ કે તે સવધી કોઈ બાજો પુરાવો જોવામાં આવતો ગયો અને તે જેસલમેરનો ટીપમા હીરાલલે નોંધ્યુ છે તો તે મા ત્રયતનો પ્રથ છે અને તેનુ રરુ નામ શુ છે તે માત્રના ચોત્ત્રણ ધારી કરવા માટે તેના પ્રત પગથી તપાસવાની જરૂર છે

D આ દશનશુદ્ધિ નામ સદહરિવૌપધિ છે વિર્સન રિપોર્ટ ત્રીત્રાના પન ૧૪૫ મા યતુ અપરનામ સમ્યકપ્રકરણ છે ઇમ જાણેલ છે, સમ્યક પ્રકરણના કરનાર પળ પૌર્ણમિક ચંદ્રપ્રમશુરિ હોવાથી આ ત્રણે પ્રથો ઇકજ છે કે જુદા જુદા છે તે માત્ર શકુ રહ છે માટે હાલમા અમ તેમના નામ નીચ નાટ જાપા જુદા જુદા નોંખ્યા છે હમણા પવાસત્રી આણદસાગરજી મહારાજ તરથી સ્વર મઠી છે કે, દશનશુદ્ધિના કરનાર પૌર્ણમિક ચંદ્રપ્રમશુરિ નથા પળ ચંદ્રશુરિ છે

E આ વિમલગણિ ધર્મધોપશુરિના શિષ્ય હતા

F આ દેવમદ્રશુરિનો વધુ હર્ષિન્ત જાણવા માટે આ શુત્તિની પ્રશસ્તિ નોવાની જરૂર છે

G આ સોમવિમલશુરિ દેમસોમશુરના શુક હતા, તજો સપગચ્છના નાયક તરાકુ ઇ ૧૬૪૬ મા વિદ્યમાન હતા

ક્ર. નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૬૬	દાનપ્રકાશ	૮૪૦	કનકકુશલ	૧૬૫૬	પા. ૩-૪ અ. ૧
૬૭	દાનપ્રદીપ	૬૬૬૧	ચારિત્રરત્ન A		પા. ૪-૫
૬૮	દાનોપદેશમાલા B વૃત્તિ	પત્ર ૭૧			વૃ. વૃ.
૬૯	દૃષ્ટાંતમાલા		અરિમલ્લ C		પા. ૩
૭૦	દેવતત્ત્વપ્રકરણ D				પા. ૩
૭૧	દ્વાત્રિંશદ્વાત્રિંશિકા	પત્ર ૧૪	હેમચંદ્ર		અ. ૧
૭૨	દ્વાદશભાવના (સં.) ધ.	૬૮૩			પા. ૨
૭૩	ધર્મકલ્પદ્રુમ	૪૮૧૪	આગમિકલ્પદયધર્મ		પા. ૩. અ. ૨ ડેકન-
૭૪	ધર્મતત્ત્વ E વૃત્તિ				પા. ૩ અ. ૧

A આ ચારિત્રરત્નગણિ તે ન્યાયાર્થમંજૂષાના કરનાર હેમહસમ્પાણના વિદ્યાગુરુ તરીકે ઓળખાવેલ છે. ઇટલે તેઓ વિક્રમની સોલ્મી સદીની શરૂઆતમા થયેલા છે.

B દાનોપદેશમાલા તેની વૃત્તિ સાથે વૃહત્પિપ્પનિકામા નોંધી છે, પણ અમોને હજુસુધી તે ક્યા પણ ઉપલબ્ધ થઈ નથી.

C આ અરિમલ્લ તે કોણ હતા તે સવધીની દૃકીકત જાણવા માટે ગ્રંથની પ્રશસ્તિ જોવાની જરૂર છે.

D આ પ્રકરણ પ્રાકૃતમા રચાયલું છે, પણ તે સવધી વિશેષ માહિતી જાણવામા આવી નથી.

E આ ધર્મતત્ત્વપ્રકરણ તેના નામ ઉપરથી વૃદ્ધ સરસ લાગે છે, માટે પાટણના મંઢારમાથી તથા અમદાવાદના હેલાના મંઢારમાથી તેની પ્રતો મેલવી વૃત્તિ સાથે તેનો ઉતારો કરવાની જરૂર છે.

नं०	नाम	श्लोक	कृत्ता	रच्य- नो स	क्या छे?
७५	धर्मचिंदु A	२७३	हरिमद्र		वृ पा १ ३ पसुलभ्य
	वृत्ति	३०००	मुनिचद्र		वृ पा १ भाव सुलभ्य
७६	धर्मरत्न B	गा १८१	शातिसुरि C		पा २ मुद्रित
	वृत्ति D	९६८२	देवेंद्रसुरि		वृ पा ३ मुद्रित
	लघुवृत्ति	ता. १७१	शातिसुरि		पा २
७७	धर्मरत्नकरडक	९५००	धर्द्धमान	११७२	पा ५ जेसल
७८	धर्मधिलास	१३३७	खरतर मतिनदन		पा ४-५
७९	धर्मविशेष	गा ८२			डफन ताड, ली
८०	धर्मशिक्षा	का ४४	जिनवल्लभ		ली
	वृत्ति	प. १२८	सफलचद्र		अ १-२
८१	धर्मावृत	४७६	आशाधर E		पा ४
	„ (बीजु)	६०			पा ४

A आ धर्मचिंदु हरिमद्ररचित प्रथमा वगमा नोंथो छ, छतां ते उपदेशना प्रप होवाथी
रतां पण नोंथो छे

B एउ आदिपद “ नमिऊण सयगुणपारवणकुलहरि रिमल्लेयणं धीरम् ” एणु छे

C धारगद्रगच्छना वादिवाण शातिसुरि यएण छ ते आ छे के दीन्या गच्छना स्थानक
वृत्तिके ओळ्हावण शातिसुरि ते छे ते धारन चाकण निगण यवा र्थी मटे मुक्त मुनिमहापाने
विताउ करवाण आन छे क जना ए सबधिनि मगती होय तेमण त अमन एणी जगारवा कृपा करवी

D वृद्धवृत्तिकां एता मणे आवा उणव छ “ धर्मरत्नशाण वपाभादेदिवा भाद २१
शादिवाणा ९७००-९६८२ ”

E आ आशाधर शिखर हो एणु वक्रावृत नामो जगती प्रप रणे छे (तुओ आ पुणइता
१० मा) एण आशाधर आ हावा गार्हप. छतां धोकरु तातथी मटे प्रत भावानी जम्प छ

ક્રમ.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ.	ક્યાં છે ?
૮૨	ધર્મોપદેશ ધર્મોપદેશ A (ત્રીજો) લઘુવૃત્તિ	૮૩૩૨ તા. ૨૨૪	યશોદેવ	૧૩૦૫	વૃ.
	ધર્મોપદેશ (ત્રીજો)	પ. ૮૫	કૃષ્ણપિંશિપ્ય જયસિંહ. મેરુતુગ.	૧૧૫	વૃ. પા. ૨. લીં. ડેકન પે. ૧૧૫
	ધર્મોપદેશ (ચોથો)	૭૦૦			ડેકન.
૮૩	ધર્મોપદેશમાલા B વૃત્તિ	ગા. ૧૦૨ ૬૬૫૦	જયસિંહ જયસિંહ C		પા ૨-૪ પી. રિ. ૫ વૃ. પા ૨-૫
	વૃત્તિ	૧૩૦૦૦	વિજયસિંહ D		વૃ. પા. ૨
	ધર્મોપદેશમાલા (વીજી.) E	ગા. ૧૦૪	યશોદેવ		વૃ પીટર્સન રિ. ૧ પેજ. ૨૫-૪૭

A આ ધર્મોપદેશપ્રકરણ હદા નોંવ્યુ છે. પળ તે ક્યા પળ ઉપલ્લવ થયુ નથી.

B આ ધર્મોપદેશમાલાના આઘન્ટના ઉતારા નીચે મુજવ છે.—

આઘમા “ સિઝ્ઝુઝ મઝ્ઝ વિ સુચદેવી તુઝ્ઝ મરણાઝ સુદરા ડ્ઝ્ઝતિ । ઘમ્મોવણ્સમાલા વિમલ્લગુણા જય પઢાઙ્ઝવ ।” આ ગાથા આપીને પ્રાન્ટમા “ ઇયજયપાયડકન્હસુગિસીસ જયસિંહસૂરિણા રઙ્ઝયા । ઘમ્મોવણ્સમાલા કમ્મવ્ઝલયમિચ્છમાણેણ ।” આ ઉપરથી આ ધર્મોપદેશમાલાના કરનાર જયસિંહસૂરિ તે સ. ૧૧૫ માં ધર્મોપદેશની લઘુવૃત્તિના કરનાર કૃષ્ણપિંશિપ્ય જયસિંહસૂરિજ છે. જેસલમેરની હીરાલાલે કરેલી ટીપમા આ કર્તા ગોવિંદગણિ જણાવ્યા છે, પળ તે વાવત તેહુ કોઈ પ્રમાણ ન મલ્લવાથી આ નામ તદન અપ્રમાણિક ગણિ શકાય તેમ છે.

C આ જયસિંહસૂરિ મૂલકારજ છે કે હર્ષપુરીય ગચ્છમાં થયેલા છે તે છે તે વાવતનો ચોકસ નિર્ણય આ વૃત્તિનો પ્રશસ્તિલેખ જોયા વગર થઈ શકે તેમ નથી.

D આ વિજયસિંહસૂરિ મલધારી હેમચંદ્રસૂરિના શિષ્ય હતા. આટલે આ વૃત્તિ તેમણે વિક્રમની વારમાં સદીના આઠરીમા રચી હોવી જોઈએ.

E આ ધર્મોપદેશમાલાની આદિની ગાથા પળ “ સિઝ્ઝુઝ મઝ્ઝ વિ ” ઈવીજ છે, પળ તેના પ્રાન્ટની ગાથા જયસિંહસૂરિકૃત ધર્મોપદેશમાલાથી તદન જુદી છે. આ વાવતની ધાતરી કરવી હોયતો પિટર્સનના રિપોર્ટ પહેલાના પેજ ૨૫ મા જુઓ. શિવાય તેજ રિપોર્ટના પેજ ૪૭ મા કર્તાના નામ વગરની આ ત્રીજી પળ ધર્મોપદેશમાલા નોંવેલી છે. અને તેની પ્રાતની ગાથા ઉપર જણાવેલ વે ધર્મોપદેશમાલા કરતા મિત્ર છે, છતા તે જુદી જુદી છે કે આકજ છે તે વાવતની ધાતરી કરવા તેની પ્રતો પરસ્પર મેલવી જોવી જોઈએ.

क्र.	नाम	श्लोक	वर्ता	रचयिता	कथा छे ?
	न				
८४	नरभयदृष्टातोपनय		नयामिमल		पा १
८५	नवकारप्रकरण	गा २७			लौं नगोनिदास
८६	नवपदप्रकरण	गा १४०	जिनचंद्र A		पा १-२-४ ख
	घृत्ति (पञ्जी)	२२१०	जिनचंद्र	१०७३	घृ पा. २
	घृत्ति (चीनी)	२१३०	देवगुन B	१०७१	घृ
	घृत्ति (प्रोजी)	२६००	कुलचंद्र	१०७३	घृ पा २
	घृत्ति (चोर्या)	१००	यशोदेव	११६५	घृ पा १-४-५
	घृत्ति (पाचमी) C	९०००	देवेंद्र	११८८	घृ
८७	नवविधभाजना	२१६			पा ४
	नारीयोत्र (प्रा) D	३००			जेमल
८८					
८९	न्यायधर्मोपदेश	७८	(अपूर्ण)		डेफिन
	प				
९०	पञ्जामभ्यारण	गा ११८	जिनचंद्र		लौं जेमल

A आ निचर्याणि उवेणान्ता हा, एतु अपरनाम देवगुण्णि छ तेमनी वगावळा जा छिंते छ — देवगुण्णि तमना निप्य कवण्णि तमना निप्य । उद्वण्णि तेमना निप्य देवगुण्णि । तमना निप्य य उद्वण्णि यवा

B देवगुण्णि ते कवण्णि भि मिद्वण्णि निप्य छे

C जा वृत्ति मटे श्लोकेणोक्ता. " जीमत्तरवृत्ति ११८२ वों वृत्तारदेदीना १००० " आता नोंप छ

D आ मय वेणोरेता दीनमा हीरागे नोंपे छ वेणो क ररे ०, मगे वेणो प्रा वी पा काण्डना ॥ २५२ छ

न	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
११	पंचप्रमाणीपंचाशिका		ककुदसूरि A		पीटर्सन रि. ५
१२	परिग्रहप्रमाण	गा ८४	धर्मघोष B	११८६	पा. २ पीटर्सन ५
	परिग्रहप्रमाण C (व्रीजुं)	गा. ६४	मानतुंग		खं. नगीनदास
१३	पर्यंताराधना	गा ८७	सोमसूरि		पा. ३-४ अ. १
१४	पर्यंतोपदेश D	२४५	जिनवल्लभ		लॉयडी.
१५	पुंडरीकस्तव	गा. ११८			खं नगीनदास.
१६	पुष्पमाला E	६२५	मलधारिहेमचंद्र		वृ. सुलभ्य.
	वृत्ति	१३८६८	स्वोपन्न	११७५	वृ. पा. १-२-३-५
	वृत्ति	२०००	साधुसोम F	१५१२	पा. ३-४ जेसल. डे.
	लघुवृत्ति	२३३०			भाव.
	अवचूरि G	१९००	आंच. जयशेखर	१४६२	पा. १ लॉ.

A आ ककुदसूरि ते उक्केशगच्छना देवगुप्तसूरिना शिष्य ककुदसूरि यथा छे तेज छे. एमनु प्राकृतमां ककुदसूरि एवु नाम हतु. ककुदयनु संस्कृतरूप ककुद एवु थाय छे. कक आ नाम अप-भ्रंगयी थयु होय एम लागे छे. छता तेज नामथी तेमने ववु ओळखवामां आवे छे.

B आ धर्मघोषसूरि शीलभद्रसूरिना शिष्य हता, एमणे धवलश्रेष्ठिने माटेज आ परिग्रहप्रमाण रच्युं हतुं.

C एनु व्रीजु नाम " द्वादशत्रतनिरूपण " एवु छे.

D आ पर्यंतोपदेश जूनी गुर्जर भापामा रचाएल्ले छे.

E पुष्पमालाने उपदेशमाला पण कहे छे. एनी मूळनी गाथा ५०५ छे.

F डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा एना कर्ता सोमगणि नोंच्या छे पण अमाग धारवाप्रमाणे रिपोर्ट-को तेमनुं अरखु नाम भूलथी साधुपद ते सोमगणितुं विशेषण छे एम धारीने छोडी दीथुं लागे छे. छतां सोमगणिए कोई जूदी वृत्ति करी होय तो पण होय माटे डेकन कॉलेजमानी प्रत तपाशी जायानी जरूर रहे छे.

G आ अवचूरि सक्षितवृत्ति रूपे छे.

नं०	नाम	श्लोक	वर्त्ता	रचया नाम	क्या छे ?
९७	पूजाप्रक्रम A	ताड १९			पा. २
९८	प्रतिलेखनाप्रकरण				पा ४
९९	प्रबोधचिंतामणि	२०३२	आच. जयशेखर	१४६२	पा १-३-४
१००	प्रवचनमाताप्रकरण	पत्र १			अ १
१०१	प्रन्याविधान	गा २५	परमानदसूरि B		वृ पीटर्सन ५
	वृत्ति	४५००	प्रद्युम्नसूरि	१३३८	वृ ली डेकन
	वृत्ति C	२४८	जिनप्रभ		वृ
१०२	प्रश्रोत्तररत्नमाला	गा २९	विमलसूरि		पा १-२ ३ धमुद्रित
	वृत्ति	ताड ६८	देवेंद्रसूरि	१४२९	वृ पा २-३
	वृत्ति	पत्र १९१	मुनिमद्र		अ २
	अवचूरि	४९६			पा १-३-४-५
	य				
१०३	बोधप्रदीपिका D	का ५२			वृ
१०४	बोधपदनिशिका				डेकन पेज ३१
	भ				
१०५	भगवानना	गा ५३१	मलधारिहेमचन्द्र	११७०	वृ पा १-२ ली सु

A आ पूजाप्रक्रम पाठना बीजा नगरना भद्वारमा ताडपत्रपर लयेगे छे, पण ते बीजे स्थले उपलब्ध ययो नथा

B आ परमानदसूरि माटे आ पुस्तकना पेज ८१ मा लेपना नाम नीचेनी नोट बुनो

C वृहत्त्रिपिनिसामा आ वृत्ति माटे "प्रवचननिहाणवृत्ति जैनप्रभा २४८" जायो नाथ छे. पण ते अमाने हनुसुधी उपलब्ध थई नथी

D आ बोधप्रदीपिका वृत्तरूपे छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	મ્હ્યાનો સં.	ક્યા છે?
	વૃત્તિ	૧૨૧૧૦	સ્વોપન	૧૧૭૦	વૃ પા. ૧-૨ મુલમ્ય
	અવચૂરિ	૪૩૫			પા ૪
૧૦૬	ભાવના A	પત્ર ૨૦	અલ્લુ		અ. ૧
૧૦૭	ભાવનાદ્વારિશિકા				હેક્કન.
૧૦૮	ભાવનાપ્રકરણ B	૪૧૪			હેક્કનતાહ
૧૦૯	ભાવનાસધિ C	૭૭	દેવસૂરિશિષ્ય શિવદેવ		પા. ૩
	મ				
૧૧૦	માર્ગતસ્વપ્રકરણ				પા. ૩
૧૧૧	મૂલશુદ્ધિ D (સ્થાનપ્રકરણ)	ગા.૨૧૨	પ્રયુક્તસુરિ E		વૃ. પા ૨-૪-૫
	વૃત્તિ	૧૩૦૦૦	દેવચંદ્ર		વૃ પા ૧-૨-૪-૫
૧૧૨	મૃગાપુત્રસંધિ F	ગા. ૬૦			પીટર્સન ૫

A આ ભાવના કદાચ ગુજરાતીમા રચાયલી હોય તો હોય. વઠ્ઠી કર્તાનુ નામ પળ વિચિત્ર જેઠુ લાગે છે માટે તેનો પ્રત જોવાની જરૂર રહે છે.

B આ પ્રકરણ હેક્કન કૉલેજમા તાહપત્રપર છે અને તે સસ્કૃતમા છે.

C આ ભાવનાસધિ પ્રાકૃતમા છે પણ તેની ચોક્કસ ગાથા કેટલી છે તે જાણવામાં આવી નથી.

D આ મૂલશુદ્ધિનુ વીણુ નામ સ્થાનકપ્રકરણ છે. વૃહત્પિપ્પનિકામાં આ માટે “ ઢાળાશુદ્ધિ-દેવસૂરિગુરુદેવ-સદ્રીયા તત્સૂત્ર પ્રયુક્તસુરિહૃત ૧૩૦૦૦ ” આવી નોંધ છે.

E પ્રયુક્તસુરિ માટે આ પુસ્તકના પેજ ૧૨૮ માં તેમના નામ ઉપરની નોટમા જણાવેલા ચોથા પ્રયુક્તસુરિનો ઇતિહાસ જુઓ.

F આ સધિ ઢૂની ગુર્જરમા રચાયલો છે.

ક્રમ	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સ	ક્યા છે ?
	ય				
૧૧૩	યતિશિક્ષાપચાશિકા (પ્રા)		પૃથ્વીચંદ્ર A		હેકન
૧૧૪	યદર્થમાલા B	૧૧૦			રિપોટ ૫
૧૧૫	યોગશાસ્ત્ર C	૧૨૦૦	હેમસૂરિ		વૃ પા સુલ્ભ્ય
	વૃત્તિ	૧૨૦૦૦	સ્ત્રોપન		વૃ પા સુલ્ભ્ય
	અવચૂરિ	૧૫૦			પા ૧ ૪
	આતરચૈ.યવદનવૃત્તિ	૧૦૧૧	સ્વોપહ		પા ૨
	આતરશ્લોક				પા ૨ લીં
	ર				
૧૧૬	રતનાવલી D	૪૦૦૦			જેસલ
૧૧૭	રુપકમાલા		પુણ્યનદન		હકન
	વૃત્તિ	૪૦૦	મમયસુદર		હેકન
	વ				
૧૧૮	વગ્માનવેશના	૫૫૦૦	શુભવર્તન	૧૫૫૨	પા ૩-૮૪

A પૃથ્વાચંદ્રસૂરિ તે થવા છુ એક પૃથ્વાચંદ્રસૂરિ વયુવળા વ પતિપ્પનના કરનાર અને દેવસનગણિના શિષ્ય હતા તેના રાજગચ્છના પન્નચંદ્રના વગમા થઈલા અને પ્રમાનદના મુદ્દના હવ આ વે પૃથ્વાચંદ્ર સૂરિમાના આ પૃથ્વાચંદ્રસૂરિ કયા છે તે નક્કા કરવા માટે હેકન કૉલેજમાના તેની પ્રત જોવી જોઈએ.

B યદર્થમાલાનુ રિપોટમા જદ્યમાગ ઇડુ નામ આપ્યુ છે જા પ્રથ વગતે વ્યારુણ વિપયના વળ હોઈ શકે માટે તે શી વાવલનો પ્રથ છે તેના વસી વાતરા માટે પ્રત જોવાના નહર રહે ડ

C યોગશાસ્ત્રના વાર પ્રજ્ઞા છે તેના પ્રથમના ચાર પ્રજ્ઞા ઠેર ઠર મલ્લે છે, ચાત્રીના આટ પ્રજ્ઞા થોડ ઠગણે મલ્લે છે

D આ પ્રથ જેસલમેરની ટીપમા હારાગે નોંધો છે, અને તેમા શ્લોક ૪૦૦૦ નોંધતે તે નક્ક છે એમ જણાયુ ડ વળ તેના નામમા તથા શ્લોકવ્યામા શક રહે છે, તો તેનુ વલ નામ મુ છે અને તે શા વાવલનો પ્રથ છે તે જાણના માટે તેના પ્રત વચીવા વવાસની જોઈએ ટીએ.

ક્ર. નં.	નામ.	રકોલ	કર્તા.	વ્યાજનો સ.	ક્યાં છે ?
	વર્ધમાનદેશના (ધોંઝી)	૪૩૦૦	ગજકીર્તિ		ગાન.
	વર્ધમાનદેશના (ધોંઝી)	૩૪૦૦	સર્વવિજય		પા. ૪
૧૧૯	વિવુદ્ધપ્રકરણ A	પત્ર ૬૩			જેસલ.
૧૨૦	વિવેકમંજરી B	ગા. ૧૪૫	આસઢ	૧૨૪૮	પા. ૧-૨-૩ ભાવ.
	વૃત્તિ	૮૦૦૦	ચાલચંદ્ર C	૧૨૭૮	પા ૧-૨-૫ લો.
	વૃત્તિ D (ધોંઝી)		અકલક L		વૃ.
૧૨૧	વિપયપચ્ચાશિકા				પા. ૪
૧૨૨	વાંતરાગવિક્રમિ	૧૮૪૮	દેવેન્દ્રમુરિ		ગ.
૧૨૩	વીરચતુર્માસિકપ્રકરણ				પા. ૩
	વૃત્તિ	પત્ર ૭			પા ૩
૧૨૪	વૈરાગ્યકલ્પલતા	૬૭૫૦	ચશોવિજય		પા. ૫. મા. ગં.
	શ				
૧૨૫	શાંતસુધારસભાવના	૩૫૭	વિનયવિજય		પા. ૩

A આ પ્રકરણ તેના નામ અપરથી વહુજ સમ્મ લાગે છે, અને તે જેસલમેરનો વધે દાનોમાં નોવાયુ છે.

B આસઢે પોતાના ગુરુ અભયદેવસૂરિના વચનો સામઢી તેના અનુચારે આ વિવેકમંજરી રચી છે.

C આ વૃત્તિ કરતાં કનકપ્રમશિષ્ય પ્રયુગ્મુરિ ચાલચંદ્રમૂરિના મદદગાર હતા.

D આ વૃત્તિમાંટ વૃહત્પ્રતિનિકામા " માણુસ્સરિત્તેતિ વિવેકમંજરી વૃત્તિ: ૧૨૩-વર્ષેકલક-દેવીયા " આગે નોંધ છે. આ નોંધમા રચાયાના સવતનો અક નોંધતા છેવટનો અંક મૂલથી રહા ગયો છે. ઇટલે તે સ. ૧૨૨૯ થી તે સ. ૧૨૪૦ ના અદર રચી હોવી જોઈયે.

E આ અકલકદેવ અમાગ ધારવામુજન ચૈત્યવંદનાદિસૂત્રસાધુશ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણ પદપર્વાયમ-જરીઓના કરનાર નેજ હોવા જોઈયે. (જુઓ જૈનાગમ લિસ્ટ પેજ ૨૮ માનો તેમના નામ નોંચેની નોટ) છતાં વલ્લે દિગર અકલકદેવે પળ આ વૃત્તિ રચી હોય તો હોય પળ તે અનુપલઢવ હોવાથી નિર્ણય યવો મુદકેલ છે.

नंबर	नाम	श्लोक	धर्ता	रचया नो स	क्या छे ?
	वृत्ति A	४४०			डेकन
१२६	शीलप्रकाश	पत्र ९४	पद्मसागर		अ २
१२७	शीलभावना				वृ
	वृत्ति	९५७०	रविप्रम	१२२९	वृ
१२८	शीलसधि	२२८	जयशेखर शिष्य इश्वरगणि B		पा ४
१२९	शीलोपदेशमाला	१४५	जयकाति C		पा ३-४ सुलभ्य
	वृत्ति	६९४९	विद्यातिलक		पा ३-४ अ १
	वृत्ति (बीजा)	४०	पुण्यकीर्ति		डेकन
	वृत्ति D (बीजा)		सोमतिलक	१२९४	वृ अ २
१३०	शृंगारवैराग्यतरंगिणी		सोमप्रम		मुद्रित
	वृत्ति				अ १ को.
१३१	श्राद्धगुणविवरण	२२२५	जितमदन	१४८९	पा ३-४-५
१३२	श्रावकधर्मप्रकरण E		हरिमद्र		पा २-५
	वृत्ति	१५१३१	अभयतिलक	१३७७	पा २-५

A डेकन कॅलिनना रिपोर्टमा आ ग्रंथिने वृत्ति तरात्रे नोथ्यो छे पण धनेना श्लोक मळता होवायी आपण मूलज हने एम मालम पडे छे छता चोत्रस निणय ग्रथ जोये यह गके

B जयशेखरसूरि ३ थया छे एक तपागच्छना नागपुरीय शास्त्रामा थएला छे तेओ हम्मरिना वरतमा एटले स १३०१ थी त १३६० सुधीमा विद्यमान हता बीना अचलगच्छना जयशेखरसूरि थया, एमणे जैन पुमारसप्रवनाय स १४३६ मा रच्यु छ ह्ये जा इश्वरगणि उपर तणाभेला ३ जयशेखरसूरिमाना कया जयशेखरसूरिना शिष्य हता ते जणत्रा माटे आ प्रतनी प्रशस्ति तपासवी नाइए.

C जयशारिंसूरि जयसिंहसूरिना शिष्य हता, एटली इनीन्त जाणत्रामा आवी छे

D आ वृत्तिनु नाम शीलतरंगिणा छे, वृहत्स्पिनगरामा एना माटे " शीलोपदेशमालावृत्ति १२९४ वर्षे रुद्रपत्नीयश्रासोमतिलकाया " आवो नाँव छे

E आ श्रावकधर्मप्रकरण त्रिरहाफ छे

नं०	नाम	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यो- नो सं	क्यां छे ?
१३३	श्रावकप्रबोध	पत्र ३६६	शुभवर्जिन		डेकन.
१३४	श्रावकलक्षणसप्तदशक A	१५५५			पा. ४
१३५	श्रावकविचार B				सं. नगीनदास
१३६	श्रुतास्वादशिक्षा प.	गा १६८	महजकुशल		पा ४
१३७	पट्टिगतक वृत्ति C अवचूरि स.	गा. १६० २००	नेमिचंद्र श्रावक		मुद्रित. को. पा. ४ को.
१३८	सज्जनचित्तवह्नुम				भा. को.
१३९	सदृत्तपंचाशिका	का ५२	विमलाचार्य		न.
१४०	सम्यक्त्वकलिका D	३०			जे
१४१	सम्यक्त्वपरीक्षा E	पत्र ३१४	विमलसूरि		डेकन पेज ३२
१४२	सम्यक्त्वप्रकरण		चंद्रप्रभ F		वृ पा. २

A आ त्रय संस्कृत प्राकृतमा रचामलो छे.

B आ श्रावकविचार खवातना शेट नगीनदासना भटारमां छे, त्यां पण ते अपूर्ण रियतीमा छे.

C आ वृत्ति फक्त जोडामना भटारमां छे.

D आ सम्यक्त्वकलिना हीरालाले नौधी छे माटे शक पडती छे.

E आ त्रय डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा पेज ३२ मां पत्र ३१४ नो नौच्यो छे पण बीजे कोई पण स्थले उपलब्ध यवो नथी.

F आ सम्यक्त्व प्रकरणना करनार चंद्रप्रभसूरि ते पौर्णभिक चंद्रप्रभसूरि छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रख्या नों स	क्या छे?
	वृत्ति L	८०००	श्वर श्रीतिलक	१२७७	वृ पा ४ जेसल
	वृत्ति B (बीजी)	१२०००			वृ
१४३	सम्यक्त्वप्रकाश				डेकन पेज ११८
१४४	सम्यक्त्वरत्नमहोदधि				पा १
१४५	सम्यक्त्वसप्ततिका C	८९	हरिभद्र		पा ५
	वृत्ति	७७११	सद्यतिलक D	१४२२	पा ३४ जे राघन
	अद्यचूरि	३५७	शिवमडन		पा ६
१४६	सम्यक्त्वालकार E	पन ३३७	विवेकसमुद्र		जेसल वे
१४७	सम्यक्त्वोद्धार F				जेसल
१४८	सबोधप्रकरण G	२ ५४	हरिभद्र		अ १ डे

A आ वृत्ति माटे वृद्धटिप्पनिकामा “सम्यक्त्ववृत्ति सूत्रकार चद्रप्रभसूरिसतानीयश्रीतिलकीया १२७७ वार्षिका ८००० ” आवा रीते नोंष छे

B रुद्रहु वृत्ति पण फक्त वृद्धटिप्पनिकामा नोंधेली छे, ते टिप्पनिकामा तना माटे “सम्यक्त्व वृत्ति प्राकृतनयागभा १२००० ” आबो नोंष छे, कत्तानु ताम आप्यु नथी पण ते हनुसुधी जमोने नोइपण भदरमा उपलब्ध यई नया

C एउ अपरताम “दगनसत्तरी ” छे

D आ सद्यतिलकाचाय रुद्रपल्लीय गुणशेखरसूरिना शिष्य अने प्रभोत्तरत्नमालानी वृत्तिना करनार देवेंद्रसूरिना गुरु हता

E जा ग्रथ जसलभरनी नरे टापोमा नोंधेली छे पण त्या सम्यक्त्वालकारादि आवा रीते आदिपद जोडेल होवाधी बीजा कया कया ग्रथो छे त ताणना माटे प्रत चोरानी जरूर रह छे

F आ सम्यक्त्वोद्धार जेसलभरनी टीपगा हारालले नाच्यो छे, पण तेनी श्येनसख्या के कांइ इकीन्त आपी नथी

G एनु बीजु नाम “तत्वप्रकाशन ” छे आ ग्रथ पूर्ण हरिभद्रसूरिना बगमा नोंष्यो छे, उता ते उपदेशनो होनाया पुनरपि इरा पण नोंषनामा आब्यो छे

ક્ર. નં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ.	ક્યાં છે ?
૧૪૯	સંગેશ્વરસ્વામનપંચાશિકા		નરચંદ્ર A		ગ્રી. અ. ૧
૧૫૦	સંવોધસ્તરી વૃત્તિ		જયશેખર		પા. ૧-૩ મુદ્રિત. કો.
૧૫૧	સંયમમંજરી વૃત્તિ	ગા ૩૫ ૬૩૦	મહેશ્વરસૂરિ હેમહસશિષ્ય B		પા. ૪ લીં. ડેકન.
૧૫૨	સંવેગચૂડામણિ	ગા ૫૨			ડેકન.
૧૫૩	સંવેગદ્રુમકંદલિ	કા. ૫૨	વિમલાચાર્ય		વૃ પા. ૧-૫
૧૫૪	સંવગદ્રુમમંજરી	પત્ર ૯	સંયમકવિ C		ડેકન પેજ ૬૪
૧૫૫	સંવેગમંજરી D		દેવમદ્ર		ડેકન.
૧૫૬	સવેગમાલા	કા ૨૫	દિગ. વ્રહ્મ		સ્વ નગાનદાસ.
૧૫૭	સવેગરંગશાલા	૧૦૦૫૩	અમયદેવવૃદ્ધ- ભ્રાતૃજિનચંદ્ર. E	૧૧૨૫	વૃ પા. ૫ અ. ૧ ડે.
૧૫૮	સાધુતત્વપ્રકરણ F				પા. ૩ અ. ૨

A નરચંદ્રસૂરિ કે યયા છે. એક નરચંદ્રસૂરિ મલધારિ ગચ્છના દેવપ્રમસૂરિના શિષ્ય હતા. વીજા નરચંદ્રસૂરિ રત્નપ્રમસૂરિના ગુરુ સં. ૧૪૧૮ માં વિદ્યમાન હતા. પણ આ નરચંદ્રસૂરિ માટે લીંવડીની ટીપમા તેઓ કૃષ્ણગચ્છના હતા, એમ જણાવેલ હોવાથી ઉપર જણાવેલ કે નરચંદ્રસૂરિથી જૂદાજ ઠરે છે. પણ તેમના સવધે વધુ ઇતિહાસ મળી શકતો નથી.

B આ હેમહસશિષ્ય તે કોણ હતા તે જાણવા માટે ડેકન કૉલેજમાની વૃત્તિનો પ્રશસ્તિ લેખ જોવો જોઈએ.

C સંયમકવિ વચ્ચે અન્યમતિ તો નહિ હોય માટે તેની પ્રત તપાસવાની જરૂર રહે છે.

D આ સવેગમંજરી પ્રાકૃતમા રચાયલી છે.

E આ જિનચંદ્રસૂરિ તે જિનેશ્વરસૂરિના શિષ્ય અને નવાગામયદેવસૂરિના વૃદ્ધભ્રાતૃ યથા હતા. પિટસંને પોતાના પાંચમ રિપોર્ટમા તેઓ અમયદેવસૂરિના ગુરુ છે એમ નોંવેલ હોવાથી તેના મરોસે અમે પણ જૈનાગમ ડિસ્ટ પેજ ૬૬ માં તેમના નામ નીચેની નોટમા મૂલ્યથી તેમને નવાગામયદેવના ગુરુ તરાકે જણાવ્યા છે. પણ આ પ્રયનો પ્રશસ્તિ લેખ તપાસતા તેઓ અમયદેવસૂરિના વડીલ સહોદરજ છે એમ ચોક્કસ નિર્ણય થાય છે.

F આ પ્રકરણ વચ્ચે દરિભદ્રસૂરિએ રચ્યુ હોય તો હોય, પણ તેની સ્ત્રી સ્વાતરી તેના પ્રાતમા કર્દે ઉલ્લેખ હાય તો થઈ શકે. માટે તેની પ્રત જોવી જોઈએ.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
	वृत्ति				ख १
१५९	सामान्यधर्मोपदेश	पत्र १०			घ १
१६०	सिद्धातरत्नावली	का ३२	हेमसूरिशिष्य		डेकन
१६१	सिद्धप्रकरण	का ९८	सोमप्रभ		मुद्रित
	वृत्ति	पत्र १२७	चारित्रवर्द्धन		भाव
	वृत्ति (वाजी)	पत्र ४८	हर्षकीर्ति		पा ३
	वृत्ति (त्रीजी)	६००	दद. जिनतिलक		छो
	अवचूरी	१५००			छो
१६२	सुजनसप्ततिका A				पा ३-४
१६३	वृत्तिद्वित्रिशिका				पीटसन ५
	वृत्ति	१९८			पीटसन ५
	ह				
१६४	हिताचरण (प्रा)				पा ४

A आ सुजनसप्ततिका ते अमार धाररा सुजन आ पुस्तान्ना पृष्ठ १४४ मा सुयगोसत्तपीना नामे जणापेली ठेज हसे

ન.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યા-નો સ.	ક્યાં છે?
	વૃત્તિ	૧૨૪૩૨	સકલચંદ્ર	૧૬૩૦	પા ૪-૫
૧૬૫	હિતોપદેશમાલા	ગા. ૫૨૬	પ્રમાનંદ		૫૨૬ રિ. ૬
	વૃત્તિ A	૯૫૦૦	પરમાનંદ	૧૩૦૪	૫૨. જેસલ.
૧૬૬	હિતોપદેશામૃત B(પ્રા)	૩૧૦૦	પરમાનંદ		જેસલ.

A. આ વૃત્તિ માટે વૃહત્કૃતિપ્પનિકામાં “ હિતોપદેશમાલાવૃત્તિ:સૂત્રાકારપ્રમાનંદભ્રાતૃ ૫. પરમાનંદીયા. ૧૩૦૪ વર્ષે ૯૫૦૦ ” આલો નોંધ છે.

B જેસલમેરની ટીપમા હીરાલલે આ ગ્રંથ તાલપત્રપર લખેલો છે એમ નોંધ્યું છે. પણ તેના કર્તાના નામમાં શક રહે છે કે વલ્લભે તે પરમાનંદસુરિકૃત હિતોપદેશમાલાની વૃત્તિ તો નહિ હોય, મટે તે શું છે તેની ચોકસ ખાતરી કરવા તેની પ્રત તપાસવાની અગત્ય છે.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	वर्ग २ जो, — कुलको.* अ				
१	अश्रातोच्छप्रदणकुलक अवचूरि				अ १ अ १
२	अदारपापस्थानककुलक	पत्र ३			संज्ञात
३	अनित्यकुलक A	गा २२			P 5
४	अनित्यताकुलक B				डेफन
५	अनधदडपरिहारकुलक				अ २
६	अभयकुलक				राधनपुर-
७	अभयकुलक				अ १
८	अप्रस्थाकुलक	७१	जिनदत्त		जेसलमेर
९	अप्यायच्छेदकुलक		आनदविजय		अ २

* पूराचार्योए उपदेशपर नाना नाना कुलको अनेक रचेल छे, पण हालमा अमाने जे जे उपलब्ध थया छे ते ते अनुक्रममार आ चगमा दाखल कर्या छे शिवाय इतिचन्द्रसहित कुलको, देवसहित कुलको तथा अमरसिंहसहित कुलकोने एकत्रित करी जुदा जुदा पण नोप्या छे

A, B आ बने कुलको अमार समजना प्रमाणे एकज हसे एम लागे छे, छतां चौकस निगय तेनी प्रती जोयाथीज थद सके तेम छे

નં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૧૦	આ. આત્મવોધકુલક A				પિટર્સન રિ. ૫
૧૧	આત્મશુદ્ધિકુલક				જેસલમેર.
૧૨	આત્મસંવોધકુલક B	ગા. ૨૧			પીટર્સન રિપોર્ટ ૫
૧૩	આત્મહિતકુલક				અ. ૧
૧૪	આત્માનુશાસન C (પ્રા.)				નગીનદાસ.
૧૫	આરાધનાકુલક	ગા. ૮૬	અભયદેવ D		પા. ૩ નગીનદાસ.
	” E (વીજું)	૧૭			પિટર્સન રિ. ૫
૧૬	આરાધનાવિધિકુલક				પા. ૨
	વૃત્તિ	તાડ ૧૨૧			પા. ૨
૧૭	આલોચનાકુલક F				જેસલમેર.
	૬.				
૧૮	શ્રિયાવહીકુલક	પત્ર ૨			અ. ૧

A એના આદ્યમા “ સસારમિ અસારે નસ્તિસુહ વાહિવેયનાપડરે ” આવી રીતે પિટર્સન રિપોર્ટ પાંચમાના પેજ ૧૧૧ મા નોંધ કરી છે.

B એનું આદિપદ “ ઉવસગ્ગા કહં હુતા ” એવું છે.

C આ આત્માનુશાસન પ્રાકૃતમા રચાયલુ સ્વવાતના શેઠ નગીનદાસના મંડારમાં છે, પણ તે ત્યાં અપૂર્ણ સ્થિતિમા છે.

D આ અભયદેવસૂરિ તે જિનેશ્વરસૂરિ શિષ્ય નવાગી ટીકાકાર અભયદેવસૂરિ છે.

E એનું આદિપદ “ સંઘમંતે ” એવું છે.

F આ કુલક જેસલમેરની હસવિજયજી મહારાજની ટીપમા નોંધ્યું છે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो ना स	क्या छे ?
	उ				
१९	उत्तमपुरूपकुलक	गा १४			लॉचर्डो
२०	उत्साहकुलक A	२५			जेसलमेर.
२१	उपदेशकुलक	गा २२	देवेन्द्रसूरि		नगीनदास
	उपदेशकुलक B (बीजू)	४०	जिनदत्त		जेसलमेर
२२	उपदेशमणिमालाकुलक		जिनेश्वर		A S
	क				
२३	कमविपाककुलक				पा ३
२४	कालस्वरूपकुलक		जिनवल्लभ		डेक्कन पेज २०८
२५	क्षान्तिकुलक		रत्नसूरि C		डेक्कन
२६	क्षामणाकुलक D	गा ३६			य पिटसन रि ५
	ग				
२७	गुरुगुणपट्टत्रिशिकाकुलक	गा ४	घञ्जसेन		यथात
	दापिका	पत्र २१	रत्नशेखर E		यथात

A आ कुलक जसलमेरनी टीपमा हीरालाल नॉधु छे

B सदरहू कुलक हीरालाले तेना कत्ताना नाम साथे नॉधु छे, पण कत्ताना नाममा शक रहे छे

C आ नाम काहक अपूण लगे छे माटे तेनु पूण नाम गु छे ते नकी करवा माटे डेक्कन कॉलेजमाना तेनी प्रत नावी जोरए.

D एनु आदिपद " ते कोई मए जीवो " एनु छ

E आ रत्नशेखरि नागपुरीय शास्त्राना हेमचन्द्रसूरिना शिष्य अने वज्रसेनसूरिना प्रशिष्य हता एमणे श्रावणचरित्र प्राहृतमा स १४२८ मा रच्यु छे

क्र. सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता.	रच्यो नो सं	क्यां छे ?
२८	गुर्वावलिकुलक	पत्र १			अ. १
२९	गृहस्थधर्मप्रतिपत्तिकुलक	गा. ६०			नगीनदास.
	„ (वीजुं) A	गा ४२		१२८७	नगीनदास.
३०	गौतमकुलक				पा. ३
	लयुवृत्ति	१२००	ज्ञानतिलक	१६६०	भाव. जेसल.
	च.				
३१	चतुर्गतिस्वरूपकुलक B	२०			जेसल.
३२	चिंताकुलक	गा. १२			लीवडी.
३३	चोचोशप्रबंधनिबंधनकुलक	पत्र १५			अ. १
	छ.				
३४	छोतीकुलक	पत्र ५			जेसल वे.
	ज.				
३५	जीवकुलक		नेमिचंद्र		A. S.
३६	जीवानुशिष्टिकुलक	गा. २५			नगीनदास.
३७	जीवोपदेशकुलक				A. S.
३८	जीवस्थापनाकुलक				पा. १
३९	जीवसरयाकुलक		नेमिचंद्र		भरुच.

A एमां लखमसी श्रावके लीवला व्रतोनुं निरूपण छे.

B आ कुलक जेसलमेरनी टीपमा हीरालाले नोंथ्यु छे.

नंबर	नाम	रुका	कर्त्ता	रच्या नो स	क्या छे ?
	द				
४०	दशश्रावकनद्विकुलक				भाव
४१	दानादिकुलक चार वृत्ति	१२० ५५०	द्वैत्रसुरि लामकुशल.		नगीनदास A S 5
४२	दानादिकुलक चार वृत्ति	गा ५० १२०१६	अशोकमुनि A देवनिजय	१८६६	पा ३-४ रि 5 पा ३
	वृत्ति	पत्र ११५	लामकुशल		भाव
४३	दानमहिमाकुलक B	४			जेसल
४४	दानशीलतपोभावनाकुलक	गा २४			P 5
४५	दिनवृत्त्यकुलक	गा ५			लीवडी
४६	दीक्षाकुलक				रिपोट ६
४७	देववदनकुलक	गा २८			लीवडी
४८	द्वादशकुलक C वृत्ति		जिनवल्लभ ३३६३		पा १ जिनपाल १२०३
४९	द्वादशभावनाकुलक D				पा ४

A आ अशोकमुनि ते अमार घारवा मुजव पिटसनना रिपोट पाचमाना पेज ओगणीशमा जणावला अने घ ११५४ मा ओपनियुक्ति सूत्रनी प्रत ल्हायनार उददचंद्रगणिना गुध अशोकचंद्र पया छे तेज होवा जोईए ते शिवाय आ नामना बीजा कोइ आचाय थया जाणवामा आया नथी

B आ कुल्य हीरालले नोंथु छे

C, D आ द्वादशकुलक अने द्वादश भावनाकुलक ते एकर ७ के उदा उदां छे ते तकी करवा माटे पाठना भदारमानी तेनी प्रतो तपाठवा रोइए.

नं. सं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
५०	द्वादशव्रतकुलक A	२००			जेसल.
५१	द्वादशांगिनामग्रंथमानकुलक ध.	पत्र १			अ. १
५२	धर्मकुलक				जेसल.
५३	धर्माधर्मकुलक B	गा. १८	जिनप्रभ		पिटर्सन रि. ५
५४	धर्मोपदेशामृतकुलक				अ. १
५५	धर्मभावनाकुलक न.	गा. ३०	जयघोष		नगीनदास.
५६	नवकारफलकुलक				जेसल.
५७	नवतत्त्वकुलक	४२	जयशेखर		A. S.
५८	निशाविरामकुलक प.				अ. १
५९	पंचाचारकुलक	गा. ८			नगीनदास.
६०	पंडितमृत्युकुलक C	५०			जेसल.
६१	परिभोगपरिहारकुलक D	२५			जेसल.

A जेसलमेरनी टीपमा हीरालाले आ कुलक संस्कृत पद्यमा छे एम जणाव्यु छे, पण अमारा धारवा मुजव प्राये एमा कोईए लीवेल व्रतोनु निरूपण हशे.

B एतु आदिचरण “ अहजण निमुणिजउ कन्नु धरिजउ धम्माधम्मविचारुहु ” एतु छे.

C, D आ वन्ने कुलको जेसलमेरनी टीपमा हीरालाले नोंव्या छे.

नं०	नाम	श्लोक	वर्त्ता	रचया नो स	क्या छे
६२	पर्यताराधनाकुलक				A S
६३	पुण्यकुलक सरीक	७५			पा ३४ रि ६
६४	पुण्यपापकुलक	गा १६	जिनकीर्ति.		लीबडी
६५	पुण्यलाभकुलक	गा १०			लीबडी
६६	पूजादिदशाष्टक (स) Δ		पद्मद्वेषशिष्य लक्ष्मचन्द्र		पिटर्सन रि ५
६७	प्रणिधानकुलक B	गा ९०	देवेंद्रसूरि		रगीनदास
६८	प्रतिलेखनाकुलक	गा १२५	विजयविमल C		पा ३, डेवत.
	प्रतिलेखनाकुलक (बीजु)	गा. ३६			लीबडी
६९	प्रत्याख्यानोदिस्वरूपकुलक				व २
७०	प्रमादपरिहारकुलक	गा. ३३			खवात
७१	प्रमादस्थानप्रकरण भ				भाव
७२	मघस्वरूपकुलक	२५			जेसल
७३	भावनाकुलक D	२५	सोमदेव		जेमल
	भावनाकुलक (बीजु)	गा २०२			खवात

Δ यमा पूजाष्टक, विवाहष्टक, गुणष्टक, उपदेशाष्टक, श्रावणाष्टक, धम धनद्वय, पायाष्टक, दानाष्टक, गीगाष्टक अने तपोष्टक आवी रीते दन शब्दको छे

B एतु अपरनाम " वृद्धचतु शरण " छे जेनागम लिस्ट पेज ६८ मा पयजाता नामे नोंधेउ तेज ए छे

C विजयविमलसूरि भावप्रकरण स १६२३ मा रचेउ छे

D भा भावनाकुलक जखलमेरनी दीपमा हीरालाल नोंधेउ छे

ન	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ.	ક્યાં છે ?
૭૪	ભાવવિશુદ્ધિકુલક A મ.	૩૦	શિવદેવસૂરિ		જેસલ.
૭૫	મંગલકુલક B	કા. ૧૪	ધર્મસૂરિ		પિટર્સન રિ. ૫
૭૬	મનોનિગ્રહભાવનાકુલક				A. S.
૭૭	મહાસતીકુલક				પા. ૪
૭૮	મિથ્યાત્વકુલક	૩૦			પિટર્સન રિ. ૫.
૭૯	મિથ્યાત્વપરિહારકુલક	ગા. ૨૬			લોંવડી.
૮૦	મિથ્યાદુષ્ટકુલક C				જેસલ.
૮૧	મુનિવંદનકુલક D	૪૦			જેસલ.
૮૨	મૃગાવતીકુલક ઘ.				હેક્કન.
૮૩	વંદનકુલક ઘૃત્તિ E	૪૩૭૫	જિનકુશલસૂરિ F		ઘૃ. ઘૃ.

A આ કુલક જેસલમેરની હીરાલાલે કરેલી ટીપમા નોંધાયલું છે.

B મંગલ કુલકને “ મંગલાટક ” આ સાદા નામથી વિશેષ ઓલ્લખવામા આવે છે. એના કાવ્ય ચૌદ જણાવ્યા છે તે પ્રશસ્તિના કાવ્યો સાથે ગણવાથી થાય છે.

C એનુ આદિપદ “ જો કોહ્ય પાણિગણો ” એવું છે.

D સદરહૂ કુલક જેસલમેરની ટીપમા હીરાલાલે નોંધ્યું છે. પણ શક રહે છે કે વલ્લભે તે વૃહત્-ટિપ્પનિકામા નોંધેલું વદનકુલક તો નહીં હોય માટે તેની પ્રત જોવાની જરૂર છે.

E વૃહત્-ટિપ્પનિકામા આ ઘૃત્તિ માટે “ વદનકુલકઘૃત્તિ; શ્રીજિનકુશલસૂરિકૃતા ૪૩૭૫ ” આવી રીતે નોંધ છે.

F આ જિનકુશલસૂરિ સ્વસ્તર ગચ્છના જિનચંદ્રસૂરિના પાટે થયેલા છે. એમનાજ ઉપદેશથી નેજપાટ્ટ મથિષે “ સ્વસ્તરવસતિ ” નામનું ચૈત્ય કરાવી તેમા શાસ્ત્રિનાથ મહારાજના ચિત્રની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. આ જિનકુશલસૂરિને ક્રોટિ સ્વસ્તરગચ્છમા પચાસમે નવરે નોંધ્યા છે. એટલે તેઓ વિક્રમ સ. ૧૨૭૦ ના અરસામા વિદ્યમાન હતા.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
८४	विचारकुलक	/			राधनपूर
८५	विधयाकुलक	गा १०			लीबडी
८६	विषयविनिग्रहकुलक A				वृ
	वृत्ति	१०००८	मलचद्र	१३३७	वृ
८७	धीरचरित्रकुलक		जिनघल्लम		पा ३
८८	धैराग्यकुलक				पा ३ डेकन.
	” (बीजु)	गा. २३			ख जेसल.
	”				
८९	शिवकुलक				राधनपूर.
९०	शीलकुलक	गा २०			लीबडी
९१	भावककुलक				अ १
९२	थावकदिनहृत्यकुलक				पा ३
	स				
९३	सघकुलक				पा ४ अ १
९४	सद्भाकुलक				अ. १
९५	सविज्ञनियमकुलक				भाष
९६	ससारकुलक				अ १
९७	ससारभावनाकुलक				अ १
९८	ससारघोरस्वरूपकुलक B	२५			जेसल

A आ कुलक वृत्तिविनिग्रहनामा तेनी वृत्ति साये गोंधु छ ते दिप्यनिकामा तना माटे 'विषयविनिग्रहकुलकवृत्ति १३३७ वें मालचद्री १०००८' आगे नोंप छे पण तेक्या पण उपलब्ध यह नहीं.

B घदगृ कुलक जेयभेस्ती हीरालाले करेली शीपमा नोंधायु छे

ક્ર. નં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યા નો સ.	ક્યાં છે ?
૧૨૪	સમ્યક્ત્વોત્પાદવિધિ	ગા. ૨૧	મુનિચંદ્ર		લીંવડી.
૧૨૫	સામાન્યગુણોપદેશકુલક	ગા. ૨૫	„		લીંવડી.
૧૨૬	હિતોપદેશકુલક	ગા. ૨૫	„		લીંવડી.
	‡ રત્નસિંહસૂરિકૃતકુલકો				
૧૨૭	આત્મહિતકુલક	ગા. ૩૨	રત્નસિંહ A	૧૨૪૮	લીંવડી.
૧૨૮	આત્માનુશાસ્તિકુલક (સં.)	૨૫	„		લીંવડી.
૧૨૯	આત્માનુશાસનકુલક	ગા. ૫૬	„		લીંવડી.
૧૩૦	ઉપદેશકુલક	ગા. ૨૬	„		લીંવડી.
૧૩૧	ગુર્વારાધનાકુલક		„		A S.
૧૩૨	જિનેંદ્રવિશ્વસિકુલક	ગા. ૩૦	„		લીંવડી.
૧૩૩	ધર્માચાર્યવહુમાનકુલક	ગા. ૩૪	„		લીંવડી.

‡ આ મથાળા નીચે રત્નસિંહસૂરિકૃત કુલકો એકત્ર કરી ક્રમવાર નોધ્યા છે.

A રત્નસિંહ નામના ત્રણ આચાર્ય થયા જાણવામા આવ્યા છે:—

એક રત્નસિંહસૂરિ સૈદ્ધાંતિક શ્રીમુનિચંદ્રસૂરિના શિષ્ય અને સ. ૧૩૨૫ માં કલ્પનિરુક્તના કરનાર વિનયચંદ્રસૂરિના ગુરુ હતા એટલે તેઓ વિક્રમની ચૌદમી સદીમાં થયેલા છે.

બીજા રત્નસિંહસૂરિ જયતિલકસૂરિના શિષ્ય અને ઉદયવલ્લભસૂરિના ગુરુ હતા. તેમના પ્રશિષ્ય લઘિસાગરસૂરિ સં. ૧૫૫૭ મા શ્રીપાલકથા રચી છે. એટલે તેમના દાદા ગુરુ આ બીજા રત્નસિંહસૂરિ વિક્રમની સોઢમી સદીના શરૂઆતમા થયા હોવા જોઈએ.

ત્રીજા રત્નસિંહસૂરિ કે જેમણે તપાગચ્છમા નાયક તરીકે પંકાતા હેમસોમસૂરિના વારે સં. ૧૬૭૧ મા પ્રયુમ્નચરિત્ર નામે મહાકાવ્ય રચેલ છે.

હવે આ કુલકોને કરનાર રત્નસિંહસૂરિ મોઢે લીંવડીના મંડારની ટીપમા તેઓ ધર્મસૂરિના શિષ્ય હતા, અને તેમણે આ કુલકો સ. ૧૨૪૮ મા રચ્યા છે, એમ ચોકસ જણાવેલ હોવાથી તેના અનુસારે તેમનો સમય ઉપર જણાવેલ ત્રણ આચાર્યોના સમયથી મિત્ર હોવાથી આ રત્નસિંહસૂરિ તદન જુદા ઠરે છે.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
१३४	पद्मसुपदात्रिशिका कुलक		रत्नसिंह		लौचडी
१३५	पर्येतापधनाकुलक	गा १६	"		लौचडी
१३६	मनोनिग्रहभावनाकुलक	गा ४४	"		लौचडी
१३७	श्रावकवर्षाभिग्रहकुलक(गद्य)		"		लौचडी
१३८	सवेगामृतपद्धति (प्रा.)	गा ११२	"		लौचडी
१३९	" (स)	४३	"		लौचडी
१४०	सवेगरगमाला	गा ५०	"		लौचडी

ક્રમ	નામ	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં	ક્યાં છે ?
	વર્ગ ૩ જો. શતકો *				
૧	આત્મશિક્ષાશતક.	૧૨૫			પા. ૪. ભાવં.
૨	આદિનાથદેશનાશતક				પા. ૩
૩	આભાણશતક A				પા. ૧ અ. ૧
૪	ઈન્દ્રિયપરાજયશતક				પા. ૧-૩
૫	ઉપદેશશતક B વૃત્તિ	૧૦૯ પત્ર ૪૯	વિજયવિમલ	૧૭૯૩	પા ૪-૫ અ. ૨
	ઉપદેશશતક (વીંજું)		મેસ્તુંગ		હેક્કન.
૬	ઋપમશતક	કા. ૧૨૬	હેમદિજયગણિ	૧૬૫૬	અ. ૨
૭	કાલશતક (પ્રાં.)		મુનિચંદ્ર		પા. ૩
૮	કાલવિચારશતક				હેક્કન પેજ ૧૭૨
૯	ત્રિવિક્રમશત	પત્ર ૪			અ. ૨
૧૦	દૃષ્ટાંતશતક C દૃષ્ટાંતશતક D (વીંજું)		તેજસિંહ		વૃ. પા. ૩ હેક્કન.

* સોની સર્યાને શત કહેવાય છે અને શત જેમા છે તે શતક કહેવાય તે મુજબ આ શતકો સો શ્લોકથી પ્રચિત કરેલા હોવાથી શતકના નામે ઓલખાય છે.

A આ શતક સ્તુતિરૂપે છે.

B ઉપદેશશતક યાસ ઉપદેશનો ગ્રંથ હોવાથી પૂર્વે ઔપદેશિક પ્રકરણોના વર્ગમા નોંધ્યું છે છતા તે શતકના નામથી ઓલખાવેલ હોવાથી ઇહાં પણ નોંધ્યું છે.

C, D. આ વન્ને દૃષ્ટાંતશતકો એકજ છે કે જૂદા જૂદા છે તે માટે વન્નેના આગત તપાસવા જોઈયે.

नंबर	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रच्य नो स.	क्या छे ?
	दृष्टातशतक A (ब्रीजु)		नंदसूरि		रिपोर्ट ६
	अवचूरी				रिपोर्ट ६
११	धनद्विंशती B		धनदराज (सघपति)		पा १५
१२	ध्यानशतक				अ १
	वृत्ति	पत्र ३८			अ १
१३	नागराजशतक				अ १
१४	पद्मानंदशतक		पद्मानंद		पा ५ भाव
१५	पर्वविंशतिशतक				अ २
१६	भर्तृहरिशतकप्रथम		भर्तृहरि		मुद्रित.
	वृत्ति	२३००	धनसार		A S
	वृत्ति (बीजो) C	५००	जिनसमुद्र	१६४१	जेसल-बे
१७	भावशतक	१०१	समयसुंदर		खवात
	भावशतक (बीजु)	पत्र C	हेमानियज D		डेकन पेज १११
	भावशतक E (प्रा) (बीजु)				जेसल

A आ त्रिंशत शतकने छट्टा रिपोर्टमा अवचूरि साथे नों पु छे, पण कथाता नाम परथी शक रह छे के वखते आ शतककार नंदसूरि ते. कौइ दिगम्भराचार्य तो होय नहीं माटे तेना प्राप्तनो प्रशस्ति लेल तपासी जेवानी जरूर रहे छे

B एमा धनदराज कविण रबेल गृणार, वैराग्य अने नीतिपर त्रण शतको छे, अने ते भर्तृहरिना शतको जेवा बहु सरस छे

C आ वृत्ति जेसलमेरनी बने टीपोमा नोंधेली छे पण अयस्थले उपलब्ध यह नथी

D डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा आ हेमविजयसूरिने दिगम्बरकृत प्रथोनी गोंध लेता तेमने दिगम्बर तपाके जणाया छे, तो ते दिगम्बर हता के खेतावरज छे ते बावत निणय करवा डेकन कॉलेजमानी प्रत नचरे तपासवी जोइये

E आ भावशतक जेसलमेरनी टीपमा हीरालाडे ते प्राकृतमा छे एम जणाथ्यु छे पण टीकाकारतु नाम अन्यदकनी जेउ लाग छे माटे तनी प्रत परथी तपासवानी जरूर छे

ક્ર. નં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
	વૃત્તિ		મહાનાગકવિ		જેસલ.
૧૮	ભાવાર્થશતક				અ. ૧
૧૯	ભાવનાશતક	પત્ર ૪			અ. ૨
૨૦	મૂર્ખશતક				ડેકન.
૨૧	યોગશતક A	ગા. ૧૦૧	હરિભદ્ર		નગીનદાસ
૨૨	વિચારશતક		સમયસુંદર		અ. ૧
૨૩	વિદ્વચ્છતક				ડેકન.
૨૪	વિનેયહિતશતક				અ. ૧
	વૃત્તિ	પત્ર ૬૦			અ. ૧
૨૫	વિશેષશતક		સમયસુંદર		અ. ૧
૨૬	વિસંવાદશતક B		"		A. H.
૨૭	વિહારશતક				અ. ૧
	વૃત્તિ	પત્ર ૧૧			અ. ૧
૨૮	વૈરાગ્યશતક				પા ૧-૩
	વૃત્તિ	પત્ર ૧૯	ગુણવિનય C		અ. ૧

A યોગશતક પૂર્વે હરિભદ્રસૂરિકૃત પ્રયોના વર્ગમા નોધ્યુ છે, છતા તે શતકના નામે ઓઢલાહ હોવાથી ડહા પળ નોધ્યુ છે.

B આ શતકમા સૂત્રોમા જે પરસ્પર વિરોધ આવે છે તે દેખાડેલ હોવાથી પૂર્વે સ્વડન મંડનના પ્રયોના વર્ગમા દાલલ યયું છે.

C આ ગુણવિનયસૂરિ જયસોમસૂરિના શિષ્ય હતા. એમણે દમયંતી કથાની ટીકા સં. ૧૬૪૬ મા રચી અને વિચારસ્ત્રગ્રહ સ. ૧૬૫૭ મા રચ્યો એટલે એજ સમયના લગભગમા આ વૃત્તિ રચી હોવી નોરંધે.

न	नाम	श्लोक	फलां	रच्य- नी स	फया छे ?
२९	व्याख्यानविधिशतक वृत्ति	पत्र २१			कोडाय अ १
३०	सदेहशतक A	पत्र ८			अ १
३१	सधादशतक				पा ४-५
३२	सवेगशतक B	पत्र ६			अ २
३३	साधुगुणशतक				अ २
३४	सोमशतक	पत्र ९			डेकन
	जूदाजूदा विषयोमा नोधायेला शतको *				
१	ऋषभशतक †				
२	कुमारविहारशतक †				
३	जिनशतक †				
४	नेमिशतक †				
५	प्रश्नपष्टिशतक D				

A आ सवेगशतक अमदावादाना डेलाना मडारनी टीपमा पत्र आठनु नोंछु छे ते परधी शक रहे छे के ते त्या वृत्ति साथे तो नहीं होय माटे तेनी प्रत जोइ नकी करख जाइये

B आ सवेगशतक ते कदाच वैराग्यशतकउ बीजु नाम होय तो पण होय माटे तेनी परी खातरी तेनी प्रत जोया वगर यहू शके तेम नथी

* आ मयाळा नीच नोंछल शतको आगळ ते ते वर्गमा विशेष माहिती साथे नोंधवामा आवशे इहा पक्त तेमना नाम मान दर्शनवामा आब्या छे

† आ निशाणीयाळा शतको स्तुतिरूपमा रवाएला होवामी ते स्तुतिप्रयोना वगमा दाखल करवामा आवतार छे

C आ शतक काव्य रूपे रचेल द्वाराथी आगळ काव्यना वगमा नोंधवामा आवशे

D सदरहू शतक निमित्तना प्रयाणा वगमा विशेष हकीकत साथे नोंधवामा आवतार छे.

क्र.सं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे?
६	वीतरागशतक †				
७	शृंगारशतक				
८	पण्डितशतक A				
९	सर्वज्ञशतक B				
१०	सूर्यशतक †				

A आ शतकमा उपदेशनो विषय होवाथी पूर्वे औपदेशिकना प्रकरण ग्रंथोमा नोंघायु छे.

B एमा सर्वज्ञना लक्षणनु स्वरूप देखाइयुं छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	वर्ग ४ थो ०				
१	अनेक प्रथम A (गद्य)				अ १
२	अमयदेवप्रथम	पत्र ४			पा ३
३	इतिहाससमुच्चय B	९१८			पा ४
४	उपदेशतरंगिणी	३३००	रत्नमदिरगणि		पा १-४
५	कीर्तिकह्नोलिनी	पत्र १३	हेमविजय		उक्त पेज ६६
६	कुमारपालचरित्र (प्रा)	९५०	हरिश्चंद्र C		पा २
	कुमारपालचरित्र (बाँझ)	६०३७	जयसिंह	१३१३	पा ४-५ भाव टि. ६
	कुमारपालचरित्र (श्रीजु)	पत्र ३६	चारिप्रसुवर		अ २
७	कुमारपालप्रतिबोध (स) D	२५७५			वृ
	कुमारपालप्रतिबोध E	८८००	सोमप्रम	१२४१	पीटसन रि ५

* आ वगमा अमरा जाणवामा आवला इतिहासना प्रयोग एकत्र करी क्रमवार नोंथा छे इतिहासना प्रयो प्राये औपदेशिकनेज रगता होय छे, तेथीं तास तेमने आ औपदेशिकना वेदाया दाजल करवामा आव्या छे

A अमदावादाना डेलाना महारनी दीपमां सदरहू नाम दाजल छे, तो तेमां कया कया प्रनघो छे ते जाणवा माटे तेनी प्रत नजरे जोवानी अवरयफता छे

B एमा स्वमतीय इतिहासिक विना छे क अन्यमति वातज छे ते वातत शक रहे छे, माटे तेनी पण प्रत जोवी जोइये

C आ हरिश्चंद्र ते अमरा धारवा मुज धमशामान्युदय महाना यना करनार दिगम्यर हरिश्चंद्रचरि रोवा जोइये

D एना माटे वृहत् टिप्पनिकामा " कुमारपालप्रतिबोध सकृत २५७५ " आवी नोंघ छ पण त अमेनि हनुसधी कया पण उपलब्ध थयो नथी

E वृहत् टिप्पनिकामा एना माटे नीचे मुजन नोंघ छे

" कुमारपालप्रतिबोधक उहुमाहृत शार्थिसोमप्रमचरिभि १२४१ वर्षे कृत ८८०० "

नं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं	क्यां छे?
८	कुमारपालप्रबंध	२४५६	जिनमंडन	१४२१	पा. २-३-४ डेकन.
९	कुमारदेवप्रबंध	पत्र १२			अ. १
१०	क्षमर्षिप्रबंध(सं.)				डेकन पेज ३४१
११	गुरुगुणरत्नाकरकाव्य A	पत्र १२			डेकन.
१२	गुर्वावली B	७५८	मुनिखुंदर	१४६६	पा. ३-४ लीवडी.
	गुर्वावली (बीजी)		धर्मसागर	१६४८	पा. ३-४
	वृत्ति	६०६	स्वोपन्न		पा. ३-४
	गुर्वावली (त्रीजी)	गा. ११			लीवडी.
१३	गुर्वावलीविशुद्धि C	८५०			पा. ४
१४	गुरुस्तुति	का. १८			पिटर्सन रि. ५
१५	चतुर्विंशतिप्रबंध D	४०००	राजशेखर	१४०५	वृ पा. १-३-४-
१६	चित्रोडमहावीरविहारप्रशस्ति	का १०४	चारित्ररत्न	१४९५	खंघात.
१७	जगद्गुप्रबंध	पत्र २			लीवडी.
१८	जयसिंहप्रबंध (गद्य)	पत्र ५			अ १
१९	जिनचंद्रचतुःसप्ततिका	गा ७४	जिनकुशल		लीवडी.
	जिनप्रभप्रबंध	१४३			पा. ४

A

B एनुं अपरनाम " सोमचरित्र " छे.

C एनुं बीजु नाम " त्रिदशतरंगिणी " एवुं छे.

प्रत फरिथी तप. ॥ गुर्वावलीविशुद्धि ते वखते धर्मसागरसुरि कृत गुर्वावलीनी वृत्ति तो नहि होय मटे तेनी

D वृहत्त णवानी जरूर रहे छे.

टिप्पनिकामा एनामाटे " २४ प्रबंध: ८४ कथाश्वराजशेखरसुरिकृत: " आवी उल्लेख छे,

नं	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
२१	झाझणप्रथम A	पत्र ८८	रत्नमडन B		अ २ जेसल
२२	देवद्विकथा	पत्र २१			अ १
२३	नदोपारयान C	पत्र १०			डेकन
२४	नाभिनदनोद्धारप्रथम	पत्र ६१			अ १
२५	पट्टावली	पत्र १२		१७१२	पा. ४
२६	पट्टावली D	४०	जिनदत्त		जेसल
२७	पट्टावली सारोद्धार	३८०	रवियर्दन		डेकन
२८	पुवपुरुषप्रथम (गद्य)	पत्र १०			अ १
२९	पृथ्वीधरचरित्र		रत्नमडन		डेकन
३०	पृथ्वीराजविजय सटीक E		जोनराज		डेकन.
३१	प्रथमकोश	पत्र ५०	चंद्रशेखर F		अ. २ डेकन

A एतु अपरनाम " मुहूर्तसागर " एखु छे

B आ नाम अमदावादाना चचलवादाना भडारनी टीपमा नोंयु छे जेसलभेरनी टीपमा इखविजयनी महाराजे कत्तानु नाम आयु नथा पण चचलवादाना भडारनी टीपमा तेना पत्र २७ नोंघ्या छे, माटे ते एखज छे वे जुदा जुदा छे ते नायत नकी नरया तेनी नत्रे प्रतो तपासनी नोइये

C आ नदोपारयान अमारा धारवा मुजय अयमतिए करेउ होउ जोइये

D आ पट्टावली जेसलभेरनी टीपमा शेरालाले नोंघा छे

E आ प्रथ तेनी टामा साये डेकन कॉलेजना लिहमा नोंघायो छे, पण कत्ताना नाम उपरणी त अयमतिकृत होय तम विशेष समवे छे

F आ चंद्रशेखरसूरि विरमनी पदरमा सदीमा धया होना जाइये

ક્ર. નં.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં.	ક્યાં છે ?
૩૨	પ્રવંધચિંતામણિ A	૫૧૧૫	મેરુતુંગ B		વૃ. પા. ૪
૩૩	પ્રવંધપંચક C	૩૦૦			રિપોર્ટ ૬.
૩૪	પ્રભાવકચરિત્ર	૫૭૮૦	પ્રભાચંદ્ર	૧૩૩૪	પા. ૩-૪ ભાવ.
૩૫	વપ્પમટ્ટીચરિત્ર	૬૬૦			લો. ડેક્કન.
૩૬	વૌદ્ધમતોત્પત્તિપ્રકરણ D	૪૦૦			જેસલ.
૩૭	મોજપ્રવંધ	૩૭૦૦	શુભશીલ		હોંબડી.
	મોજપ્રવંધ (ધીજો)	૨૦૦૦	વહ્લાલ		પા. ૪ સંવાત.
	મોજપ્રવંધ (ત્રીજો)	૮૫૦	મેરુતુંગ		ડેક્કન.
	મોજપ્રવંધ (ચોથો)		રત્નમંદિર		અ. ૨
	મોજપ્રવંધ (પાંચમો)		સત્યરાજગણિ		અ. ૨

A વૃહત્તિષ્ણનિકામાં એને પ્રવંધચૂડામણિના નામે નોંધ્યું છે. તેના માટે તે ટિષ્ણનિકામા “ પ્રવંધ ચૂડામણિમેરુતુંગસૂરિય: ૩૫૦૪ ” આવો નોંધ છે.

B આ મેરુતુંગસૂરિ તે ચંદ્રપ્રભસૂરિના શિષ્ય હતા. પિટર્સન રિપોર્ટ ચોથામા તેમના માટે બુલ્ડે એવી નોંધ કરી છે કે, તેમણે આ ગ્રંથ વિ. સં. ૧૩૬૭ મા રચ્યો છે એમ તેમા જણાવ્યું છે.

C એમા પાંચ પૂર્વાચાર્યોના પ્રવંધો છે. મદ્રવાહુપ્રવંધ, જીવદેવપ્રવંધ, આર્યમગુપ્રવંધ, આર્યસ્વપુટપ્રવંધ અને પાદલિતપ્રવંધ મઠ્ઠી પાચ પ્રવંધો છે.

D આ પ્રકરણ જેસલમેરની ટીપમાં હીરાલાલે નોંધ્યું છે તેથી શક પડતું છે માટે તેની પ્રત નજરે તપાસવાની જરૂર છે. અને જો તે એજ નામથી ત્યાં મઠ્ઠી આવે તો યાજ તેની નકલ ઉતારવી લેવી અગત્યની છે.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्ता	रच्या नो स	क्या छे ?
३८	मंडपीयसंघप्रशस्ति	३६			पा ५
३९	मुजराजादिग्रंथ A	पत्र १७	मेकतुग		पा ३
४०	यवनपरिपाठ्यनुक्रम	७२०	वलपतिराय		डेकन.
४१	रत्नध्राचकप्रबंध	पत्र ४			अ १ जेसल
४२	राजतरंगिणी *	पत्र ३८६	कल्हण		डेकन.
	„ * बीजी)	पत्र ४७	जोनराज		डेकन
	„ * (बीजी)	पत्र ६५	श्रीधर		डेकन.
	„ * संग्रह	पत्र १०	शाहब्राम		डेकन.
४३	राजावलीपताका	पत्र ४८	प्राज्यमट्ट		डेकन
४४	लघुपौशालिकपद्यावली	५००			पा ५
४५	घस्तुपालचरित्र B	७०००	घर्द्धमानसूरि		रिपोट ६
	घस्तुपालचरित्र (बीजु)	४८३९	जयचंद्र शिष्य जिनहप	१४९७	पा ५ डेकन

A आ प्रप ते मेकतुगसूरिकृत प्रपचितामणिने कटको होय तो पण होय माटे तेनी प्रत परी पी त्वाथवी जाईये

* आ निरालापिला पाचे प्रथ अयमविकृत छे, पण ते तास इतिहासना होवायी इरा दाखल रपा छे

B अ घस्तुपालचरित्र एक एथिऑटिक घोषापरीता छडा रिपोटमा नोंधु छे, पण हनी सुधी भमोने ते बोदना महारणा उरु घ यगु रपी

क्र.सं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य- ना स	क्यां छे?
४६	वस्तुपालप्रबंध	७१०	राजशेखर		पा. ४
	„ (बीजो)	२७५			पा. ५
	वस्तुपालतेजपालप्रबंध(गद्य)	पत्र ६			अ. १
	„ (श्लोकबद्ध)	पत्र ५			अ. १
४७	वस्तुपालप्रशस्ति	१४०			पा १ जेसल. हे.
४८	विक्रमादित्यचरित्र A	पत्र ७५	रामचंद्र		डेकन.
४९	विक्रमप्रबंध	प. १३			डेकन.
	विक्रमादित्यप्रबंध		विद्यापतिभट्ट		अ. २.
५०	विमलचरित्र B	पत्र ४२			अ. १
५१	विमलप्रासादप्रबंध	१५०			पा ४-५
५२	विविधतीर्थकल्प		जिनप्रभ		पा. १ डेकन.
५३	वृहत्पोशाालिकपट्टावली				पा. ५
	टीका	६८७	धनरत्नसूरिशि- ष्यहर्षकुल		पा. ५
५४	शालिवाहनचरित्र	१८००	शुभशील	१५४०	पा. ५
५५	सद्गुरुपद्धति (ताड)	गा. २६			पीटर्सन रि. ५

A आ चरित्र कस्त डेकन कॉलेजमा छे.

B विमलचरित्र अमदावादना डेलाना भंडारमा छे, अन्य स्थले क्वचित्तज मळो शके छे.

चरित्रना ग्रंथो.

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रचयानो स.	क्यां छे ?
	वर्ग २ जो.*				
	अ.				
१	अतिमुक्तचरित्र A	६५०			रिपोर्ट ६, जेसल
२	अंबडचरित्र B (सं.)	१२६०	मुनिरत्न C		पा. ३-४-५ खं.
३	अभयकुमारचरित्र	९०००	चंद्रतिलक D		पा. ५ जेसल.
	" E (वीजुं)	४०००			जेसल.
४	अमरतेजचरित्र(श्लोकवद्ध)				भरुच.
५	अमरसेनवयरसेनचरित्र		खर. मतिनंदन		पा. ४

* आ वर्गमा जैनाचार्योण सस्कृत प्राकृतमा रचेल तमाम चरित्रना ग्रंथो अनुक्रमवार नोंध्या छे. क्लॉस बीजामां तीर्थकरचरित्रो नोंधवामां आवशे.

A जेसलमेरनी टीपमा हीरालले सदरहू चरित्र सं. १४२८ मा रचाएलुं छे एम जणाव्युं छे. पण ते शक भरेलु लागे छे कारण के एसियाटिक सोसायटीना रिपोर्ट छठामा आ चरित्र नोध्युं छे पण त्या ते संवधी कशो उल्लेख जेवामा आवतो नथी. अमारा अनुमान मुजव आ चरित्र रचयानो समय प्राचीन होवो जोईये.

B एमा अवडकात्रिय तथा तेनी बत्रीश पुत्रिओनी उत्पत्ति केम थई ते वात छे.

C मुनिरत्नसूरि ते समुद्रघोषसूरिना शिष्य अने जिनसिंहसूरिना गुरु हता. तेमनी वशावळी आ रीते छे:—कौटिकगणनी वज्रशाखाना चंद्रगच्छमा पहेल चंद्रप्रभसूरि यया के जेओ पूर्णिमा गच्छना स्थापक हता. तेमना पाटे धर्मघोषसूरि यया. धर्मघोषना पाटे समुद्रघोषसूरि यया. तेमना त्रण शिष्य सूरप्रभ, मुनिरत्न अने तिलकचंद्र आ त्रणमाना बीजा मुनिरत्नसूरिए आ चरित्र रच्युं छे. शिवाय भावी तीर्थकर श्री अममस्वामिनु चरित्र जगद्देव प्रधान के जेने हेमचंद्राचार्ये " बालकवि " नु विरुद आयु हत तेनी विनतिथि वि. स. १२५२ मा एमणेज रच्यु छे.

D आ चंद्रतिलक उपाध्याय क्यारे यया छे ते संवधी चोक्कस माहिती मळी नथी.

E आ चरित्रने हीरालले महाकाव्य तरीके नोध्युं छे, कर्त्तानु नाम आयु नथी तेथी शक रहे छे के वखते चंद्रतिलककृत तेज तो आ होय नही माटे तेनी प्रत तपासवी जोईए.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
६	आ भारामशोमचरित्र(श्लोकयुक्त)	पत्र २२	खर जिनहर्ष		राधनपुर
७	उ उत्तमचरित्र	२७५			पा ३४ डेकन
८	उत्तमकुमारचरित्र	३३०	चारुचंद्रोप		अ २ डेकन
९	उद्वायाराजचरित्र(श्लोकयुक्त)	पत्र ४१			अ १
१०	शु श्रुपिदत्ताचरित्र A (आ)	१५५०	गुणपाल	१२६४ १२८८	गृ डेकन पत्र १६४
११	ए एकादशगणपरचरित्र B	६५००	वेचमत्युपाध्याय		गृ०
१२	ब बनवरधचरित्र	पत्र ६७			अ १
१३	बनवापतीचरित्र O	पत्र ३५	जिनसुरि		डेकन पेन ३६

A आ चरित्र पत्र ३६ वन बौद्धिक छे, श्रुपिदत्ताचरित्र नौधुं छे एत छेने उक्त्य
युं नौ डेकन बौद्धिक छिन्ना एतउम विद्वत्त श्लोक १५५० अमे एत बने अशानी एतना
अमे एत नौ छे

B आ चरित्र श्रुपिदत्ताचरित्र नौधुं छे बारी बने एत उक्त्य युं नौ
एत नौ छे श्रुपिदत्ताचरित्र " ११ पत्र ६७ " एतदेवमत्युपाध्याय ६५०० " अमे
नौ छे एत अमे एत एतना एतदेवम चरित्र छे

O आ बनवापती चरित्र पत्र ३५ एत एतउम एतना एतना छे एत देवत बौद्धिक
छिन्ना उक्त्य युं, एत बने युं एत एतना एत छे एत देवतुं युं एत एत छे छे एतना एत
नौ एत एतना एतना एतना छे

ન	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે?
૧૪	કલાવતીચરિત્ર (શ્લોકવદ્ધ)	પત્ર ૮			અ ૧
	" A (વીજું)	તાડ ૮૪			પા. ૨
૧૫	કુર્માપુત્રચરિત્ર (સં.)	૨૫૦૦			જેસલ.
૧૬	કુચલયમાલા (પ્રા.)	૧૦૦૦૦	ઉદ્યોતનસુરિ B	૮૩૫	વૃ ડેક્કન
	કુચલયમાલા C (સં.)	૩૮૯૪	રત્નપ્રભ		વૃ.
૧૭	કૃતપુણ્યચરિત્ર	૧૬૫૦	પૂર્ણભદ્ર	૧૨૮૫	જેસલ.
૧૮	કૃષ્ણચરિત્ર D (પ્રા.)	૧૪૦૦			ડેક્કન.
	ગ.				
૧૯	ગુણવર્મચરિત્ર	૧૯૪૮	આંચ. માણિક્ય		પા. ૪-૫-૬ ડે.
૨૦	ગુણસુંદરીચરિત્ર	પત્ર ૧૨	સુંદર		જેસલ.

A આ ચરિત્ર પાટણના મંદાર નવર વીજામા તાડપત્રપર લખેલું છે, પણ તે કોળે રચેલું છે તે તપાસવાની અગત્ય છે.

B આ ઉદ્યોતનસુરિ તે પ્રથમ દેવસુરિના શિષ્ય નેમિન્દ્રસુરિના શિષ્ય હતા. આ ઉદ્યોતનસુરિની છઠ્ઠી પેઢેડીએ દેવસુરિના શિષ્ય ઉદ્યોતનસુરિ વિક્રમની ત્રારમી સદીની શરૂઆતમા થયા, તે પરથી તેમની પહેલી પેઢેડીએ થયેલા ઉદ્યોતનસુરિ વિક્રમની નવમી સદીની શરૂઆતમા વિદ્યમાન હતા. અને તેમણે આ ચરિત્ર રચ્યું છે એમ ચોકસાઈ નિર્ણય થાય છે. આ ઉપરથી સદરહૂ ચરિત્ર વહુજ પ્રાચીન હોવા સાથે તેની રચના પણ સમ્યક હોવી જોઈએ. તેની લખી લાગી માટે ડેક્કન કૉલેજમાની પ્રત નજરે તપાસવી જોઈએ.

C આ સસ્કૃત કુચલયમાલા વૃહત્પિપ્પનિકામા નોંધી છે પણ અમોને હજી સુધી ક્યાં પણ ઉપલબ્ધ થઈ નથી.

D ડેક્કન કૉલેજના રિપોર્ટમાં આ ચરિત્ર નોંધ્યું છે પણ તે સ્વમતિકૃત છે કે અન્યમતિકૃત છે તે જાણવા માટે તેની પ્રત જોવાની જરૂર છે. પન્યાસ શ્રી આણંદસાગરજી જણાવે છે કે આ ચરિત્ર તેમના ધારવા મુજબ શ્રાદ્ધદિનકરમાથી ઉદ્ભવેલું હોય એમ સમ્ભવ છે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
	ज				
२१	जबूस्वामीचरित्र A	गा १६४४			वृ
	" B (वीजु) (प्रा)	२६००	प सागरदत्त	१०७६	वृ
	टिप्पन	११००			वृ
	जबूस्वामीचरित्र (बीजु) प्रा	पत्र ५३	भुवनकीर्ति C		राधनपूर
	" D (बोधु) (प्रा)	७५०	पद्मसुंदर		पा ३-४ क .
	" (पाचमुं) (स)	पत्र १४			पा ३
	' (छट्टु) (गद्य)	८९७			पा ५ भाव
	" (सातमु)	पत्र ११	सकलहर्ष		पा १-४
	" (आठमु)	१३००	मानसिंह		डेकन
	" (नवमु)	पत्र ५०			अ. १

A सदाहू चरित्रने माटे वृहत्टिप्पनिकामा " जबूस्वामीचरित्र प्रा ८२ वर्षे गा १६४४ " आवो नोंष छे आ नोंषमा रच्योनो सबत् नोंषता अतना एक अक लखता रही गयो लागे छे अने तेम होय तो आ चरित्र वि स ८३० ना लगभगमा रच्युं होय तेम निमेष समकित छे, पण ते क्या पण जोवामा आयु नधी

B आ चरित्र तेना टिप्पन साथे वृहत्टिप्पनिकामा नोंष्यु छे तेना माटे त्या आ रीते नोंष छे " जबूस्वामी च प्रा सख्यादिवसे १०७६ वर्षे प सागरदत्तेन कृत २६०० तस्य टिप्पन ११०० "

C भुवनकीर्तिसुरि ते सकलचंद्रना शिष्य हता वेररे पोताना नोंषमा सकलचंद्र स १५२० मा हता एम जणायु छे ते उपरधी तेमगा शिष्य भुवनकीर्तिए आ चरित्र विक्रमनी सोळमी सर्दीना मध्यमा रच्यु होनु जोइये भुवनकीर्तिसुरि दिगम्बर तथा श्वेताम्बर वषे आम्नायमा थएला छ, तो आ चरित्रना करनार भुवनकीर्तिसुरि ते कोण हता ते याबत तेनी मत् नजरे तपासवाधी निर्णय यह शके

D आ चरित्र कथानकरूपे छे भाडारनरे तेने " जनुअप्ययन " तरीके नोंष्यु छे

નંબર	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૨૨	જયાનંદચરિત્ર " (વીજું) (ગદ્ય) ત.	૬૭૫ પત્ર ૨૧૩	મુનિસુંદર પદ્મવિજય A		પા. ૫ અ. ૧ અ ૧
૨૩	ત્રિભુવનસિંહચરિત્ર (ગદ્ય) B	૬૮૪			પા ૩ અ ૧
૨૪	ત્રિપટ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર " C (વીજું) દ.	૨૪૦૦૦	હેમચંદ્ર		સુલભ્ય. છાયાય છે. જેસલ-વે.
૨૫	દમયંતીચરિત્ર	તાડ૧૨૬.			પા. ૨
૨૬	દમયંતીપ્રવંધ (ગદ્ય) " (શ્લોકવદ્ધ)	પત્ર ૫૦ પત્ર ૨૧			અ ૧ અ. ૧
૨૭	દશશ્રાવકચરિત્ર " (પ્રા)	૨૦૦૦ ૮૦૦	શુભવર્દન (શુ)	૧૫૪૬	પા. ૩ જેસલ. પા ૩ સ્વં.
૨૮	દૃઢપ્રહારિચરિત્ર D	૩૦૦			જેસલ
૨૯	દેવકીચરિત્ર (પ્રા.)	ગા. ૧૦૧			નગીનદાસ.

A પદ્મવિજયસરિ માટે યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે રચેલા જ્ઞાનવિદુ પ્રકરણના પ્રાન્તે પ્રશસ્તિના તેઓ યશોવિજયજીના ગુરુભાઈ હતા એમ જણાવ્યું છે.

B એમા ત્રેસઠ શલાકા પુરુષોના ચરિત્રો છે. હેમચંદ્રાચાર્યજીએ એની રચના ગમ્ભીર આશય સાથે ધળાજ સુગમ કાવ્યોમાં કરી છે.

C આ વીજુ ત્રિપટ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર જેસલભરની વન્ને ટીપોમાં તે સંસ્કૃત ગદ્યમા રચાયેલું અને મલવાર ગચ્છના આચાર્યે કરેલુ તાડપત્ર પર લલેલુ છે એમ જણાવ્યું છે.

D આ ચરિત્ર હીરાલાલે નોંધ્યું છે અને તે તુટક છે એમ જણાવ્યું છે, પણ અમારા ધારવા મુજબ આ દૃઢપ્રહારિની કથા ઉદ્ધરેલી હોવી જોઈએ.

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रच्यो नो स.	क्या छे ?
३०	घ घनाचरित्र घयशालिचरित्र B घन्यचरित्र (गय) घयचरित्र	१३०० १४६० ९००० १०००	जिनकीर्ति A पूर्णभद्र C ज्ञानसागर दिग गुणभद्र		पा ४५६ लीं सुल्भ्य वृ जेसल वे माघ लीं ख
३१	घम्मिलचरित्र (श्लोकभद्र) घम्मिलचरित्र (स) न नरहरचरित्र (स)	३५०० ४७८ पत्र ९२	धाव जयशेखर मुनिसुंदर	१४६२	लीं ख पा ४, लीं अ १
३३	नरवर्मचरित्र *	५००	मुनिसुंदर		जेसल.
३४	नवनदचरित्र *	१०००			जेसल
३५	नागकुमारचरित्र	५००	रत्नयोगीन्द्र D		नगीनदास
३६	नागदत्तचरित्र * (प्रा)	१०००			जेसल

A आ जिनकीर्तिसुरि ते सोमसुंदरस्युनि पाच सिप्यमाना एरु हता एमणे पोताना नवकारस्तव उपर स १४९४ मा टीका रची छे वेरे आ चरित्र रच्यानो चौकस सवन् १४९७ आप्यो छे शिवाय चरित्रोत्प्रेक्ष्या, आयागालक्या तथा दानकल्पद्रुम विधेना करनर पण आन जिनकीर्तिसुरि छे

B आ चरित्र माटे वृहत्सिप्यनिद्रामा " घन्यशालिभद्रचरित्र पूणभद्रगाना १२८५ वर्षे कृत श्लोक १४६० " आबो नोंप छे

C हाणलले करेली दीपमा आ चरित्रना कत्ता देवगुनशिष्य भद्रगुन रुद्रपत्नीव छे एम नोंपाने ते रच्यानो सवन् १४२८ नोंप्यो छे पण आ दिना तदन शक पढदी लगे छे कारण के वृहत् सिप्यनिकामा एना कत्ता पूणभद्र नोंप्या छे, अने हसविनयनी महासुतनी दीपमा पण तेज नाम आपेल छे माटे एना कत्ता पूणभद्र ठरे छे

* आ निगणीयाळा त्रणे चरित्रो जेसलमेरनी दीपमा हाणलले नोंप्या छे तेथी तेमना नाममा तथा कत्ताना नाममा रू रहे छे, माटे तनी प्रणे फीथी नरे चोपानी चरु रह छे

D आ रत्नयोगीन्द्र अमाय धारवा मुनर काइ दिगमर होवा चोइये, छता ते कोण हता तथा ना चरित्र तेमणे क्तारे रच्यु छे ते मानवतो निगय रच्यतना चरित्र नगिनदासना महारमानो लेनी मज नवर जोया वगर ययो मुक्केल छे.

नं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य नो सं	क्यां छे ?
	प.				
३७	पद्मचरित्र A (प्रा.)	१००००	विमलसूरि	६०	वृ पा १-२-३-४
	" (सं.)	२२००	देवविजय		अ. १ डेकन.
३८	पद्मावतीचरित्र (प्रा.)	पत्र १४४			डेकन पेज ३७
३९	पांडवचरित्र (सं.)	९८८४	मल. देवप्रम B		वृ. सुलभ्य.
	" बीजुं (गद्य)	९५००	देवविजय	१६६०	पा. ३
	" उद्धार	पत्र ३३	जयानंद		राधनपुर.
४०	पुंडरीकचरित्र	३३००	कमलप्रम	१३७२	वृ. पा. ४-५
४१	पूर्वपिंचरित्र	५७७४	प्रद्युम्न	१३०४	पा. ४
४२	पृथ्वीचंद्रचरित्र C (प्रा)	७५००	शान्तिसूरि	११६१	वृ पा. १-४

A एनु अपरनाम रामचरित्र छे. एने जैन रामायण पण ऋदेवामा आवे छे. आ चरित्र गायत्र वद्ध होवा साथे वैराग्यरसयी पूनित छे. नाटिल वशना विमलाचार्य महावीरस्वामिना निर्वागयी ५३० मे वर्षे एटले विक्रम सं. ६० मा आ चरित्रनी रचना करी. तेथी आ चरित्र अत्यंत प्राचीन समयमा यएलुं छे. एम चोकस सार्वीत थाय छे. कारण के देवद्विगाणिसमाश्रमणे विक्रम सं. ५२३ मां सूत्रे पुस्तकालुड कर्या तो ते समयथी पण ४६३ वर्ष पहिलां आ चरित्र रचायलु छे. पण दिलगिरी छे के आवा प्राचीन चरित्र तेनी गेर सभाळ अने जाननी ओछासने लीधे कचित्तज जोवामा आवे छे.

B आ मलघारि देवप्रमसूरि कोना शिष्य हता ते वावत चोकस निर्णय यतो नथी. कारण के पिटसन रिपोर्ट चोयामा तेमनी वंशावळी आ रीते आपी छे:—कौटीकगणनी मध्यमशाखा, श्रीप्रश्नवाहन-कुल, हर्षपुरीयगच्छमा (१) अमवदेवसूरि यथा तेमना पाटे हेमसूरि के जेओ सिद्धराजना समकालीन हता. तेमना पाटे विजयसिंहसूरि तेमना पाटे चंद्रसूरि तेमना पाटे मुनिचंद्रसूरि यथा. आ मुनिचंद्रसूरिना शिष्य ते आ पाडवचरित्रना करनार देवप्रमसूरि छे एम जणाव्यु छे. पण रिपोर्ट ज्ञीजाना पेज २७५ मां न्यायकंदलिनी प्रशस्तिमां आ देवप्रमसूरि मुनिचंद्रसूरिना " क्रमिक " हता एम जणाव्यु छे. ते उपरथी तेओ मुनिचंद्रसूरिना धर्मसहोदर हता अगर तेमना पाटे थएला हता ते वावत शक रहे छे. वळी एज रिपोर्टना पेज १३२ मा पाडवचरित्रना प्राते प्रशस्तिमा आ देवप्रमसूरि देवानदना शिष्य हता आबी नॉव कनेली छे. माटे आ देवप्रमसूरि कोना शिष्य हता ते वावत चोकस पुरावो जे मुनि महाशयना जाणवामा होय तेमने ते अमोने लखी मोकलवा कृपा करवी. एवी अमारी तेमने नम्र प्रार्थना छे.

C एना माटे बृहत्तरिप्यनिकामां " पृथ्वीचंद्रचरित्रं प्रा. सु. गायारिमयं ११६१ वर्षे शान्तिसूरिभिः कृतं ७५०० आवो नॉव छे.

नं०	नाम	श्लोक	कत्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
	टिप्पनक A	११००	कनकचद्र	१२२६	वृ
	सफेत (विपमपद व्याख्या) b	५९५	रत्नप्रभ		वृ
	पृथ्वीचद्रचरित्र (बीजु)	२८७४			पा ४ जेसल
	„ (श्रीजुं) गद्य	पत्र २०२	रूपविजय		अ १
	„ (चाधु)	९९८	माणिक्यसुदर		पा ३
	„ (पाचमु)	पत्र १५५	लघिसागर		अ. १
	„ (छट्टु)	पत्र २१			अ २ भरुच
४३	प्रत्येकनुद्धचरित्र (प्रा)	६०५०	श्रीनिलक	१२६१	वृ पा १ ४ सुलभ्य
४४	प्रदेशिचरित्र (प्रा)	३००			जेसल
४५	प्रद्युम्नचरित्र		रत्नसिंह C	१७६१	अ १ लीं पी रि ५
	„ (बीजु)	७००२	रविसागर	१२०७	पा ४
	„ (प्रा) (बीजु)	पत्र ६०			पा ४
	„ (स) (चोधु)		सोमकीर्ति		अ १-२ भाव

A, B आ वत्र प्रयो वृहत्टिप्पनिकामा नोंथा छे, पण अमोने क्या पण उपलब्ध थया नथी

C अमदावादन डेलाना भरारनी टीपमा कत्तानु नाम रत्नचद्र आण्यु छे, माटे त्यानी प्रत तपाशी चौवानी जरूर छे

नं०	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रचयानो स	क्यां छे?
४६	प्रशुम्नचरित्र (पांचमुं) प्रभावतीचरित्र B घ.	पत्र १०७ २२००	महसेन A		अ. २. जेसल.
४७	वाहुयलिचरित्र C (सं) भ.	५००			जेसल.
४८	भरतचरित्र D (प्रा)				डेकन.
४९	भरताष्टक	पत्र ४८			अ. १
५०	भविष्यद्दत्ताख्यान	२०००	महेश्वरसूरि		लीं.
५१	भव्यकुटुंबचरित्र				पा ४
५२	भुवनभानुचरित्र (गद्य)	१८५०	इंद्रहस	१५५४	पा. ४ लीं खं.
५३	भुवनसुदरीचरित्र E	१०३५०	विजयसिंह	९७५	वृ. नगीनदास भाव.

A महसेन आ नाम फक्त अनुयोगद्वारचूर्णिना प्राप्ते जोवामा आव्युं छे ते शिवाय वीजा कोट महसेनाचार्य यथा जाणवामा आव्या नथी. पण कटाच अनुयोगद्वारना चूर्णिकार महसेनगणि एट्ठे जिनदासगणि महत्तर जो आ चरित्रना करनार होय तो ते विशेष समवे तेम छे. कारण के जिनदास गणिना गुरुनु नाम पण प्रद्युम्नक्षमाश्रमणज हतु. वो ते मुजत्र आ चरित्र तेमना शिष्ये रच्यु होवुं जोदये. जिनदासगणि याकिनीसुनु हरिभद्रसूरिथी पण अगाल थइ गएला छे माटे आ चरित्र तेमगेज रच्यु छे के वीजा कोट महसेन नामना आचार्ये रच्युं छे ते त्राप्त चोरुस खात्री करवा चचलवाईना भंडारमानी एनी प्रत नजरे तपासवानी आवश्यकता छे. प. आणदसागरजी महाराज जणावे छे के प्राप्ते आ त्रय टिगत्रकृत होय तेम तेना कर्त्ताना नाम उपरथी जणाय छे. वळी भावनगरना विद्याप्रसारक वर्गे उपाव्यु पण छे एम तेमनी स्मृतीमां छे.

B, C आ चरित्रो जेसलमेरनी टीपमां हीरालले नोंध्यां छे तेथी शक पडता छे.

D आ भरतचरित्र फक्त डेकन कॉलेजमा छे, माटे उतारवा योग्य छे.

E एना माटे वृहत्टिपनिकामा नीचे मुजत्र नोंव छे:—

“ भुवनसुदरी च. प्रा. गाथागद नइनकुलीयश्रीविजयसिंहाचार्यैः ९७५ वर्षे कृतं गा. ८९११ ”

न	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य ता स	क्या छे ?
	म				
५४	मुनिपतिचरित्र (प्रा)	गा ६४४	(द्वि) हरिभद्र	११७२	पा ३-४
	„ (स)	३२००	जगूनाग	१००५	वृ पा ४ ख डे
५५	मनोरमाचरित्र A (प्रा)	१५०००	वर्द्धमान	११४	वृ
५६	मलयसुदरीचरित्र (प्रा)	२४३०	बागमिक स्यतिलक		पा ८ ६ भाच सुलभ्य
	„ (प्रा)	गा १२९६			लीं
५७	महानरेंद्रकेवलिचरित्र	पत्र ३१			ख २
५८	महापुरुषचरित्र B (प्रा)	११४८०	शीलाचार्य	९२५	वृ पा ४ जे-वे
	„ C (प्रा) बीजु	गा ८७९०	आम्रसूरी		वृ
	„ (स) बीजु	२३३६	मेस्तुग		पा ४-५अ १
५९	महीपालचरित्र	२७००	वीरदेवगणि D		वृ पा ३-४
	„ गा ५०९	८९५	चारित्रसुदर		पा ५ ख

A सदरहू चरित्रने माटे बृहत्कटिप्पनिकामा “मनोरमाचरित्र प्रा मु गाथास्य च ११४० वर्षे श्रीअभयदेवसूरीशिष्यवर्द्धमानसूराय १५०००” आवो नोंध छे पण ते अमोने हर्जा सुधी क्या पण उपलब्ध थयु नथा

B एना माटे बृहत्कटिप्पनिकामा “महापुरुषचरित्र प्रा मु शालाकापुरुषवृत्तनाय्य ९२५ वर्षे शीलाचार्ये कृत १००००” आवो नोंध छे

C आ बीजु महापुरुषचरित्र फक्त बृहत्कटिप्पनिकामा नोंधु छे, बाकी क्या पण उपलब्ध थयु नथा तेना माटे ते टिप्पनिकामा आनो नोंध छे “महापुरुषचरित्र प्रा ६३ शालाकापुरुषवृत्तनाय्य आम्रकृत गा ८७९० श्लोक १००५०” पण अमास धारवा मुत्र आ बने एन्ज हरी

D आ वीरदेवगणिए मलघारि अभयदेवसूरिने मत्रविद्या शिरतना-ा हती अभयदेवसूरिने मलघारि आ विरद गुत्रतना कणपजाए जाथु हतु कणराजा स ११२० थी ११५० सुधी हतो त उपरथा आ वीरदेवगणि अभयदेवसूरिना समकालिन हता एम चौकस निणय थाय छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે?
૬૦	મૃગધ્વજચરિત્ર	ગા. ૮૩	પદ્મકુમાર		લોં.
૬૧	મૃગાપુત્રચરિત્ર (પ્રા.)	૫૦			પા. ૪
૬૨	મૃગાવતીચરિત્ર ય.	૨૪૦૦	મલ. દેવપ્રભ		પા ૪ અ. ૧-૨ ઢે.
૬૩	યશોધરચરિત્ર	૩૭૦	હેમકુંજર		પા ૪
	” (ત્રીજું)		વાદિરાજ A		પિટર્સન રિ ૫
	” (ત્રીજું)	૬૦૦	માણિક્યસૂરિ B		અ ૨ ઢેકન.
	” (ત્રીજું)	૩૫૦	દેવસૂરિ		ડેકન.
	” (પાંચમું)	૧૩૫૦	ક્ષમાકલ્યાણ		લોં. ઢેકન.
	” (છઠું)	પત્ર ૩૫	સોમકીર્તિ		ડેકન.
	” (સાતમું)	૮૬૦	(દિગં)સકલકીર્તિ		પા ૪.
૬૪	યુગપ્રધાનચરિત્ર C ર.	૬૦૦૦			જેસલ.
૬૫	રત્નચૂડચરિત્ર	પત્ર ૫૩	રાજવર્દન		અ. ૨
૬૬	રસમંજરીચરિત્ર	પત્ર ૨૧૫	માણિક્યચંદ્ર D		અ ૨

A આ વાદિરાજ દિગમ્બરાચાર્ય હતા. એમના રચેલો ઢીજો ગ્રંથ શ્રીપાર્શ્વનાથકાકુત્સ્ય ચરિત્ર છે.

B આ માણિક્યસૂરિ તે સ્વરત્તર જિનહસસૂરિના શિષ્ય અને ગુણરત્નસૂરિના ગુરુ હતા. પિટર્સને તેમને સ્વરત્તરગચ્છનો પટ્ટાવલીમા ૬૦ મેં નવરે નોંધ્યા છે.

C આ ચરિત્ર જેસલમેરની ટીપમા હસવિજયજી મહારાજે નોંધ્યું છે. એમા શ્રુતકેવલિ સ્તૂલિમદ્ર પર્યત યુગપ્રધાનોના ચરિત્રો સસ્કૃત પ્રાકૃતમા રચાયલા છે, એમ તેમા જણાવ્યું છે.

D માણિક્યચંદ્રમૂરિ તે રાજગચ્છના પ્રથમ્નસૂરિથી નવમે પાટે થણલા સાગરચંદ્રસૂરિના શિષ્ય હતા. એમને સં. ૧૨૭૬ મા ઢીવ વદરમા રહી શ્રીપાર્શ્વનાથચરિત્ર રચ્યું છે. શિવાય કાવ્યપ્રકાશકેત તથા કુવેરપુરાણ પળ તેમણેજ રચેલા છે.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	पत्रां	रचया मो.स.	पयां छे ?
६७	राजहसचरित्र (श्लोकधर)	पत्र २७			अ १
६८	रामचरित्र (गद्य)	५०००	द्विधनयगणि	१६५२	पा. ३ अ १
	" (धीनु)		विजयसेन 4		देकन
६९	रूपसेनचरित्र	२६७०	रविसागर	१६३६	पा ३-४-५
	" (धीनु)	११८५	जिनसूरि		पा ४ ग डे
७०	रोहणीचरित्र B (प्रा)	१००३			नगीनदास
	ल				
७१	ललितांगनरेधरचरित्र	पत्र ३४			देकन
	घ				
७२	घञ्जचरित्र (प्रा)	ताड १६			पा २ नगीनदास
७३	घरदत्तचरित्र C (गद्य)	३०००			जेसल

A आ विजयसूरि नामेंद्रगच्छना फणिमालगौतम हरिभद्रसूरिना शिष्य हता आ विजयसेन सूरिद आसछे फरेली विवेकमजरीगे मुद्र करवामा तेमने मदत करी छे एटल तेओ स १२६० ना लगभगमा विद्यमान हता

B आ चरित्र पत्र रानतना शेठ नगीनदासना भडारमा छे, धाकी क्या पण उपलब्ध भयु नथी माटे ते उताये करवा लायक छे

C आ चरित्र संस्कृत गद्यमा छे एम हीरालाले नोंधु छे

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कंर्त्ता.	रच्यार- नो स	क्यां छे ?
७४	वसुदेवहिंड A (प्र. खंड)	१७०००	संघदास		वृ. पा १-४-६अ. १
	„ B (द्वि. खंड)	११०००	धर्मसेन		वृ. पा. १-४-६अ. १
७५	विक्रमचरित्र	६०२०	रामचंद्र	१४९०	पा. ३ ख.
	„	५३००	देवमूर्ति	१४९६	डेकन.
७६	विजयचंद्रकेवलिचरित्र	१०५०	वीरदेव	११८७	वृ. पा. ३-५
	„ (वीजुं)	पत्र ६०	आमलूरि C		राधनपुर

A, B वसुदेवहिंडि माटे वृहत्पिणिकाका " वसुदेवहिंडि प्रथमखंड सघदासवाचककृत ११००० वसु. द्वितीयखंड अपराचार्यकृत ६६०० वसु. मध्यमखंड सप्रहणीक ९००० आ रीते नोध छे. " आ नोधमा द्वितीयखंड पछी मध्यमखंड नोधे होवाथी आ नोधमां नोध्या शिवायना बीजा खडो होय तेम सभव थाय छे. पण ते वृहत्पिणिकाकारने पण उपलब्ध थया नथी एम मालम पडे छे. वृहत्पिणिकाकारे द्वितीयखंड पछी मध्यमखंड नोध्यु छे, त्वारे पाटण, अमदावाद आदिनी टीपोमा प्रथमखंड, मध्यमखंड अने द्वितीयखंड आवी रीते मध्यमखंडने प्रथमखंड साथे नोव्यु छे. पिटसने वसुदेवहिंडिनी नोध लेता पोताना त्रीजा रिपोर्टना पेज १९६ मा तेना प्रथमखंड, द्वितीयखंड अने तृतीयखंड एम त्रण खंडा जणाव्या छे. द्वितीयखंडने शरुआतमा द्वितीयखंड तरीके नोधिने प्रातमा मध्यमखंडना नामे ओळखाथी प्रथम तथा द्वितीयखंडनी श्लोकसख्या १७८०० जणावी छे. तेमज तृतीयखंडना प्रारभमा तृतीयखंड तरीके नोवी प्रातमा मध्यमखंडनु नाम आप्यु छे. श्लोकसख्या नोधी नथी.

आ रीते जुदा जुदा नोधो उपरथा वसुदेवहिंडिना चोकस खंड तथा तेनी श्लोकसख्या माटे जवर शक रहे छे. अमारा धारवा मुजव एना एकोत्तरे लंभको छे. तेमाथी चुमालीस लभकोमां प्रथमखंड अने द्वितीयखंड (मध्यमखंड) समाप्त थाय छे, आ वने श्लोक १७००० प्रमाणना छे. आ प्रथम अने मध्यमखंडने प्रथमखंड तरीकेज मानीए तो मानी शकाय तेम छे. पिटसने जेनी तृतीयखंड तरीके मान्यता करी छे ते तृतीयखंड नहि पण श्लोक ११००० वालु धर्मसेनगणि महत्तरे रचेलु द्वितीयखंड होबु जोइये. अने जो तेमज होय तो अमदावादना डेलाना भडारमा वने खडो मोजुद छे तो त्यानी प्रत नजरे तपाली जोयाथी चोकस खुलासो यह शके तेम छे. छता आ बावत मुज मुनिवगी महाशयोने विनति करवामा आवे छे के जे महाशय पासे आ सपूर्ण ग्रथ मोजुद होय अगर जेमने आ सवेथी चोकस माहिती जाणवामा आवी होय तेओथीए ते अमोने लखी जणाववा कृपा करवी एवी अमारी तेमने नस्र प्रार्थना छे.

C अर्था नाम शक पडतु लागे छे, कारण के आ नामना कोइ आचार्य थया जाणवामा आव्या नथी. वलते महत्तरे उपरचरित्रना करनार आम्रमूरिए आ चरित्र रच्युं होय तो होय, छता चोकस निर्णय राधनपुरना भडारमोनी तेनी प्रत जोया वगर थई नके तेम नथी.

नं०	नाम	श्लोक	कर्ता	रच्य ना स	क्या छे ?
७७	विनयधर चरित्र (प्रा)				पा २
७८	विदातिस्थानचरित्र श	२८००	जिनहर्ष	१५०२	पा २-४
७९	शांभुचरित्र A (स)	१ ७०			वृ
८०	शालिचरित्र अघचूरि	१२२४ पत्र ११	धमकुमार	१३३४	वृ पा १-३ खनात
८१	शालिचरित्र (प्रा)	गा १७२			नगीदास-
	"	पत्र ३०	विनयसागर		अ १
	"	पत्र २४	प्रभाचन्द्र		अ २
	"	पत्र २०	सोमप्रभ		अ २
८२	शालिमाहनचरित्र B	१८००	शुभशील	१५४०	पा ५
८३	धावकचरित्र				जेसल-वे-
८४	श्रीधरकेवलचरित्र C (प्रा)	ता. ८७			पा २
	" (स)	३२९६			पा ३-४ ५-
	"	३७००	शीलसिंह		डेकन
	" प्रशस्ति		शीलसिंह		डेकन
८५	श्रीधरचरित्र	१६८५	माणिक्यसुन्दर	१४६२	पा ४

A वृहत्कल्पनिष्पन्ना आ चरित्र नौ यु छे पण अमोन उपलब्ध थयु नथी

B आ चरित्र पूर्वे ऐतिहासिक प्रथोना वगमा नोंधायु छे छता आ चरित्रनो वर्ग होनाथी इहा पण नोंधु छे

C आ चरित्र पत्त पाठनना मदार नसर गीनामा ते प्राहुतमा रचायलु छे एम जणा यु छे, नाथी क्या पण जोवामा आब्यु नथी माटे ते उतारो करवा योग्य छे

નંબર	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં	ખ્યાં છે ?
૮૬	શ્રીપાર્શ્વ૧૦ગણધર ચરિત્રો A	૪૩૫૦			વૃ.
૮૭	શ્રીપાલચરિત્ર (પ્રા.)	૧૩૪૧	રત્નશેખર	૧૪૨૮	પા. ૧-૩મા સુલખ્ય.
	ટીકા	૪૫૦૦	ક્ષમાકલ્યાણ	૧૫૫૪	ડેક્કન.
	શ્રીપાલચરિત્ર (સ.)		સત્યરાજગણિ		પા. ૩ જેસલ-બે.
	" (શ્લોકઘડ)	પત્ર ૫૧	સોમકીર્તિ		અ. ૧
	"	૧૫૫૦	ક્ષમાકલ્યાણ		નાગોર *
	"	૨૦૦૦	પંડિત રાહધુ B		રિપોર્ટ ૬
	"	પત્ર ૨૪	સોમચંદ્ર C		અ. ૧
	" (ગદ્ય)	૧૧૦૦	જયકીર્તિ		ડેક્કન.
	" (ગદ્ય)	પત્ર ૫૩	જ્ઞાનવિમલ		અ. ૧
૮૮	શ્રેણિકચરિત્ર (ગદ્ય) D	૧૦૦૦	ધર્મઘર્દન		ડેક્કન.

A સદરહૂ ચરિત્ર વૃહત્ ટિપ્પનિકામા નોંધ્યુ છે. એના માટે તે ટિપ્પનિકામા "શ્રીપાર્શ્વ ૧૦ ગણધરચરિત્રાણિ પ્રા. મુ. ૪૩૫૦" આવો નોંધ છે.

* આ ચરિત્ર નાગોરના મંડારની ટીપમા નોંધ્યુ છે. પણ તેની શ્લોકસંખ્યા ઉપરથી શક રહે છે. કારણ કે ટીકા સહિત એના શ્લોક ૪૫૦૦ છે, અને ટીકાકાર ક્ષમાકલ્યાણ છે. નાગોરની ટીપમા ૧૫૫૦ નો આક નોંધ્યો છે તે મૂલ્ય ગ્રંથના હિસાબે લખ્યો હોવો જોઈએ, અને મૂલ્યકાર રત્નશેખરસૂરિ હોવો જોઈએ એમ વિશેષ સંભવ છે.

B આ રાહધુ પંડિત અન્યમતિ હોય તેમ લાગે છે, અને તેમને આ ચરિત્ર રચ્યું છે.

C સોમચંદ્રસૂરિ ગુરુગુણસત્તરિ રચી છે.

D આ શ્રેણિકચરિત્ર ફક્ત ડેક્કન કૉલેજના રિપોર્ટમાં નોંધ્યુ છે.

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रच्य नो स.	क्या छे ?
८९	प पद्गुरुपचरित्र	६८८	क्षेमकर A		पा ४-५
९०	स सगरचरित्र B	७००			जेसल
९१	सनत्कुमारचारत्र (प्रा)	८१२७	धीचंद्र	१२१४	पा ३-५
	„ C (महाकाव्य)	२२०३	जिनपतिशिष्य		जेसल-ये
९२	सजनाख्यान				जेसल-ये
९३	सप्तश्रेणी D	७२००	गुणाकर	११७८	वृ
९४	समरादित्यचरित्र (प्रा)	१००००	हरिमद्रसूरि		वृ पा ४-५६
	टिप्पन		मतिवर्द्धन		डेकन
	समरादित्यचरित्र	५८७४E	मद्युल्लसूरि	११२४	वृ पा ४-५६.

A क्षेमकर त कोण हता अन तमणे आ चरित्र क्यारे रच्यु छे ते बायत चौकस खातरी करवा माटे तनी प्रत परीया जोवा जोइये

B आ चरित्र हारालालना नोंघमां छे माटे शक पढतु छे

C आ चरित्र मदाकाव्यना नामे ओळखाय छ तेने आगळ काव्यना वर्गमां नोंघवामां आवसे छतां हरां चरित्रने वग होवाथी चरित्रना नाम पण नोंघ्यु छे जेसलभरनी वजे टीपोमा आ चरित्र नोंघ्यु छे, पण कप्तानु नाम जिनपतिशिष्य एयु छदिग्धज आप्यु छे तो जिनपतिशिष्य ते कोण जिनभरसूरि हता के कोइ थीजा आचाय हता ते बायत चौकस निर्णय तेनी प्रत नजरे जोया वगर यह नके तेम नया

D एना माटे वृहत्तिप्पिनिकामां “सप्तश्रेणी नामक ११७८ वर्ये गुणाकरिय ७२००१” आयो नोंघ छे पण ते अमोने हरी मुधी कया पण उपर च मयु नथी प आणदसागरनीना जाणसा मुनब आ सप्तश्रेणी ते दशनशुद्धि नामना प्रकरणनी श्रुति हना एम तेजो जणाये छे

E आ श्लोकसख्या पाटण तथा खबाजनी टीपोमां नोंपेली होवाथी तेना मणेंछे जमे हरां टाही छे वृहत्तिप्पिनिकामा एना श्लोक ४८७४ जणाया छे

न.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्य- नो स	क्यां छे ?
	समरादित्यचरित्र A	पत्र २८१	धर्मरत्नसूरि		अ. २
	„ B	पत्र २०१	गुणरत्नसूरि		अ. २
९५	सिद्धसेनचरित्र C	ता १०४	माणिक्यचंद्र		पा. २
९६	सीताचरित्र (प्रा.)	३१००			वृ पा. ५.
	„ D प्रा (वीजुं)	३४००			वृ.
	„ (त्रीजुं)	गा ४६५	भुवनतुंग		डेकन.
९७	सुग्रीवचरित्र E (प्रा.)	६००			जेसल.
९८	सुदर्शनाचरित्र (प्रा.)	१८८७	मल देवप्रभ		वृ.
	„ (वीजुं)	४८५२	देवेंद्रसूरि		पा. २-५
९९	सुनक्षत्रचरित्र				जेसल-वे.
१००	सुबाहुचरित्र	गा. २२८			जेसल नगीनदास-
१०१	सुभद्राचरित्र F	१५००	(शू)		जेसल

A, B आ वने चरित्रो अमारा धारवा मुजव एकज हशे. कारण के आ चरित्रना करनार वने आचार्यो एरुज वखतमा हता. तो तेमने वे जणा मळीने आ चरित्र रच्युं होय तेम विशेष संभवित छे. छता ते एकज छे के भिन्न छे ते वावत चोकस निर्णय करवा वनेनी प्रतो तपासवानी जरूर रहे छे.

C आ सिद्धसेनचरित्र फक्त पाठणना वीजा भंडारमा छे.

D एना माटे वृहत्पिप्पिकामा “सीताचरित्र धर्माधर्मशास्त्रगतं प्राकृतं ३४००” आवो नोंध छे. पण ते क्या पण उपलब्ध थयुं नथी.

E आ चरित्र जेसलमेरनी टीपमा हीरालाले नोंधुं छे, अने तें कागळ उपर लखेलु छे एम जणाव्यु छे. पण आ नामज शक पडवु लागे छे तेथी आ चरित्र त्या छे के नहीं ते वावत खातरी करवा माटे तेनी प्रत नजरे तपासी जोवानी अगत्य छे.

F सदरहु चरित्र पण हीरालाले कोरली टीपमा नोंधायुं छे तेथी तेना माटे शक राखवो पडे छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कक्षा	रल्या नों स	क्या छे!
१०२	सुमित्रचरित्र (लोषनद्ध)	पत्र १६			अ १
१०३	सुरसुदरीचरित्र (प्रा)	पत्र ७६			अ १
१०४	सुलसाचरित्र (स)	७२४	जयतिलक		पा ३-४
१०५	सुवतकृपिचरित्र	गा ५९			घ
१०६	स्यूलिभद्रचरित्र A	६८४	जयानद		घृ पा ३-४
	स्यूलिभद्रचरित्र(शीलप्रशास)	३१००	धमसागर शिष्य पद्मसागर	१६३४	ली
	इ				
१०७	हसराजवत्सराजचरित्र (गद्य)	१०५०	राजकीतियाचक		डेकन
१०८	हरिवलचरित्र B (प्रा)				पा ३
१०९	हरिवशचरित्र C (स)	९०००			घृ
	,, D (स)	९०००	वदिककधि		घृ
११	हरिविभ्रमचरित्र	५३५०	आगमिक जयतिलक		घृ पा ४ ५५ सुल्भ्य

A एना माटे बृहत्स्पिनिकामा " स्यूलिभद्रचरित्र तथा जयानदसुरित श्लोक ६८४ " आवो नोंध छे

B आ चरित्र अमास धारवा मुजय अपभ्रशमा रचायलु होउं जोइये

C, D आ उत्रे चरित्रो माटे बृहत्स्पिनिकामा जुदा जुदा नोंध नीचे मुजय छे —

" हरिवशचरित्र स नेम्यादिनहुवृत्तनाय आधतर श्लोक ९००० । हरिवशचरित्र स वदिककनिवृत पुराणभाषानिबद्ध नम्यादिवृत्तनाय ९००० " आ उत्रे चरित्रोनी श्लोकसख्या विगेरे मळतीज छे पण ते क्या पण उपलब्ध क्या नथी

નંબ.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચ્યા-નો સં.	ક્યાં છે?
	તીર્થંકરચરિત્રો * હોસ વીજો.				
૧	(૧)આદિનાથચરિત્ર A(પ્રા)	૧૧૦૦૦	વર્દ્ધમાનસૂરિ B	૧૧૬૦	વૃ. પા. ૧-૨-૪-૫
	(૨) „ (પ્રા.)	પત્ર ૩૩			અ. ૧
	(૩) „ (પ્રા.)	પત્ર ૭૬	અમરચંદ્ર		અ. ૧
	(૪) „		વિનયચંદ્ર		અ. ૧
૨	(૧)અજિતનાથચરિત્ર †(પ્રા)				વૃ
	(૨) „ †(સં.)				વૃ.
૩	(૧)સંભવનાથચરિત્ર †(સં.)				વૃ.
	(૨) „ † (સ)				વૃ.
૪	(૧)અમ્બિકાસ્વામીચ.પ્રા †				વૃ.
	(૨) „ † (સં)				વૃ.

* એમ શ્રીકૃષ્ણભદેવથી તે મહાવીરસ્વામિ સુધીના ચોવીસ તીર્થંકરોના ચરિત્રો એકત્ર કરી કમલુ ઉલ્લંઘન થયાના ભયથી તેમને અકારાદિ કમથી નહીં નોંધતાં જેમ જેમ એક પછી એક તીર્થંકરો પયા છે તેમ તેમ કમવાર તેમના ચરિત્રો નોંધ્યા છે.

A આદિનાથ ચરિત્રને કૃષ્ણભદેવચરિત્ર પણ કહે છે.

B આ વર્દ્ધમાનસૂરિ તે શાસ્ત્રિભદ્રશરિના શિષ્ય અને ચક્રેશ્વરશરિના ગુરુ હતા. તેમણે આ કૃષ્ણભનાથ ચરિત્ર ગુરુ ભૂવતિ જયમિહના ગજ્યમાં રચેલું છે.

† આ નિગાળીગાઠા ચરિત્રો કત્ત કૃષ્ણવિષ્ણુનિકામા નોંધાયા છે, પણ દિલ્લીર થવા જાય છે કે કૃષ્ણવિષ્ણુનિકામાને પણ તે ઉપલ્લવ થયા નથી. તે ઉપરથી એમ માલમ પહે છે કે એ ઘણા વચ્ચત કવચ ગુમ થયા હોવા જોઈએ, એમ છે છતાં આ ચરિત્રમાના જે જે પણ મઠી શકે તેમ હોય અગર જેમની સમિ એના ચરિત્રો મોતુદ હોય તે કૃષ્ણમહાશયોને અમાગી નમ્ર પ્રાર્થના પૂર્વક વિનતી એ છે કે તેગોશ્રીપદ તે ચરિત્રોના નામ ટામ ઘાંધની દર્શીકત વમાય ઉપર લખી મોકલવા રૂપા કરવી.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
५	(१)सुमतिनाथचरित्र A(प्रा) (२) , * (स)	९८२१	विजयसिंहशिष्य सोमप्रभ		वृ पा ३-४र्त्ता अ १ वृ
६	षडप्रभस्वामीचरित्र B(प्रा)	८४००	देवसूरि	१२२४	वृ पा २
७	(१) सुपाश्वनाथचरित्र(प्रा) (२) ,* (स)	गा ८७ ०	लक्ष्मणगणि	११९९	वृ. पा ३-४ राधण वृ
८	(१) चंद्रप्रभस्वामीचरित्र (प्रा) वृत्ति (२) चंद्रप्रभस्वामीचरित्र (प्रा) (३) „ C (प्रा) (४) „ (सं प्रा) (५) „ (स) (६) „ D „ विपमपदवृत्ति	१३१५ ६४०० ८०३२ ५३२५ ६१४१ पत्र ९९	साधुसोम यशोदेव हरिमद्र देवेंद्रसूरि सर्वानंद वांचलिक जिनपतिशिष्य जिनश्वर		पा ४ पा. ४ वृ जेसल-वे वृ पा २ वृ पा ४ वृ पा ४ जामनगर पा ६

A एना माटे वृहत्पिप्पिनिकामा “ सुमतिचरित्र प्राकृतमुरय चौमप्रभीय कुमारपालराये वृत्त ९६२१ ” आचो नोंध छे

* आ पिशाणीओ माटे पाछळ पाने श्रीअजितनाथचरित्र उपरनी नोट पुओ

B आ चरित्र वृहत्पिप्पिनिकाकारने उपलभ थयु नथी

C एना माटे वृहत्पिप्पिनिकामा “ चंद्रप्रभचरित्र प्रा श्रीकुमारपालराये हरिमद्र ८०३२ ” आचो नोंध छे

D आ चंद्रप्रभस्वामीचरित्र जामनगरनी हरजी पाठशळानी दीपमा नोंधु छे, अने ते कीद अचलगच्छना आचार्ये रचेलु छे एम तेमा जणाब्यु छे

नं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य नो सं	क्यां छे ?
९	(१) सुविधिनाथचरित्र * (प्रा) (२) ,, * (सं)				वृ. वृ.
१०	(१) शीतलनाथचरित्र * (प्रा) (२) ,, * (सं.)				वृ. वृ.
११	(१) श्रेयांसनाथचरित्र (प्रा.) (२) ,, * (प्रा.) (३) ,, (सं.)	११००० गा६५८४ ५१२४	भद्रेश्वरशिष्य अजितासिंह A हरिभद्र B मानतुंग	१३३२	वृ. पा. २ वृ. वृ. पा. २ खं.
१२	(१) वासुपूज्यस्वामीचरित्र C (प्रा.) (२) ,, D (सं.) (३) ,,	८००० पत्र ९४ २२००	चंद्रप्रभ वर्द्धमान	१२९९	वृ. पा. २ वृ भाव. A. S.
१३	(१) विमलनाथचरित्र*(प्रा) (२) ,, * (सं.) (३) ,, *	५६५०	ज्ञानसागर	१५१२	वृ. वृ. पा. ४. भाव.

* आ निशानीओ माटे तीर्थकर चरित्रोनी शरुआतमा अजितनाथचरित्र उपर आपेली नोट जुओ.

A वृहत्तिप्पनिकामा एना कर्त्ता देवभद्रसूरि जणाव्या छे. पण पाटणनी टीपमा आ नाम आपेल होवाथी तेज नाम दाखल कर्तुं छे. छता आ चरित्र आ वे आचार्यमाथी क्या आचार्ये रच्युं छे ते वावत चौकस खात्री करवा पाटणना भंडारमानी प्रत फरीथी तपासवानी जरूर रहे छे.

B वृहत्तिप्पनिकामा एना माटे " श्रेयासच. प्रा. जयसिंहदेवराज्ये हरिभद्राचार्यकृतं गा. ६५८४ " आवो नोंव छे. पण ते क्या पण उपलब्ध थयुं नथी.

C आ चरित्र हेमचंद्राचार्यादिए शोध्युं छे.

D वृहत्तिप्पनिकाकारे आ चरित्र रचयानो सवत् ११९९ आप्यो छे. पण भावनगरनी टीपमां स. १२९९ नो आक नोवेलो होवाथी ते सवत् इहा नोभ्युं छे. अमारा धारवा मुजव सं. ११६० मा ऋषभदेवचरित्रना करनार वर्धमानसूरिज जो आ चरित्रना करनार होय तो वृहत्तिप्पनिकामा नोंधेली सवत् वरानर होवो जोश्ये. छता चौकस निर्णय भावनगरना भंडारमानी प्रतना प्रान्तनो प्रशस्ति लेख तपासवाथीज यह शके.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
१४	(१) अनन्तनाथचरित्र A (प्रा)	गा १२०००	नेमिचन्द्र	१२१६	वृ
	(२) " * (स.)				वृ
१५	(१) धर्मनाथचरित्र * (प्रा)				वृ
	(२) " B (स)		धर्मचन्द्र C		वृ
१६	(१) शातिनाथचरित्र (प्रा)	१२१००	हेमसरिगुप्त देवचन्द्र	११६०	वृ पा २४५
	(२) " (प्रा)	५५७४	माणिक्यचन्द्र		वृ पा २-४
	(३) " (प्रा)	४८५५	मुनिदेव	१३२२	वृ पा १-४ लीं छु
	(४) " (स)	४९२८	पी० अजितप्रभ	१३१७	वृ पा ३-४-५ लीं
	(५) " (स)	६२७२	मुनिभद्र	१४१०	वृ पा ४ ख भाव
	(६) " (स)	पत्र १६३	देवानन्द शिष्य कन्नरप्रभ		पा २
	(७) " (गद्य)	६५००	माणिक्यचन्द्र		अ २-जेसल
	(८) " (गद्य)	२७००	आच उदयसागर		पत्रवात

A एना माटे वृहत्कल्पिनिकामा " जनन्तच प्राकृतगामायद्र १२१६ वरें श्रीनेमिचन्द्रखीय गा १२००० " आवो नांघ छे, पण ते अमोने हजी सुधी उपलब्ध ययु नधी

* आ निशाणीजो माटे तीर्थकर चरित्रोनी शकभातमा अजितनाथ चरित्र उपर आपली नोट शुभो

B उदरदृ चरित्र पण तेना कताना नाम साथे पत्र वृहत्कल्पिनिकामा गोंधेल छे,

C आ धर्मचन्द्रगणिए जयतीचरित्रनी दीनाना प्रशस्ति लेखना मूळकार मानवुगयुरिने पानाना गुरु तर्पके जगाल्या छे, तन ए होवा जोइये छता तेन धर्मचन्द्रगणिए आ चरित्र रच्यु छे के कोइ बीजा आचार्ये रच्ये छ ते प्रायत चोइस माहिती ते मुनिमहाशयना जाणवामा होय तेमणे ते अमोने खी जगाववा प्रजा करी एवी. अमारी तेमने नम्र सूचना छे.

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૧૭	(૧) કુથુનાથચરિત્ર * (પ્રા.)				વૃ.
	(૨) „ (સં.)	૫૫૫૫	વિવુધપ્રમ A		વૃ. સંવાત.
૧૮	(૧) અરનાથચરિત્ર + (પ્રા.)				વૃ.
	(૨) „ * (સં.)				વૃ.
૧૯	(૧) મહિનાથચરિત્ર પ્રા. B	૫૫૫૫	જિનેશ્વર	૧૧૭૫	વૃ.
	(૨) „ (પ્રા.) C	૯૦૦૦	હરિભદ્ર		વૃ.
	(૩) „ D (પ્રા.)	૫૦૦	મુવનતુંગ		જેસલ.
	(૪) „ (સં.)	૪૨૫૦	વિનયચંદ્ર		વૃ. પા. ૫ સંવાત.
૨૦	(૧) મુનિસુવ્રતસ્વામી ચરિત્ર (પ્રા.)	ગા. ૧૮૯૯૪	શ્રીચંદ્ર	૧૧૯૩	વૃ પા. ૪-૫.
	(૨) „ E	૪૫૫૨	વિનયચંદ્ર		વૃ. અ. ૧
	(૩) „	૫૫૫૫	પદ્મપ્રભસૂરિ	૧૨૯૪	પા ૧-૫ જેસલ.

* આ નિશાણીઓ માટે તૈર્યકર ચરિત્રોની શરૂઆતમા અજિતનાથચરિત્ર ઉપરની નોટ જુઓ.

A આ નામ વૃહત્તિપ્પનિકામા નોંચ્યું છે. લૈવઢીની ટીપમા વિવુધપ્રમશિષ્ય પદ્મપ્રભસૂરિએ આ ચરિત્ર રચ્યું છે એમ જણાવ્યું છે, માટે લૈવઢીના મંડારમની પ્રત ફરીથી તપાસી જોવાથી ચોકસું ખુલાસો થઈ શકે.

B, C વૃહત્તિપ્પનિકામા આ વચ્ચે ચરિત્રો માટે જુદા જુદા નોંધો નીચે મુજબ છે:—

“ મહિચ. પ્રા. ૧૧૭૫ વર્ષે જૈનેશ્વરે ૫૫૫૫ ” મહિચ. “ વહુપ્રાકૃતં હરિભદ્રીયં કુમાર-પાલરાજ્યકૃતં ગાથાકાવ્યમય ૯૦૦૦ ” પળ દિલગિરીની વાત છે કે એમાંનું એક પળ ચરિત્ર ક્યા પળ જોવામા આવતું નથી.

D આ ચરિત્ર જેસલમેરની હીરાલાલે કરેલી ટીપમાં નોંધાયું છે, તેથી કર્તાના નામમાં શક્ય રહે છે. માટે તેની પ્રત ફરીથી તપાસી જોવાની જરૂર છે.

E એમા નવમવનો વૃતાત હોવા સાથે તે ઘણી કથાઓથી भरપૂર છે.

नाम	श्लोक.	कर्त्ता	रचना नो स	क्या छे ?
(४) „ A (स)	पत्र ६२	पौ मुनिरत्न		वृ अ १ नगीनदास
(१) नेमिनाथचरित्र * (प्रा)				वृ
(२) „ # (स)				वृ
(१) नेमिनाथचरित्र B (प्रा)	५१००	मल हेमचद्र		वृ जेसल-वे मगानदास
(२) „ C (प्रा)	१२६००	रत्नप्रम	१२३३	वृ पा २
(३) „ (प्रा)	८०३२	हरिमद्र	१२१६	वृ जेसल-वे
(४) „	३५००	तिलकाचाय		R 6
(५) „ (सं)	२१००	उदयप्रम		पा ४
(६) „ (स)	५२७५	शुणविजय	१६६८	पा २-३ जेसल.
(७) „ (स)	२६७	विक्रम		पा ३

A एना माटे बृहत्सिम्पिनिकामा “मुनिपुत्रतच स पौणमिकमुनिरत्नसरित्त २० स्थानककथा

कलित ५१८५ ” आवो नोंध छे

B, C आ बने चरित्रो माटे बृहत्सिम्पिनिकामो अनुक्रमे आवा नाथ छे —

“नेमिच प्रा भवभावनावृत्त्यन्तगतमन्तरगवत्स्थतामि. ५१०२ ” “नेमिचरित्र प्राकृत

नयपद्यमय १२३३ वर्षे देवसरिनिष्य रत्नप्रमीय १२६०० ” छता मल्घारी हेमचद्रसरित्त नेमिनाथचरित्र

ते भवभावनानां भाग तो नहीं होय माटे तेनी प्रत तपासी ओघानी जाबश्यकता छे.

नं.बर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- ना सं	क्यां छे!
२३	(१) पार्श्वनाथचरित्र (प्रा.)	९०००	देवभद्र A	११६५	वृ. पा .२ जेचल.

A देवभद्र नामना आठ आचार्य थया जाणवामा आव्या छे:—

(१) देवभद्रसूरि—मोजराजाना वखतमा थएल छे.

(२) देवभद्रसूरि—ते नवागी टीकाकार अभयदेवसूरिना शिष्य प्रसन्नचंद्रसूरिना शिष्य हता.

(३) देवभद्रसूरि—तेओ धनेश्वरसूरिना चार शिष्य वीरभद्र, देवसूरि, देवभद्र अने देवेंद्रसूरि एमाना जीजा.

(४) देवभद्रसूरि—ते चद्रगच्छना भद्रेश्वरसूरिना शिष्य अने प्रवचनसारोद्धारनी टीकाना करनार सिद्धसेनसूरिना गुरु हता. सिद्धसेनसूरिए ते टीका स. १२४२ मा रची छे.

(५) देवभद्रसूरि—ते रुद्रपल्लीयगच्छना अभयदेवसूरिना शिष्य हता, तेओ स. १२९२ मा थएल छे. पिटर्सने तेमणे तपा देवभद्रगणिना नामथी ओळखाव्या छे.

(६) देवभद्रसूरि—ते चैत्रगच्छमा थएल छे. तेमना गुरुनुं नाम भुवनेद्रसूरि हत, अने तेओ जगचद्रसूरिना गुरु यता हता.

(७) देवभद्रसूरि—ते पिप्पलियागच्छना विजयसिंहसूरिना शिष्य अने धर्मवोपसूरिना गुरु हता.

(८) देवभद्रसूरि—ते मलघारी श्रीचंद्रसूरिना शिष्य हता.

आ रीते उपर जणाव्या मुजव आठ देवभद्रसूरिमाना कया देवभद्रसूरिए आ चरित्र रच्यु छे ते वावत तपास करता एम मालम पडे छे के ते जीजा देवभद्रसूरि के जेओ प्रसन्नचंद्रना शिष्य हता, तेमणेज आ चरित्र रच्यु छे. बृहत्पिप्पलिकांमा आ देवभद्रसूरिने नवागीकार अभयदेवना प्रथम शिष्य तरीके जणाव्या छे. पण पिटर्सन रिपोर्ट जीजाना पेज ६६ मा आ चरित्रनी नोध लेता प्रशस्ति लेखना प्रति “ इतिश्री प्रसन्नचंद्रसूरिपादसेवक श्रीदेवभद्राचार्यविरचित पार्श्वचरित्र ” आवो उल्लेख छे. वळी एज प्रशस्ति लेखमा आ देवभद्रसूरि सुमतिवाचकने पोताना गुरु तरीके जणावे छे, पण अमारा धारवा मुजव सुमतिवाचक कातो देवभद्रसूरिना बृद्ध सहोदर होवा जोइये, अगर विद्यागुरु होय तो पण होय ते मुजव आ देवभद्रसूरि नवागीकार अभयदेवसूरिना शिष्य कोइ पण रीते सभवी शक्रे तेम नथी. ते उपरथी पिप्पलिकाकारे सखत भूल खाधी लागे छे.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
(२)	„ A (प्रा)	गा२५६४		B	पा २
(३)	„ (स)	६४००	भावदेव	१४१२	वृ सुलभ्य
(४)	„ (स)	५२७८	माणिन्यचन्द्र	१२७७	वृ नगीनदास
(५)	„ (स)	ताड३४५	सर्वानन्द		वृ पा २
(६)	„ (गद्यबद्ध)	५५००	उद्वचौर		पा. ३ अ १ रि ६
(७)	„ (स)	३९८५	वियनचन्द्र रविप्रभशिष्य		पा ४-५
(८)	„ (स)	३१०७	हेमविजय	१६३२	पा ४
(९)	„ (सं)	१०२४	पद्मसुन्दर	११३९	रि ६
२४ (१)	महावीरस्वामीचरित्र	१२०२५	शुणचन्द्रगणि		वृ पा १ ५
(२)	„ (प्रा)	१८१०	नेमिचन्द्र	११३९	वृ
(३)	„ (प्रा)	४१००			वृ पा ५
(४)	„ (प्रा)	३०००			जेसल नगीनदास
(५)	„ (जपसंश)		जिनेश्वरसूरिशिष्य		नगीनदास
(६)	„		असग (दिगवर)		पिटर्सन रि ४

A एना माटे वृहत्पिप्पिकामा “पार्श्वचरित्र प्रा दशभाववाच्य गा २५६४” भावो नोंच छे

B आ सयत् फाइक भूल भरेलो लागे छे आ चरित्रना कत्ता भावदेवसूरि कालिमाचायना सतानमा थप्ला छे वृहत्पिप्पिकामा तेनो रच्यो नो स १२१४ जणाथ्यो छे, त्यारे बाजी टोपोमा १४१२ नो भाऊ नोंथ्यो छे तो आ भिन्नभिन्न समयमाथी चाकउ सबद्र क्यो छे ते शान्त कोइ तेवो विशेष पुरावो मळ्या वगर निणाय भयो मुदकेर छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે?
	શેષ ચરિત્રો. †				
૧	અમમસ્વામીચરિત્ર A	૧૨૦૦૦	મુનિરત્ન B	૧૨૫૨	વૃ. નગીનદાસ.
૨	ચતુર્વિંશતિજિનચરિત્ર *	૭૦૦	(સુ.)		જેસલ.

† ચોવીસ તીર્થંકરોના ચરિત્ર ગ્રંથો ગત પેજમા સમાત થયા છે. વાકી ગ્દેલા આ બે ચરિત્ર ગ્રંથોને તે સાસ તીર્થંકરોનાંજ ચરિત્રો હોવાથી આ વર્ગમા દાખલ કર્યા છે.

A આ ચરિત્ર તે આવતી ચોવીસીમાં થનાર તીર્થંકર શ્રી અમમત્વામીનુ ચરિત્ર છે.

B આ મુનિરત્નસૂરિને માટે ગત વૃષ્ટ ૨૨૧ માં અવઢચરિત્ર ઉપર તેમના નામ નીચેની નોટ જુઓ.

* ત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત્ર પદેલાં સામાન્ય ચરિત્રોમાં નોંધાયું છે તેથી અત્રે નોંધ્યું નથી.

कथाना अंथो

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता	रचया नो स	पया छे ?
	वर्ग ६ द्वो *				
१	अघटकथा	८३१			पा ४ डेकन
२	अच्चकारिभट्टिकाकथा				पा ३
३	अन्तरङ्गकथा (प्रा)				हॉवडी
४	अजनासुदरीकथा A(प्रा)	५००			जेसल
५	अनगसिंहकथा	पत्र १२			पा ३
६	अनतकीतिकथा (प्रा)	पत्र १३			अ. १-२
७	अनुसराजकथा	पत्र ४			अ. २
८	अभयसिंहकथा	१३८			खवान
९	अवतीसुक्मालसधि				पा २
१०	अष्टप्रकारपूजाकथा	१०६०			दृ पा ३-४

* आ वर्गमा पूर्वाचार्येण ससृत्त तथा प्राकृत भाषामा रचयेती तमाम कथाजोने एकरु करी अनुक्रमवार नोंधवामा आनी छे आगळ हॉस बाजामा तिथिना नामथी जोळलाता कथाओ नोंधवामा आनरो अने हॉस श्रीनामा समूह कथाओ नोंधवामा आवनार छे

A आ कथा जेसलमेरनी हीरागळे करेली टीपमा नोंघाह छे, अने ते स १४७७ मा जिनूचर वृत्तिनी शिष्यणी समूहमे महत्तरण जेसलमेरमा रची छे एम तेमा जणायु छे पण कत्ताना नाम तानत गक राखरो पडे छे आ तानतने जोकन निर्णय जेसलमेरनी तेनी प्रत नजरे जोया बगर थवो मुक्केल छे छता मुख मुक्तिवग महान्द्योने जमारी नम प्राथना ए छे के जेओ पावे जा कथा मोचद होय तेओधीए आ सधभी चौकस माहिती अगोने लयी जणानवा कृपा करवी

नं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रचया नो स	क्यां छे ?
११	आरामनन्दनकथा	५६१			पा. ६
१२	आरामशोभाकथा	२८१	मलयहंस A		पा. ४ ६ लीं.
१३	आरामसुतकथा (सं.)	६०३			लींबडी.
१४	आर्द्रकुमारकथा (प्रा.)	१६५			पा. ४
	” (गद्य)	पत्र ८			ख. १
१५	आर्यापादकथानक (श्लो- कवद्ध)	पत्र १९			ख १
१६	आवश्यककथा	१०००			पा ४
१७	इलाचीपुत्रकथा B				पा. २
१८	उत्तमकुमारकथा	२५०			लींबडी.
१९	उदयसुंदरीकथा		सोहलकवि C		पा. १
२०	उदायनराजकथा	पत्र १४			खवात.
२१	उपसर्गहरप्रभावकथा		जिनसूरि		पा. ३
२२	ऋषिदत्ताकथा	२८२७			पा ४
	” बीजी (सं.)	४५७			पा. ४ लीं. खं.
२३	कनकरथकथा	पत्र ५			खंवात.
२४	कंचनश्रेष्ठ्यादिकथा	पत्र ११			पा. २

A मलयहंसगणि विक्रमनी सोलमी सदीना आखरीमा हता एम साभळ्यु छे.

B आ इलाचीपुत्रकथा प्राकृतमां रचाएली पाटणना भडार नंबर बीजामां ताडपत्र उपर लखेली मौजूद छे.

C आ सोहलकवि अन्यघर्मि छे एम पाटणनी दीपमां जणाव्यु छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कथा	रचयिता	क्या छे ?
२५	कर्मसारकथा	पत्र १३			अ २
	” (बीजी)	१४५०			पा ४
२६	कलावतीकथा (श्लोकपद्य)	पत्र ११			अ १
२७	कालिकाचार्यकथा	पा ६८			छीपडी
	” (प्रा)				पा १ नगीनदास
	” घृत्ति	३७०			नगीनदास
	कालिकाचार्यकथा (प्रा)	११५	विनयचद्र		पा १ लीं
	” (प्रा)	३६०			पा २
	” (प्रा)	गा १००	भावदेश		पा ३-४, छीं सु
	” (प्रा)	गा ११९	जयानन्दसुरि		छींपडी
	” A (प्रा)				नगीनदास
	” (प्रा)	गा ५५	धम्मम		छींपडी
	” (प्रा)	गा १०७	देवकछोल B	१५६६	सयात
	” (प्रा)	गा १२०			सयात
	” (प्रा)	३६९			सयात
	” (स)		कीर्तिचद्र		पा १ छे

A आ कथा पिटछीने खंजातना ठेठ नगीनदासना भगवानी नोंध देतां पोताना बीका रिपोटना
वेज १७ मा नोंधी छ एना मगलचरणमा “ हयपटिणाऊ कहतिथउतई जयउं काण्णायरियम् ।
निजाणद रिणीय देविंशोषमभित्तिधरो ॥” आनी गाथा छ

B आ देवकछोलसुरि उपकेस गच्छना हता

ક્રમ.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
	„ (પ્રા.)	ગા. ૫૨	મહેશ્વર A		નગનિદાસ.
	„ (સં.)		સમયસુંદર		પા. ૩
૨૮	કુંતલદેવીકથા (શ્લોકવચ્ચ)	પત્ર ૮			અ. ૧
૨૯	કુરુચંદ્રકથા (સં.)	પત્ર ૩			પા. ૩
૩૦	કૂર્માપુત્રચરિત્ર	પત્ર ૪૩	વિદ્યારત્ન		ભાવનગર
	કૂર્માપુત્રકથા (પ્રા.)	ગા ૧૯૨	જિનમાણિક્ય		પા. ૨-૩-૪
	„ (પ્રા.)	ગા ૧૯૯	અનંતહંસ		પા. ૩ સં.
૩૧	કુલધ્વજકથા				પા. ૩.
૩૨	કુવલયમાલાકથા B	૧૩૦૦૦	ઉદ્યોતનસૂરિ	૮૩૫	તૃ ડે કાંતિવિજયજી.
	„ C (સ)	૩૮૯૪	રત્નપ્રભ (પરમા- નંદ શિષ્ય)	૧૪૮૭	તૃ સં.
	કુવલયમાલા D	પત્ર ૭૯			અ. ૧

A આ મહેશ્વરસૂરિ તે કોના શિષ્ય હતા તે વાત કંઈ ચોકસ પુરાવો મળી શકતો નથી પણ તે પ્રાચીન વસ્તુમાં થઈ શકે. તેમના માટે પિટર્મનના વીજા રિપોર્ટના પેજ ૨૯ માં સદરહ કથાની નોંધ લેતા પ્રાન્તે “ ઇતિ શ્રીપદ્મીલગ્ને મહેશ્વરસૂરિભિર્વિરચિતે કાલિકાચાર્યકથા સમાતા આવો ” ઉલ્લેખ છે. સવત્મા ૧૩૬૫ નો અંક નોંધ્યો છે પણ અમારા ધારવા મુજબ તે પ્રત લખ્યાનો હોવો જોઈએ આ વાત સમમજરીમાં પણ વિશેષ ખુલાસો જોવામાં આવતો નથી. તો આ સ્વધી તેવો કોઈ ચોકસ પુરાવો મળ્યા વગર નિર્ણય થવો મુશ્કેલ છે.

B, C આ વચ્ચે કથાઓ પૂર્વે ચરિત્રના વર્ગમાં વિશેષ દર્શાવવા સાથે નોંધી છે. તે કથાના નામથી પણ ઓળખાતી હોવાથી આ પણ નોંધી છે.

D રત્નપ્રભસૂરિકૃત કુવલયમાલા કથા અને આ એકજ હશે એમ અનુમાન થાય છે, છતાં ચોકસ નિર્ણય માટે અમદાવાદમાંની તેની પ્રત જોવાની જરૂર છે.

क्र.सं.	नाम	रुकाव	पत्ता	रक्या ता सं.	क्या छे ?
	बुधलयमाला A		शुद्धरि		पिटसन रि ५
३०	कुमुदसारकथा B	१७००	नेमिचंद्र	१०९९	शु
३४	वृत्तकमकथा	४०७			पा ४
३५	यापरियाकथा	पत्र ४			पा ३
३६	गगनभूलिपाकथा	पत्र ५			अ १
३७	गडुपायकथा	पत्र १८			डेफान
३८	गाधारकथा	पत्र २२			अ २
३९	गुर्नरद्राक्षणकथा	पत्र ५			अ १
४०	चतुर्विधधमविपरयेकथा	पत्र ३०			पा ४
४१	चन्द्रोदयकथा	पत्र ५			पा २
४२	चंद्रलेपाकथा				पा २-३
	"	मा २८६			लीषडी
४३	चपकधेष्टिकथा	३५०			पा ३-४
	" (वीची)		जयसोम		अ २
	" (प्रीजी)		विमलगणि		अ २

A आ कथाने पिटसन रिपोर्ट पाचमाना पेज ७३ मा शातिनाथ चरित्रनी नोंप लेता प्राप्त जाल्ल्या महाकुवलयमालाच्या नावाची ओळखावान ते पदेन हरिभद्रसरि पढी थपण इद्रसुरीए रचा छे एम तेमा जणांभ्यु छे पण त हाल क्या पण उपलब्ध थती नथी आवा प्राचीन ग्रंथो तना गाधरोल ना अमावे नष्ट थाय ते अत्यन्त एदजनक छे आवा प्राचीन ग्रंथो क्या हीय त्याची पत्तो मेळवी तेनो पुनरुद्धार करतो शावर मुक्ताने घट छे इत्याप आणदसारगीए जणांभ्यु छे के एनी प्रत पाळ्खिणाणा गट आगालना भवारमा मोजुद छे

B आ क्या पत्त वृहत्कथेपिकांमा नाभाई छे, तेना माटे त्या " कुमुदसारकथा नेमिचंद्र-चार्य १०९९ वर्णे कृता मा १७०० " आनी नोंप छे

નંબર	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં	ક્યાં છે?
૪૪	ચંપકમાલાકથા	૧૦૦	ભાવાવિજય		રિપોર્ટ ૬.
૪૫	ચંપકમાલાદિકથાપટ્ટક	પત્ર ૧૮			પા. ૩
૪૬	ચામરહારીકથા	પત્ર ૫			અ. ૧
૪૭	ચામરસેનવરસેનકથા				પા. ૪
૪૮	જંવૂસ્વામીકથા A (પ્રા.)				જેસલ.
૪૯	જયવિજયકથા	૫૦૦			ડેક્કન.
૫૦	જયસુંદરીકથા B (પ્રા)				વૃ.
૫૧	જિનદત્તકથા C	૧૨૦૦			વૃ જેસલ.
	જિનદત્તાચ્યાન D (પ્રા.)				પિટર્સન રિ. ૫.
	જિનદત્તકથાસમુચ્ચય	પત્ર ૧૦૩	મદ્રાચાર્ય E		ડે. પેજ ૧૧૫

A એમા જવૂસ્વામીના પાંચ ભવનો વૃતાન્ત છે.

B આ કથા વૃદ્ધત્પિપ્પનિકારે નોંધી છે, પણ તેને ડયલબ્ધ થઈ નથી.

C જેસલમેરની હસવિજયજી મહારાજની ટીપમા એના કર્તા સુમતિસૂરિ જણાવ્યા છે.

D પિટર્સને આ ગ્રંથની નોંધ લેતા પોતાના રિપોર્ટ પાંચમાના પેજ ૬૩ મા પ્રાન્ત લેખનો ' તડ-ક્રાકુળ મહાતવ આરાહિકુળ મરણયાલ ગઓ સુરલોચ તડ પારપરેણ નિવ્વાણં તિ જિણયત્તો ' આવી રીતે નોંધ કરીને સદરહૂ કથાની પ્રત ચિત્રકૂટમા સ. ૧૧૮૬ મા લલાલેલી છે એમ તેમા જણાવ્યું છે.

E મદ્રાચાર્ય નામના વે આચાર્ય થયેલા જાણવામા આવ્યા છે:—

(૧) મદ્રેશ્વરસૂરિ—તે મુનિચદ્રસૂરિના શિષ્ય દેવસૂરિના પાટે થયેલા અને જયસિંહદેવ રાજાના વચ્ચતમા થયેલા છે.

(૨) મદ્રેશ્વરસૂરિ—તે ચદ્રગચ્છના ઘનેશ્વરસૂરિના ચ્યાર શિષ્યમાના ચોથા દેવેન્દ્રસૂરિના શિષ્ય અને આસહ કવિના ગુરુ અમયદેવસૂરિના ગુરુ હતા. એટલે તેઓ વિક્રમની તેરમી સદીના શરૂઆતમા વિદ્યમાન હતા તે ઉપરથી આ વચ્ચે આચાર્યો સમકાલિન થયેલા છે એમ ચોક્કસ પુરાવાથી સિદ્ધ થાય છે. હવે આ વે આચાર્યમાથી કયા આચાર્ય આ ગ્રંથ રચ્યો છે તે વાત તપાસ કરતા તેઓ કોઈ પુરાવો મળી શકતો નથી, અમારા ધારવા મુજબ તે દેવેન્દ્રસૂરિના શિષ્ય વીજા મદ્રેશ્વરસૂરિએ રચ્યો હોવો જોઈયે. છતા ચોક્કસ નિર્ણય માટે ડેક્કન કૉલેજમાની પ્રતનો પ્રશસ્તિ લેણ જોવાની જરૂર રહે છે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यता स	क्या छे ?
५२	धावद्यापुत्रकथा (श्लोक- यस्तु)	पत्र ११			अ १
५३	दानादिकथा	११५	शुभशील		A S
	दानचतुष्टयकथा		विजयचन्द्र		हेकन
५४	दृढप्रहारिकथा				पा २
५५	देवकुमारकथा	पत्र ६			अ १
	” (बीजी)	५२७			पा. ४-५
५६	द्वादशभावनाकथा	७२०			पा ४
५७	द्वादशमत्तकथा	२१९९			पा २-३-४-५
	” (बीजी)	ता४२०	चारित्रकीर्ति A		पा ३-४
	धनदत्तकथा	ता १५४	अमरचन्द्र		पा २
५८	धनपतिकथा	पत्र ५			पा ३-४-५
५९	धन्नाकथा	४३०	दयावन्दन	(४६३)	पा ४ रा
६०	धन्नाकाकदीकथा	पत्र ४			अ १
६१	धमदत्तकथा (श्लोकयस्तु)	पत्र २४			अ १
६२	” (गण)	पत्र १०			अ १
	” (स)	पत्र १७	माणिक्यसुन्दर.		हेकन.
	”	३३०			पा ३-४ रि ६
६३	धर्मपरीक्षाकथा	९००	(दिग) रामचन्द्र		A S

A आ चारित्रकीर्तिरुचि क्यारे यथा छे ते जाणवामा आयु गयी

नं०.	नाम.	श्लोक	कर्ता.	रघ्या- नो सं.	क्यां छे?
६४	धर्ममाहात्म्यकथा	१५८			पा. ४
६५	धम्मिलकथा	२०५			पा ३-४
६६	धव्यसुंदरीकथा A (प्रा)	पत्र ११५			पा. २
६७	धूर्तचरित्रकथा B	पत्र १९			अ. २.
६८	नंदयतिकथा	६००			रि. ६
६९	नंदोपाख्यान	२५०			A.S.
७०	नमस्कारदृष्टांत	३२९			पा. ४
७१	नर्मदासुंदरीकथा C	१७००			वृ.
	” (वीजी)	गा २४९			लीवडी.
	”(श्लोकवद्ध) (वीजी)	पत्र ८			अ. १
७२	नरदेवकथा (प्रा)	४३०			पा. ४ नगीनदास
७३	नरवर्मकथा	८००	विनयप्रभ	१२१२	पा १-४
७४	नलकथा				पा. २
७५	नागधीकथा	पत्र १८	ब्रह्मनेमिदत्त D		अ. २
७६	नाभाककथा	४२१			पा. ४ भाव.

A एतु खरं नाम धन्यसुंदरीकथा एवु हरो ए वाचत तगास करी नकी करु जोश्वे.

B आ धूर्तचरित्र कथा ते वखने हरिभद्रसूरि रचित धूर्ताख्यान होय तो होय तेनी खरी खानी अमदावादना चचलवाईना भवारनी ते प्रत जोयार्थी थइ शके तेम छे.

C सदरहू कथा फकत बृहत्कल्पिनिकामा नोंवाई छे. वाकी कथा पण उपलब्ध थई नथी.

D वा दिगम्बर आचार्य मल्लिभूपणनूरिना शिष्य हवा. एमणे धन्यकुमारचरित्र तथा सुदर्शना चरित्र रच्यु छे.

नं०	नाम.	श्लोक.	कता	रचया नो स.	क्या छे?
७७	पद्मलोचनाकथा	पत्र ४			अ १
७८	पद्मश्रीकथा (मा)	३१८			पा ४
७९	पचार्यान A	४६००			वृ
	„ सापेक्षार	३७००	धारणामूरि		पा ४ भाष
८०	पुण्यघनकथा (स) (श्लोकवद्ध)	६०१			ख
८१	पुण्यपापकथा	पत्र ६			अ १
८२	पुण्यसारकथा	१३११	शुभशील		पा ४-६ पि रि ४
	„	५४८			पा ४
	„	३५०	विवेकसमुद्र B		ख
८३	पुत्रदकथा	पत्र २			पा ३
८४	पुण्यवतीकथा	ताड ५५			पा २
८५	पृजाष्टककथा (मा)	१०८६			वृ पा ३-४
	„ C (स)				वृ
८६	पृथ्वीचन्द्रकथा (मा.)	१३२			पा. ४
	„ (सं)	१७९			पा ४
८७	प्रत्येकयुद्धचतुष्टयकथा	पत्र २१५	तिलकाचाय		डेकन
८८	प्रत्येकयुद्धकथा (मा)	११३८			पा ६ जेसल

A एना माटे वृहत्कल्पिनिकामा " पचार्यानक पृणभद्राचार्य १२५५ वर्षे शोधित ४६०० " आनो नोंध छे

B आ विवेकसमुद्रगणि तपरागच्छीन सोमसुदरमूरिः। सिप्य हता तेओ विक्रमनी सोळमी छदीनी शरुआतमा विद्यमान हता

C आ कथा वृहत्कल्पिनिकामा नोंधी छे पण टिप्पनिकाराने पण ते उपलब्ध यह नथी

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यो- नो सं.	क्यां छे ?
	प्रत्येकबुद्धकथा	६००			खं.
	"	३५०			A. S.
८९	प्रभावर्ताकथा	१९९			पा ४
९०	प्रियंकरकथा	१४००			पा ४-६
९१	वलभद्रकथा	पत्र २६			अ. १
९२	वलिनरेद्रकथा				पा. ३
९३	ब्रह्मदत्ताकथा (प्रा.)	पत्र १३			अ. १
९४	ब्रह्मदत्तादिकथा	१७१६			पा. ४
९५	भद्रबाहुकथा	११२			पा. ४
९६	भरतकद्वात्रिंशिकाकथा	४२५			पा. ३
९७	भरतनटादिकथाओं				पा. ३
९८	भरतेश्वरबाहुवलिवृत्ति	१०२८२	शुभशील	१५९	पा. ४
९९	भविष्यदत्ताख्यान A	२०००	महेंद्रसूरि		जेसल.लीं.नगीनदास
१००	मत्स्योदरकथा	पत्र ५			पा. ३
१०१	मदनावलिकथा	पत्र ११			अ. २
१०२	मदनरेखाकथा (गद्य)	पत्र २६			पा. ३, अ. १
१०३	मंगलकलशकथा				पा. ३.

A आ कथा पंचमीमाहात्म्य उपर रचेली छे ते पूर्वे चरित्रना वर्गमा नोघाई छे, छता कयाना नामथी विशेष ओलखाती होवाथी इहांपण नोधी छे. जेसलभेरनी हीराखले करेली पोतानी टीपमा तथा लींनडीनी टीपमा एना कर्ता महेश्वरसूरि लख्या छे. खवातना शेट नगीनदासना भंडारमा महेंद्रसूरिनुं नाम आपीने सदरहू प्रत लख्यानो सवत् १२१४ नोधेली छे. हालमा प. श्री आणंदसागरजी जणावे छे के आ शिवाय वीजी एक घनपालकृत पण छे पण ते अमोने उपलब्ध थई नथी.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
१०४	मग्वाचार्यकथा	पत्र १०			अ २
१०५	मन्निदासीकथा (श्लोकबद्ध)	पत्र ७			पा ३, अ १
१०६	मनोवेगकथा (गद्य)	पत्र १०			अ १
१०७	मलयधर्माकृष्णकथा A	पत्र १२	(श्लोकबद्ध)		अ १
१०८	मलयसुदरीकथा	८१२	माणिक्यसुदर		पा ४, A S
	„ (धीजी) (गद्य)	१२००			खवात
	„ (त्रीजी)		धर्मचंद्र B		अ. २
१०९	महाशालकथा	पत्र ८			अ २
११०	महीपालकथा	२२०	वीरदेवगणि		A S 5
१११	मित्रचतुष्ककथा	१४६०	मुनिसुदर	१४८४	पा. ४-५
११२	मुंजकथा				पा ३
११३	मूलदेवकथा (श्लोकबद्ध)	पत्र ७			अ १
११४	मूलदेवादिक्था (प्रा स)	२८००			A S
११५	मृगाककुमारकथा	पत्र ५			अ २
११६	मृगाकादिकथासप्तक				पा ३

A आ कथा अयमतिष्ठत ह्ये तेम लागे छे छता तेनो चोक्ख निर्णय ग्रय जोपायी थइ मर
त्यावधी अम तेने इहा नोंधी उ

B धर्मचंद्रगणि ते धर्मदेवगणिना शिष्य अने धर्मरत्नसूरिना युव हता, तेजो विप्लवगच्छीय
गातिसूरिना वसमा थएला छे

नं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता.	रचया नो स	क्यां छे ?
११७	मृगसुंदरीकथा				पा. २
	"	पत्र ५			अ. १
११८	मेघनादकथा (गद्य)	७६०	सोममंडन		पा ४, अ. १-२
११९	मोदकादिकथा	पत्र ६			पा. ३
१२०	यवराजर्षिकथा	पत्र ३			पा ३, अ. १
१२१	यशोभद्रसूरिकृतचरित्रादि कथा A	१७००			A S,
१२२	रणशूरकथा B				पा. २
१२३	रतिसुंदरीकथा				नगीनदास.
१२४	रत्नचूडकथा	३५००	नेमिचंद्र C		वृ.पा.३-४नगीनदा
	,, D (वीजी)	३०००	जिनवल्लभ		जेसल.
	,, (त्रीजा)	५००	ज्ञानसागर		रिपोर्ट ६,
१२५	रत्नपालकथा	पत्र १९			अ. २.
१२६	रत्नशेखरकथा (प्रा.)	८००	जिनहर्ष		पा. १-३, खंवात.
	,, (गद्यपद्य)	४३०	दयावर्द्धन	१४६३	लीवडी, खंवात.
१२७	राजसिंहरत्नवतीकथा(गद्य)	पत्र १७			पा ४, अ. १
१२८	राजहंसकथा	३७७			पा. ४

A एमा कोनी कोनी कथाओ छे ते जाणवा माटे डेक्कन कॉलेजभांनी प्रत तपासवी जोईये.

B आ नानकडी कथा छे.

C वृहत्कृष्णिकामा कर्तारु नाम " नेमप्रभाचार्य " एवु नोवेल छे.

D आ वीजी रत्नचूडकथा जेसलमेरेनी टीपमा हीरालाले नोधेल होवायी तेना माटे शक राखवो पड़े छे.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યા નો સ	ક્યા છે ?
૧૨૯	રોહકકથા	૧૫૦			પા ૪
૧૩૦	રોહગુપ્તકથા				પા ૪
૧૩૧	રોહિણીકથા	૨૦૦	વનકકુશલ		પા ૪ હે
૧૩૨	રોહિણેયકથા	૫૫૦	દેવમૂર્તિ A		રિ ૬
૧૩૩	હલિતાગકથા	પત્ર ૧૩			બ ૨
૧૩૪	હીલાવતકથા	૧૩૩૧			પા ૨
	„ B	ગા ૧૪૩૮			વૃ
૧૩૫	લોકાપવાદકથા(શ્લોકવદ્ધ)	પત્ર ૯			બ ૧
૧૩૬	વજ્રસ્વામીકથા	પત્ર ૭	(શ્લોકવદ્ધ)		બ ૧
૧૩૭	વજ્રાયુધકથા (સ)	પત્ર ૧૯			હેહન
૧૩૮	વત્સરાજકથા (પ્રા)	૪૨૫			પા ૪
	„ (સ)	૪૦૦	સવસુદર		પા ૬, બ ૨
૧૩૯	વકચૂલકથા				પા ૨
૧૪૦	વરસેનકથા	પત્ર ૧૬	(શ્લોકવદ્ધ)		બ ૧
૧૪૧	વસુરાજાદિપ્રકીર્ણકથા		(ધુટક)		પા ૨
૧૪૨	વસુભૂતિકથા	૩૦૦			પા ૪
૧૪૩	વિઝનચરિત્ર		શુદ્ધ		પિટસન રિ ૫

A આ દેવમૂર્તિશ્રી તે વિઝન સ ૧૪૯૬ મા વિઝનચરિત્રના કરનાર છે તેજ છે

B આ કથા ટુલસીદાસના નામે છે તેના માટે ત્યા “ લીલાવતીકથા મૂળ્યમદ્દમુલત્વતાય

રચિત્રેચ પરમચયગતા ગા ૧૪૩૯ ” આવો નોંધ છે

नं.र.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
१४४	विक्रमनृपकथा	ता. २३४			पा. २
	"	२२५	(श्लोकवद्ध)		खंवात.
१४५	विक्रमपंचदंडप्रबंध	४००	पूर्णचंद्र		पा. ४
१४६	विजयचंद्रकेवलिकथा (प्रा)	गाथा. ३९१०	चंद्रप्रभमहत्तर A	११२७	पा. ३-४ लीं.
१४७	विद्यासागरश्रेष्ठिकथा	२५०	गुणाकर B		डेकन.
१४८	विश्वसेनकुमारकथा (प्रा.)	३५३३			पा. २
१४९	वीरभद्रकथा (श्लोकवद्ध)	पत्र ५			अ. १
१५०	वीरसेनकथा	२४३			पा. ४-६
१५१	वीरांगदकथा	पत्र ८	हरिभद्र C		अ. २
१५२	वैश्रवणकथा	पत्र २			पा. ४
१५३	शत्रुंजयकल्पकथा	११८७५	शुभशील	१५१८	पा. ४
१५४	शंखकलावतीकथा (प्रा.)	३७२			पा. ४
१५५	शांतिमतीकथा	पत्र ४			अ. १
१५६	शामदेववामदेवकथा	पत्र ७			अ. १

A आ चंद्रप्रभसूरि ते धर्मघोषसूरिना गुरु हता. धर्मघोषसूरिना शिष्य चक्रेश्वरसूरि तच्छिष्य शिवप्रभसूरि अने तेमना शिष्य श्रीतिलकसूरि थया, के जेमणे दशवैकालिक टीका विगेरे ग्रंथो रच्यो छे. आ चंद्रप्रभसूरिने तेमनी विद्वत्ताना वळथी वे ञण युगप्रधान, महत्तर वादीमसिंह, एवी महान् अटकोथी ओळखवामा आवता हता.

B गुणाकरसूरि वे थया छे. एक गुणाकरसूरि आम्रदेवसूरिना संवाते जयसिंह राजाना वखतमा थएला छे. एमणे सप्तश्रेत्री नामक प्रकरण स. ११७८ मा रच्युं छे. (जुओ आ पुस्तकनो पेज २३५) बीजा गुणाकरसूरिए नागार्जुनसूरिकृत योगरत्नमालानी वृत्ति स. १२९६ मा रची छे. आ रीते आ वै भाचार्यमाथी आ कथाना करनार कोण छे ते वावतनो निर्णय ग्रथ जोये थईं शके.

C आ हरिभद्रसूरि याकिनीसूनु छे के अन्य छे ते ज्ञाणवा माटे तेनी प्रत नजरे जोवी जोइये.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रुच्य ना स	क्या छे ?
१५७	शीलकथा	पत्र २५			गयात,
१५८	शीलवर्तिकथा (प्रा)	८३५			पा ४
	" (स)	९८८	शुभशील		पा ४
१५९	शुक्रराजकथा		माणिक्यसुन्दर		पा ३
	" (गद्य)	५००			पा ४ अ २
१६०	शुक्रसवादकथा (श्लोकबद्ध)	पत्र ६			अ १
१६१	श्रीपालकथा	५७५	लघिसागर	१५५७	नगीनदास,
	" उद्धार (प्रा)	पत्र १५			पा ३
१६२	श्रीमतीकथा	पत्र ५			अ. १
१६३	श्रेणिककथा	१३५०			गयात
१६४	श्रीपिण्डुमारादिकथा	पत्र ४			पा ३
१६५	सद्यपयत्सकथा	९००	हर्षवन्दन		पा ४
१६६	संकाशकथा (श्लोकबद्ध)	१७१			गयात,
१६७	संगमविमकथा				अ. २
१६८	सर्वांगसुदरीकथा (प्रा) A	२६७५			वृ
१६९	सपनकथा	पत्र ११३	विजयचन्द्रसूत्रि		पा २
१७०	सहस्रमहाचौत्कथा (प्रा)	पत्र १४			अ १

A इतिहासीकरे एता वरणी का, पिटेर हरीछउ तीर्था तयो अने ते अन्वरे वना पा

क्र. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रचयानो सं.	पर्यां छे?
१७१	सांवप्रद्युम्नप्रबंध A	पत्र २९	सुंदरसूरि		डेकन.
१७२	सांवप्रद्युम्नादिकथा B				पा. ३
१७३	सिद्धदत्तकथा ,, (सं. गद्य)	पत्र ३	मुनिसुंदरशिष्य		अ. २ खंवात.
१७४	सिद्धसेनदिवाकरकथा(प्रा.)	पत्र २९			पा. २
१७५	सिंहासनद्वात्रिंशिकाकथा	६२६६	देवमूर्ति	१४९६	पा १-४ जेसल.
१७६	सिंहासनद्वात्रिंशिकाकथा	११००	क्षेमकर C		पा. १-३ डेकन.
१७७	सुकोशलाख्यान	गा. १०४			ली. नगीनदास.
१७८	सुगुणकुमारकथानक	१५०			डेकन.
१७९	सुंदरनृपकथा (श्लोकवद्ध)	१६८			खं.
१८०	सुंदरराजकथा	पत्र १३			अ. २
१८१	सुरप्रियकथा	पत्र ५			अ. १
१८२	सुरसुंदरनृपकथा (प्रा)	पत्र २६			अ. १
१८३	सुरसुंदरीकथा D (प्रा.)	४६००	धनेश्वर	११९५	वृ. पा ५
१८४	सुव्रतकथा (प्रा.)	२२२			ख.

A, B आ वने ग्रथो एकज छे के जूदा जूदा आचार्योए रचेल छे तेनी चोकर माहिती मेळववा माटे तेनी प्रतो तपासवी जोईये.

C आ क्षेमकरगणि श्वेताम्बराचार्य हता. पट्टपुरुषचरित्र पण एमणेज रचेल छे.

D आ कथा माटे वृहत्तट्पिनिकामा नीचे मुजव नोव छे—

“सुरसुंदरीकथा १६ परिच्छेदा धनेश्वरमुनिकृता सं. १०९५ वर्षे गा. ४०००”

E वृहत्तट्पिनिकामा आ कथा रचयानो स. १०९५ नोध्यो छे पण पाटणनी टीपमा तेनी रचनानो चोकर स. ११९५ वताव्यो छे. ए वावत तपास करतां एम मालम पडे छे के वृहत्तट्पिनिकारे सवत्नो अक नो प्रता भूल खाधी होवी जोईये अगर लेखकनो दोष पण संभवी शके.

नं०	नाम	श्लोक.	कत्ता	रचया नो स	क्या छे ?
१८५	सुप्रतभ्रुविकथा (प्रा)	२५७			पा
	" (प्रा)	२०९			पा ४-६
१८६	सुसदकथा A (प्रा)	५१७	देवेंद्रसूरि		पा ३-४ ख
	" (प्रा)	पा ३५०			गं
१८७	सुसमाकथा (प्रा)	पत्र ११	देवेंद्रसूरि		डेकन पेज ४९
१८८	सोमधीकथा (प्रा)	पत्र ३३			ख १
१८९	सोमभीमादिकथा	पत्र ५			पा ३
१९०	सोमाग्यसुदरीकथा	६७४			वृ पा ४
१९१	आत्रपचाशिकाकथा	१३००	उदयसागर	१८०४	भाव
	"		शुमशील		नगीनदास
१९२	हसकथा	पत्र ४			पा ३
१९३	हरिबलकथा	१२५			पा ४
१९४	हरिवलादिकथा	९०			पा ४
१९५	हरिवाहनकथा B	३२०			डेकन
१९६	हरिपेणकथा	४३			ख
१९७	हरिभ्रंद्रकथानक (प्रा)	पत्र ७७			डे पेज ५१
१९८	हुताशिनीकथा		जिनसुदर		पा ३ डेकन.
	"		भावप्रभ	१७९२	पा ३

A सदरहू कथा देवेंद्रसूरि छे दप्रथमाथी उदरेली छे

B आ कथा स्वमति इत छे के अयमतिण करेली छे ते जाणवामा आयुं नथी

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रुचा नो स	क्यां छे ?
१०	कथाकोश	गा २२९	जिनेश्वर	११०८	वृ.
	„ वृत्ति (प्रा.)	६०००			वृ. पा. ४
	कथाकोश (बीजो)		शुभशील	१५०९	पि. रिपोर्ट ४
	कथानककोश (त्रीजो)	४१४०			पा. २
११	कथाग्रंथ A	ता. ३०६			पा. ५
१२	कथाप्रवध	पत्र ३०			पा. ४
१३	कथामहोदधि	१८००	सोमचंद्र	१५०४	पा. ३, डे.
१४	कथारत्नकोश B	११०००	देवमद्र	११५८	वृ. नर्गानदास.
१५	कथारत्नाकर	६२३५	हेमविजयगणि		अ. २, सुंवाई
	कथारत्नाकरोद्धार C	५५००	उत्तमर्षि D		डेकन.
१६	कथारत्नसागर E	ता. ३८४	मल. नरचंद्रसूरि		वृ. पा. २-५
	कथारत्नसागर	२०९१			खं.
१७	कथावली F	२३८००	भद्रेश्वरसूरि		वृ. पा. २

A सदरहू ग्रंथनी पाटणना भडार नवर पाचमामा अपूर्व तरिके नोंध करी छे. छता तेमा कई कई कथाओ छे ते नक्री करवा तेनी प्रत फरीथी तपासवी जोईये.

B वृहत्तट्पिनिकामां एना माटे “कथारत्नकोशः सम्यक्कादि ५० अधिकारः ११५८ वर्षे देवमद्र-सूरीयः १२३००” आवो नोंध छे.

C एनुं वीजु नाम “धर्मकथारत्नाकरोद्धार” एखुं पण छे.

D आ उत्तमर्षि क्यारे थया छे ते गवत काइ हकीरत मळी शकी नथी, पण तेमना नाम उपरथी तेओ, बहुज प्राचीन वखतमा थएला होवा जोइए एम अटकल करी सकाय छे.

E एमा पंदर कथाओ छे.

F एना माटे वृहत्तट्पिनिकामां नीचे मुजव नोंध छे:—

“कथावली प्रथमपरिच्छेदः प्रा. मु. २४ जिन १२ चक्रयादि हरिमद्रसूरिपर्यंत सत्पुष्यचरित्र वाच्योभद्रेश्वरः २३८००” पण ते असोने क्या पण उपलब्ध थई नथी.

क्र. सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
१८	कथासंग्रह	१६५३			पा ३
	„ (बीजो)	१४००			पा ४
	„ (त्रीजो)	१२५५			पा ४
	„ (चोपो)	३५००	मानदसुन्दर		पा ४
१९	कथासंचय	पत्र १८			अ. २
२०	कल्पमञ्जरीकथाकोश	२९०	भाग जयतिलक		पा ४
२१	गडयस्तकहा (प्रा)	१५			जेसल
२२	तरगलोला		नेमिचन्द्रशिष्य यदा सेन A		भाष अ २
२३	त्रिपष्टिमहापुरुषगुणालकार	७१००	पुष्पदत्त B		डेकन
२४	दृष्टांतरत्नाकर	पत्र २८			अ २
२५	द्वादशभाषनाविषयेकथा	८७५			ख
२६	धर्माख्यानकथोदा (प्रा)				घृ
	घृत्ति (प्रा)				घृ
२७	धर्मपर्येक्षाकथा	१५००	पद्मसागर		रि ६
२८	पाम्बचरित्रसंबद्धदशदृष्टांत कथा	९५७	रत्नप्रम		पा ६

A अन्ताराधना चरित्ररत्ना मठारनी धारना एना कथा नेमिचन्द्रद्वरे छे एम जाण्थु छे एन भवनगरीनी धीन उतरपी प्राये आ मंत्र दिगजर म" सेनद्वरेद्वर रत्ना होरो जोरये

B आ पुष्पदत्तकथन छे वेनिमृत्तना करनार धरमेनाकथना वागउनी मएण छे घटये तेओ विमान्नी बीजा छीना मपनना विदमन हउा डेवन कोलेवना एण्णमा एमनु नम पुष्पदत्त एउ जोरु छे एन वे भूमी नोएउ छे एम पुष्पा उतरपी सिद्ध मए छे

क्र.सं.	नाम.	पृ.सं.	कर्त्ता.	रच्य- ना सं.	क्यां छे†
	वर्ग १ लो. ----- माहात्म्यना ग्रंथो.*				
१	गिरनारकल्प	पत्र २			अ. १
२	दीपालिकाकल्प	३१८		१३२५	पा ४
	” (बीजो)	५१३	जिनमुद्र	१४२३	पा.१-३ प्रो. मणि
	” (बीजो) A	ताड	सर्वानंद		पि. रि. ५
	” प्रा. (त्रयो)		कनककुशल		ध १
	” प्रा (पांचमो)	४२५	जिनप्रम	१३८७	पा ४ भाव.
	” अचचूरि				भाव.
	दीपालिकाकल्प B (दृष्टो)	२७५	वितयचंद्र	१३८५	वृ पा. ३
३	रावणकृद्धिस्वरूप	१२३			पा ४
४	वैभारगिरिकल्प	पत्र ३			राधण.

* एमां तीर्थ, पर्व आदिना माहात्मना वर्णनना ग्रंथोने एरुत्त करी तेम्ने क्रमवार नोंघना छे उपरसत स्तोत्रना ग्रंथो पण महात्मने लगता होवायी तेमनो पा आज वर्गमा समावेश करवामा आच्यो छे.

† प्रोफेसर मणिलाल नभुमार्द पंतानुं लीट के जेमा सन १८८२ मा पाठ्यना चारमदारना पुस्तकानो हकीकत साथे नोंघ करी छे तेमा आ ग्रंथ रचयानो स. १४५३ जगावे छे.

A पिटर्सन रिपोर्ट पाचमाना पेज ५४ मा आ कल्पनी नोंघ करी छे. त्या एनी प्रान्त गायत उच्चयर्थ “ तत्प्रावर्ततपर्वसर्जगति भातृद्वितीयाभिवम् ” आधी रते आधीने छेवटमा इत्याचार्य श्रीसर्वानंदविश्वितो दीपोत्सवकल्पः समाप्तः एवी नोंघ करी छे.

B एने लघुदीपालिका कल्पना नामथी विशेष ओळखनामां आवे छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
५	शत्रुजयकल्प'	गा ४७	धमघोष		पा. ३ ४
	वृत्ति	१२५००	शुभशील	१५१८	पा ५
	शत्रुजयकल्प A		पालित्तयसूरि		वृ
६	शत्रुजयादित्रेसठतीर्थकल्प B	३५०३	जिनप्रभसूरि	१३८५	वृ
७	शत्रुजयमाहात्म्य C	१००२४	धनेश्वरसूरि		पा ३ ४ लीं
	" (गद्य)	पत्र २९८	हसरराज		भरूच
८	शत्रुजयपोडशोद्धारवर्णन	पत्र १६			भाव
९	समेताशिखरमाहात्म्य	२०००	दि दीक्षितदेवदत्त D		A S
१०	सिद्धचक्रस्तव	१२३७			पा ४
११	स्वामिवात्सल्यमाहात्म्य E	२ ००			जेसल

A छदरहू कल्यो भद्रनाहुस्वामीए रच्यो वज्रस्वामीए उभूत क्या अने पादलिख यरिए धरिअत क्या छे

B एना माटे शृष्टवृत्तिनिर्णामा नीचे मुचन नोंध छे —

" शत्रुजयादि ६३ वाकल्या छ मा १३८५ वर्षादी जिनप्रभसूरिद्वारा प्रसिद्ध तथियेतिराच्यो ३५०३ "

C एना छ गद्य छे 'स्विक्रान्ती वीरमा' वेता श्लोक वार हजार छे एम जगन्नाथु छे

D आ दिगजर दीजित देवदत्ताचार्य क्यारे भएला छे ते सबधी कर वधु हरीदत्त मंत्री नथी

E छदरहू प्रथम 'वैशम्पैयनी शिराना' करीय दीरमा नोंधेअ होवाधी वेता गये राव ररे छ

નં.	નામ	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે?
	વર્ગ ૨ જો. સ્તુતિ-સ્તોત્રો. —→←—				
૧	અજિતશાંતિસ્તવ વૃત્તિ વૃત્તિ A (વીજી) અવચૂરિ	ગા. ૩૮ ૭૪૦ ૩૨૦	નાંદિપેણ જિનપ્રભ	૧૩૬૫	વૃ. પા. ૧-૩ સુલભ્ય. વૃ. પા. ૧ સુલભ્ય. વૃ. પા. ૩ A. S.
	અજિતશાંતિસ્તવ (વીજો)		જયશેખર		A. S.
	અજિતશાંતિસ્તવ B (ત્રીજો)	૩૯	શાંતિચંદ્ર	૧૬૫૧	નર્ગનદાસ.
૨	અદ્યોત્તરીસ્તોત્ર	ગા. ૧૧૨	આંચ. મહેંદ્રપ્રભ		લીંબડી,
૩	અતિશય પંચાશિકાસ્તોત્ર				ભાવ.
૪	અનૈકૈઃ સ્તુતિ C		(અપૂર્ણ)		ખવાત.
૫	અયોગાન્યયોગવ્યવચ્છેદદ્વા- ત્રિશિકા D		હેમાચાર્ય		પા. ૪ કોડાય.

A આ વૃત્તિ વૃહટિપ્પનિકામાં નોંધી છે, પણ ત્યાં કર્તાનું નામ આપ્યું નથી.

B આ અજિતશાંતિસ્તવનું આદિપદ ' સકલાર્થસિદ્ધિસાધનહરિચ્વદનચારુચરણપરિચરણે ' એવું છે.

C આ સ્તુતિ ખવાતની ટીપમાથી મળી છે, તેની રચના ઉપરથી તે યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય રચી હોય તેમ વિશેષ સંભવ થઈ શકે તેમ છે.

D આ બે વત્રીશીઓ જૂદી જૂદી છે. તેમાં સ્યાદ્વાદમંજરીનું મૂલ અન્યયોગવ્યવચ્છેદિકા વત્રીશી છે, અને વીજી અયોગવ્યવચ્છેદ વત્રીશી છે.

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रच्यो नो.स.	क्या छे ?
६	अरनाथस्तव वृत्ति		षड्भगणि		डेकन. डेकन
७	अर्हत्स्तव (स गद्य)		सिद्धसेन		A. H
८	अर्हत्सहस्रनामसमुच्चय वृत्ति	पत्र ६ पत्र ५७			अ २ अ २
९	अर्हत्सहस्रनामस्तोत्र	पत्र ८	देवविजयगणि		अ २
१०	अष्टादशस्तोत्र अक्षचूरी	२२० पत्र ४	सोमसुन्दर सोमदेव	१४९७	पा ४ पा ४ प्रो मणिलाल
११	अष्टपचाशस्तुति वृत्ति	२८००	सोमतिलक		पा ३-५ पा ३-५
१२	अष्टप्रचनमाला A (प्रा)	पत्र ६			प्रो मणिलाल
१३	आदिजिनादिस्तोत्र आदिजिनस्तुति आदिदेवस्तवन (मत्रजत्र कलित) वृत्ति	गा ५१ २०८	जयकेसरी		पा ३ नगीनदास A S A. S
१४	आदिनाथजगन्नाथस्तुति आनदलहरी वृत्ति				अ १ पा ४ पा ४
		१४००	नरसिंह B		पा ४

A आ स्तोत्रनु नाम ' अष्टप्रचन माता ' एषु होय तो हाम प्राणेश्वर मणिमाहप्र वाताना नीलमर्मा अष्टप्रचनमालना नामथी तेनी नोंप करेला हागथी तज नाम तने इहां नोंधुं छे

B आ नाम अन्यधर्मा तेषु एगे छे ते उपरथी मूढना कता पण अयमतिव प्रिय संभवी नछे एता नरसिंह ते कण एता ते अयत चोखस निगप आ वृत्तिनो प्रगसित ऐत तपासनाधीन अहं न

नंबर	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रचया- नो सं	क्यां छे ?
१५	उपसर्गहरस्तोत्र वृत्ति वृत्ति (वीजी) वृत्ति (त्रीजी) लघुवृत्ति उपसर्गहरस्तोत्र	८५० १०००	भद्रबाहुस्वामी जिनप्रभ जयसागर पार्श्वदेव	१६९७	वृ. पा. १ मुद्रित. वृ. पा. २-३ A. S. पि. रि. ४ A. S. डे. पेज ६-
१६	उल्लासिक्रम वृत्ति		धर्मतिलक		रि. ६ रि. ६
१७	ऋपभशतक		हेमविजय		अ. २
१८	ऋपभस्तव अवचरि ऋपभस्तव (वीजो) अवचरि ऋपभस्तुति ऋपभस्तोत्र B	१९४ ४० ३०० ८८	खर. विजय- तिलक चंद्रधर्म जिनसेन		पा. ४ लीवडी. पा. ५. A. S. जेसल.
१९	ऋपिमडलस्तव C " (स.) D " (मं.)	गा. २७१ ७० ९८	मेरुतुंग गौतम		वृ. वृ. ली डेकन पेज. २७३

A आ नाम कइक विचित्र लागे छे, डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा पण तेना संवधे कसो खुलासे जपाव्यो नैथा अमारा अनुमान प्रमाणे प्राथे आ कोई अन्यदर्शनी होवा जोइये.

B आ ऋपमन्तो जेकलेगनी टोपमा हीगलाळे नोंयु छे.

C, D एना मोटे पाठल पाने एकरी पंचोत्तरमा तेमना नाम नीचिनी नोट बुओ.

नं०	नाम	श्लोक.	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
२०	एकीभावस्तोत्र				A S
	वृत्ति	२४०	वादिराज		A S
२१	कर्मस्तवन (प्रा)	४२			पा ४
२२	कल्याणमदिरस्तोत्र		सिद्धसेन		पा १ मुद्रित
	वृत्ति	५२५	हर्षकीर्ति	१६६८	पा १
	वृत्ति		माणिक्यचन्द्र		पा ३
	वृत्ति		जिनविजय	१७१०	पा ३
	वृत्ति		उपके शगच्छीय दवतिलक		पा ३ जे
	वृत्ति	५५०	गुणसागर		पा ५
	अवचूरि	४८०	गुणसेन A		पा. १-३ अ २ छे
	कल्याणमदिरस्तोत्र (बीजु)		भावप्रभ	१७२१	भाव
	वृत्ति	२०६२	स्वोपह		पा ३-४ भाव.
	कल्याणमदिरछायास्तवन				A S
	कल्याणमदिर B (अभिनव)				अ १
२३	कल्याणिकस्तव				पा ३
२४	क्रियाकलापस्तुति				पा ४
	वृत्ति	पत्र ५	प्रमाचन्द्र		पा ४

A आ नाम पाटणनी टीपोमापी मळ्यु छे तेना भरोसे जमे इहा नांध्यु छे अमदासादना चचलसाईना भडासनी टीपमा तथा डकन कॉलेजना शिपोईमा कर्त्ताना नाममा गुणरत्नसुरिना नाम आप्यु छे आ बे आचायमापी क्या आचार्ये आ अवचूरि रची छ ते बाबत तेवो पुरयो मळ्या वमर निर्णय थवो मुकल छे

B एने अभिनव कल्याणमदिरस्तोत्रना नामे वधु ओळखवामा आवे छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે?
૨૫.	ક્રિયાગુનસ્તોત્ર A	૫૦	આંચ જયશેસર		જેસલ.
૨૬.	કુરુકુલાદેવીસ્તવ				A. S.
૨૭.	ગણધરસ્તવન (પ્રા.)	પત્ર ૭			પ્રો. મણિલાલ.
૨૮.	ગુરુપાટુકાસ્તોત્ર	૬			ર્લોવડી.
૨૯.	ગુરુપારતંત્ર્યસ્તવ વૃત્તિ		જિનદત્ત જયસાગર	૧૩૬૮	પા. ૧-૩. પા. ૧-૫ A. S.
૩૦.	ગુરુયમકકાવ્યાટક (સં.)	પત્ર ૧			પ્રો. મણિલાલ.
૩૧.	ગૌડીપાર્શ્વસ્તોત્ર B	કા. ૧૦૮	યશોવિજય		લં.
૩૨.	ગૌતમસ્તોત્ર				પા. ૩
૩૩.	ચઝકસાય વૃત્તિ				અ. ૧ મુદ્રિત. અ. ૧
૩૪.	ચતુર્વિંશતિજિનસ્તવ C ચતુર્વિંશતિજિનસ્તવન (પ્રા) ચતુર્વિંશતિજિનપૂર્વમવોત્કી તનસંયદ્ધસ્તવન ચતુર્વિંશતિજિનસ્તુતિ અવચરિ	૧૫૫ કા. ૨૭ ૨૦૨	મલ. દેવપ્રભ જિનવલ્લભ રત્નસાગરમણિ વપ્પમટ્ટિ		વૃ. પા. ૫ જેસલ. લંવાત. વૃ. પા. ૩-૪ પા. ૩

A આ સ્તોત્ર ઝેસરખેરનાં દીરાગઢે કરેલી ટીમમા નોંવાયલુ છે. અને પ, આણદ સાગરજી જળાંવે છે કે આ નામનુ સ્તોત્ર તેમના જોવામા આવેલુ છે.

B આ સ્તોત્ર પૂર્વે યશોવિજયજીદ્દત ગ્રંથોના વર્ગમા નોંવેલુ છે છતાં આ સ્તોત્રનો વર્ગ હોનાર્થે જાણ કર્યમે દયા પણ નોંવુ છે.

C સદગદ્ સ્વ વૃદ્ધતિલ્પનિકામા નોંવેલ છે વાત્રી ક્યાંપણ ઉપલદ્ધ થયુ નથી. તેના માટે ત્યાં ' ૨૪ જિનરામા ૨૪૧૮૮ ગાયા થયનાદિ ૩૧, યાચ્ચા ' ' એવો નોંવ છે. એમા અનુક્રમે દરેકે દરેક રાવર્ગી ખાટ ખાટ ગાયાઓ છે. તે મગર એની કલગાથાઓ ૧૧૨ દોંવી જોઈયે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
	चतुर्विंशतिजिनस्तुति	पत्र २	धर्मघोष		पा ३
	„ A		समतमद्र		वृ पा ३
	वृत्ति B	१५४१	दि प्रभाचद्र		वृ
	चतुर्विंशतिजिनस्तुति		सिद्धातसागर	१५४१	पा ४
	„		जिनेश्वर		पा ४ जेसल
	अवचूरि	पत्र २			पा ४
	चतुर्विंशतिजिनस्तुति	५११	जिनविजयशि प्यपन्नविजय		पा ४
	अवचूरि				पा. ४
	चतुर्विंशतिस्तुति		सोमदेव		A S
	वृत्ति	८०			A S
	चतुर्विंशतिस्तुति	का २७	सोमप्रम		रा
	„	पत्र १५	मेरविजय		अ १
	अवचूरि		स्वोपह		अ १
	चतुर्विंशतिस्तुति		हेमविजय		अ १
	अवचूरि		स्वोपह		अ १
	चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र		जिनप्रम		पा ३
	वृत्ति	५०१	वनकुशल	१६५२	पा. ३-५

A, B एना मोटे वृत्तपिण्डिकामा “ समतमद्रहरणयशुवाभूतक्षितभूतले समजठमित्यादि २४
जिनस्तवा २४ वृत्ति दिगवर प्रभाचद्राया १५४१ ” आवो नोंछ छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં.	ક્યાં છે ?
	ચતુર્વિંશતિજિનસ્તોત્ર	૫૭૫	મુનિસુંદર		પા. ૩-૫
	ઘવચૂરિ				પા. ૩-૫
	ચતુર્વિંશતિજિનસ્તોત્ર		નરસંદ્ર		પિટર્સન રિ. ૫
	„ (ગુતક્રિય) A		સાગરસંદ્ર		A. S
	વૃત્તિ	૨૦૦			A. S.
	ચતુર્વિંશતિજિનસ્તોત્ર		વિલમવિજય		નગીનદાસ.
	ચતુર્વિંશતિકાસ્તોત્ર	૫૯	ભૂપાલ તથા પદ્મનાદિ		પા ૫
૩૫	ચતુ પઠિયોગિનીસ્તુતિ	૬૦			A. S.
૩૬	ચિત્રસ્તોત્ર		દેવસુંદર શિષ્ય સાધુરાજ		પા. ૫
	વૃત્તિ	૨૦૮			પા. ૫
૩૭	ચિત્રસ્તોત્ર (વીહું)				પા. ૫
	વૃત્તિ	૮૮			પા ૫
૩૮	ચિત્રઘટ્ટપાર્શ્વસ્તોત્ર	પત્ર ૨			ભાવ.
૩૯	ચિંતામાણિ	૧૧			લોં.
૪૦	ચિંતામણ્યટ્ટક	પત્ર ૬			પ્રો. મણિલાલ.
૪૧	જનેનયેનસ્તુતિ				વૃ.
	વૃત્તિ				વૃ.

A એકમનેની ટાંપમા દર્શાવેલે ક્રિયાગુણ ઘવા ઝચોકસ નામથી જેની નોંધ કરી છે અને તેજ નામ તે આ યર્ગની શરજાતમા જેને અમે નોંધુ છે તેજ આ સ્તોત્ર નરિ હોય? તે વાચતની વરી સાત્રી ઝસલ-નિમા મહારાની પ્રત કવેયી તવાવવાથી ચર્કે શકે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यता गो स	क्या छे ?
४२	जयतिहुयणस्तोत्र घृत्ति	३० २५१	अभयदेव		घृ० पा १ पा १
४३	जयपयदपयावस्तोत्र	गा १७			ली
४४	जिनकत्याणिकस्तोत्र	१०३	सोमसुदर		पा ४
४५	जिनपतिस्तोत्र		विट्हणरवि		पि रिपोर्ट ५०
४६	जिनभयस्तोत्र अधचूरि		सोमसुदर		पा ३ पा ३
४७	जिनराजस्तव (प्रा)	४३	जिाप्रभापाय		पा ४
४८	जिनविज्ञप्ति A	३०			जेसल
४९	जिनशातक पजिका	१०० १५५०	जवूमणि शावसाधु	१०२५	घृ पा ४ कुलभ्य घृ पा १ सुलभ्य
५०	जिनस्तुति B (स.) " "	२५	चद्रगुप्त सोमप्रभ जयामिनदि		नगीनदास पा ३ भाव A S
५१	जिनसहस्रनामस्तोत्र " घृत्ति	 ३०००	आसधर जिनसेन		पा ३ A S A S

A आ जिनविज्ञप्ति 'नेसलमेरनी टीपमा हाराललना ना ममा छे

B एनु आदिपद " सारसिधूत्तमजाणवत " एखु छे मिन्सन रिपोर्ट वेहेलाना वेन १४ मा एनी नौध लेता प्रात्तमा " इति वणमान नामा मायुररपितृमातृनीर्त्ताजिापा । आचद्रगुप्तगुरिभिरभिण्टता भिवमुत्त दद्यु " आओ उन्नेरु कयो छे

નં.	નામ	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સ.	ક્યાં છે ?
૫૨.	જિનેશ્વરસ્તોત્ર	૨૭			નર્ગીનદાસ.
૫૩.	જિતસ્તોત્ર અવચૂરિ		હર્ષવર્દન		પા. ૩, પા. ૩
૫૪	જોરાવહિસ્ત્ર જોરાવહિસ્ત્રવન જોરાવહિસ્ત્રોત્ર અવચૂરિ	કા. ૪૫	આંચ. મહેંદ્રપ્રભુ		A. S. લીં. પા ૩ પા. ૩
૫૫.	જૈનપ્રર્મવરસ્તોત્ર હૃત્તિ		ભાવપ્રમ	૧૭૨૧	પિ. રિ. ૫ પિ. રિ. ૫
૫૬	તિજયપહુત્ત હૃત્તિ	ગા. ૧૪			પા. ૧ મુદ્રિત. પા. ૧-૨
૫૭.	તીર્થસ્ત્રવ (ચમકવદ્ધ)		સોમપ્રમ		પા. ૧.
૫૮.	તીર્થમાલાસ્ત્રવન (પ્રા)	ગા. ૧૧૧.			પા. ૪ નર્ગીનદાસ.
૫૯.	તીર્થમાલાસ્ત્રોત્ર		ચંદ્રસુરિ		A. S.
૬૦.	દેવાગમન્નોત્ર A	૧૧૫	દિગ. સમંતભદ્ર.		પિ. રિપોર્ટ ૪
૬૧	દેવાગમનોસ્ત્રોત્ર અવચૂરિ	૨૦૦	જયાનંદ વાનરપિં		પા. ૩ પા. ૩ A. S.
૬૨	દેવદુર્ગનેમિસ્ત્રવ	૫૦	જિનપ્રમ		જેસલ.

A. ૧૧૧ દેવાગમનોત્ર તે ગણદુર્ગનેમિસ્ત્રવ મૂલ છે અને તેની ૧૧૫ કારિકાઓ છે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
६३	द्वान्त्रिंशद् द्वान्त्रिंशिका ^A (ताड)	८३०	सिद्धसेन		डेकन पेज १६७
६४	द्विवर्णरत्नमालिका वृत्ति	पत्र ११	पुण्यरत्न रामर्षि		पा ३ पा ३
६५	धनपाल पचाशिका वृत्ति वृत्ति (साक्षित) अवचूरी अवचूरी (बीजी)	११००	धनपाल देवभद्र शिष्य प्रभानंद धर्मशेखरोपाध्याय नेमिचंद्र		वृ वृ पा २-३-४-५ वृ पा ३ पा ४
६६	धरणोरगेंद्रस्तव वृत्ति	ताड			पि रि. ५ पि रि. ५
६७	नदिस्तुतिव्याख्या	पत्र ३	शुणसीभाग्य		पा ५
६८	नमस्कार द्वान्त्रिंशिका B		(जैन)		डेकन
६९	नमस्कारस्तव (प्रा.) वृत्ति	२५०	जिनकीर्ति "		A S A S
७०	नमप्रहस्तोत्र	११	भद्रयाहू		नगीनदास मुद्रित
७१	नमिउण "	२५ गा २४			पा ३ पि रि ५ मुद्रित लॉ जेसल

A सदरहू यत्रीगिमांनी तीस यत्रीशी मळे छे देवन कॉलेनमां ना यत्री यत्रीणी सवून होय तो स्वायी तेना उताय करयो लेवाना अत्यंत अगत्य छे इमणा तपास करता माग्म पद्दु छ के देवनमा पण बीनाय यत्रीणी छे

B आ नमस्कार द्वान्त्रिंशिका देवन कॉलेनमा लॉलेमा नोधिनी छे अने तेनां वे काइ िनाचारें करेछी छे एम जणायु छे

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	ग्रन्था- नां सं.	क्यां छे ?
७२	नमिरसुरस्तव				पा. ४
७३	नाभेयजिनस्तुति		विश्वमेन A		A. S.
७४	नाभेयस्तोत्र	गा. २५			लॉवडी.
७५	निरजनपरमात्मविशतिफा				A. S
७६	नेमिरतोत्र	गा. १४			लॉवडी,
	"	१५	जिनचलम		जेसल.
७७	नेमिचरित्रस्तोत्र (प्रा.)	११४			पा. ६
७८	नेमिस्तवन	२४	विजयसिंह		पा. ४
७९	नेमिगयावली				पा. २
८०	नेमिशतक	११८			पा. ५ अ. २
८१	नमोस्तु वर्धमानायस्तुति				अ १ मुद्रित.
८२	पठितसिद्धसारस्वतस्तोत्र	११			नगीनदास.
८३	पंचजिनस्तव (पटभाषा)	८०	जिनकीर्ति		पा. ३
८४	पंचपरमेष्ठिस्तव		जिनकीर्ति	१४९४	पा. ३
	वृत्ति		"	१४९४	पा. ३
८५	पंचपरमेष्ठिस्तव		जिनप्रभ		A. S.
	" B	१००	अभयदेव		जेसल.

A आ कोई दिगवर आचार्य होवा जेरिये एम तेमना नाम उपरथी जणाय छे.

B आ पंचपरमेष्ठिस्तव जेसलमेरनी हीरालाले करेली टीपमा नोवेलो होवाथी तेना कर्त्ताना नाममा शक रहे छे. कदाच ते जिनप्रभसूरिकृत तेज ए होव तो पण होय.

क्र.सं.	नाम	श्लोक.	कर्त्ता	रचया नो.सं.	क्या छे ?
८६	पञ्चपरमेष्ठिस्तोत्र				A S.
८७	पञ्चत्रिंशदतिशयस्तम	६०			जेसल
८८	पञ्चमीस्तोत्र				A. S
८९	परमेष्ठिस्तव (प्रा)	४२			पा ४
९०	परमानन्दस्तोत्र	का ८	हृषमुनि		ली
९१	पद्मावत्यष्टक				A S
९२	पद्मावतीस्तोत्र				पा १ भाव
	"		पृथ्वीभूषण		A S
९३	पद्मावतीसहस्रनाम				पा १
९४	प्राकृतवीरस्तुति (प्रा)				भाव
९५	पार्श्वनाथाष्टक		इन्द्रनदि		डेकन
	घृत्ति		धृतकीर्ति		डेकन
९६	पार्श्वस्तोत्र	पत्र १			पा १
	"	गा १४	जिनवल्लभ		ली
	"	१२५	पार्श्वदेव		जेसल
	पार्श्वनाथस्तोत्र		महेंद्रसूरि		A S
९७	पार्श्वनाथादिस्तोत्र				पा ३
९८	पार्श्वस्तव	का ९	पद्मप्रभ		नगीनदास
	घृत्ति	१००	मुनिशेखर		नगीनदास

નંબર	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે?
૧૯૯	પાર્શ્વસ્તવન (સટીક) પાર્શ્વસ્તવન	પત્ર ૧	માણિક્યસુંદર જિનમદ્ર		પા. ૪ પા. ૪
૨૦૦	પાર્શ્વનામાવલી	૧૧૩	ઝાંઝ. કલ્યાણ સાગર		પા. ૪
૨૦૧	પાર્શ્વમક્તપ્રસાદપ્રશસ્તિ	૧૫૦			રિ. ૬
૨૦૨	પુદ્ગલપરાવર્ત્તવિચારસ્તવ	પત્ર ૧			પા. ૧
૨૦૩	પૂંડરીકસ્તવ (પ્રા.) A	પા. ૧૧૮			નર્માનદાસ.
૨૦૪	પ્રણમ્યસ્તોત્ર B (પ્રા)				પ્રો. મણિલાલ.
૨૦૫	પ્રમાવકસ્તોત્ર C વૃત્તિ D	૭૦૦			જેસલ. જેસલ.
૨૦૬	ફલવર્દ્ધિપાર્શ્વસ્તવન ,, વિજ્ઞાપિ		ક્ષમારુનોપાધ્યાય દયાસાગર		A. S. A. S.
૨૦૭	વટુકમૈરવસ્તોત્ર				પા. ૧
૨૦૮	વપ્પહદિસ્તુતિ E વૃત્તિ	૯૬ ૭૩૫	સહદેવ		વૃ. સુલભ્ય. વૃ. પિ. રિ. ૫

A એનુ આદિપદ “ આરંભે સુનિયત્તા ” એવું છે.

B આ સ્તોત્ર પ્રણમ્ય આ પદથી શરૂ થયેલું હોવાથી તેવા નામથીજ ઓઢલાવવામા આવ્યું છે. પણ તે અમોને હજીસૂધી ઉપલબ્ધ થયું નથી.

C આ નામ શક પદનું લાગે છે કારણ કે હીરાલાલે તેની સામાન્ય નામથીજ નોંધ કરી હોય તેમ જણાય છે. તો તેનું સ્વ નામ શુ છે તે જાણવા માટે તે પ્રત્તિ ફરારથી તપાસવાની જરૂર છે.

D એનું નામ “ મત્રમહાભાષ્ય ” એવું છે.

E એના માટે વૃહત્પિપ્પાનિકામા “ નમેત્રમૌલિ, ઘૃત્યાદિ વ્પહદિસ્તુતિ: ૯૬ વૃત્તિ: સહદેવકૃતા ૭૩૫ ” આવો નોંધ છે.

न	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
१०९	बालभारतीयस्तुति				A S
११०	भक्तामरस्तोत्र	४४	मानतुग		पा १ मुद्रित
	वृत्ति	१५७२	गुणाकर	१४५६	वृ पा १ सुलभ्य
	"	४००	अमरप्रम		छी नगीनदास
	"		रत्नचद्र		पा ३
	"		कनककुशल	१६५२	पि. रि ५
	"		गुणसुदर		पा ३
	"	४००	शातिसूरि खडि हुगच्छीय		नगीनदास
	"		पद्मविजय		अ १
	"		देवसुदर		अ २
	(अभिनव) भक्तामर A				अ १
१११	भक्तामरछायास्तव				A S
११२	भयहरस्तव		स्थूळिभद्र		डे पेज १३४
	वृत्ति		"		डे पेज १३४
११३	भयहरस्तोत्र B	गा २२	मानतुग		पा १-२ सुलभ्य
	वृत्ति		जिनप्रम	१३६५	पा १-३ A S
	वृत्ति	१६०			वृ

A अमदावादन डेलाना भडारली टीपमा एनु नाम अभिनव भक्तामर एडु लख्यु छे

B आ स्तोत्र नभिरुणना नामधी वितोव ओळजाय छे

क्र. सं.	नाम	श्लोक.	कर्त्ता.	रचयानो सं.	क्यां छे ?
११४	भयहरस्तोत्र वृत्ति		जिनसिंह		डे. पे. ३४. डे. पे. ३४.
११५	भरतक्षेत्रीयजिनस्तुति	१६०			पा. ५
११६	भवानीसहस्रनाम	२०५			पा. ४
११७	भारती १०८ नाम स्तवन				पा. ३
११८	भूपालचतुर्विंशतिका		दिगंबर		A. S.
११९	मंगलादीश्वरस्तोत्र A	का. १४	धर्मसूरि		लीं.
१२०	मंत्रस्तव वृत्ति				A. S. A. S.
१२१	मंत्रधीजकोश				A. S.
१२२	महायमकमयपार्श्वस्तोत्र B	४०	पद्मप्रभ		जंसल.
१२३	महादेवद्वित्रिंशिका				पा. ३
१२४	महादेवस्तोत्र				भाव.
१२५	महावीरस्तोत्र वृत्ति	९३	पार्श्वचंद्र C भावप्रभ		पा. ५ पा. ५

A आ नाम काइक शक पडतु लागे छे कारणके तपास करता एम मालम पडे छे के पिटर्सन रिपोर्ट पांचमामा जणावेलु अने आ पुस्तकमां कुलकौना वर्गमा नोंधेलुं नाभे मगलकुलक तेज ए होउं जोईये. (जुओ आ पुस्तकना पेज २०२ मा)

B सदरहू स्तोत्र जेसलमेरनी हीरालालनी करेली टीपमां नोंधेलुं होवाथी शक पडतु छे.

C आ पार्श्वचंद्र ते कोण हता ते जाणवा माटे तेनी प्रत तपासी नक्की करहुं जोईये.

नंबर	नाम,	श्लोक.	कर्ता	रचया नो रा.	क्या छे ?
१२६	महावीरस्तोत्र (अपन्नघ)	गा ३०			नगीनदास
१२७	महावीरस्तुति		जिनपति		A S
	"		जिनेश्वर		A S
१२८	महावीरचरित्र	गा. ४४	जिनगहम		लीं
१२९	महास्रस्तोत्र				भाव
	"		जयचंद्रशिष्य सत्यशेखर		पा ५
	अवचूरि				पा ५
१३०	महेश्वरीसहस्रनाम				पा १
१३१	यमकस्तुति A		धर्मघोष		A H
	घृत्ति		सोमतिलक		A H
१३२	यमकस्तुति				पा २
	घृत्ति	ताड ५७	सोमप्रभ		पा. २-५
१३३	यशोमद्रसूरिकृतस्तुति B				लीं
१३४	युगादिस्तव				पा १
१३५	युगादिदेवस्तोत्र				A S
	घृत्ति (मन्त्रयज्ञगर्भित)	२०			A S
१३६	युगादिदेवस्तुति		सोममुदर		A S

A एतु आदिपद 'जयवृषभ' एतु छे

B एतु अपर नाम 'कुमुदावली' छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચ્યાનો સં.	ક્યાં છે?
૧૩૭	યુગ્મદસદસ્તવ		સોમસુદર		A. S.
૧૩૮	રત્નકોશ A	૧૧૫૦	મુનિસુંદર		પા. ૬
૧૩૯	રત્નાકરપંચવિંશતિકા				પા ૩
	ઘૃત્તિ	૧૩૦૮	વાઘજી		અ. ૧ નગીનદાસ.
	ઘૃત્તિ (વીજી)				કોહાય.
૧૪૦	રાણપુરસ્તવન (સં.)	પત્ર ૪			પ્રો. મણિલાલ.
૧૪૧	લઘુસ્તવ		રાજમુકુટ B		ડેકન.
	ભાષ્ય				ડેકન.
૧૪૨	લઘુસ્તોત્ર				જેસલ.
	ઘૃત્તિ	૪૭૪	સોમતિલક		જેસલ.
૧૪૩	લઘુઅજિતશાંતિ C	કા. ૧૭	જિનવલ્લભ		વૃ. પા. ૧ જેસલ.
	ઘૃત્તિ	૩૨૦	ધર્મતિલક D		પા. ૧ અ ૨.
	ઘૃત્તિ (વીજી)		જયસોમશિષ્ય		પા. ૫
૧૪૪	લઘુઅજિતશાંતિસ્તવ E		ગુણવિજય		નગીનદાસ.
			વીરગણી		

A એમા અનેક સ્તોત્રોનો સંગ્રહ કરવામા આવ્યો છે.

B આ રાજમુકુટ તે કોઈ અન્યમતિ આચાર્ય હોવા જોઈયે એમ તેમના નામ ઉપરથી જણાય છે.

C એનું અપર નામ “ ઉલ્લાસિકમનસ્ત્વનિગાયપદા દ્વલ્લેણાગિણ ” એવું છે.

D યમતિલક સૂરિનાં વશાવલી આ રીતે છે:—

પહેલાં વિજયસેનસૂરિ તચ્છિષ્ય ધર્મદેવ તચ્છિષ્ય ધર્મચંદ્ર તચ્છિષ્ય ધર્મસ્ત્વ અને તેના શિષ્ય તે આ ધર્મતિલકસૂરિ છે. અમદાવાદના ચંચલવાઈની ટીપમા કર્તાના નામમા ધર્મતિલકસૂરિના ગુરુ ધર્મસ્ત્વનું નામ આપ્યું છે. તેથી ચંચલવાઈના મહારમાનાં પ્રત તપાસી જોવાની જરૂર રહે છે.

E એનું પ્રથમ ચરણ “ ગમ્મઅવવારિ મગલકરા ” એવું છે.

नंबर	नाम	श्लोक	कृत्ता	रच्य नो स	पया छे
१४५	लघुशांति अवचूरि		मानदेव		पा ३ मुद्रित पा ३ A S
१४६	वद्धमानद्वात्रिंशिका घृत्ति अवचूरि	पत्र ९ २०३	सिद्धसेन आच उदयसागर		पा १-३ पा ५ भाग पा ५
१४७	वद्धमानपदात्रिंशिका				पा ३
१४८	घरकाणापार्श्वविश्रुति		नयवर्द्धन		A S
१४९	विचारसारस्तवन	२२	माणिक्यसुन्दर		पा ४
१५०	विश्रुतित्रिवेणी	१०१२	भोजधरावरु		पा. १
१५१	विहरमानजिनस्तोत्र (प्रा)	३२५	लब्धिसागर		पा ३
१५२	विहारशतक A		रामचन्द्रगणि		पा ३-४ कोडाय छे
१५३	विट्हरणपचाशिका		विल्हरण		A S.
१५४	विविधस्तव				A S
१५५	विशाललोचन घृत्ति				अ १ मुद्रित अ १ मुद्रित
१५६	विपावहारस्तोत्र दिप्पन	का ४०	दिग धनजय		ली A S ली

A आ शतक पूर्वे पेज २१० मा गतरीना वगमा नोंधवामां आळ्यु छे, पण त्या मूळची वर्तानु नाम नोंधता रक्षी गयु छे

नं. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
१५७	वीतरागस्तोत्र वृत्ति पंजिका अवचूरि B अवचूरि (बीजी) अवचूरि (श्रीजी) अवचूरि (चोथी)	४७४ २१२५ पत्र १८ १४०० ६२५ ७००	हेमाचार्य प्रभानंद A नंदिसागर प्रभानंद विशाळराज सोमोदयगणि महेंद्रशिष्य मेघराज	१५१०	पा. १ सुलभ्य. वृ. पा. २-४-५. अ. २ पा. १-३ पा. ३ सं. लॉ.
१५८	वीतरागस्तुति				A. S.
१५९	वीतरागनमस्कारस्तव				A. S.
१६०	वीतरागशतक वृत्ति	पत्र ३८			अ. २ अ. २
१६१	वीरचरित्रस्तव (प्रा.) वृत्ति	८००	जिनवल्लभ समयसुंदर		A. S. A. S.
१६२	वीरस्तव C		धनपाल		वृ.

A आ) प्रभानंदसूरि ते रुद्रपल्लीय देवभद्रसूरिना शिष्य अने चद्रसूरि तथा विमलसूरिना गुरु हता.

B आ अवचूरि ते वखते प्रभानंदसूरिकृत वृत्तिज तो नहि होय ते माटे पाटणना भडारमानी प्रव फरीथी तपासी जोवानी जरूर रहे छे.

C आ वीरस्तव तेनी वृत्तिषाथे वृहट्टिप्पनिकामां नोंथ्यो छे, तेना माटे ते टिप्पनिकामां आर्कं रीते नोंध छे " निग्मलनहेवि इति वीरस्तवस्य प. धनपालकृतस्य वृत्तिः सूर्यचार्यकृता २२५ "

नं०	नाम	श्लोक	कर्ता	रचयिता नो स	क्या छे ?
	वृत्ति	२२५	सुराचार्य A		वृ
	वीरस्तन				पा ३
	अवचूरि				पा ३
	वीरस्तवन (प्रा)				पा ३ भाव
	वृत्ति	पत्र २			भाव
	वीरस्तवन	४०	विमलहृपशिष्य मुनिविमल कत्याणविजय		जेसल
१६३	वीरजिनादिस्तोत्र				पा ३
१६४	वीरस्तोत्र	१५	जिनवल्लभ		जेसल
१६५	वीसाविहृत्माणस्तवन		मेरुनदन		A S
१६६	बृहच्छाति		ज्ञातिसूरि		पा २ मुद्रित
	वृत्ति	पत्र ५७	हृपकीर्ति		डेकन.
	अवचूरि				अ २
१६७	वैरुटपास्तोत्र	गा ३०	आयनदिल		A H

A सुराचार्य ते देल महत्तरना शुद्धता देल महत्तरना शिष्य दुर्गस्वामि अने दुर्गस्वामिना शिष्य उपमित भवप्रपचारिना करनार सिद्धिपिसूरि थया प्रभावक चरित्रमा निवृत्ति गच्छना सुराचार्यने गर्गर्धिना शिष्यासुद्ध तरीके जणाया छे, अने तेओ भीम अने भोजराजाना वरतमा इता धम तेमा जणायु छे ते मुजय आ सुराचार्य आशेर विजमनी नवमी सदीनी शकआतमा थया होय तेम मानी शकय छे हवे जो तेज आ सुराचार्य होय ता स० १२२९ मा पापलच्छि नाममालाना करनार घनपाल अने आ सुराचार्यना वल्लभमा थयेला घनपाल बुदाज ठरी शके, अगर तेरही सदीना वच-गाले कोई बीजा सुराचार्य थया होय तो तेमपण होय आरीते चौकस पुरावाना अमावे बने कण ओ मोटे शक राखी पडे छे अमारा धारया मुजय वीरस्तवना करनार घनपाल पड़ेला सुराचार्यना समयमान थयला होमा जोईये छता आ सवधमा सुष्ठ मुनिजय महाशयाने अमारी नम्र भिनती छे के जेआश्रीने आ वासतनी चौकस माहिती जणसामा आवी होय तेओए ते अमारा उपर लक्ष्यी मोकल्या कृपा करवी

क्र. नं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं	क्यां छे ?
१६८	शत्रुंजयचैत्यपरिपाठी				A. S.
१६९	शत्रुंजयमाहात्म्यस्तवन A				A. S.
१७०	शंखेश्वरपार्श्वस्तव " B	क्रा. ११२	यशोविजय		A. S. खं.
१७१	शांतिकर अवचूरि	गा. १३	मुनिसुंदर		पा. २ लीं. A. S. रि. ६
१७२	शान्तिस्तोत्र C	३५	जिनवल्लभ		जेसल.
१७३	शान्तिनाथचरित्र	गा. ३३	जिनवल्लभ		लीं.
१७४	शान्तियमकस्तव				पा. १
१७५	शारदास्तव				A. S.
१७६	शाश्वताजिनस्तव (प्रा.) अवचूरि	२४	देवद्रेमुनि		पा. ३-४. पा ३-४.
१७७	शाश्वताजिनस्तुति (प्रा.)	गा ३४	सिद्धसेन		नगीनदास.
१७८	शोभनस्तुति वृत्ति	२३५०	जयविजय		पा. ३-४ मुद्रित. पा. ३
	वृत्ति (बीजी)	२२००	सिद्धचंद्रगणि		रि. ६
	वृत्ति (त्रीजी)	१०००	धनपाल		वृ. पा. ३. ४.

A आ स्तवन सारावली पयनामाथी उद्धृत करेलु छ एम एसीऑटिक सोसायटीना रिपोर्टस जणाव्यु छे.

B आ स्तव यशोविजयजी उपाध्यायकृत ग्रंथोना वर्गमां नोंघायेलुं छे.

C आ स्तोत्र हीरालालना नोवमाथी मलयु छे.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे?
	वृत्ति (चोथी)	पत्र ५८	देवचन्द्र		अ १
	वृत्ति (पाचमी)	पत्र ६८	सौभाग्यसूरि		अ १
	वृत्ति (छठी)		भानुचन्द्र		अ १
	अवचूरि	४९५	धर्मचन्द्रशिष्य राजमुनि	११५१	पा ३-४-५.
१७२	श्रीमत्तीर्थकराणास्तवन	का ७			नगीनदास
१८०	श्रीनेमि पचरूपादिस्तुति वृत्ति				अ १ मुद्रित ब १ मुद्रित
१८१	श्रेय धियांस्तवन A	पत्र २			प्रो मणिलाल
१८२	पद्मापागर्भितधीरस्तोत्र				पा. ३
१८३	पण्णवतिजिनस्तोत्र B	५०	ज्ञानविलास		जेसल
१८४	सकलाहत्				पा ३ मुद्रित
१८५	सत्सूक्त (स)	पत्र ८			प्रो मणिलाल
१८६	सत्तावीशभरस्तवन (प्रा)	पत्र ६			प्रो मणिलाल
१८७	सनत्तुमारचक्रवर्तिस्तवन (प्रा)	पत्र १७			प्रो मणिलाल
१८८	सप्तशतिजिनस्तोत्र (प्रा)				ली A S
१८९	ससारदावानलस्तुति	का ४			ली मुद्रित
१९०	समवसरणस्तोत्र	१००	दिग विष्णुसेन		A. S

A आ स्तोत्र " भेय धिया " एवा पदथी शक यदल होराथा तेज नामथी ओळसाय छे एम्
प्रो० मणिलाल नमुमाइए पोताना लिस्टमा जणाव्यु छे

B सदरदृ स्तोत्र जेसलभेरजी दीपमा हीरालालना नोंघमा होवाथी तेना सबघमा शक राखयो पढे छे

ન.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૧૯૧	સમીનપાર્શ્વસ્તોત્ર	૯	યશોધિજય		સં.
૧૯૨	સર્વજિનસ્તુતિ				A. S.
૧૯૩	સર્વજ્ઞસ્તવ				A. S.
૧૯૪	સર્વજ્ઞસ્તોત્ર A	૪૦	સોમતિલક		જેસલ.
૧૯૫	સર્વતીર્થાવાલિસ્તવન B	૧૨૫	વિનયપ્રમ		જેસલ.
૧૯૬	સરસ્વતીસ્તવ (મહામંત્રગર્ભિત)				A. S.
૧૯૭	સરસ્વતીસ્તોત્ર	૧૩	વપ્પભટ્ટિચૂરિ		નગીનદાસ.
૧૯૮	સાધારણજિનસ્તવ અવચૂરિ		સોમપ્રમ		પા. ૩ પા. ૩
૧૯૯	સાધારણજિનસ્તવ અવચૂરિ	૨૫૦	જયાતંદ		A. S. A. S.
૨૦૦	સાર્વજ્ઞાણક				પા ૧
૨૦૧	સારસ્વતોદ્ધારસ્તોત્ર		નાંદિસ્તનશિષ્ય		નગીનદાસ.
૨૦૨	સિદ્ધચક્રસ્તવન (પ્રા.)	પત્ર ૧			પા. ૪
૨૦૩	સિદ્ધાંતસ્તવ અવચૂરિ "		જિનપ્રમ સોમોદય C વિશાલરાજાશિષ્ય		ડેક્કન. ડેક્કન લોં.

A. B આ વચ્ચે સ્તોત્રો પણ જેસલધેરની હાંગલાલે કરેલી નોંધમાજ છે.


C લોંવઢીના મઢારની ટીપમાં સિદ્ધાંતસ્તવનો અવચૂરિ આદિગુતના શિષ્યે કરેલી છે ઇમ જણાવ્યું છે. પણ તે ટીપ કરનારે સચ્ચત મૂલ ઠાવી છે. ઇમ પ્રશસ્તિ લેલ ઉપરથી માલમ પડે છે.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो.सं.	क्या छे ?
२०४	सिद्धिप्रियस्तोत्र		(दिगधर)		A S
२०५	सीमधेरस्तुति भवचूरी	पत्र १	मुनिसुन्दर		डे पेज ६६ जेसल डेकन
२०६	सुपार्श्वनाथस्तोत्र (सं)	पत्र ५			प्रो मणिलाल
२०७	सूरिमन्त्रगर्भित लब्धिस्तोत्र	पत्र ५			पा ४ खं
२०८	सेनसूरीवृत्तस्तोत्र	४७			ख
२०९	स्तवनकोश	पत्र ४	विजयसेन		पा १
२१०	स्तोत्रकोश	पत्र २४	विजयपालसूरिशि ष्यजगमालगणि	१६५१	पा ३
२११	स्तोत्रमाला	पत्र १४			A S
२१२	स्तोत्रविधिपञ्चविंशति	३४००	तेजसिंह		A S

लीस्ट नंबर ८.

—
जैन भाषासाहित्य.

જૈન ભાષાસાહિત્ય.

નં	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સ	કયા છે ?
	વ્યાકરણના ગ્રંથો.				
					
	વર્ગ ૧ લો *				
૧	જૈનદ્રવ્યાકરણ	૭૦૦ A			જેસલ. A. S
	જૈનીવ્યાકરણ B	પૃષ્ઠ ૭૮			અ ૧
૨	પ્રેમલાભવ્યાકરણ	૨૨૨૩	આચ. પ્રેમલાભ	૧૨૮૧	જેસલ
૩	શાલબોધવ્યાકરણ				
	મૂલ (અષ્ટાધ્યાયી)	૨૭૫	મેહુતા	૧૩૦૪	પા ૪ જે અ ૨
	શૃત્તિ O	૪૮૦	"		પા ૩-૪
	શૃત્તિ	૫૭૯	"		પા ૩
	ચતુષ્કાટિવ્પન	૨૧૧૮	"		પા ૩-૪

* આ ધર્મમા જૈનાચાર્યોએ કરેલા જે અમારા જાણવામા આયા છે તે તમામ વ્યાકરણના ગ્રંથો અનુક્રમવાર નોંધ્યા છે. એના વીજા ક્લાસમા પરમતના યાકરણ ગ્રંથો ઉપર જૈનાચાર્યોએ રચેલા વ્યાકરણ ગ્રંથો નોંધવામા આવશે, અને શાજા ક્લાસમા યાકરણના પરચૂરણ ગ્રંથો નોંધવામા આવશે.

A જેસલમેરની ટીપમા હીરાલાલે આ વ્યાકરણ ૪૫૦૦ નુ છે એમ જણાવ્યુ છે તે વચ્ચે દિગરો જેને જૈનદ્ર કહે છે તે હશે.

B આ નામ સામાન્ય છે તેનું શબ્દ નામ નુ છે તથા તે કોણે રચેડુ છે તે નક્કી કરવા માટે અમદાવાદના ડેલાના મહારની પ્રત નવરે તપાસી જાવાની જરૂર છે. ૫ આણંદયાગરજી લખાવે છે કે પ્રાય તે 'યાવનો ભાગ' હશે.

C આ શૃત્તિ છ પાદ સુધીની છે.

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં	ક્યાં છે ?
	કુટ્ટવૃત્તિટિપ્પત	૭૬૭	મેરુતુંગ		પા ૪
	આઠ્યાતવૃત્તિદુંડિકા A	૧૭૩૪	"		પા. ૪-૫
	પ્રાકૃતવૃત્તિ	૨૨૯	"		પા. ૩
૪	બાલશિક્ષાવ્યાકરણ B	૧૮૫૦	સંગ્રામસિંહ		જેસલ-વે.
	બાલશિક્ષાવ્યાકરણ(વીજું)C		મકિલામ		જેસલ.
૫	બુદ્ધિસાગરવ્યાકરણ	૭૦૦૦	બુદ્ધિસાગર D		પા ૧ જેસલ.
૬	મોજવ્યાકરણ	૨૦૦૦	આંચ વિનય-સાગર		હીં.
૭	મુષ્ટિવ્યાકરણ		મલયગિરિ		વૃ.
	વૃત્તિ E	૪૩૦૦	"		પા. ૧-૫ ડે.
	;; વિપમપદવિવરણ	પત્ર ૨૮			અ. ૧
૮	શબ્દભૂષણવ્યાકરણ	૩૦૦	દાનવિજયોપાધ્યાય		ડે. પેજ ૨૭૭
૯	શબ્દાર્ણવ F		સહજકીર્તિ		A, S ડેકન.
૧૦	સિદ્ધસારસ્વત G		દેવાનંદ		

A આઠ પાદસુદો સર્પૂર્ણ છે.

B આ વ્યાકરણ જેસલમેરની વન્ને ટીપોમાં નોંધાયેલું છે, પણ હીરાલલે પોતાના નોંધમા એના કર્તા વિજયસિંહસૂરિ છે એમ જણાવીને ગ્રંથ રચાયોની સાલ ૧૩૩૬ ની નોંધી છે. તેથી શક રાખવો પડે છે.

C આ વીજું બાલશિક્ષા વ્યાકરણ હીરાલલના નોંધમાથીજ મળી આવ્યું છે.

D આ બુદ્ધિસાગરસૂરિ તે વર્તમાનસૂરિના શિષ્ય જિનેવરસૂરિના ગુરુવંદુ હતા. એટલે તેઓ વિક્રમની અગ્રારમી સદોની આગ્રરમા વિદ્યમાન હતા. બુદ્ધિસાગરસૂરિએ સદરહૂ વ્યાકરણ અન્યમતિઓના આક્ષેપથીજ રચ્યુ છે. અને તેની રચના તેમણે જાવાલીપુરમા કરી છે.

E ડેકન કૉલેજના લિટરમા આ વૃત્તિને ' શબ્દાનુશાસનવૃત્તિ ' એવા સાદા નામથીજ નોંધી છે. અને તે ત્યાં તુટક છે.

F ડેકનકૉલેજના રિપોર્ટમા એની શ્લોકસંખ્યા ૧૩૦૦ નોંધીને તેનુ નામ 'સિદ્ધશબ્દાર્ણવ' એવું નોંધ્યું છે.

G સિદ્ધસારસ્વત વ્યાકરણ કનકપ્રભના ગુરુ દેવાનંદસૂરિએ રચ્યુ હતું એમ આપણે સામાલિએ છીંપે પણ તે એમોને અત્નારસુધી ક્યાંડપણ ઉપલબ્ધ થયુ નથી. પ૦ આણંદસાગરજી જણાવે છે કે દેવાનંદ સૂરિએ વ્યાકરણ રચ્યુ નહિ હોય અને વલ્લે સરસ્વતીનો મંત્ર સિદ્ધ કર્યો હશે તેથી તેમ કહેવાયું હશે.

नं०	नाम	श्लोक	कथा	रज्या नो स	कथा छे!
११	हेमव्याकरण *				
	मूळ (सूत्रो)	११००	हेमाचार्य		वृ
	उणादि	२००	"		वृ पा १-४ लीं.
	लिगातुशासन	३००	"		वृ पा १-४ लीं.
	हेमवृहत्सृष्टि A	१८०००	"		वृ मुद्रित
	" वृहत्यास B	८४०००	"		पा १-४ राषण
	" लघुम्यास C	५३०००	रामचंद्रगणि		वृ
	" लघुयास	९०००	धर्मघोष		वृ पा १-५ छे
	" परिभाष्यवृष्टि	४०००			वृ
	" ग्यासोद्धार D		वनकप्रभ		वृ मुद्रित
	" कक्षापट्ट (वृहत्सृष्टि विषमपदव्याख्या)	४८१८			वृ पा ६
	" दशपादविशेष	पत्र ३१			पा ३
	" दशपादविशेषार्थ	पत्र ९			पा १

● एने सिद्धहेम, सिद्धहेम शासनासन, हेमव्याकरण एवा नामोथी ओळगनामा आवे छे

A आ वृष्टिगी श्लोकसंख्या चतुस्र, आखवात, तद्वित तथा वृहत्तनी मळी १८००० थाय छे

B आ याव पाद १-३-४-५-६-७-८-१२ तथा २७ नो छे तेनी प्रथमख्या वृहद्विषय निरामा जारी गथी ओने ते ह्यामा कशरण अन्वह मळी शरतो नथी पाठनी टीपमां पत्र १५६ नो छे अने राषणपुरमा पत्र १३२ नो छे पत्र राषणपुरमानो न्यास वृहत् छे के लघुम्यास छे ते तपासी नथी करवानु छे आ खळे गणवेली श्राकसरा दतकयथी लगी छे

C एनु उपरनाम 'गद्दमहाणन' एखु छे

D जा अष्टासीय पादनी लघुयास छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે?
	હેમવૃહદ્વૃત્તિ (હુલિકા) A				વૃ.
	„ હુલિકા (ઘૃહત્) B	૮૦૦૦	સૌભાગ્યસાગર	૧૫૨૧	પા. ૩ હે.
	„ હુલિકા (લઘુ)	૨૩૦૦ C			ભાવ.અ. ૨
	„ „ વૃત્તિ	પત્ર ૨૧૪	ઉદયસૌભાગ્ય		ભાવ.
	„ વૃહદ્વૃત્તિસારોદ્ધાર	પત્ર ૪૧			પા ૧
	„ લઘુવૃત્તિ		સ્વોપન્ન		પા ૧.
	„ લઘુવૃત્તિ	૬૦૦૦	કાકલકાયસ્ય		વૃ પા. ૧-૨ અં.
	હેમલઘુવૃત્તિ હુલિકા D	૩૨૦૦	મુનિશેશ્વર		વૃ. પા. ૧-૩
	„ „ અવચૂરિ E	૨૨૧૩			વૃ.
	„ „ અવચૂરિ	પત્ર ૬૫	ધનચંદ્ર		પા ૧-૨-૪-૫
	„ પ્રાકૃતવ્યાકરણ F		હેમાચાર્ય		વૃ પા ૧
	„ પ્રાકૃતપાદવૃત્તિ	૨૪૮૫	સ્વોપન્ન		વૃ.
	„ દીપિકા	૧૫૦૦	(ઠિ) હરિભદ્ર		વૃ પા. ૧
	„ „ અવચૂરિ	૭૩૮	હરિપ્રભસૂરિ		પા. ૧

A આ હુલિકા ચતુષ્ક, આખ્યાત અને કૃદ્ ઉપર છે.

B આ લઘુવૃત્તિ ચતુષ્ક, આખ્યાત, કૃદ્ અને તદ્વિત ઉપર છે. પાટણની ટીપોમા એની શ્લોકસંખ્યા ૫૦૦૦ ની આપી છે.

C એનું અપર નામ “વ્યુત્તિદીપિકા” એવું છે. ડેક્કન કૉલેજના લિસ્ટમાં એના કર્તા ઉદયસૌભાગ્ય જણાવ્યા છે, અને ભાવનગરની ટીપમા લઘુહુલિકાની વૃત્તિને કરનારના નામમા તેમની નોંધ કરી છે, તે ઉપરથી એમ માલમ પડે છે કે ભાવનગરમા જણાવેલી લઘુહુલિકાવૃત્તિ અને આ ગ્રંથ એકજ હશે, છતાં ચોક્કસ સ્ત્રી માટે તેમની પ્રતો તપાસવી જોઈયે.

અમદાવાદના ચંચલવાઈની ટીપમા હર્ષકુલકૃત લઘુહુલિકા પત્ર ૧૧૩ ની છે એમ જણાવ્યું છે.

D હુલિકાને દીપિકા પણ કહેવાય છે.

E આ અવચૂરિ ચતુષ્ક વૃત્તિના ઉપર કરેલી છે.

F આ પ્રાકૃત વ્યાકરણ તે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસનનો આઠમો અધ્યાય છે.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	हैमञ्चतुषपादवृत्ति		हृदयसौभाग्य	१५९१	पा १
	„ उदाहरणवृत्ति	पत्र ६			पा १
	„ दोधकाथ	पत्र १३			पा १
	प्राकृतरूपसिद्धि A	१५००	मउ नरखद्र		वृ पा २-४ A S
	दीपिका				डेकन
	हैमव्याकरणदीपिका	६७५०	जिनसागर		डेकन
	„ उणादिवृत्ति B	३२५०	स्वोपह्व		वृ पा १-४ लीं मुद्रित
	„ „ लघुवृत्ति		„		पा १
	„ लिंगानुशासनवृत्ति C	३६८४	„		वृ लीं मुद्रित
	„ वृत्ति (बीजी)	१२११	जयानन्द		पा १-४
	„ अचचूरि	१०७५	रत्नशेखर		अ १
	„ दुर्गपदप्रबोध	१९५०	ज्ञानविमलशि ष्यवल्लभ	१६६१	पा ५
	हैमधातुपारायण	५६००	हैमचन्द्र		वृ सुलभ्य
	„ धातुपाठ (स्वरवर्णा मुक्कम १६)	७६०	पुण्यसुन्दर		A. S
	„ धातुपाठ	३२५			पा ३
	„ धातुवृत्ति	पत्र ३७६			भाव
	„ क्रियारत्नसमुच्चय (सद्योजक)	५७७८	शुणरत्न	१४६६	पा १-२-३-४ मु

A एना माटे वृहद्विष्णुनिकामा “ प्राकृतरूपविद्धिर्हैमप्राकृतवृहद्वृत्यवचूरिरूपा मल्घारि ५० नरचन्द्रकृता प्राकृतप्रबोधनाख्या १६०० ” आबी नोंध छे

B C उणादिनु मूळ तथा लिंगानुशासननु मूळ प्रथम नोंधेछु होयायी इहां नोंधुं नयी.

નંબર.	નામ	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
	હૈમસમાસતદ્ધિતસારપ્રકરણ				વૃ.
	„ સમાસપ્રકરણતથાકૃત્પત્યય	પત્ર ૫			પા. ૪
	„ વિભ્રમસૂત્ર	૨૧	શુણચંદ્ર		વૃ. પા. ૪
	વૃત્તિ	૧૯૬	જિનપ્રભ		પા. ૩
	ધ્વજચૂરિ	૬૦૦	શુણચંદ્ર		વૃ. પા. ૩-૪ સં.
	„ કારકસમુચ્ચય A		શ્રીપ્રભસૂરિ		વૃ.
	વૃત્તિ B		„	૧૨૮૦	વૃ.
	હૈમન્યાય	પત્ર ૩			પા. ૩
	હૈમવ્યાકરણસ્યન્યાય	૬૮			પા. ૪
	„ ન્યાયવૃત્તિ	૧૭૫			વૃ. પા. ૪
	„ લઘુન્યાયપ્રશસ્તિમવચૂરિ	પત્ર ૩૭	ઉદયચંદ્ર		અ. ૨
	ન્યાયમંજૂષાન્યાસ	૩૧૪૫	હેમહંસ	૧૫૧૫	પા. ૧-૩-૪ ભાવ કો.
	„ બલાવલસૂત્ર		હેમચંદ્ર		ડેક્કન.
	વૃત્તિ	પત્ર ૧૪	સ્વોપશ્ચ		ડેક્કન.

A એના ત્રણ અધિકાર છે. અને પ્રાથમિક શિક્ષનારને શીલના યોગ્ય છે.

આ વૃત્તિ બે અધિકાર ઉપર છે.

न	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नां स	क्या छे ?
	हेमकौमुदी A	पत्र ८७	मेघविजय	१७५८	भाव A H
	„ प्रक्रिया (घृहत्)	३५००			भाव
	„ प्रक्रिया	पत्र ७५	महेन्द्रसुतवीरसी		व १
	„ लघुप्रक्रिया	२५००	विनयविजय	१७१७	पा ३ प टि ६
	„ लघुचाद्र	७०			भाव
	हेमशब्दसचय	४२६	अमरचन्द्र		पा ३-४
	हेमप्रक्रियाशब्दसमुच्चय	१५००			खं

A एतु बीज नाम ' चद्रप्रभा ' एतु छे भावनगरनी टीपमा एने चद्रिका एवा नामथी ओळखावी छे

B आ सवत्नो अक पाटणनी टीप उपरथी इहा नोथो छे पण खयातनी टीपमा सदरहु प्रक्रिया स १७०१ मा रचार्हे छे एम जणाव्यु छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સ	ક્યાં છે ?
	હાસ ૨ જો. —•••••—				
	પરમતના વ્યાકરણ ગ્રંથો ઉપર જૈનાચાર્યોં કરેલા વ્યાખ્યા ગ્રંથો.				
૧	કલાપવ્યાકરણ A		કલાપકમુનિ		વૃ.
	„ ચતુઃકાણ્યાતકૃદ્વૃત્તિ	૧૦૦૦	દુર્ગસિંહ		વૃ.
	„ દીર્ગાસિંહીવૃત્તિ B	૪૦૦૦	પૃથ્વીચંદ્રસૂરિ		જેસલ.
	„ „ C	૮૦૦૦	રાજશેખરરાશી- પ્યમુનિશેખર		જેસલ.
	કૌમારસારસમુચ્ચય D	૩૧૦૦			વૃ.
	„ ઊનાદિવૃત્તિ E				વૃ
	„ આખ્યાતવૃત્તિ	૫૮૦૪	મોક્ષેશ્વર F		પા. ૧
	„ આખ્યાતકૃદ્વૃત્તિ	૪૬૦૫			પા. જેસલ.
	„ આખ્યાતકૃદ્વિવરણ G				વૃ.

A એનુ અપરનામ 'કાતંત્ર' એવું છે.

B આ વૃત્તિ જેસલમેરની ટીમમા હીરાલાલે નોંધી છે અને તે ત્રુટક છે એમ જણાવ્યું છે.

C આ વૃત્તિ તે કદાચ વૃહદ્દિષ્ટિપ્નિકામા જણાવેલું કાતંત્રકૃદ્વૃત્તિ ટિપ્પન હોય તો હોય, છતાં આ વૃત્તિ હીરાલાલના નોંધમા હોવાથી તેના કર્તાના નામ માટે શક રહે છે. આ વાવતની સ્તરી સ્વાત્રી જેસલમેરમાની પ્રત નજરે તપાસી જોવાથી થઈ શકે.

D વૃહદ્દિષ્ટિપ્નિકામા એના માટે નીચે મુજબ નોંધ છે:—

“ ઝક્તિક વૃત્તિત્રયોદ્ધારસૂત્રં કૌમારસારસમુચ્ચયઃ શ્લોકરૂપોવૃત્તિત્રયોદ્ધારસમગ્રહાત્મકઃ ૩૧૦૦ ”

E આ વૃત્તિ પાચ પાદની છે.

F આ નામ કોઈ દિગવર આચાર્યનુ હોય તેમ સંભવ છે.

G એના માટે વૃહદ્દિષ્ટિપ્નિકામા “પ્રમેયરત્નભાઙગારે વિષોપવિવરણં કલાપકાણ્યાતકૃદ્વિપયં” આવી નોંધ છે.

नंबर	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रच्य नो स.	क्या छे ?
	कळापनाम्नाख्यातवृत्ति A	६२५			घृ
	„ आख्यातावचुरि	पत्र ३६			घृ
	„ कव्वृत्तिदिप्पन	८०००			घृ
	कातत्रदीपिका	४०००	घोरभिहोपा ध्यायाशिष्यगातम		जेसल-ये
	„ विभ्रमवृत्ति B	५००	जिनप्रम		जेसल.
	„ सम्रम	ता २२५			जेसल-ये
	कातत्रदुगपदप्रथोध	३१६१	प्रथोधमूर्तिगणि		जेसल-ये
	कातत्रोत्तर C	७००	विजयानद		घ जेसल
२	सारस्वत वृत्ति D	७५००	चद्रकीर्ति		पा ३
	„ (वीजी)	१५७५	सहजकीर्ति		A ६
	„ (त्रीजी) E	पत्र ४१७	नयसुदर		अ १
	„ (चौथी)	२१५०	भानुचद्र		पा ५
	„ (पाचमी) F	१३०	दयारत्न		अजमेर
	„ दुडिका	४५००	मेघरत्न		रि ६
	„ सारदीपिकावृत्ति	२२००	यतीश G		भाडारपर
	सारस्वतमहण	३५००	महण H		जे नगीनदास

A आ वृत्ति लक्षण तथा कटलान पदसमूह रूपे छे

B विभ्रमवृत्ति अथवा वृत्ति हीरालले नोंधा छे

C एतु अपरनाम ' विजयानद ' एतु छे अथे ते समाय सुधी छे इराष्ट्रपतिनाकारे तेनु अपरनाम विजयानद एतु नोंथु छे ते भूए छे

D एने चद्रकीर्तिना नामथी विशेष ओळगवामा आवे छे

E आ वृत्तिनु वीजुं नाम ' रूपरत्नमाला ' एतु छे

F आ वृत्ति ' न्यापरत्नावली ' एवा नामे प्रारंभ छे

G आ यतीश ते बाण हता ते बाबत कह खुगळा नाणवामा आपणे नपी

H निटखने रासतना शेट नगीनदाठना महारनी दीर लेना पोताना रिपथमा कथानु नाम नोंपना भूए तापी छे पण नैधमेरनी दीरमा सारस्वत महणना करनार वादइमुत्त महण ब्यफु छे ते बरारर छे.

नंवर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
	ह्लास ३ जो. <hr/>				
	व्याकरणना परचूरण ग्रंथो.				
१	अंतर्गणदीपिका	पत्र ४२			अ. १
२	अन्वयदीपिका		देवदत्त		अ. २
३	अनिदूकारिकाविवरण	१००	क्षमामाणिक्य		A. S.
	"		हर्षकीर्ति	१६६३	ली.
४	उक्तिक	२००	जिनचंद्र A"		जेसल.
	"	४१५	सोमप्रभ		वृ. पा. ४
	" B	५५०	कुलमंडन	१४५०	पा ४ ली.
५	उक्तिरत्नाकर	६२५	साधुसुंदर		A. S.
६	उक्तिप्रत्यय	पत्र ३	धीरसुंदर		अ २
७	कविकल्पद्रुमवृत्ति	१७५४			भाव.
	अवचूरि		विजयविमल		पा. ३
८	कालिकान्यास	पत्र ५१	जिनैन्द्रबुद्धि		डे. पेज ८९
९	क्रियाकलाप	पत्र ४६	गुणसमुद्र		अ. २
	" (वीजो)	पत्र ५१	जिनदेव		अ. २
	" (त्रीजो)	पत्र ७	विजयानंद		अ. २

A आ नाम हीरालले नोंयु छे.

B आ उक्तिवु आखु नाम " मुग्धवोध औक्तिक " प्रबु छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे
१०	गणरत्नमहोदधि वृत्ति	४२००	वर्द्धमान ,,	११९७	वृ A S A S
११	त्यादिसमुच्चय				वृ
१२	धातुतरगिणी A	२०००	हृपकीर्ति		पा २अ १-२ डेकन
१३	धातुमजरी	१२००	सिद्धिचन्द्र		ली
१४	धातुरत्नाकर	२१००	खर, साधुसदर	१६८०	पा १-४-५
१५	पदव्यवस्था (कारिका) वृत्ति	३३००	विमलकीर्ति उदयकीर्ति		A S A S
१६	पादगणसप्रहगणविवेक	पत्र १८	नदिरत्नगणि		अ २
१७	प्राकृतव्याकरण चतुष्कव्यवहार	१२०० पत्र ९३	समतभद्र घनप्रभ		A S पा ३
१८	प्राकृतयुक्ति	पत्र ९	देवसुन्दर		अ २
१९	मिथिलगणनिणय	पत्र ११	कल्याणसूरि		अ १
२०	धाक्यप्रकाश वृत्ति वृत्ति (धांजी) वृत्ति (ध्रीजी)	१६० ७३३ पत्र ११ पत्र ३११	उदयधम हृपकुल रत्नसूरि	१५०७	ली डेकन पा ४-५ ली माव.. अ. २ अ २

A अमदावादनी बने टीपमा एने धातुपाठविवरण एवा सादा नामधीज नोंधी छे

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
२१	विभक्तिविचार	३५०	खर जिनपति		जेसल.
२२	शब्दरत्नाकर	१०००	साधुसुंदर		A. S.
	”	१२००			लीं.
२३	शब्दरूपावली	४३५			पा. ४
२४	शब्दसंख्या	पत्र १०२	विनयभूषण A		अ. १
२५	सिद्धांतचंद्रिका	६५०	ज्ञानतिलक		रि ६
	”		सदानंदि B		अ. १
२६	सिद्धांतरत्न	८००	जिनचंद्र		A. S.
२७	स्यादिशब्ददीपिका	१०५०	जयानंदसूरि		लीं.
२८	स्यादिसमुच्चय		अमरचंद्र		चू. पा. ३-४-५

A आ विनयभूषण सूरि तेमना नाम उपरथी कोई दिगवर आचार्य होय तेम लगे छे.

B अमदावादननी टीपमाथी आ सदानंदि जैन हता पटली हकीकत जाणवामा आवी छे. वार्कद्वि तेमना माटे कोइ विशेष पुरावो मळी शक्यो नथी.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	वर्ग २ जो *				
	शब्दकोशना ग्रथो.				
१	अनेकाथनाममाला (सशेष)	१८२६	हेमचंद्रसूरि		वृ पा १ सुलभ्य
	वृत्ति	६०३०	स्वोपन्न		पा ४
	वृत्ति A (बीजी)	१०६६०	हेमसरि शिष्य		वृ पा १-३
	वृत्ति (त्रीजी)	२०००	महेंद्रसूरि सिद्धिचंद्र		पा ५
	अनेकाथत्तिलक	९००	महीप B		जे डेफन
	अनेकार्थध्वनिमजरी	२६०			पा ३-४ A. S
	अनेकार्थमजरी	१४०			डेफन
	अनेकाथरत्नकोश	पत्र १५	अचलमच्छीय		अ १
२	अपवर्गनामामाला	२१५			ख
३	अभिधानचिंतामणिनाममाला †	१५९१	हेमाचार्य		वृ पा. १-२ मुद्रित
	वृत्ति	१०००	स्वोपन्न		वृ पा ३-४

*-आ वगमा जैनाचार्योए रचेल शब्दकोशना ग्रथाने एकत्रित करी अनुक्रमवार नोंघनामा आल्या छे

A सोमप्रभाचायकृत कुमारपाल प्रतिशोधने प्रथम वेळाए साभळनार आ महेंद्रसूरि छे, एट्ठे तथो विक्रम स० १२४१ मा विद्यमान ह्ता

‡ दशनाममाला, नेपथ्यममाला, निषट्टशेषेप अने शिल्लेंठ आ चोरे नाममालाओ आ नाममालाने रचती होनाथी अने अनादि अनुक्रमथा नोंघता ते छुटी यह जवाना भयथी खास करीने अभिधान चिंतामणिना पेडा भागमा दाखल करी छ

B आ वृत्तिनु नाम "स्युलभिरत्नाकर" एखु छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચ્યાનો સં	પૃથાં છે ?
	વૃત્તિ (બીજી) A	૧૮૦૦૦	દેવસાગર		A. S.
	સારોદ્ધાર	૧૦૦૦૦	સર. ધ્રીવલ્લભ	૧૬૬૭	પા. ૩-૪
	અવચૂરિ	૪૫૦૦			પા. ૩-૪
	(૧) દેશનામમાલા	૮૫૦	દેમાચાર્ય		વૃ પા. ૪
	વૃત્તિ (રત્નાવલી)	૩૫૦૦	"		વૃ પા. ૧-૨ સુલભ્ય.
	ઉદ્ધાર	૧૨૦૦	વિમલ		પા. ૪
	(૨) શેપનામમાલા	૨૨૫	દેમાચાર્ય		પા ૩-૪
	વૃત્તિ	પત્ર ૩૩			અ. ૨
	(૩) નિવંદુશેપ		દેમચંદ્ર		પિ રિ. ૫ મુદ્રિત
	(૪) શિલોલ્લનામમાલા	પત્ર ૪			પા. ૪ મુદ્રિત
	વૃત્તિ	૧૩૦૦	ધ્રીવલ્લભ	૧૬૫૪	પા. ૪-૫
૪	ડળાદિનામમાલા	૮૧૮	શુભશીલ		પા. ૫
	પકાક્ષરીનામમાલા	૧૩૨			A. S.
	"	પત્ર ૩	સુધાકલશમુનિ		અ. ૧
૫	ઔપધીનામમાલા	પત્ર ૪			અ. ૧
૬	ગુજરાતી સંસ્કૃત કોશ B	પત્ર ૯			ડેક્કન
૭	દ્વચક્ષરનામમાલા	પત્ર ૫			અ. ૧

A જેસલમેરની ટીપમા હીરાલાલે આ કોશના કરનાર સોમપુત્ર મહીપાલ છે એમ જણાવ્યું છે.

B આ કોશ ડેક્કન કૉલેજના લિસ્ટમાં નોંધાયો છે અને તેમાં આદિમા કારક વિચાર છે એમ જણાવ્યું છે.

नं०	नाम	श्लोक	कृत्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
८	धनजयनाममाला A	३२०	धनजय		पा ३
९	पद्मकोश	पत्र ९			जेसल-ये.
१०	पञ्चवर्गपरिहारनाममाला	१५८ B	सर जितमद्र		ख जेसल
११	पञ्चवर्गसंग्रहनाममाला	७००	शुभशील		रि ६
१२	पायलच्छीनाममाला	३६०	धनपाल		पा ३ A S.
१३	पारसीनाममाला C	६००	सलक्षमत्रि	१४२२	ख
१४	बीजनिघट्ट	२००			डेफन
१५	मानुचन्द्रवृत्तनाममाला	पत्र ११३	मानुचन्द्र		ख १
१६	मनोरथनाममाला	पत्र ४५			जेसल ये
१७	मातृकानिघट	<	महीदास		डेफन
१८	मिथिलिाकोश	पत्र ९	वज्रयाणसागर D		पा ३
१९	मुग्धमेधाकरालकार वृत्ति	पत्र ९			ख १
२०	रत्नमालामनेकार्थ	पत्र ४१			ख २
२१	रत्नकोशव्याख्या	५०		१७७६	हॉ
	रससार	पत्र ६९	गोविंदाचाय		ख २

A एते त्रिंशन्नाममाला पा कहे छ

B जेवनेली दीर्घा एता श्लोक ४०० छ एम नाम्मुं छे

C एउ अरराम " परिणाम " एउ छ

D भा कस्तूरकाण्वरि देवनागरी लिखा १९५० देव प्रविण्डर विजयचरित्र १४०९ मी १-३३ छ

નં.	નામ	શ્લોક	કર્તા.	રચનાનો સં	ક્યાં છે ?
૨૨	રુદ્રટાલંકાર વૃત્તિ	૩૯૫૦	નામિકાવિ		પા. ૧ મુદ્રિત.
૨૩	ટિપ્પન A	તાડ૪૬	શ્વેતામ્બરભિક્ષુ		જેસલ.
૨૪	રૂપકમંજરી B	૧૦૦	રૂપચંદ્ર		ડેક્કન જેસલ-બે.
૨૫	લિંગમેદનામમાલા વૃત્તિ		મહેશ્વર		A. S. A. S.
૨૬	લોકસંવ્યવહાર		રવિગુપ્ત C		નગીનદાસ.
૨૭	વક્રોક્તિ પંચાશિકા		રત્નાકર		A. S.
૨૮	વસ્તુકોશ	પ૩૮૦			ડેક્કન
૨૯	વસ્તુવિજ્ઞાન રત્નકોશ	પ૩૧૨			પા. ૩-૫ A. S.
૩૦	વાગ્મદાલંકાર D વૃત્તિ	૨૯૫૬	વાગ્મદ	૧૬૨૧	વૃ. પા. ૪ અ. ૧ પ્રો. મણિ
	વૃત્તિ	૧૪૦૦	જિનવર્દન		A. S.
	વૃત્તિ	૧૨૦૦	રાજહંસોપાધ્યાય		ડેક્કન.
	વૃત્તિ	પ૩૧૮	કુમુદચંદ્ર		અ. ૧
	વૃત્તિ	પ૩૧૮	વર્ધમાનસૂરિ		અ. ૧
	અવચૂરિ	૧૩૦૦	સિંહદેવ		પા. ૧-૩-૪

A આ ટિપ્પન જેસલમેરની ટીપમા નોધાયલુ હોવાથી ઇહા નોંધ્યુ છે પળ તે ટીપમા ગ્રથ રચનારનુ નામ શ્વેતામ્બર ભિક્ષુ ઇચુ સદિગ્ધજ આપેલુ છે, માટે શ્વેતામ્બરભિક્ષુ કોળ હતા અને તે ક્યારે થપ્લા છે તે જાણવુ માટે તે પ્રત ફરીથી તપાસવી જોઈયે.

B આ રૂપકમજરી નામમાલા ગોપાલના પુત્ર રૂપચંદે અકુદરના વલ્લભમાં સં. ૧૬૪૪મા રચી છે.

C ચદ્રપ્રભવિજય નામક કાવ્યનો ગ્રથ પળ આ રવિગુપ્તાચાર્યે રચ્યો હતો.

D ધના છ અધ્યાય છે.

न	नाम	श्लोक	कृत्ता	रुच्य नो स	क्या छे ?
३१	विश्वकोश	३०००	महेश्वर		A S
३२	विश्वलोचनकोश		दिगंबर		वि रि ५
३३	शब्दभेदनाममाला वृत्ति	३८००	ज्ञानचिमल	१६५४	पा ३ A S
३४	शब्दरत्नाकर	१०००	सुदरगणि A		A S
३५	शब्दसंदोहसमूह	ता ४७९			पा २
३६	शारदीयनाममाला	४५०	हर्षकीर्ति B		रि ६
३७	शेषनाममाला	पत्र ४१	साधुकीर्ति		डेकन
३८	शृंगारमडन		मडनमणि		पा १
३९	संगीतमडन		"		पा १

A भा नाम प्रसिद्धादि रीत्यापयोना रिपोटमापी मळ्यु छे पण सुदरगणि ते कोण हवा ते गवपी कणी हकीरत मळी गवती नया

B भा हर्षकीर्तिरे तपागच्छमां यएल छे.

नं.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यता नो सं	क्यां छे ?
	वर्ग ३ 'जो.				
	—०—				
	अलंकारना ग्रंथो. *				
१	अर्थालंकारवर्णन	पत्र ३९	नरेंद्रप्रभ A		अ २
२	अलंकारचूडामणि वृत्ति B (काव्यानुशासन)	२८००	हेमाचार्य		वृ. पा १-३ लॉ. मु.
	„ वृत्तिविवेक	४०००	„		वृ.
३	अलंकारतिलक C	११५२	वाग्भट्ट		डेकन.
४	अलंकारदर्पण (प्रा.)	१५०			जेसल-ये.
५	अलंकारमहोदधि वृत्ति	पत्र १३ ४५००	मल. नरेंद्रप्रभ „		अ. १ पा. ३
६	अलंकारमंडन		मंडन मंत्रि D		पा. १
७	अलंकारशेखर	१०००	माणिक्यचंद्र E (देव)		A. S. ५

* जैनाचार्यो ए रचेला अलंकारना तमाम ग्रंथोने एकत्रित करी अकारादि अनुक्रमवार आ वर्गमा दाखल कर्या छे.

A आ नरेंद्रप्रभसुरि मलभारि नरचंद्रसूरिना शिष्य हता. नरचंद्रसूरि विक्रमनी तेरमी सदीना वचगोले थएला छे एटले नरेंद्रप्रभसुरि तेरमी सदीना आखरमा थएला होवा जोइये. एमणे रचेला बीजा प्रथ अलंकारमहोदधि तथा काकुस्थकेली छे.

B एना माटे बृहत्सिद्धिस्तिकामा नीचे मुजव नोंघ छे:—

“ काव्यानुशासननामालंकारचूडामणिवृत्ति: श्रीहेमसूरिया ८ अध्याया २८०० | ४२०० ”

C आ अलंकारतिलक ते काव्यालंकारनी अलंकारतिलका नाम्नी वृत्ति तो नथी; ते माटे डेकन कॉलेजमानी प्रो. नजरे तपासी जोवानी जरूर छे.

D आ मंडनमंत्रि ए व्याकरण, काव्य, अलंकार तथा संगीत ए चारे विषय उपर एक एक ग्रंथ रच्यो छे.

E आ कर्ता ता नामना छे देव एवु पद जोडेल होवाथी प्राये आ आचार्य दिगवर होय तेम विशेष संभव थाय

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य ना स	क्या छे ?
८	अल्कारसग्रह	ता ३०६			पा २
९	अल्कारग्रथ	पत्र ५	भावदेव		अ २
१०	उन्नशालकारसारसग्रह	ता १४२			जेसल.
११	कदर्पचूडामणि	१८००	वीरभद्र A		डेकन
१२	कर्णालकारमजरी	७०	त्रिमल्ल		A S
१३	कविशिक्षा		विनयचन्द्र B		पा २
१४	कविशिक्षा (थीजी)	३००	जयमगलाचाय		नगीनदास
१५	कवितामदपरिहारवृत्ति	पत्र १			भाव
१६	कायानुशासन वृत्ति	१८००	घाग्मट्ट		अ २ A, S
१७	काव्याल्कार वृत्ति C	२१७४	घाग्मट्ट		A S
१८	कायान्नाय	पत्र २०	अमरचन्द्र		पा २-५
१९	कायकल्पलता D	५००			वृ पा ४

A आ वीरभद्र वाघेलाना वशमा थएला छे अने तेमणे आ ग्रथ स० १६३३ मा रच्यो छे, एम पिठसने पोताना रिपोरमा नोंध करी छे

B आ विनयचन्द्रसुरि बप्पमट्टिघरिना दिष्य हता, तेओ विनमनी नवमी सदाना आपरमा विद्यमान हता सदरहू ग्रथ पाठनना भडार नगर बाजामा ताडपन उपर लखेला मोचूद छे माटे तेनी नकल फरावी लेवानी जरूर छे

C आ वृत्ति " अल्पतिलका " एवा नामथी ओळखवामा आये छे

D एतु नाम " कविशिक्षा " एवु छे अरिषिंह तथा अमरचन्द्र ए बल सहाय्यायी होवा साथे परस्पर मिथ हता तेथी आ ग्रथ वने जणाए मळीने कर्षी हतो

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं	क्यां छे ?
	वृत्ति	३३५७	अमरचंद्रकवि A		वृ पा. १-२ सुलभ्य
	परिमल	११२२	"		वृ पा. ३-४
	विवेक B	१०००	विबुधमंदिरगणि	C	जेसल. वे
१०	काव्यप्रकाशसंकेत	३२१६	माणिक्यचंद्र	१२६६	वृ. पा. १-२ जेसल.
२१	काव्यमीमांसा D	१४०	राजशेखर		पा. १ जेसल.
२२	काव्यलक्षण	१००			जेसल-वे.
२३	नाट्यदर्पणसूत्र	३८	रामचंद्र-गुणचंद्र		पा. ३
२४	प्रकांतालंकार वृत्ति	भा. ३०५	जिनहर्षशिष्य		पा १.
२५	भाचछत्रांशी		जिनहंस		भाव.
२६	भाचशतक		नागराज		पा ४

A या अमरचंद्रसूरि जिनमी तेरमी सदीना आखरमां यएल छे कागण के, तेमना गुरु वायड-गच्छीय जिनदत्तसूरि मत्रि वरिचंद्रसूरि छे. मालना वखतमा सवत् १२७७ मा विद्यमान हता. शिवाग्र परमानंद-काव्यना करनार पण एज अ

B या ग्रथनु नाम जे डोपमां नोंबायुं छे पण कर्त्तानुं नाम फकत हीरालालनी चोक्रस निर्णय करवानी जरूर रहे छे.

C केटलीक डोपोमां जा संकेत रचायानो सवत् १२१६ जणाव्यो छे पण ते डीप करनाराओनी भूलथी नोंबायो छे एम माल पढे छे. कारण के आ माणिक्यचंद्रसूरि सागरचंद्रसूरिना शिष्य हता अने एमणे पार्श्वनाथचरित्र १२७६ मां रच्युं छे, ते मुजव आ संकेतनो रचनाकाल पण आ समन दरम्यान ज होवो जोह्ये ते परयो १२१६ नो सवत् तदन भूल भरेल्ये छे. एम चोक्रस निर्णय थाय छे. छता पंन्नास आणद नागरजीना जणवावा मुजन वादिदेवसूरिजीना शिष्य माणिक्यचंद्रसूरि थया छे अने तेमणे जो आ संकेत रच्यो होय तो सं. १२१६ रचनाकाल संमत्री शक्रे, कारण के वादि-देवसूरि सं. १२२६ सुधी विद्यमान हता.

D एनु अपरनाम ' कविरहस्य ' एलुं छे.

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रन्या नो स.	क्या छे ?
	वर्ग ४ थो *				
	छंद शास्त्रना ग्रथो				
१	आजितशातिछंदोविमरण	पत्र ३			पा ४
२	क्षेपक विग्जाहला	१७००			पा ४
३	गाथारत्नकोश A	७३			धृ
४	गाथारत्नाकर		(अपूर्ण)		पा ४
५	गाथालक्षण (प्रा)	१५०			पा. १-४
६	छंद कोश (प्रा)	गा १०	रत्नशेखर		अ २ A S
	धृत्ति	५७५	चंद्रकीर्ति		A S
७	छंदोनुशासन	२२५	हेमचंद्राचार्य		पा ४ अ. २
	धृत्ति B	२९९९	स्वोपज्ञ		पा १-२-४-५ अ २
	पयाय	१८३३			पा ४
८	छंदोरत्नामली		अमरचंद्रकवि		पा १
९	छंदरूपक	पत्र ७			अ. २

* आ वगैरा छंदना जे जे ग्रथो अमारा जाणवामा आख्या छे त ते अकारादि अनुक्रमवार नोंध्या छे

A एना माटे वृहट्टिप्पनिकामां "गाथारत्नकोश गाथालक्षणादिवाम्थ ७३" आवो नोंच छे

B एनु नाम "छंदश्रद्धामणि" एधु छे

क्र. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यो नो सं.	क्यां छे ?
१०	छंदःशेखर	ताड ८	जयशेखर		जेसल-वे.
११	जयदेवछंदःशास्त्रवृत्ति A टिप्पण		वर्द्धमान श्रीचंद्र		जेसल-वे. वृ.
१२	नंदिताढ्य वृत्ति	११६ ४२१	रत्नचंद्र B ”		पा ४ जेसल-वे. पा. ४ जेसल-वे.
१३	पिंगलसारोद्धार	५५९			पा ४
१४	वृत्तरत्नाकरवृत्ति	११००	सोमचंद्र	१३२९	पा. ३-४ A S.
१५	”		समयसुंदर		अ. १
१६	श्रुतबोधवृत्ति	३००	हर्षकीर्ति C		भाव.
१७	”		हसरराज		लीं. A. S.
१८	संगीतसहपिंगल				लीं.

A आ वृत्ति जेसलभेरनी वन्ने टीपोमा नोंघायेली छे वाकी क्या पण ऊपलब्ध थई नथी माटे ते उतारो करवा योग्य छे.

B आ रत्नचंद्रगणि मांडव्यपुरगच्छना देवान्चार्यना शिष्य हता. तेओए १०८ प्रकरणो रचनां हतां, तेथी तेमने प्रकरणस्थकारी एडु विरुद आपवामा आव्यु हतु.

C आ हर्षकीर्ति ते स्वमति छे के अन्ममति छे ते वावतनो चोकस निर्णय भावनगरना प्रतनो प्रशस्ति लेख तपासवाथी थई शके.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे?
	वर्ग ५ सो *				
	—••••—				
	काव्यना ग्रथो.				
१	ऋषभोद्घासकाव्य	पत्र ८			अ १
२	कविगुह्यकाव्य A		रविप्रभ		जेसल
	वृत्ति		"		जेसल
३	कुमारविहारप्रशस्तिकाव्य	८७	हेमशिष्यवर्धमान		A S.
४	गुरुगुणरत्नाकरकाव्य B	८००	सोमचारित्रगणि		डेकन
५	चन्द्रदूत काव्य	का २३	जनुकवि C		पा १ जे A H.
६	चन्द्रलेखाविजयप्रकरण	२२००	हेमखरिगुरुदेवचन्द्र		जेसल-वे
७	चपूमडन(द्वैपदीकथामय)		मडनकवि D		पा १

* आ वर्गमा ब्रेतार ने दिगजर जैना ग्रथोए रचेल काव्यना ग्रथो अश्वराजकमवार नोंध्या छे, उपरात आ वगना झास बीजामा अन्यमतिए करेला काव्य ग्रथो उपर जैनाचार्याए रचेली ब्यारवाळा ग्रथो नोंध्या छे

A आ काव्य तेनी टीका साथे जेसलभेरी टीपमा हारालले नोंध्यु छे

B एनु अपरनाम " सोमचरित्र " एखु छे

C जेसलभेरी टीपमा हसविजयजी महाराजे आ काव्यना फरार जंबूनाग कवि जणाव्या छे त्यारे हीरालले एना कर्ता चन्द्रकीर्ति नोंध्या छे, ते चौकस भूल छे, पण हीरालले आवा लोना नाम सा कारणभी एरया इस ते कल्पनातीत थर पद्यु छे

D आ मडनकवि स्वमति छे के कोइ अन्य छे ते रात कोइ चौकस पुरयो जाणनाम आयो नथी

नंबर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यानो सं.	क्यां छे ?
८	जयंतकाव्य	२२२०	अभयदेवसूरि A	१२७८	पा. १-४-५ मुद्रित.
९	जैनकुमारसंभव वृत्ति	१२२६ पत्र ५२	जयशेखर धर्मशेखर		पा. ४-५ मुद्रित. डेकन.
१०	जैन मेघदूत वृत्ति	४१८	मेरुतुंग		K. K. K. K.
११	तिलकमंजरी टिप्पणक " सारोद्धार	८७१३ १०५० १२२३	धनपालकवि शांत्याचार्य B (पूर्णतल्लीय) (लघु) धनपाल		पा. १-५ मुद्रित. वृ. पा. ५ वृ. पा. १-३
१२	त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र काव्य C	३४०००	हेमचंद्र		सुलभ्य. मुद्रित.
१३	द्व्याश्रय (सं.) वृत्ति D	२८२८ १७५७४	हेमाचार्य अभयतिलक	१३३२	पा. १-२-३-४ वृ. पा. १-२-४

A आ अभयदेवसूरिने केटलीक टीपोमा प्रभाचंद्रना शिष्य जणाव्या छे त्यारे पिटर्सने पोताना चोथा रिपोर्टमा तेओ विजयचंद्र सूरिना शिष्य हता एम जणाव्युं छे. प्रशस्ति उपरथी तपास करता पण चोकस पुरावो मळी शकतो नथी. अमारा धारवा मुजव आ अभय देवसूरि सं. १२०४ मा रुद्रपल्लीय खरतर शाखाना स्थापक रत्नशेखर सूरिना त्रीजे पाटे थएला होबा जोइये अगर रत्नशेखर सूरिना त्रीजा शिष्य होय तो तेम पण होय.

B वृहत् टिप्पणिकामां आ शांत्याचार्य कोइ सांख्याचार्य हता एम जणाव्यु छे.

C त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र एक लघु छे ते वीकानेर जोवामा आव्यु छे. मागधीमा पण आ नामनु चरित्र छे. तथा एक चोपनशलाकापुरुषचरित्र मुनिराजश्री हसविजयजी पासे छे. एरू भावनगरना शेठ कुवरजीमाई जणावे छे.

D आ वृत्ति अष्टावीस पादवाळी छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कत्ता	रच्या नोंद	क्या छे?
	द्याक्षय (प्रा)	१५००	हेमाचार्य		भाव मुद्रित
	वृत्ति	पत्र ८१	,, A		A H राघण
	वृत्ति (चीजी)	४२३०	खर पूर्णकलश	१३०७	वृ मुद्रित
१४	द्विसघान (राघवपाडवीय)		घनजय (दिग)		पा १-३
१५	धमाभ्युदय काय B	५०४०	उदयप्रभ		वृ पा २-३
१६	धमशर्माभ्युदय		दिग हरिचंद्र		पा २-४ मुद्रित
१७	नरनारायणानंदकाव्य	१६००	मत्रि, वस्तुपाल		वृ पा ४ डेकन
१८	नलायन महाकाव्य	४७२४	माणिक्यसूरी		kot
१९	नलोदयकाव्य	२५०	रविदेव		डेकन
२०	नाभेयनेमिद्विसघान		हेमचंद्र		पा १
२१	नेमिदूत	का १३६	सागणसुत विक्रम		लों
२२	नेमिनिर्घाण (सर्ग १५)	१४००	षाग्भट		वृ पा १ मुद्रित
२३	नेमिचरित्र महाकाय C		सूराचार्य	१०९०	वृ
	टिप्पणक	१४०			वृ
२४	पद्मानंदकाय	१८१९	अमरचंद्रकावि		वृ पा १ सुलभ्य
	वृत्ति	६२८१			पा ४

A राघणपुरांनी दीपमा आ वृत्ति जिनेश्वरींथ लक्ष्मीतिलने करी छे एम नोंधु छे माटे राघण पुरांना महारामानी प्रत तपाशी नकी करवु जोइये

B आ धमाभ्युदयकाव्य वस्तुपालचरित वाच्य छे

C सदरहू चरित तेना टिप्पण साथे वृहत् टिप्पणिकांमा नोंधु छे पण हजी सुधी अमोने ते क्या पण उपलब्ध यथु यथी

नं.बर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यानो सं.	क्यां छे?
२५	पाणिनीयद्वयाश्रय काव्य	१८०	विजयरत्न शिष्य		A. S.
२६	वालभारत (चपू)	६७७४	अमरचंद्र		वृ. पा. ४-५ मुद्रित.
	„ (अंक २)	५००	राजशेखर		A. S.
२७	भावनामृतमहाकाव्य A	१४००			रि ६
२८	मनोदूत B	३००			पा ५
२९	मेघदूत		(मंत्रि) विक्रम		अजमेर.
३०	यज्ञस्तिलक (चंपू) C		सोमदेव (दिगं)	१०१६	A. S. मुद्रित.
	पंजिका		श्रीदेव		A. S.
३१	यज्ञोधर काव्य		दिगं. माणिक्यसूरि		पा. ३
३२	राघवपांडवीय		दिगं. नेमिचंद्र		डेकन. मुद्रित.
३३	रायमल्लाम्युदय		दिगं. पद्मसुंदर	१६१५	मुद्रित.
३४	लीलावतीसारकथा	५०००	(जैन)		जेसल.
३५	वस्तुपालकाव्य D	१६००	वालचंद्र		पा. १
३६	वासवदत्ता	पत्र १२	सुर्यधुकवि		भाव. मुद्रित.
	वृत्ति	३२००	सिद्धिचंद्र		A. S.

A, B आ वने काव्यो जैनार्थे रच्यां छे के ते कोइ अन्यमीतनाज करेला छे ते वावतनी ख.त्री तेनी प्रती नजरे जोवायी थई शके.

C एनु अपरनाम “ यज्ञोधरकाव्य ” छे. आ काव्य श्रुतसागरसूक्तित टीका सहित बे भागमा छपायेल छे.

D एनु वीनु नाम “ वसतविलास ” एवुं छे.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
३७	विजयमाकाशमुदय	२५००	विल्हण		वृ पा १ जेसल
३८	विजयप्रशस्तिकाव्य वृत्ति	३०४० १००००	घल्लमगणि गुणविजय	१६८	पा ४ डे प्रो मणि पा ४
३९	विल्हणचरित्र	१५०	विल्हण		A S
४०	शशाकसकीर्तन A	ताड १६६			पा ०
४१	शालिचरित्रकाव्य	१२२४	प धमकुमार	१३३४	वृ मुद्रित
४२	शीलदूतकाव्य		सुदरगणि		डेकन सुलभ्य,
४३	सुदृतसकीर्तन काव्य	९७६	अरिसिंह		पा. ५ डेकन
४४	सुवृत्तिलक B	३००	शेमेंद्र		A S
४५	सोमसौभाग्य	१२३०	प्रतिष्ठामोम	१५५४	पा ४-५ मुद्रित
४६	हरिविक्रमकाव्य वृत्ति	१२०९३	भाग. जयतिलक रुनोपश	१४३०	पा ४-५ मुद्रित पा ४-५
४७	हीरविलासकाव्य	पत्र १३			श १
४८	हीरसौभाग्यकाव्य वृत्ति	२३३ ९७८५	पक्षसागरगणि देवविमल		पा ३-४, मुद्रित पा ५ A S मुद्रित

A सदरहू प्रथ पत्त पाठणना भहार नर राजामा नोधला छे राजा क्या पण उपलब्ध यया नथ माटे तेना कता कोण छे तेनी खानी रुपि नकल उतापी लेवानी जरूर छ

B आ शेमेंद्र ते कोण हुता ते वाबतनो चोकर निणय एषियाटिक सोसायटीना समरहमानी प्रत नजर तपासवाधी यह शके

नं.बर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं	क्यां छे ?
	क्यास बीजो				
	—o—				
	अन्यमतीए करेला काव्य ग्रंथो उपर जैनाचार्योए रचेला व्याख्यावाला ग्रंथो.				
१	कादंबरी टीका		सिद्धिचंद्र		डे. मुद्रित.
२	कादंबरी दर्पण		मंडण मंत्रि		पा. १
३	किराताजुंनवृत्ति	७५००	विनयसुंदर		भांडारकर.
४	किराताजुंनयदीपिका	पत्र २०२	धर्मविजय		अ. १
५	कुमारसंभववृत्ति	पत्र ८०	विजयगणि		अ. २
६	खंडप्रशस्ति वृत्ति	पत्र ४६	विजयगणि A		डेकन
	” वृत्ति	पत्र ४१	गुणविजय		अ. २
	” वृत्ति (त्रीजी)	पत्र २१			पा. ४
७	घटखर्परवृत्ति		शांतिखुरि		जेसल.
८	दमयंती चंपू वृत्ति	१०००	प्रबोधमाणिक्य		पा. १-२-३-४
	” चंपू वृत्ति	८८००	गुणविजयगणि		पा. ३ A. S.
	टिप्पन	१९००	चंडपाल		वृ. पा. १- जेसल.

A आ नाम काइक अपूर्ण लगे छे. तेनुं खर नाम शुं छे ते जाणवा माटे डेकनकॉलेजवाळी
प्रत नजरे तपासवानी जरूर छे.

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता	रच्य नो स.	क्या छे ?
९	नलोदय टीका	१४००	आदित्यसूरि		स
१०	मट्टिकाव्य टीका		जयमगलाचाय		डे मुद्रित
११	माघकाव्यवृत्ति वृत्ति	१००००	वल्लभदेव A चारित्र्यधर्मेन		पृ पा २-३ A. S. डेकन
१२	मेघदूतवृत्ति	११५०	क्षेमहस्त B		A S
	„ बालापयोध वृत्ति	१४४४	महीमेघ		पा ४
	„ भाष्य	पत्र ३९			अ २
	„ अक्षरि	१५००	सुमतिविजय		A. S
१३	रघुवचवृत्ति		गुणविजय		भाव अ २
	„ वृत्ति (बीजी)		सुमतिविजय		A S
	„ वृत्ति (त्रीजी)		धर्ममेघ		स
	„ वृत्ति (चोयी)	पत्र १४५	समयसुन्दर		अ १
१४	राक्षसकाव्यवृत्ति		शातिसूरि		जेसल
१५	विषमकाव्यवृत्ति C	पत्र ७			पृ पा ४
१६	चूदायनटीका		शातिसूरि		जेसल-वे
१७	शिष्यमठटीका		„		जेसल-वे
१८	शिंपुपालवधटीका		चारित्र्यधर्मेन		डेकन

A, B आ निगलानाळा बरे आचार्यो माग् तेमना नाम उपरथा गळ रहे छ

C एक विषमकाव्यवृत्ति श्लोक ६७७४ ना जणारी छ एण ते कर्ता एण उपर छ एण
नधी पाठपत्रां पत्र सान्नी जणारी छ एण एण वज्रपु नाम विग्नेर विरोध मादिनी आगेनी जणाना तथा
जे ते बेणे रोला छ तथा ते धरपे विरोध इकीकठ पु छे ते आगवा माग् पाठपत्रा भशारमानी प्र
नर्यायी तथागवानी आगत छ

नंबर.	नाम	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य- नो स.	क्यां छे ?
	वर्ग ६ द्वो.				
	नाटकना ग्रंथो.				
१	अनर्घ्यराघव A	३३५५	जिनहर्ष		पा. ४
	„ टिप्पन	२४५०	नरचंद्रसूरि		वृ. पा १ जेसल-वे.
	„ टिप्पन	७५००	देवप्रभसूरि		वृ.
२	कर्पूरचरित्र (सं.)	पत्र २८	वत्सराज		अ. १ प्रो. मणि.
३	कर्पूरमंजरी टीका	१३८९	राजशेखर		पा. ४ मुद्रित.
	„ लघुटीका B		प्रेमराज		पा. १ डेकन.
४	करुणावज्रायुधनाटक	४८०	वालचंद्र-		अ. २
५	कुमुदचंद्रनाटक	५३५	यशश्चंद्रगणि		पा. १ लॉ. डे. मुद्रित.
६	कौमुदीनाटक		रामचंद्रगणि		पा. १
७	चंद्रलेखाविजयनाटक				वृ पा. १
८	ज्ञानचंद्रोयनाटक	७४६	पद्मसुंदर		पा. ५
९	ज्ञानसूर्योदयनाटक	८००	दिग. वादिचंद्र		A. S.
१०	धर्माभ्युदनाटक		मेघप्रभ		पि रि. ५
११	नलविलासनाटक		रामचंद्र		वृ.

A अनर्घ्यराघवने सुरारि नाटक एवा नामर्थी विशेष ओळखवामा आवे छे.

B डेकन कॉलेजना लीस्टभा एनी भाष्य तरीके नोध करी छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
१२	नागानन्दनाटक		हर्षदेव		पा १
१३	निर्मयमीमनाटक	१९६	रामचन्द्रगणि		पा १-४ ख
१४	प्रबधरोहिणेय	२६१	"		वृ पा १-४
१५	प्रबोधचन्द्रोदयवृत्ति	ता. ५६	रत्नशेखर		पा २
	" वृत्ति (बीजी)	२९६२	कामदास A		डेकन
१६	मानमुद्रामजननाटक B	१८००	देवचन्द्रगणि		वृ
१७	मोहपराजयनाटक C	१७००	यश पालमत्रि		वृ नगीनदास,
१८	रघुविलापनाटक D	पत्र ११८	रामचन्द्र		पि रि ५ डे
१९	रत्नावलीनाटिका	९००	हर्षदेव		वृ पा १-४ सुद्रित
२०	रत्नावलिस्थप्राकृत व्याख्या	३००			A S
२१	रभामजरी		नयचन्द्र		A ६ सुद्रित
	टिप्पण	५००	"		A, S
२२	राजीमत्रीनाटक	२६४	यशश्चन्द्र		पा ४

A आ कामदास ते कोण हता ते जाणवा माटे डेकन कॉलेजनी प्रत नजरे तपाशी जोवानी जरूर रहे छे

B एना माटे वृहटिप्पिकांमा " मानमुद्रामजननाटक सनत्कुमारचन्द्रिविलासवतीसबधप्रतिबद्ध देवचन्द्रगणिकृत १८००" आगे नोंध छे पण ते अमोने अत्वार सुधी क्या पण उपलब्ध थयु नथी

C वृहटिप्पिकांमा एना माटे " मोहपराजयनाटक स यश पालकृत श्रीकुमारपालनृपप्रतिबद्ध मापोंतरंगराथ्य १३२० ' आगे नोंध छे

D सदरहू नाटकनो प्रथ डेकन कॉलेजना समहालयमा छे तेनी सादा कागळ उपर नकल करेली छे, अने जोके त्या पण तेनी प्रातनो थोडोका माग अपूर्ण छे छता ते जरूर नकल करावया लायक छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૨૩	રામનાટક				જેસલ.
૨૪	રાઘવાશ્યુદયનાટક (ભં.૧૦)		રામચંદ્ર		ઘૃ.
૨૫	વનમાલા નાટિકા		પં. અમરચંદ્ર A		ઘૃ.
૨૬	વિદ્ધશાલભંજિકાનાટક	૧૦૦૦	રાજશેખર		ડેકન.
૨૭	શ્રીપાલનાટકગત રસવતી વર્ણન	૩૫૦	ધર્મસુંદર B	૧૫૩૧	શં.
૨૮	હમ્મીરમર્દન	૯૦૦	જયસિંહસૂરિ C		પા. ૧ જેસલ.

A આ અમરચંદ્ર વચ્ચે અન્યમતિ હોય તો પણ હોય.

B આ ધર્મસુંદરસૂરિનું અપરનામ સિદ્ધસૂરિ એવું હતું.

C જેસલમેરની ટીપમાં હમ્મીરમર્દન નાટકના કર્તા હીરાલાલે નરચંદ્રસૂરિ છે એમ જણાવ્યું છે પણ તે સપ્રમાણ માનવાને તેવો પુરાવો મળવો મુશ્કેલ છે.

नं०	नाम	श्लोक	कर्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	वर्ग ७ मो.*				
	—→—				
	नीतिना ग्रथो.				
१	अर्हप्रति	१४००	हेमाचार्थ A		पा ५ मुद्रित
२	चतुर्गसग्रह	पत्र १५	क्षेमेंद्र B		A S
३	चारुचर्याशतक	१००	”		A S
४	जिनसहिता	४००	दिग (अपुण)		A S
५	नीतिकल्पतरु	११०	क्षेमेंद्र C		डेकन
६	नीतिवाक्यामृत D	९५	सोमदेवसूरि		पा १-२ डे
७	नीतिसार	१३०	इद्रनधि		A S
८	प्रस्तावरत्नाकर	१७५	हरीदास D		भाडारकर
९	रत्नकोश	२५०			जेसल-वे
१	राजनीति (मा)	४५०	देवीदास E		डेकन

* आ यगमा नीतिने लगता ग्रथो अकारदि अनुक्रमभार नोंध्या छे आपणा पूर्वाचार्योए स्वेल् ग्रथो पैकी नीतिना ग्रथो बहुत थोडा गण्था गाल्यान मली आया छे

A अर्हप्रतिमा जगाने गी फेटलीइ वातेना एरण उपरपी कता माटे रासा रहे छे

B, C आ बने क्षेमेंद्र स्व छे के अन्य छे तेना माटे एक राखी पट छे

D, E हरीदास तथा देवीदास ते थोद दिगबर हता के अन्य हता तेना माटे पण राख्य राखी पट छे

क्र. सं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्यो- नो सं.	क्यां छे ?
	वर्ग ८ मो.				
	सुभाषितना ग्रंथो.				
१	अन्योक्तिमुक्तावली	६४०	हंसविजय		कोडाय.
२	गाथाकोश	३८४	मुनिचंद्र		A. H.
	गाथाकोश A (बीजो)	गा. ७२			लीं.
	” उच्चार	३३१			पा. ४
३	गाथासप्तशती		शातवाहन B		वृ.
	वृत्ति		आजड C		वृ.
	वृत्ति (बीजी)		जबहणदेव D		वृ.
	वृत्ति (त्रीजी)	३१००	प्रेमराज E		डे.
	वृत्ति (चौथी)	३५००	भुवनपाल F		डे.
४	गाथारत्नकोश G	७००			खं.
५	दानादि प्रकरण H	पत्र ३४	सूराचार्य		वृ.
६	पुराणहुंडी	३००			पा. ३ ली.

A एमा कलिकालनुं स्वरूप छे.

B C, D, E, F आ पाचे कर्ताओना नाम अन्यमति जेवा लागे छे. ते बाबतनी चोकर खानी तेनी प्रतो नजरे जोवाथी थईं शके.

G जुदा जुदा अडतालीश विषयोपर गाथामा रचायलो छे.

H एमा माटे बृहट्टिप्पनिकामा “ दानादिप्रकरण सं. सूराचार्यकृतं सप्तावसरं काव्यादिषुष पत्र ३४ ” आवो नोध छे. पण ते अमोने हजी सुधी क्या पण उपलब्ध थयो नथी.

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य ना स	क्या छे ?
७	प्रस्ताविक श्लोक	७००			A S
८	मव्यकुमुदचद्रिका टीका	३६००	(दिगं)		A. S
९	मौक्तिक	पत्र ६			पा ३.
१०	रत्नकोश A	गा ४२१			ख
११	रसालय (प्रा)	पत्र ९			पा ३
१२	रसाडलो (प्रा)	पत्र ११	मुनिचद्र		राधणपुर
१३	विजाहलवृत्ति		रत्नदेव	१३९३	माडारकर
१४	विद्यालय (प्रा)	३३००			पा १-३-४-५
	वृत्ति	पत्र ८०	धमचद्र		अ १
	उद्धार				पा ४
१५	सद्भाषितावली	४८०	(दिग)		A S.
१६	साहित्यश्लोक B (प्रा)	गा १७६			पि रि ५
१७	सुभाषित (प्रा)	गा ४०			नगीनदास
१८	सुभाषिताणव	१२००	दिग		A. S
१९	सुभाषितसार उद्धार	३३१			पा ४
२०	सुभाषितसमुद्र		धर्मकुमार		घृ

A एमा उपयोगी गाथाओ छे आ रत्नकोश तथा उपर जणानेण गाथाएरत्नकोशना श्लोक मळताम छे तेथी ते जुदा जुदा छे के बन्ने एकर छे ते बाबत तेनी प्रतो मेळना नवी करुं जोरथे

B एणु भादिकरण " इह ते जयति करणी " एणु छे

क्र. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्य- नो सं	क्यां छे!
२१	सुभाषितकोश		रामचंद्र A		वृ.
२२	सुभाषितावली		सोमेश्वरदेव		डेकन.
२३	सुभाषितरत्नसंदोह	पत्र ८३	अमितगति (दिगं)		डेकन. मुद्रित.
२४	सुभाषित रत्नावली	४८०	सकलकीर्ति B		A. S.
२५	सुभाषित परिशिष्टिका				अ. १
	अवचूरि	पत्र ४			अ. १.
२६	सूक्तावली	पत्र १५			वृ. पा. ३-४
	सूक्तावली (बीजी)	६००	दिगं.		A. S.
२७	सूक्तिमुक्तावली	२३३२			पा. ४
	सूक्तिमुक्तावली (बीजी)	१९००	जल्हण		A. S.
	सूक्तिमुक्तावली (त्रीजी)		मेघप्रभ		पि रि. ५
२८	सूक्तरत्नाकर	४२४०	रत्नसिंह		पा. २
	सूक्तरत्नाकर (बीजी)		धर्मकुमार		वृ.
	सूक्तरत्नाकर (त्रीजी)		माघसिंह (वि- द्यासिंहसुत)		A. S.
२९	सूक्तिसंग्रह	१०४०	दिग. आसाधर		A. S.
३०	स्मृतिपुराणश्लोक	१०००			पा ४.

A आ रामचंद्रसूरि ते हेमचंद्रसूरि शिष्य तेज होवा जोइये.

B आ सकलकीर्ति दिगवराचार्य होवानो संभव छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
<p>वर्ग ९ मो</p> <p>←○→</p> <p>पदतिदर्शक ग्रंथो.</p>					
१	अष्टलक्ष्मी A	१२४५	समयसुंदर	१७४६	पा ५.
२	उपाश्रयादिबर्णन	पत्र ४			अ २.
३	गोश्रोद्धार (शतार्थवृत्ति)	पत्र ५१			अ १
४	चातुर्मासी व्याख्यान	५०.	धर्ममंदिर	१७४९	पा ३
५	चातुर्मीमूत्र	१२३			पा ४.
६	नरसंबादसुंदर B	पत्र १०			डे पेज ११५
७	पत्रपरीक्षा	पत्र ९			अ २
८	घर्जनसागर (प्रा)	पत्र ६४			डेफन
९	विभ्रतिपत्री	१४२	मेरुधिजय		पा ५.
१०	विद्वद्गोपी	पत्र १			पा ४
११	विद्वज्जनालाप	पत्र ८			अ २

A एउ अरनाम " अपरत्नावली " एवुं छे

B डेफन कौत्रिना िरदमा आ रीते तेनी नौप कपी छे, एन अमारा भारवा मुजब देनु नाम,
" नरसंबादसुंदर " ह्यो

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
१२	व्यवहारलेख्यपद्धति(तत्त्वासन)	पत्र २			अ. २.
१३	व्याख्यानकथनपद्धति.	१७५			लीं.
१४	शतार्थी	१००१	उदयधर्मगणि	१६०६	पा. ३-५.
	विवरण A	१५००	मानसागर		पा. ५ लीं. खं.
१५	शुकदेवसंवाद				पा. ३.
१६	संवादसुंदर	३३३	समयसुंदर		पा. ३-४ अ. २.
१७	सभाशृंगार	पत्र ११			पा. ३.

A एतु आदिचरण " परिग्रहारंभमज्ञा " एतु छे.

लीस्ट नंबर ९

जैन विज्ञान.

नं०	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
	वर्ग १ लो.				
	ज्योतिष्ना ग्रंथो.				
१	अर्थकांड अर्थकांड (बीजं)	६००	देवेंद्रसूरि शिष्य हेमप्रभसूरि A दुर्गदेव		A. S. नगीनदास.
२	अष्टांगहृदयसंहिता	पत्र ३३९	षागभट		A. S.
३	आयज्ञानतिलकवृत्ति	१८००	दिगं. दामनंदि शिष्य		A. S.
४	आयप्रश्न	७०			वृ.
५	आयसद्भाव वृत्ति	१९५ १६००			वृ. वृ.
६	आरंभसिद्धि वृत्ति	४६० ५८९३	उदयप्रभ हेमहंस	१५१४	पा. ३ पा. ३. ५.
७	गणिततिलकवृत्ति		सिद्धतिलक		वृ.
८	चंद्ररज्जुचक्रविवरण	२६०			पा. ४.
९	जन्मकुंडलीविचार				पा. १.

A एसियाटिक सोसायटीना रिपोर्टमां आ हेमप्रभसूरिना गुरुनुं नाम देवेंद्रसूरि जणान्युं छे पण अमार धारवा मुजव वि. सं. १३२७ मां चैत्यवंदननी संघाचार नाम्री वृत्तिना करनार धर्मधोषसूरि यया अने तेमना शिष्य हेमप्रभसूरि हता तेओएज आ अग्रं रच्यो होवो जोइये अने रिपोर्टकारे गुरुनुं नाम नोधता भूलथी दादागुरुनु नाम नोधुं होय तेम जणाय छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्ता	रच्य नो सं	क्या छे ?
१०	जन्मपत्रीविचार				पा १
११	जन्मपत्रीपद्धति A	४४००	अश्विचंद्र		जे डेकन
१२	जन्ममोधि (बेडा) वृत्ति	८३	नरचंद्र "		डेकन डेकन
१३	जातकामिधान	१३००	सिंहमंडु B		A. B.
१४	जातकदीपिका घृष्टि	३१०	हर्षावबब "	१७६५	ख ख.
१५	जातकपद्धति	पत्र ८	(जैनी)		अ १
१६	ज्योतिष C	ताद २९२			पा २
१७	ज्योतिषचक्रविधार (भा)		विनयकुशल		पा ३
१८	ज्योतिषसारसमह				पा. ३ भाष
१९	ताजिकसारवृत्ति	५४०	सुमतिहर्ष		लॉ A. S
२०	तिष्यादिसारणी				पा ३
२१	ब्राह्मणमाषजन्मपत्रीप	पत्र ८	मद्रयाहु		अ. १

A जेठलमेरनी दीपमां हीयगले एना श्लोक २५०० नोंपेने एना कता हयकीतिषरि नाग्या छे
मा पापवतो निगष जेठलमेरवाली प्रत नअरे तपाठयापी थइ शके

B आ सिंहमंडु छे कोइ दिगवर होय तेम तेमना नाम उतररथी अठकळ करी गकाय छे

C आ ज्योतिष ते छे छे ते बावत पागानो भेकार नवर बीजावाळी प्रत कथी तपाठाने नवी
करपाउ छे

नं.बर.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्या- नो सं.	क्यां छे?
२२	नरपतिजयचर्या	४८००			वृ. भाव. A. S.
२३	नवग्रहराशिविचार	१९६			पा. ३.
२४	नारचंद्र	७९९	नरचंद्र		पा. १-४-५
	टिप्पण	१३३५	सागरचंद्र		पा. १-३-४
२५	निधानादिपरीक्षाशास्त्र A	पत्र ३			अ. १.
२६	पंचांगतिथिविवरण B	१९०			वृ.
२७	प्रश्नप्रकाश C	३६०	नरचंद्रसूरि		वृ.
२८	प्रश्नशत	२००	नरचंद्र.		डेकन.
२९	फत्तेशाहप्रकाश	६००			भांडारकर.
३०	भद्रबाहुसंहिता *		भद्रबाहु		पा. ४
३१	भावसागर	३३००			A. S.
३२	भुवनदीपक	२६०	पद्मप्रभ		वृ.
	हुंडिका	५००			पा. १-३ लीं.
	अवचूरि	२३९			पा. १
	वृत्ति	१७००	सिंहतिलक		वृ. अ. १ राघण.
	वृत्ति (वीजी)		हेमतिलक		अ. १

A एतुं अपरनाम " अहिचक्र " एतुं छे.

B एना माटे वृहट्टिप्पनिकामां " पचाङ्गतिथिविवरणं करणशोपवृत्तिनामकं १९० " आवो नोंघ छे.

C एना वीश प्रकाश छे.

* आ भद्रबाहुसंहिता नानी मोटी वे देखवामां आवे छे. तेमां नानीनु भापातर छपायु छे. एना कर्त्ता भद्रबाहु ते चौदपूर्वी होवानो वर्णी रीते सभव यतो नथी.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
३३	मणितथाताजिक	१२१	(कोईजैन)		डेकन
३४	मडलपद्धती	४८६	हेमप्रभ		पा ३
३५	यत्रराज	६००			A. S
३६	यत्रराजागम	३७०	महेंद्रसूरि		पा ४ A S
	घृत्ति	१३३३	मलयचन्द्र		पा ४
३७	यत्रराजरचनावकार A		सधाइ जयसिंह		A S
३८	यत्ररत्नावली		पद्मनाग		A S
	घृत्ति		स्वोपह		A S
३९	योगायोगप्रकरण	पत्र ७			अ १
४०	रत्नकोप				धृ
४१	रत्नदीपक B	पत्र ६			लीं
४२	लघुशुद्धि C		हरिमद्रसूरि		पा ३
४३	वराहसहिता		वराहमिहिर		वृ पा २
	घृत्ति	४००			वृ पा २
४४	व्यवहारप्रकार				भाव.

A एने " जयसिंहकारिका " पण कहे छे

B एना भारमावपर फलादेश छे

C उदरहू ग्रय पूर्वे हरिमद्रघरिकृत ग्रथोना वर्गमा नौवायो छे, छतां इहा ज्योतिपना ग्रथानो वर्ग
जुदो पाबेलो होवायो इहा खास नौधो छे

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
૪૫	ષષ્ઠિસંવત્સરી A ઘૃષ્ઠિ	૩૦૦ પાઞ ૮	ક્ષેમકાર્તિ B		ઘૃ. જેસલ. મ. ૧
૪૬	સેતુદીપિકા	પાઞ ૧૬૯			જામનગર
૪૭	હર્યપ્રકાશ		હર્યદેવગણિ		ઘૃ.

A આ ષષ્ઠિસંવત્સરી તે આ વર્ગની શરૂઆતમાં જણાવેલા અર્થકાંડનો ભાગ છે.

B આ નામ જેસલમેરની ટીપમાં હીરાલાલે નોંધ્યું છે તેથી એના માટે શક રાખવો પડે છે. ઘૃષ્ઠિપનિકામાં કર્તાનું નામ આપ્યું નથી.

नं०	नाम	श्लोक.	कर्ता	रुप्या नो स	क्यां छे ?
	छास बीजो.				
	श्री हसविजय जीए नोपेला ज्योतिषना ग्रयो *				
१	ब्रह्मप्रभा	पत्र ७			जेसल
२	ब्रह्मकवर्गरेखा	पत्र २			"
३	कामधेनु	पत्र १६			"
४	बुडकेशर	पत्र १०			"
५	प्रददीपिका	पत्र ८			"
६	प्रदरताकर कौष्टक.	पत्र १६			"
७	ज्ञानप्रदीप	पत्र १३			"
८	ज्ञानमंजरी	पत्र २			"
९	धीरणीपचारसार	पत्र २			"
१०	भ्यजभूम	पत्र २			"
११	नवमहवृष्टि	पत्र २			"
१२	नौयोगादि	पत्र ३			"
१३	पचागदीपिका	पत्र ६			"

* जेठकमेमां वदरे श्रीपद् हसविजयटी महाराज पमना हवा हरे तेभेए पमनी बरेपि
हमां नोपेला वपदिना मदीना नाम हरां टेने एव पुने ज्ञान कर्य अनुक्रमवार नोपेला छे

क्र. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यो- नो सं.	क्यां छे?
१४	महादेवीटीका	पत्र ३८			जेसल
१५	महादेवी उपराग	पत्र ७			"
१६	मूलविधान	पत्र १३			"
१७	यंत्रराजवृत्ति	पत्र ३२			"
१८	योगमुहूर्त	पत्र ५			"
१९	रत्नप्रदीप	पत्र १०			"
२०	वक्रमार्गी	पत्र १			"
२१	शतांकी	पत्र ७			"
२२	पद्मपण	पत्र १९			"

नं०	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्य नो स	क्या छे ?
	<p>हास ३ जो.</p> <p>—*—</p> <p>जेसलमेरमांना शक पढता ग्रथो. *</p>				
१	कर्णशार्दूल				जेसल.
२	ज्योतिष्फलदपण †				"
३	पचागतत्व †				"
४	सिद्धियोगयत्र	७००			"
५	सूत्रेभ्यरमडल †				"

* आ मथाळा नाचे कच शेरालालनी करेली टीपमा नोधला शक पढता पाच ग्रथो नोध्या छे
सदरद्व ग्रथो श्रीहसविजयनामी टीपमा नचरे आनता नथी तेथी जा ग्रथो त्या छके नहि तेना मोटे शक
राखवो पडे छे

† आ निशाणीयाळा ग्रथे ग्रथ वने पानागा छ एम शेरालाले पोतानी टीपमा नोध्यु छे

नं.सं.	नाम.	श्लोक	कर्त्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे?
	वर्ग २ जो. *				
	निमित्तना ग्रंथो.				
१	अङ्गचेष्टाविद्या				खं.
२	अङ्गस्फुरणविचार	पत्र १			पा. ३
३	अंजनविचार				लीं.
४	अर्थकाण्ड A	१४७	दुर्गदेव		वृ.
५	अष्टस्वप्नभाष्य B	१००	जिनपाल		जेसल.
६	उपदेशमालाशकुनावली	पत्र ६			लीं.
७	काकरुत				पा ३ लीं.
८	कालज्ञान (सं.)	२५४१			पा. ४
९	खरस्वरविचार C				पा ३.
१०	खेलवाडी	गा१३९७	माहूया D		वृ.
११	चित्रवर्णसंग्रह	४१			खं.

A एना दस अध्याय छे.

B आ ग्रथ जेसलमेरनी टीपमा हीरालले नोंथो छे चाकी ते क्यापण जोवामा आव्यो नथी माटे जो तेना प्रत त्या मौजूद होय तो तेनो उतारो कराववो जोइये.

C गुर्जर भाषामा छे.

D आ माहूया ते कोण हता ते जाणवामा आव्या नथी कारण तेना माटे तेवो कोइ पुरावो मळीं शक्तो नथी.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्ता	रच्यमाने	क्या छे ?
१२	चिह्नचतुर्विंशतिका	पत्र ३			बजमेर
१३	छाँकविचार				ख
१४	जयपाहुडप्रमथ्याकरण	२२८			नगीनदास,
१५	दुगाशकुन	५५५	नरपति		पा ४
१६	धातुवादप्रकरण A	२५			ख
१७	नाडीसचारज्ञान				घृ
१८	नाथपुस्तिका B				घृ
१९	भारदोक्तस्त्रीलक्षण	३१			छीं
२०	पह्लोविचार	पत्र ४			अ १
२१	पह्लोद्वारदशाति	२०	वृद्धगर्गमुनि		लीं
२२	पासाकेचलि	१८७	गर्गपिं C		पा १-२-३ छीं
२३	पिपीलिकाज्ञान (मा)				घृ
२४	पुस्तकेद्रप्रथ	मा १५			घृ
२५	प्रभयाकरणपूति	२३००			घृ पा २ जे
२६	प्रभोत्तरसूत्र	४५५			पा ४
२७	मानुषापेत्रलि (स)	५०			लीं

A पर्मा धानरूपानी सिद्धिनी पाउ छ

B एना मते वृद्धिनिर्णयमा " तप्य पुत्रिकानोपनामाज्ञापय मयगता " ज्ञाना गोप छ

C भा गर्गपिं ते विद्वन्तिता गुण दुर्गमा ता पा गुण यना हता एते तेना छापम विकसनी नय ते वरीनी गहआर्मा विद्वन्ता हता

नं. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे?
२८	मेघमाला (मोटी)	४००			लीं.
२९	मेघमाला (नानी)	१००	हेमप्रस		लीं.
३०	रत्नलक्षण				च.
३१	रघुराकुनावली				भाव.
३२	रिष्टसमुच्चयशास्त्र	३००	दुर्गादेव		हेहन्न.
३३	रुतज्ञान A	२१५			वृ
३४	वसंतराजशकुनवृत्ति B	३७५०	भानुचन्द्रगणि		जेसल.
३५	शकुनशास्त्र C	पत्र ११	माणिक्यसूरि		अ. १
३६	शकुनसारोद्धार D	५०८	"	१३३८	वृ.
३७	शकुनविचार	पत्र ३			पा. ३.
३८	शकुनावली	ताड १३०	वसंतराय		पा. २
३९	शकुनरत्नावली	११००			नगीनदास.
४०	शतसंवत्सरिका	पत्र ३५			पा. ३
४१	शिवालिलिखित	पत्र २			अ. १.
४२	सामुद्रिकशास्त्र	१८७			पा. ३-४.

A आ रुतज्ञान ते पासाकेवलि विशेषरूप छे.

B हीराखले सदरह वृत्ति जेसलमेरमा चुटक छे एम जणावुं छे.

C, D आ वने ग्रयो एरुज होवा जोइए कारण के तेनी श्लोकसंख्या तथा कर्तां नाम मळवुज छे. फक्त नाममां सहेज फेर छे, ते वखते लेखकनो दोष पण संभवी शके.

नंबर	नाम	श्लोक	फत्तो	रन्या तो स	फया छे ?
४३	सामुद्रिकशास्त्र	१०००	दुर्लभराज		डेफान
४४	सामुद्रिक	१९८	(जैनवृत्त)		लीं
४५	सामुद्रिक	६७			वृ
४६	सामुद्रिकतिलक	१००० A	दुर्लभतनुज जगद्वध		लीं
४७	सारोद्धारशकुनप्रकाश	आर्या ८००			A. S डेफान
४८	सिद्धाशापद्धति				वृ
४९	श्वानसत्तरी	२००			जेसल-वे
५०	श्वानकृतविचार	पत्र ४	नरपति		अ १
५१	श्वानशकुनविचार				खं
५२	स्वप्नचिंतामणि	पत्र ७			जामनगर
५३	स्वप्नलक्षण	पत्र १०			पा ३
५४	स्वप्नविचार (प्रा)	८७५	जिापाल		पा ५
५५	स्वप्नलक्षणविचार				पा १
५६	स्वप्नसप्ततिका				पा १

A. एनी ८०० आया होवा साथे ते सरस प्रय छे पण फत्ता रर छे के अय छे तेनो तपास करी नका करवानी जरूर छे

क्र.सं.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्य- नो सं.	क्यां छे ?
	स्वप्नसप्ततिका वृत्ति				पा. १
	वृत्ति (बीजी)	८००	सर्वदेवसूरि	१२८७	पा. ३-५
५७	स्वरोदय	७९			पा. ३-५
५८	हस्तकाण्ड A	९९	चंद्रशिष्य		पा. ४
५९	हरिमेखला B		पार्श्वचंद्र		वृ.

A आ ग्रंथ खास लखाववा लायक छे.

B वृहद्विष्णुनिकामा एना माटे " जनाश्रयंकराजनसिद्धयादियोमादिवाच्या " आवो नोंध छे.

क्र.सं.	नाम	श्लोक	कर्त्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
	वर्ग ३ जो *				
	~~~~~				
	<b>वैप्रकला ग्रंथो</b>				
१	आयुर्वेदमहोदधि	११००	सुषेण		A S
२	चिकित्सोत्सव	१७००	हस्तराज		A S.
३	द्रव्याचली ( निघण्टु )	९००	महेंद्र		A S
४	प्रतापकरपद्म	६०००	प्रतापसिंहदेव		A S
५	माधराजपद्धति	१००००	माधचन्द्रदेव ( सु )		A S.
६	योगरत्नाकर	९०००	ब्राह्म. नयनशेखर	१७३६	ली
७	योगरत्नसमुच्चय	४५			A. S
८	योगशतक	२५०			A. S
९	योगदात	पत्र २४			पा ३-४
१०	योगचिन्तामणि	२१००	हृषीकेशि		जेसल-वे A. S

* आ वर्गमां वैप्रकला जे ते प्रभा अमारा जगसामां आप्पा छे त ते अनुक्रमार नापा छे विचार करवा जेरी बात छ क आरणा विद्वान् दूरदर्शी पूषाचार्यो एव सादिसने रक्षित्वा माट करेय प्रसंगता स्थितान्ति करता यद्यक तेवा असाधारण उपयोगा विषयनी रक्षित्वा करवाना योजना उच्यते एतन्ना उपदेश कर्त्तुं हीय तेम अर्थो मन्त्रेण प्रथो उपरथां ज्ञानु नथी गियाव अमे उतर वपाइला मय वैका केट्काएक प्रथो तेगा कलाता नामरथा प्राये अन्य मतिना पा करेग ही तम स्थय रहे छ ताम हामउ कारण ए ज्ञाप छे के वैचरतो शिष्य केट्काएक आराम धरप, यनसस्तादिक्कु उपान्त, कृति वि। रना मन्त्रदि करानार ८ तथा विविधे विविधे आरक्षिणना त्याग करार मुनिपय ए कानमां मरुति १ कपी इके ह्यु छ

नं. सं.	नाम.	श्लोक.	कर्त्ता.	रच्यो- ना सं	क्यां छे ?
११	रत्नसागर	१८००	( अर्पण )		A. S.
१२	रसचिंतामणि	९००	अनंतदेवमूरी		A. S.
१३	रसरत्नदीपिका	६००	अल्लराजमहीपति		खं.
१४	वीरसिंहावलोक	४०००	वीरसिंहदेव		A. S.
१५	वैद्यवल्लभ	२६०	(तपा)हस्तिचरि गणि		ली. A. S.
१६	वैद्यकसारोद्धार	८००	हर्षकीर्ति		A. S.
१७	वैद्यकसारसंग्रह	११००	हर्षकीर्ति		खं.
१८	सिद्धयोगमाला	५००	सिद्धार्थ		डेकन.
१९	सिद्धसार A	पत्र ७९			ख. १.

A सिद्धसारना करनार कोइ जैन होवा जोइये एम अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमा नोंय छे. पण कदाच आ ग्रंथ वैद्यकना बदलामां घर्मग्रंथ पण होय तो होय.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યાનો સં	ક્યા છે?
	<b>વર્ગ ૨ થો.</b>				
	<b>કલાવિજ્ઞાનના પ્રયો.</b>				
૧	અપરાજિતપૃચ્છા	૧૩૦૦	ભાવદેવાચાર્ય		માહારકર
૨	અશ્વાદિગુણ	૬૦			A. S.
૩	અદર્શચૂઢામણિ	૧૮૦૦	ધીરમદ્ર A	૧૬૩૩	A S
૪	કામપ્રદીપ	પત્ર ૫			બ ૧
૫	કામાનુશાસન	પત્ર ૩			બ ૧
૬	કોકમજરી		(અપૂર્ણ)		લો
૭	કાંતુકરનાવલી	૧૦૦૦			A. S
૮	ગજપરીક્ષા	૧૫૦૦			A. S
૯	ગોષ્ઠિધાર્ય B	૧૪૫			પા ૫
૧૦	અનુરગવિલાસમણિમજરી	૧૨૦૦			લેખન
૧૧	જગત્સુદરીયોગમાહાC		દ્વરિપેણ		A. S

A પ્રથમા ગામ અપરથી કલા ત્વ છે કે અન્ય છે તેના માટે ગજ ચલવો પડે છે

B આમ અસ્થિત કરવાની રીત આપી છે

C આ જગત્સુદરી યોગમાહા છે યોનિપ્રામુખનો એક મામ છે અને છે અપરથી છે, પણ ૧૨૫૦-૧૨૬૦ વચ્ચે કે અસ્થિતિક યોગપદ્યના રિપોટમાં આ ગુરુક છે એમ આપ્યું છે

નંબર.	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચના-નો સં.	ક્યાં છે ?
૧૨	ઘનુર્વિદ્યા વૃત્તિ				વૃ. વૃ.
૧૩	ઘનુર્વેદ	પત્ર ૧૧૧			A. S.
૧૪	નાગાર્જુનવિદ્યા	૧૦૦૦			A. S.
૧૫	પાદલબ્ધિ ( સં. )	પત્ર ૮			પ્રો. મણિ.
૧૬	ભરતશાસ્ત્ર				વૃ.
૧૭	યોગરત્નામાલા A વૃત્તિ	૧૪૦	નાગાર્જુન ગુણાકર	૧૨૨૬	A. H. A. H.
૧૮	યોગરત્નાવલી ( લઘુ )				ડેકન.
૧૯	લેખનપ્રકાર	પત્ર ૯			ડેકન.
૨૦	વાસ્તુશાસ્ત્ર	પત્ર ૧૩૭	મોજદેવ		પા. ૪.
૨૧	વિજ્ઞાનાર્ણવ	પત્ર ૮૬			અ. ૧.
૨૨	શાર્દૂનીકૃતિ B				જેસલ.
૨૩	શાલિહોત્ર C	પત્ર ૪			લીં.

A એને રત્નાવલી તથા આશ્ચર્યયોગમાલા પણ કહેવાય છે.

B એમાં તાડ તથા કાગલપર લખવાની શાર્દૂ વનાવવાની રીત દર્શાવી છે.

C એમાં ઘોડા પારલવાની વિદ્યા કહી છે.

क्र. सं.	नाम	श्लोक	कर्ता	रच्यो नो स	क्या छे ?
२४	शुभलीमत	गा ३०९	दामोदरगुप्त		वगीनदास
२५	समतसामतचक्रविधि	पत्र १४			अ २
२६	समस्तरसनपरीक्षा	६००			A. S
२७	समराभणसूत्रधार	१५६०	भोजदेव		डेकन
२८	सगीतदीपक	पत्र ३०			अ २.
२९	सगीतरत्नावली	पत्र २५			अ २
३०	सिद्धज्ञान A	पत्र २१	मेघविजय		अ १
३१	हीरकपरीक्षा	९०	( दिग )		A B

A आ सिद्धज्ञान हस्तसजीवन नामक ग्रन्थमाथी उद्धृत कएल छे ओ ते गुजर भाषामा छे



નંબર	નામ.	શ્લોક.	કર્તા.	રચનાનો સં.	ક્યાં છે ?
	<b>વર્ગ ૫ મો.</b>				
	<b>કલ્પના ગ્રંથો.</b>				
૧	અકાલદંતકલ્પ ( પ્રા. )	પત્ર ૧			હાં.
૨	આસુરીકલ્પ	૩૮૦			A. S.
૩	ઉલૂકકલ્પ	૭૨	ગોવિંદ A		A. S.
	ઉલૂકકલ્પ ( સં. )	પત્ર ૧			હાં.
૪	કલ્પરત્નાવલી B				જેસલ.
	વૃત્તિ	૪૦૦			જેસલ.
૫	કાકરુતતથાકાકનિલય				રિ. ૬
૬	ઘટાકર્ણકલ્પ				પા. ૩ A. S.
૭	ઘાતુકલ્પ	૧૮૦૦			A S.
૮	નાલાકલ્પ C	પત્ર ૫૮			અ. ૧
૯	નાલપરાવર્તાવિધિ				રિ. ૬
૧૦	પદ્માવર્તાકલ્પ	પત્ર ૩૨	જીતહેનશિષ્ય મહિષેણ		વૃ. પા. ૩-૫

A આ ગોવિંદ કોણ હતા તે જાણવામાં આવ્યું નથી પણ પ્રાયે તે અન્યભતિ હાવા જોઈયે.

B આ ગ્રંથ તેની વૃત્તિ સાથે જેસલમેરની ટીપમા હીરાલાલે નોંધેલ હોવાથી તેના માટે શક શાલવો પડે છે.

C આ નામ સામાન્ય છે. અને તે અમદાવાદના ડેલાની ટીપમા નોંધેલ હોવાથી દ્રહા નોર્થુ છે એમા લગભગ વેતાલીસ કલ્પો છે એમ અમારા જાણવામાં આવ્યું છે, પણ તેના શું શું વિશિષ્ટનામો છે તે તેની પ્રત નજરે જોયા વગર જાણવું મુશ્કેલ છે.

નંબર	નામ	શ્લોક	કર્તા	રચ્યા નો સ	ક્યા છે
૧૧	પદ્માવતોચતુષ્પદી	૪૬	જિનપ્રમ		પા ૫
૧૨	મણિપરીક્ષાકવ્ય	પત્ર ૧			હીં રિ ૬
૧૩	ઘઘ્યાકવ્ય				રિ ૬
૧૪	ચદ્દમાનવિદ્યાકવ્ય	૪૫૦	સિંહતિલકસૂરિ		પા ૩ ડેકન
૧૫	વિજયપતાકકવ્ય				પા ૧
૧૬	વિજયયત્રગિધિ A	૧૨૫			ડેકન
૧૭	વૃક્ષધિનોદ	૩૦૦			રિ ૬
૧૮	શ્લોકકવ્ય				વૃ રિ ૬
૧૯	સવિત્પટલ B	૬૫			A S
૨૦	મુષળસિદ્ધિ		પાદલિત		ડેકન
	વૃત્તિ	પત્ર ૨	"		ડેકન
૨૧	સૂરિમત્રકવ્ય C	૩૨૦			રિ ૬
૨૨	સ્થાપનાકવ્ય ( સ )	પત્ર ૪			પ્રો મણિ

A અને વિજયપતાના યત્ર પળ કહેવાય છે

B પ્રા સવિત્પટલ વિજયાકલ્પમાપી ઉદ્ભૂત કરેલ છે

C એના પાંચ પીઠ છે અને તે શાસ્ત્રાયત્રદ્વારક મુનિમયને તાઠ ઉત્તરોગી છે

नं०.	नाम.	श्लोक.	कर्ता.	रच्या- नो स.	क्यां छे ?
	<b>वर्ग ६ द्वो.</b>				
	<b>मंत्रना ग्रंथो.</b>				
१	अक्षरचूडामणि	पत्र ३१			डेकन.
२	अनुभवसिद्धमंत्रद्वान्त्रिंशिका	पत्र ६	भद्रगुप्त		अ. १.
३	उड्डामरतंत्र	५००			A. S.
४	कक्षपुट A	७००	नागार्जुन		A. S.
५	कच्छपुट B	पत्र ८१	नागार्जुन		डेकन.
६	गौतमीमंत्र	२५००			A. S.
७	जिनदर्चीयविद्या	पत्र १			लीं.
८	ज्वालामालिनीविद्या				A. S.
९	तृतीयज्वराष्टक C		मल्लदेव		A. S.
१०	मंत्रशास्त्र	पत्र ५	मल्लियेण		पा. ३.

A, B आ वने ग्रंथो एकज छे के जुदा जुदा छे तेना माटे शक रहे छे. अमरा धारवा मुजव ते वने एकज हसे पण फरक एटलो के डेकन कॉलेजमानी वृत्ति हसे अने एसियाटिक सोसायटीमाउ मूल हने. छता चोकर विर्णय माटे वने प्रतो तपासवी जोइथे.

C आ त्रय वखते वैद्यकनो पग होनतो होय छतां ते मंत्राष्टक हसे एम धारिने इहा नोंथो छे.

नंबर	नाम	श्लोक	कर्ता	रच्य नो म	क्या छे ?
११	मन्महोदधि A				वृ A S
१२	मन्मराज्जरहस्य	८००	सिंहतिलकसुरि		भजमेर
१३	यत्रचित्तमणि घृत्ति	३००			A S A S.
१४	यक्षिणीवेतालसाधन	१७०			A S
१५	घसुधारा B				पा १-३.
१६	सिद्धविज्ञासूक्त ( स )	पत्र १२	( जैन )		हेकन
१७	सूरिमंत्रकल्प " सारोद्धार " दुग्गपदधिवरण " प्रदशाधिवरण	५५८	साव मेरुतुंग		A. S A. S. A H A. H 1

A आ घसुधारा बौद्धाचार्ये करी छे एम जाणवामा छे

B एना माटे शृङ्खलपिनिकामा " मनमहोदधि प्रा दिगनर श्रीदुर्गदेवहृत्त गा ३६, "



# अनुक्रमणिका.

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
अ.		अजितनायचरित्र ( प्रा )	२३८
अकालदत्तकल्प ( प्रा )	२६४	„ „ ( स )	२३८
अक्षयतृतीयाकथा	२६४	अजीवकल्प	६२
अक्षरचडामाण	२६६	अनातौछप्रहणकुलक	१९५
अक्षप्रभा	२५१	अवचूरि	१९५
अभिशीतत्वस्थापनावाद	८४	अनातौछप्रहरण	१४८
अगचैष्टा	२५४	वृत्ति	१४८
अगस्तुरणविचार	२५४	अठाइव्याख्या	२६८
अषटकथा	२४७	अद्वोत्तरी स्तोत्र	२७२
अचवारिभट्टिकाकथा	२४७	अडताळीसकथा	२६५
अजितशातिस्तव	२७२	अदारपापस्थानकुलक	१९५
अजितशातिछंदीविवरण	२१७	अतिमुक्तचरित्र	२००
अजितशातिस्तव	२७२	अतिशयपचाशिकास्तोत्र	२७२
„ बीनो	२७२	अध्यात्ममलमार्तंड	१०९
„ श्रीजो	२७२	अध्यात्मकपटुम	१०९
„ वृत्ति	२७२	वृत्ति	१०९
„ ( ० ) वृत्ति	२७२	वृत्ति ( बीची )	१०९
„ अवचूरि	२७२	अध्यात्मगता	१०९

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
अर्धात्मतरंगिणी टीका ...	८७	अंतरंगसंधि ...	१६८
अर्धात्ममतदलन ...	१०३	अंतरंगकथा ( प्रा. ) ...	२४७
अर्धात्ममतपरीक्षा ...	१०	अंतरकथा सग्रह ...	२६५
„ वृत्ति ..	१०३	अंतरगणदीपिका ...	३०६
अर्धात्मविन्दु ...	१०९	अवडकथा ...	२२०
„ वृत्ति .	१०९	अद्युम्नराजकथा ...	२४७
अर्धात्मसार ...	१०३	अन्वयदीपिका ...	३०६
अर्धात्मसार ...	१०९	अनगसिंहादिककथा ...	२४७
अर्धात्मोपनिषत् ...	१०३	अनतक्रीतिकथा ( प्रा. ) ...	२४७
अंगचूलिया ..	६८	अनंतनाथचरित्र ( प्रा. ) ...	२४१
अंगविद्या ...	६४	„ „ ( स. ) ...	२४१
अंगुलसत्तरी ...	१४३	अन्यायछेदकुलक ...	१९५
„ अवचूरि ...	१४३	अनिष्टकारिकाविवरण ...	३०६
अंचलनतस्थापन ...	१५८	„ „ ...	३०६
अंचलमतदलन ...	१५८	अनित्यकुलक ...	१९५
अंचनविचार ...	३५४	अनित्यताकुलक ...	१९५
अंजनासुंदरीकथा ...	२४७	अनर्थदंडपरिहारकुलक ...	१९५
अंतकृद्दशामूल ...	४	अनुत्तरोपपातिकमूल ...	६
„ वृत्ति ..	४	„ „ वृत्ति ...	६
अंतरंग प्रबोध ...	१६८	अनुभवसिद्धमत्रद्वारिंशिका ...	३६६

अक्षरानुक्रमवार प्रथोता नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रथोता नाम.	पृष्ठांक
अनुयागद्वार मूळ	४२	अनेकाथ मजरी	३०९
„ चधि	४४	अनेकार्य रत्नकोश	३०९
„ लघुवृत्ति	४४	अन्योक्ति मुक्तावली	३४०
„ वृहद्वृत्ति	४४	अपश दखडन	८४
अनुशामनाबुशाडुल्ल	०५	अपसब्दनिराकरण	८४
अनुष्ठानविधि	१५३	अपवगनाममाला	३०९
अनेकात तयपताका	७१—९८	अपौरुषेयदेव निराकरण	८४
„ वृत्ति	७१—९८	अभयकुल्ल	१९५
„ टिपन	७१—९८	अभयबुमारचरित्र	२२०
अनेकांतवादप्रवेश	७१	„ (धीजु)	३२०
„ अवचरि	७१	अभयदेव प्रवध	२१३
अनेकांतव्यवस्थापन	८४	अभयदेवसूरिचित सामाचार	१५५
अनेकप्रथविचारसमूह	१२९	अभक्ष्यद्वानिश्चिका	१४८
अनेकशास्त्रसारसमुच्चय	१२९	अभयसिंहकथा	२४७
अनेकै स्तुति	२७२	अभय्यकुल्ल	१९५
अनेकाथतिलक	०९	अभावग्रंथम्याख्या	९५
अनेकाथच्यनिमजरी	३०९	अभिधानचिंतामणिनाममाला	३०९
अनेकाथनाममाला रागेप	३०९	„ „ वृत्ति	३०९
„ „ वृत्ति	३०९	„ „ „ (धीजी)	३१०
अनेकप्रवध	२१३	„ „ सारोद्धार	३०९




अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
अभिधानचिंतामणिनाममाला	३१०	अर्हदभिषेकविधि	१५३
अवचूरि		...	
„ „ (१)देशीनाममाला	३१०	अर्हग्रीति	३३९
„ „ वृत्ति (रत्नावली)	३१०	अर्हत्सहस्रनामसमुच्चय	२७३
„ „ उद्धार	३१०	„ „ वृत्ति	२७३
„ „ (२) शेषनाममाला	३१०	अर्हत्सहस्रनामस्तोत्र	२७३
„ „ वृत्ति		अर्हत्स्तव ( सं. गद्य )	२७३
„ „ (३) निर्घण्टुशेष		अर्हत्प्रवचनव्याख्या	१३७
„ „ (४) शिखोलनाम- माला ...		अरनाथस्तव	२७३
वृत्ति		„ „ वृत्ति	२७३
अभिनन्दनस्वामी चरित्र (प्रा.) .	२३८	अरनाथचरित्र ( प्रा. )	२४२
„ „ „ (सं.) ...	२३८	„ „ (सं.)	२४२
असमस्वामी चरित्र ...	२४६	अलंकारग्रंथ	३१५
अमरतेजचरित्र (श्लोकवद्ध) ...	२२०	अलंकारचूडामणि वृत्ति	३१४
अमरसेनवयरसेन चरित्र ...	२२०	( काव्यानुशासन )	३१४
अयोगान्ययोगव्यवच्छेदद्वारिंशिका.	२७२	वृत्तिविवेक	३१४
अर्थकाण्ड	३५४	अलंकारतिलक	३१४
अर्थालंकारवर्णन	३४६	अलंकारदर्पण ( प्रा )	३१४
अनप्यसाधव	३३६	अलंकारमहोदधि	३१४
„ टिप्पण	३३६	„ „ वृत्ति	३१४

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम	पृष्ठांक
अलकारमडन	३१८	अष्टस्वप्रभाष्य	२५४
अलकारशेखर	३१४	अष्टागहृदयसाहिता	३४६
अलकारसप्रह	३१७	<b>आ,</b>	
अल्पबहुत्वप्रकरण	१३२	आख्यानमणिकोश	२६५
” ” अवचरि	१३२	” ” ” रति	०८७
अवस्थाकुलक	१९५	आगमअष्टोत्तरी	१६९
अवतिसुबुमालसाधि	२४७	” ” वृत्ति	१६९
अव्याप्तिवाद	८७	आगमोद्धारगाथा	१६७
अष्टप्रकारपूजा कथा	२४७	आगमोद्धारसित्तरि	१४३
” ” विधि	१५३	आचरणशासतक	१०८
अष्टप्रवचनमाताकथा	२६५	आचारदिनकर	१८८
अष्टप्रवचनमाला ( प्रा )	२७३	आचारागमूळ	०
अष्टपचाशतस्तुति	०७२	नियुक्ति	०
अष्टकसूत्र	९८	” च ण	०
” ” वृत्ति	९८	, त्रुत्ति	०
अष्टकवगरेखा	३५१	, दीपिका	०
अष्टलक्षी	३४३	” प्र श्रु दीपिका	२
अष्टादशस्तोत्र	२७३	आचाराविधि (प्रा)	१८८
” अवचरि	२७३	” ” (स)	१४८

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
आचारविधिनास्त्रीसामाचारी ...	१५५	आत्ममीमासा ...	८७
आचारोपदेश ...	१४८	„ टीका ...	८७
आचरणोपन्यास ...	१५८	„ भाष्य ...	८७
आठ नानी कथाओ ...	२६५	„ वृत्ति (अष्टसहस्री) ...	८७
आतुरप्रत्याख्यान मूळ ...	४४	आत्मशिक्षाशतक ...	२०८
„ „ वृत्ति ...	४४	आत्मशुद्धिकुलक ...	१९६
„ „ अवचरि ...	४४	आत्मसोवकुलक ...	१९६
आत्मज्ञान ...	१०९	आत्मसोव कुलक ...	१९६
आत्मनिंदाष्टक ...	१६९	आत्मशिक्षा ...	१६९
आत्मावबोध ...	१०९	आत्महितकुलक ...	१९५
आत्मानुशासन ...	११०	आत्मोपदेशमाला ...	१६९
टीका ...	११०	आदिजिन स्तुति ...	२७३
आत्मानुशासन ...	११०	आदिजिनादि स्तोत्र ...	२७३
„ „ ...	१९६	आदिनाथदेशना ...	१६९
आत्मानुशास्ती कुलक ...	२०६	„ „ वृत्ति ...	१६९
आत्मानुशासनकुलक ...	२०६	आदिनाथदेशनाशतक ...	२०८
आत्मपरीक्षा ...	८७	आदिनाथचरित्र ( चार ) ...	२३८
„ वृत्ति ...	८७	आदिनाथ जगन्नाथ स्तुति ...	२७३
आत्मप्रबोध ...	१६९	आदिदेव स्तवन ...	२७३
आत्मबोध ...	१०९	आचलिक थ्राद्धमामाचारी ...	१५५

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
आनदलहरी	७०	आराधना विधितुल्य	१९६
,    ,    वृत्ति	७७	"    "    वृत्ति	१९८
आनदगमुत्पत्त्य	११०	आराधनापत्र	१६९
आनदमुदर	८७	आराधनापताका	६४
आनुपूर्वाप्रकरण	१३	आराधनासत्तरा	१६९
आभागशतक	२०८	आराधनाविधि	१३
आयज्ञानतिलकवृत्ति	३६६	आरामनदनस्था	८८
आयप्रश्न	२६६	आराममुत्पत्त्या ( म )	२४८
आयगद्गाय	३०	आरामगोभारुधा	२४८
"    वृत्ति	८	आरामशोभचरित्र (भाष्यद)	२११
आयुर्वेदमहोदधि	२५९	आरापदति	८३
आदिकुमारख्या ( प्रा )	२४८	आराचनापत्रक	१०६
"    "    ( गण )	२४८	आराचना पदमग्रह	१०३
आयापात्रकथानक (स्वाक्षरपद)	२४८	आराचनारत्नाकर	१६८
आरभसिद्धि	३६६	आराचनाविधा	१६८
,    शत	३४६	आरायककथा	२४८
आराधना	१६९	आरायक गण ।	१४३
"    ( बीबी )	१६९	,    वृत्ति	१६३
आराधना तुल्य	११९	आय गण गूढ	१८
"    ,    गण	१६९		

अक्षरानुक्रमवार प्रथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार प्रथोना नाम.	पृष्ठांक.
आवश्यक नियुक्ति ...	१८	आवश्यक चैत्यवन्दनावृत्ति ”	२४
” भाष्य ...	१८	” वालावबोधा (जूनी गुर्जर)	२४
” चूर्णि ...	१८	” चैत्यवन्दनाभाष्य ...	२४
बृहद्वृत्ति ...	१८	” ” भाष्यवृत्ति ...	२४
” वृत्ति ...	१८	” चैत्यवन्दन विचार( गाथावद्ध)	२४
” लघुवृत्ति ...	१८	” चैत्यवन्दनकुलक ...	२६
” अवचूरि ...	१८	” ” वृत्ति ...	२६
” अवचूरि ...	१८	” टिप्पण ...	२६
” टिप्पणक ..	२०	” भाष्यत्रयम् ...	२६
” विज्ञेपावश्यक वृत्ति ..	२०	” चैत्यवन्दनाभाष्यवृत्ति	
” जीर्णवृत्ति ” ...	२०	(संघाचारनाम्नी)...	२६
” दीपिका ” ...	२०	” चैत्यवन्दना अवचूरि ...	२६
” पञ्चविधावश्यकसूत्रवृत्ति	२२	” ” (बीजी) ” ...	२६
” (वटारवृत्तिनाम्नी)	२२	” चैत्यवन्दनाभाष्य(गाथावद्ध)	२६
” पडावश्यकवृत्ति(अर्थदीपिका)	२२	” चैत्यवन्दन चूर्णि ...	२८
” पडावश्यक अवचूरि ”	२२	” ” विवरण ...	२८
” पडावश्यक विधि ”	२४	” बृहत्चैत्यवन्दन सटीक.	२८
” पडावश्यक लघुवृत्ति ”	२४	” चैत्यसाध्वन्दन श्राद्ध	
” ललितविस्तरा ”	२६	प्रतिक्रमण ...	२८
” ” टिप्पणक ”	२६	” ” वृत्ति ..	२८

अक्षरांशुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरांशुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
आवश्यक चैत्यवदनादिसूत्र साधुश्राद्ध प्रतिक्रमणपदपयाममजरी	२८	आवश्यक समहणी	३३
” इर्यापथिकी अवचूर्णि	२८	आधुरीकल्प	२०७
” चैत्यवदनावचूर्णि	२८	ई.	
” वदनकावचूर्णि	२८	इतिहास समुच्चय	२१३
” चैत्यवदनकप्रत्याख्यानश्रुति	३८	इन्द्रियपराजयशतक	२०८
” चैत्यवदनादिश्रुति (द्वलप्रदीप)	२८	शरियावहीकुलक	१९६
आवश्यक साधुश्राद्धप्रतिक्रमणचैत्य शुक्लवदनावचूरि	३०	शरियावहीप्रकरण	१४९
” साधुप्रतिक्रमणश्रुति	३०	शरियावहीपदत्रिंशिका	१३९
” श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र	३०	” ” श्रुति	१३९
” ” चूर्णि	३०	शरियावहीपदत्रिंशिका	१३९
” ” श्रुति	३०	” ” श्रुति	१३९
” ” लघुश्रुति	३०	इलाचीपुनकथा	२४८
” ” श्रुति	३०	इष्टोपदेश	१७०
” धादसामायिकप्रतिक्रमणसूत्र व्याख्या प्रकरण	३२	ई.	
” प्रतिक्रमणश्रुति	३२	इश्वरनिर्करण	८४
” ” अवचूरि	३२	उ.	
” श्रुति।	३२	उद्दामरतत्र	३६६
” क्रमविधि	३२	उक्तिक	३०६
		” ”	३०६
		” 	३०६

अक्षरानुक्रमचार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमचार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
उणादिनाममाला ...	३१०	उत्तराध्ययन अवचूरी ...	३८
उक्तिप्रत्यय ...	३०६	” ” ...	३८
उक्तिरत्नाकर ...	३०६	” ” ...	३८
उत्तमकुमारकथा ...	२८८	” ” ...	३८
उत्तमकुमारचरित्र ...	२२१	” कथाओ ...	३८
उत्तमचरित्र ...	२२१	” ” ...	३८
उत्तमपुरुषकुलक ...	१९७	उत्पादसिद्धिप्रकरण ...	७२
उत्तराध्ययनमूल ...	३६	” वृत्ति ...	७२
” निर्युक्ति ...	३६	उदयसुंदरीकथा ...	२४८
” चूर्ण ...	३६	उदायनराजकथा ...	२४८
” वृहद्वृत्ति ...	३६	उदायनराज चरित्र (श्लोकयुद्ध) ...	२२१
” लघुवृत्ति ...	३६	उद्भटालंकारसार संग्रह ...	३१५
” वृत्ति ...	३८	उपदेशकुलक ...	२०६
उत्तराध्ययन वृत्ति ...	३८	” ” ...	१९७
” ” ...	३८	” ” ...	१९७
” ...	३८	उपदेशकंदली ...	१७०
दीपिका, ...	३८	” वृत्ति ...	१७०
” ” ...	३८	उपदेशकल्पद्रुम ...	१७०
” ” ...	३८	उपदेशचिंतामणि ...	१७०
” ” ...	३८	” वृत्ति ...	१७०

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
उपदेशचिंतामणि श्रुति	१७०	उपदेशमाला लघुश्रुति	१७१
„ अवचूरि	१७०	„ अवचूरि	१७२
„ „	१७०	„ „	१७२
उपदेशतरंगिणी	१७०	„ „	१७२
„ „	२१३	„ गायत्र्यार्थ	१७२
उपदेशपद	९८-१७०	„ कथा	१७२
„ श्रुति	१७०	उपदेशमाला ( धीजी )	१७२
„ „	१७	„ ( त्रीजी )	१७२
उपदेशपञ्चाशिका	२०५	उपदेशमालाशकुनावलि	३५४
उपदेशप्रासाद	१७१	उपदेशामृतकुलक	२०५
„ श्रुति	१७१	„ ( धीजु )	२०५
उपदेशमणिमाला	१७२	उपदेशरत्नकोष	१७२
„ कुलक	१९७	„ श्रुति	१७२
उपदेशमाला	१७१	उपदेशरत्नमाला	११०
„ श्रुति ( प्राकृत )	१७१	उपदेशरत्नाकर	१७२
„ श्रुति ( हेमोपादेय )	१७१	„ श्रुति	१७२
„ श्रुति ( कर्णिका )	१७१	उपदेशरसायन	१७३
„ श्रुति ( दोषही )	१७१	„ श्रुति	१७३
„ श्रुति	१७१	उपदेशरहस्य	१७३
विवरण	१७१	उपदेशरहस्य	१७३



अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
उपदेशरहस्य वृत्ति	१७३	उपमितिभवप्रपंच	१७४
उपदेशरहस्य ( सं. )	२६५	„ उद्धार	१७४
उपदेशरहस्य	१०३	„ सारसमुच्चय	१७४
„ वृत्ति	१०३	„ सारोद्धार	१७४
उपदेशशतक	१७३	उपाश्रयादिवर्णन	३४३
„ ( बीजं )	१७३	उल्लङ्घककल्प	३६४
„ वृत्ति	१७३	उपसर्गहरस्तोत्र	२७४
उपदेशशतक	२०८	„ वृत्ति	२७४
„ वृत्ति	२०८	„ ( बीजी )	२७४
उपदेशशतक ( बीजं )	२०८	„ ( त्रीजी )	२७४
उपदेशसंस्मरी	१७३	„ लघुवृत्ति	२७४
„ वृत्ति	१७३	उपसर्गहरस्तोत्र	२७४
उपदेशसंस्तिका	१७३	उपसर्गहरप्रभावकथा	२४८
उपदेशसंप्रह	१७४	उपासकदशांगमूल	४
उपदेशसार	१७४	„ वृत्ति	४
„ ( बीजो )	१७४	उपासकदशांग सूत्र	१५३
उपधाननिराकरणसंधि	१५८	उपासक प्रतिमाविवरण	१५३
उपधानपौषधविशेषविधि	१५३	उत्साहकुलक	१९७
उपधानविधि	१५३	उनोदरिकादितप	१५३
उपधानस्वरूप	१५३	उल्लासिकम	२७४
		„ वृत्ति	२७४

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
श्री.		श्रुतिमङ्गलस्तोत्र	१७५
श्रुतिभक्षतक	२७४	श्रुतिमङ्गलस्तव	२७४
"	२११	" ( स )	२७४
"	२०८	" ( स )	२७४
श्रुतिमस्तव	२७४	ए	
" अवचूरि	२७४	एकविंशताणप्रकरण	१३८
श्रुतिमस्तव ( बीजो )	२७४	एकसमयज्ञानदधानवाद	८४
" अवचूरि	२७४	एकादशागणधरचरित्र	२७१
श्रुतिमस्तुति	२७४	एकादशागणधरस्तव	२११
श्रुतिमस्तोत्र	२७४	एकाक्षरीनाममाला	३१०
श्रुतिमोहासकाव्य	३२९	एकीभावस्तोत्र	२७५
श्रुतिदिताकथा	२४८	" छिति	२७५
" " ( बीजी ) ( स )	२४८	एकोनविंशतभावना	१७६
श्रुतिदिताचरित्र	२२१	ओं.	
श्रुतिमापितमूल	६०	ओपनिषुकिमूल	४०
श्रुतिमङ्गलस्तुत्र	१७५	, वृत्ति	४०
" ' वृत्ति ( १ वी ६ )	१७५	, , , "	४०
, अवचूरि	१७५	" भाष्य	४०
श्रुतिमङ्गलस्तव	१७५	, वृत्ति	४०
" वृत्ति	१७५	" दीपिका	४०

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
ओघनिर्णयिक अवचूरि ...	४२	कथानुक्रमणिका ...	२६६
„ उद्धार ...	४२	कथाप्रवध ...	२६६
ओघसामाचारी ...	१५५	कथामहोदधि ...	२६६
<b>औ.</b>		कथारत्नकोश ...	२६६
औपपातिकमूळ ...	६	कथारत्नाकर ...	२६६
„ वृत्ति ...	६	कथारत्नाकरोद्धार ...	२६६
औपदिनाममाला ...	३१०	कथारत्नसागर ...	२६६
औष्टिकमतोत्सुत्रोघघाटनकुलक ..	१५८	„ „ ...	२६६
औष्टिकमतोत्सूत्रदीपिका ...	१५८	कथावली .	२६६
<b>क.</b>		कथासंग्रह ...	२६७
कक्षपुट ...	३६६	„ ( वीजी ) ...	२६७
कच्छपुट ...	३६६	„ ( त्रीजी ) ...	२६७
कथाप्रबंध ...	२६६	„ ( चोयो ) ...	२६७
कथोद्धार ...	२६५	कथासंचय ...	२६७
कथाकोश ...	२६६	कचनश्रेष्ठयादिकथा ...	२४८
„ वृत्ति ( प्रा. ) ...	२६६	कंटकोद्धार ...	८१
„ वृत्ति ( वीजी ) ...	२६६	कंदली टिप्पण ...	९५
कथाकोश ( वीजी ) ...	२६६	कदली पंजिका ...	९५
कथाकोश ( त्रीजी ) ...	२६६	कंदर्पचूडामणि ...	३१५
कथानककोश ...	१७६	कनकरथकथा ...	२४८

अक्षरानुक्रमवार प्रधोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रधोना नाम	पृष्ठांक
कनकरथ चरित्र	२२१	( १ ) कमविपाक	११६
कनकावती चरित्र	२२१	" वृत्ति	११६
कनकावती चरित्र ( श्लोकचंद्र )	२२२	" टिप्पण	११६
कनकावती चरित्र	२२२	( २ ) कमस्तव	११६
कणशादल	२५३	" भाष्य	११६
कणालंकार मजरी	३१५	" वृत्ति	११६
करणसत्तरी	१४३	" वृत्ति	११६
" वृत्ति	१४३	" टिप्पण	११६
कर्पूरप्रकर	१७६	( ३ ) वधस्वामित्व	११७
" वृत्ति	१७६	" वृत्ति	११७
" वृत्ति	१७६	( ४ ) पदशीति	११७
" अवचूरि	१७६	" भाष्य	११७
कपूरचरित्र ( स )	३३६	" वृत्ति	११७
कपूरमन्त्री टीका	३३६	" वृत्ति ( प्रा )	११७
" लघुटीका	३३६	" वृत्ति	११७
कर्मादिविचारसार	१२९	" वृत्ति	११७
( १ ) कर्मप्रकृति	११५	" विवरण	११७
" चूर्णि	११५	" अवचूरि	११७
" वृत्ति	११५	" उद्धार	११७
" वृत्ति	११५	( ५ ) शतक	११७
( २ ) पंचसमूह	११५	" भाष्य	११७
" वृत्ति	११५	" चूर्णि	११७
" वृत्ति	११५	" वृत्ति	११७
" दीपक	११६	" टिप्पण	११७
		" अवचूरि	११७
		" सार्द्धशतक	११८
		" भाष्य	११८
		" चूर्णि	११८
		" वृत्ति	११८
		" वृत्ति	११८
		" वृत्ति	११८
		" टिप्पणक	११८
		( ४ ) पावनन्यकमप्रथ	११८
		" वृत्ति	११८
		" अवचूरि	११८
		" अवचूरि	११८

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
कर्मस्तवविवरण ...	११८	कलाप कौमारसारसमुच्चय,, ...	३०४
(५) सत्तरी ...	११९	„ उणादि वृत्ति „ ...	३०४
„ भाष्य ...	११९	A „ आख्यात कृद्वृत्ति „ ...	३०४
„ चूर्णि ...	११९	B „ आख्यात वृत्ति „ ...	३०४
„ वृत्ति ...	११९	„ आख्यातकृद्विवरण,, ...	३०४
„ वृत्ति ...	११९	„ कलापनाम्नाख्यात वृत्ति ...	३०५
„ वृत्ति ...	११९	„ आख्यातावचूरि ...	३०५
„ टिप्पनक ...	११९	„ कृद्वृत्तिटिप्पन ...	३०५
„ अवचूरि ...	११९	कलावतीकथा ...	२४९
कर्मप्रकृति टीका ...	१०३	„ (श्लोकबद्ध) ...	२४९
कर्मसंवेद्य प्रकरण ...	१३२	कल्याणमंदिरस्तोत्र ...	२७५
कर्मसंवेद्यभंग प्रकरण ...	१३२	„ वृत्ति ...	२७५
कर्मसार कथा ...	२४९	„ वृत्ति ...	२७५
कर्मसार कथा ( बीजी ) ...	२४९	„ वृत्ति ...	२७५
कर्मस्तवन ( ग्रा. ) ...	२७५	„ वृत्ति ...	२७५
कर्मविपाक कुलक ...	१९७	„ अवचूरि ...	२७५
करुणावज्रायुध नाटक ...	३३६	कल्याणमंदिरस्तोत्र ...	२७५
कल्पमंजरीकथाकोश ...	२६७	„ ( बीजं ) ...	२७५
कल्परत्नावली वृत्ति ...	३६८	„ वृत्ति ...	२७५
„ वृत्ति ...	३६८	कल्याणमंदिरछायास्तवन ...	२७५
कलाप व्याकरण ...	३०४	कल्याणमंदिर ( अभिनव ) ...	२७५
„ चतुष्काख्यातकृद्वृत्ति ...	३०४	कल्याणिक स्तव ...	२७५
„ दौर्गसिद्धी वृत्ति „ ...	३०४		
„ „ „ „ ...	३०४		

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
कवचप्रकरण	६६	कालचक्रविचार	१३७
कविकल्पद्रुमवृत्ति	३०६	कालज्ञान ( स )	३५४
” अवचूरी	३०६	कालशतक	२०८
कविगुह्यकाव्य	३२९	कालसत्तरि	१८३
” श्रुति	३२९	कालविचारशतक	२०८
कवितामदपरिहारवृत्ति	३१५	कालस्वरूपकुलक	१९७
कविशिक्षा	३१५	कालस्वरूपद्वान्निशिक्षा	१५८
कविशिक्षा ( धीजी )	३१५	” वृत्ति	१५८
कस्तुरीप्रकरण	१७६	कालिकाचायकथा	२४९
” वृत्ति	१७६	” ( प्रा )	२४९
काकहत	३५४	” वृत्ति	२४९
काकहत तथा काकनिलय	३६४	” ( प्रा )	२४९
कातत्रदीपिका	३०५	” ”	२४९
” विभ्रमवृत्ति	३०५	” ”	२४९
” सभ्रम	३०५	” ”	२४९
कातत्रदुर्गपदप्रबोध	३०५	” ”	२४९
कातत्रोत्तर	३०५	” ”	२४९
कादवरी टीका	३३४	” ( स )	२४९
कादवरी दपण	३३४	” ( प्रा )	२५०
कामघट	१७६	” ( स )	२५०
कामधेजु	३५१	वाच्यकरपलता	३१५
कायस्थितिस्तव	१४५	” श्रुति	३१६
” श्रुति	१४५	” परिमल	३१६
		” विषय	३१६
		काव्यप्रकाशसंकत	३१६
		काव्यमीमांसा	३१६

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
काव्यलक्षण ...	३१६	कुमारपालप्रबंध ...	२१४
काव्यात्राय ...	३१५	कुमारपालप्रतिबोध ( सं ) ...	२१३
काव्यालंकारवृत्ति ...	३१५	कुमारविहारप्रगस्ति काव्य ...	३२९
काव्यानुशासन ...	३१५	कुमारविहार शतक ...	२११
” वृत्ति ...	३१५	कुमारसंभववृत्ति ...	३३४
काशिकान्यास ...	३०६	कुमुदचंद्रनाटक ...	३३६
किरातार्जुनवृत्ति ...	३३४	कुर्मापुत्रचरित्र ...	२२२
किरातार्जुनीयदीपिका ...	३३४	कुरुचंद्रकथा ( सं. ) ...	२५०
क्रियाकलाप ...	३३४	कुरुकुलादेवीस्तवन ...	७७६
क्रियाकलापस्तुति ...	३३४	कुलध्वजकथा ...	२२०
” वृत्ति ..	३३४	कुलमंडनसूरिकृतविचारामृतसंग्रह	१५५
क्रियागुप्तस्तोत्र ...	२७६	कुवलयमाला ...	२२२
कीर्तिकलोलिनी ...	२१३	कुवलयमाला ...	२२२
कुडकेशर ...	३५१	कुवलयमाला कथा ( प्रा. ) ...	२५०
कुंतलदेवी कथा ( श्लोकत्रय ) ...	२५०	कुवलयमाला ( म ) ...	२५०
कुंधुनाथ चरित्र ( प्रा. ) ..	२४२	कुसुमसारकथा	२५१
” ( सं. ) ...	२४२	कूपनादृष्टातपर त्रय ...	१०८
कूपक्षकौशिकसहस्रकिरण ..	१५९	कूर्मापुत्रकथा ..	२५०
कुमताहिविपजागुली ( अपर- नाम हितोपदेश ) ..	१५८	” ( प्रा ) ...	२५०
कुमारदेव प्रबंध ...	२१४	” ” ...	२५०
कुमारपालचरित्र ...	२१३	कूर्मापुत्रचरित्र ..	२५०
” ( वीर्य ) ..	२१३	कृतकर्मकथा ..	२५१
” ( वीर्य ) ..	२१३		

अक्षरानुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठांक
कृतपुण्यचरित्र	२२२	पद्मदेवीय क्षेत्रसमास	१२१
कृष्णचरित्र	२२२	वीरजय क्षेत्रसमास	१२१
कृष्णयुधिष्ठिर वमगोष्ठी	१७६	” वृत्ति	१२१
केवली प्रस्रण (ताड)	१५९	संस्कृत क्षेत्रसमास	१२१
केवलिमुक्तिस्त्रीमुक्तिप्रस्रण	१५९	” वृत्ति	१२१
” सप्रह श्लोक	१५९	” सिरिनिलय क्षेत्रसमास	१२२
कोमुदी नाटक ”	२२५	” वृत्ति	१२२
क्षपकशिक्षा प्रस्रण	७२	” लघुवृत्ति	१२२
क्षमणसूत्र मूळ	५८	” अवचूरि	१२२
” अवचूरि	५८	” ”	१२२
क्षमाधि प्रसध (स)	२१४	सिरिवीरजिण क्षेत्रसमास	१२२
क्षान्तिदुल्लभ	१९७	स्व.	
क्षामणाकुल्लभ	१९७	खरतरमतनिरूपणशास्त्र विधि ...	१५९
क्षुब्ध भवावलि प्रस्रण	१३२	खरस्वर विचार	३५४
” अवचूरि	१३२	व्यापरिया कथा,	२५१
क्षेत्रसमास	१२०	खडनमडन	८१
” नैमिडणक्षेत्रसमास	१२०	खडप्रदग्नि वृत्ति	२३४
” वृत्ति	१२०	” वृत्ति	२३४
” वृत्ति	१२	” वृत्ति (नीजी)	२३४
” नमिडण सजल क्षेत्र समास	१२०	खेलवाडी	३५४
” वृत्ति	१२०	ग	
” वृत्ति	१२०	गगनधूलिका कथा	२५१
” वृत्ति	१२०	गच्छसामाचारी	१७५
” वृत्ति	१२०	गच्छाचार	६२
” वृत्ति	१२०	” वृत्ति	६२
” वृत्ति	१२०	” अवचूरि	६२
नमित्तुवीर क्षेत्रसमास	१२०	” ”	६२
” वृत्ति	१२०	” ”	६२



अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
गणधर दृढशतक ...	१६०	गाथा सहस्री ...	१२९
गणधरवाद ...	८४	गागोयप्रकरण ...	१३२
गणधरसार्धशतक ...	१५९	” अवचरि ...	१३२
” वृत्ति ...	१५९	गांधारकथा ...	२५१
” लघुवृत्ति ...	१५९	गिरनारकल्प ...	२७०
गणधर स्तवन ...	२७६	गुजराती संस्कृत कोश ...	३१०
गणरत्न महोदधि ...	३०७	गुणमालाप्रकरण ...	१७७
” वृत्ति ...	३०७	” वृत्ति ...	१७७
गणिततिलकवृत्ति ...	३४६	गुणरत्नाकरकाव्य ...	...
गंडस्य कहा ( प्रा. ) ...	३६७	गुणवर्मचरित्र ...	२२२
गङ्गाय कथा ..	२५१	गुणस्थानकमारोह ...	१३२
गणितविद्या मूळ ..	४६	” वृत्ति ...	१३२
गाथाकोश ...	१७७—३४०	गुणस्थानक विवरण ...	१३७
गाथाकोश ( बीजो ) ...	३४०	गुणसुदरी चरित्र ...	२२२
” उद्धार ...	३४०	गुर्जरब्राह्मणकथा ...	२५१
गाथारत्नकोश ...	३१७—३४०	गुरुगुणरत्नाकरकाव्य ...	२१४—३२९
गाथारत्नाकर ...	३१७—३४०	गुरुगुणपट्टिशिका ...	१४०
गाथालक्षण ( प्रा. ) ..	३१७	” वृत्ति ...	१४०
गाथाविचार ...	१२९	गुरुगुणपट्टिशिकाकुलक ...	१९७
गाथा सप्तशती ..	३४०	” दीपिका ...	१९७
” वृत्ति ...	३४०	गुरुगुणसत्तरी ...	१४३
” वृत्ति ...	३४०	गुरुतत्वप्रदीप ...	१६०
” वृत्ति ...	३४०		
” वृत्ति ...	३४०		

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
गुरुत्वनिर्णय	१०३	गौतमायमन	३६६
” वृत्ति	१०३	गहस्थधर्म प्रतिपत्तिकुलक	१९८
” वृत्ति (ज्ञानविंदु)	१०३	” (बीजु)	१९८
गुरुत्वव्यवस्था	१७७	प्रथसारसमुच्चय	१०१
गुरुत्वसिद्धि	१७७	ग्रहदीपिका	३५१
गुरुपारतन्त्र्यस्तव	१७७	ग्रहरत्नाकरकोष्टक	१६
” वृत्ति	१७७		
गुरुपादुकास्तोत्र	२७६	घ.	
गुरुयमककाव्याष्टक (स)	२७६	घटखपरवृत्ति	३१४
गुरुस्तुति	२१४	घटाकणकरूप	३६४
गुवाराधनाकुलक	२०६	च	
गुवावलीकुलक	१९८	चतुर्गतिस्वरूप कुलक	१९८
गुवावलीविशुद्धि	२१४	चतुर्मासीपवकथा	२६४
गुवावली	२१४	चतुर्वैगसग्रह	३०
गुवावली (बीजी)	२१४	चतुर्विधधमविषये कथा	२५१
” श्रुति	२१४		
गोढीपाश्वस्तोत्र	१०३—२७६	चतुर्विंशति जिनचरित्र	२४६
गोत्रोद्धार (शताथवृत्ति)	३४३	चतुर्विंशति जिनस्तवन	७६
गीतम कुलक	१९८	” (प्रा)	२७६
” लघुश्रुति	१८	चतुर्विंशतिस्तुति	७७
गीतमपृच्छा	१७७	” अथचूरि	२१७
” वृत्ति	१७७	चतुर्विंशति जिनस्तुति	१७
गीतमभाषित	१७७	” अथचूरि	७७
गीतमस्तोत्र	७६	चतुर्विंशति जिनस्तुति	३
		” श्रुति	७७

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
चतुर्विंशति जिनस्तुति ...	२७७	चंद्रदूत काव्य ...	२२९
” ” ...	२७७	चंद्रप्रज्ञप्ति मूळ ...	१०
” अवचूरि ...	२७७	” वृत्ति ...	१०
चतुर्विंशति जिनस्तुति ...	२७७	चंद्रप्रभस्वामी चरित्र ( प्रा. ) ..	२३९
” अवचूरि ...	२७७	” वृत्ति ...	२३९
चतुर्विंशति स्तुति ...	२७७	” चरित्र ( प्रा ) ..	२३९
” श्रुति ...	२७७	” ( प्रा ) ...	२३९
” अवचूरि ...	२७७	” ( स प्रा ) ..	२३९
चतुर्विंशति जिनस्तोत्र ...	२७८	” ( स. ) ...	२३९
चतुर्विंशति जिनस्तोत्र ...	२७८	” ...	२३९
” अवचूरि ...	२७८	” ( विपमपद वृत्ति ...	२३९
चतुर्विंशति जिनस्तोत्र ...	२७८	चंद्ररज्जुचक्रनिवरण ...	३४६
” अवचूरि ...	२७८	चंद्रलेखा कथा ..	२५१
चतुर्विंशति जिनस्तोत्र ...	२७८	” ( सं ) ...	२५१
” ( गुप्तकिय ) .	२७८	चंद्रलेखाविजय नाटक ...	३३६
चतुर्विंशति जिनस्तोत्र वृत्ति ...	२७८	चंद्रलेखाविजयप्रकरण ...	३२९
चतुर्विंशतिजिन स्तोत्र ...	२७८	चंद्रवैद्यक मूळ ...	४६
चतुर्विंशतिका स्तोत्र ...	२७८	चंद्रोदयकथा ...	२५१
चतुर्विंशतिकाजिनपूर्वभव सख्या.	१३२	चंपकमालाकथा ...	२५२
चतुर्विंशतिका पूर्वभवोत्कीर्तन		चंपकमालादि कथा पट्टक ...	२५२
संबद्ध स्तवन ...	२७६	चंपकप्रेष्टिकथा ...	२५२
चतुर्विंशति प्रबंध ...	२१४	” ( वीजी )	२५२
चतुरंगी भावनासंधि ...	१७७	” ( त्रीजी )	२५२
चतुः शरण मूळ ...	४४	चर्चरी ...	१६०
” वृत्ति ...	४४	” वृत्ति ...	१६०
” अवचूरि ...	४४	चंपूमउन ( द्रौपदीकथामय ) ...	३२९
चतुःषष्टियोगिनी स्तुति ...	२७८		

अराक्षनुक्रमधार प्रथोना नाम	पृष्ठांक	अक्षराणुक्रमवार प्रथोना नाम	पृष्ठांक
चरणकरणमूलोत्पत्त्युण ( प्रा )	१३२	चिन्हचतुर्विंशतिका	३५५
चचाप्रथ	१९०	चैत्यप्रतिष्ठाप्रकरण	१६०
चत्वारिअष्टदसगाथा विवरण	१३७	चैत्यप्रतिष्ठातिस्तव ( साव )	१४५
चार्षिक	१६०	चोवीस प्रथम नियधनकुलक	१९८
चातुमासी व्याख्यान	३४३	छ	
चातुरी सूत्र	२१३	छद्म शेष ( प्रा )	३१७
चामरसेन घररोन षष्ठा	३५२	„ ( मूर्ति )	३१७
चामरहारिकथा	३५२	छद्मरूपक	३१७
चारिप्रमनोरथमाला	१७७	छद्मभ्रमामणि टीका	१०७
चारिप्रसार	११०	छद्मशेखर	३१८
चारुचयाशतक	३३९	छन्दोनुशासन	३१७
चिकित्सोत्सव	३५९	„ मूर्ति	३१७
चिताशुद्ध	१०८	„ पदाय	३१७
चितामणि	२७८	छन्दोतनावली	३१७
चितामण्डलक	२७८	छीक विचार	३५७
चित्तप्रमणि प्रकरण	११०	छोतीकुलक	१९८
चित्रोदमहावीर विहारप्रमाण	२१४	ज	
चित्रप्रकाशप्रद	३५४	जगदु प्रथम	२१४
चित्रप्रद चन्द्रशेखर	३८	जगन्मन मूर्ति	२७८
चित्रप्रकाश	२७८	„ मूर्ति	२७८
„ मूर्ति	२७८	जगन्मन मूर्ति	१३७

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति मूळ ...	८	जयंतीप्रश्नोत्तर संप्रह ...	१७८
” चूर्णि ...	८	” वृत्ति ...	१७८
” वृत्ति ..	८	जयपाहुटपयाव स्तोत्र ...	२७९
” ” ...	८	जयपाहुटप्रश्नव्याकरण ...	३५५
” ” ...	८	जयविजय कथा ...	२५२
” ” ...	८	जयसिंहप्रबंध ( गद्य ) ...	२१४
जंबूद्वीपसप्रहणी ...	९९	जयमुंदरी कथा ...	२५२
जंबूपयन्तु ...	६८	जयानंदचरित्र ...	२२४
जंबूस्वामी कथा ...	२५२	” ( वीजुं ) गद्यबद्ध ...	२२४
जंबूस्वामी चरित्र ...	२२३	जातकपद्धती ...	३४७
” ( वीजुं ) ( प्रा. ) ...	२२३	जातकदीपिका ...	३४७
” टिप्पण ...	२२३	” वृत्ति ...	३४७
जन्मकुंडलीविचार ...	३४६	जातकाभिधान ...	३४७
जन्मपत्री पद्धति ...	३४७	जिनकल्याणिकस्तोत्र ...	२७९
जन्मपत्री विचार ...	३४७	जिनचंद्रचतु.सप्ततिका ...	२१४
जन्माभोधि ..	३४७	जिनचंद्रसूरिकृतसामान्चारी ...	१५५
” वृत्ति ...	३४७	जिनदत्त कथा ...	२५२
जंबूस्वामी चरित्र ...	२२३	जिनदत्तकथा समुच्चय ...	२५०
” ( > धी.९सुधी ) .	२२३	जिनदत्ताख्यान ...	२५२
जयतिहुयणस्तोत्र ...	२७९	जिनदत्तीय विद्या ...	३६६
” वृत्ति ...	२७९	जिनपतिस्तोत्र ...	२७९
जयदेव छंदः शास्त्र वृत्ति ...	३१८	जिनप्रभ प्रबंध ...	२१४
” टिप्पण ...	३१८		
जयतकाव्य ...	३३०		

अक्षराजुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षराजुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
जिनप्रवचनरहस्य कोश	११०	जिासहजनामस्तोत्र	२७९
जिाभवस्तोत्र	२७९	” श्रुति	२७९
” अवचूरि	२७९	जिाश्वरसहजनामस्तोत्र	१३३
जिनराजस्तव ( प्रा )	२७९	” श्रुति	१३३
जिनवज्रसूरिष्टत प्रतिकमण सामाचारी	१५५	जिनेश्वरस्तोत्र	२८०
जिनाविशति	२७९	जीतकरूपमूळ	५४
जिनशतक	२११	” श्रुति	५४
जिाशतक	२७९	” विवरण	५४
” पजिना	२७९	” भाष्य	५४
जिनसप्तालकार	८८	” सार	५४
जिनसहजनामस्तोत्र	२७९	” चूर्ण	५४
” ” श्रुति	२७९	” टिप्पणक	५४
जिनसहितता	३३९	( विषमपदव्याप्त्या )	
जिनसूरिकृतसाधुसामाचारी	१५५	जीतसारसमुच्चय	१४९
जिनस्तुति ( स )	२७९	जीरावलीस्तव	२८०
” ”	२७९	जीरावलीस्तवन	२८०
” ”	२७९	जीरावलीस्तोत्र	२८०
जिनस्तोत्र	२८	” अवचूरि	२८०
” अवचूरि	२८०	जीव कुलक	१९८
जिनस्तोत्र विधि	१५३	जीवदयाप्रकरण	१७८
जिनैन्द्रविज्ञप्ति कुलक अनु ४	२०६	जीवभेदद्वान्निशिका	१३९
		जीवविचार	१३३
		” श्रुति	१३३
		” श्रुति	१३३
		” ,	१३३
		” ”	१३३
		जीवविचार	१०३



अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
ज्ञानपत्रमी कथा	२६४	तपासामाचारी	१५६
, ( स. ) ( बीजी )	२६४	तपोटमतकुट्टन	१६०
” ” ( श्रीजी )	२६४	तपोयोगविधि टीका	१५३
ज्ञानपचाशिका	१७८	तमोवाद	८४
ज्ञानप्रकाश	११०	तरालोल्ला	२६७
ज्ञानप्रदीप	३५१	तत्त्वविदु	१७९
ज्ञानमजरी	३५१	तत्त्वविदु प्रकरण	१११
ज्ञानसार	१०४	तत्त्वविचार प्रकरण	१३३
” श्रुति	१०४	तत्त्वविनिश्चय	९०
ज्ञानसूर्योदय नाटक	३३६	तत्त्वविवेक	१०८
ज्ञानकोश	३३६	तत्त्वसार गाथा	१३७
ज्ञानार्णव	१०७	तत्त्वानुशासन	९०
ज्ञानार्णव	१११	तत्त्वामृत	१११
ज्ञानादित्य प्रकरण	१९—१७८	तत्त्वार्थसूत्र	७२
ज्ञानाकुश	१११—१७९	” गोप्य	७२
ज्ञान		” श्रुति	७२
ज्ञान		” श्रुति	७२
ज्ञान		” लघुश्रुति	७२
ज्ञान		तत्त्वार्थनी टीकाजो	८८
तदुल्लवैचारिक मूळ	४६	” श्रुतिमहाभाष्य	८८
” श्रुति	४६	” टीका ( पहिली )	८८



अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
” टीका ( बीजी ) ...	८८	तर्कफकिका ...	९५
” टीका ( त्रीजी ) ...	८८	तर्कभाषा ...	७२
” टीका ( चोथी ) ...	८८	” ...	९०
” टीका ( पांचमी ) ...	८८	” ...	१०४
” टीका ( छठी ) ...	८८	तर्कभाषावार्तिक ...	९५
” टीका ( सातमी ) ...	८८	तर्करहस्य दीपिका ...	९५
” टीका ( आठमी ) ...	८८	तर्कशास्त्र ...	९०
” टीका ( नवमी ) ...	८८	तर्कवाद ...	९०
” टीका ( दशमी ) ...	८८	तर्कामृत ...	९०
” ( अग्यारमी ) ...	८९	ताजिकसार वृत्ति ...	३४८
” ( बारमी ) ...	८९	तिजयपहुत ...	२८०
” राजवार्तिक ...	८९	” वृत्ति ...	२८०
” राजवार्तिकालंकार ...	८९	तिथ्यादिसारिणी ...	३४७
” तत्त्वानुशासन ...	८९	तिथिप्रकीर्णक ...	६४
” तत्त्वदीपक ...	८९	तिरिनरयसूत्र ...	१३७
” तत्त्वसार ...	८९	तिलकमंजरी ...	३३०
” तत्त्वसार टीका ...	८९	” टिप्पनक ...	३३०
” ” दीपिका ...	८९	” सारोद्धार ...	३३०
” तत्त्वार्थसार ...	९०	तिलकाचार्यवृत्तपुनमिया ...	१५६
” ” दीपिका ...	९०	सामान्तरी ...	१५६
” तत्त्वार्थालंकार ...	९०	द्वितीयज्वराष्टक ...	३६६
” श्लोकावार्तिकोद्भूतकारिका ...	९०	त्रिभुवनसिंह चरित्र ...	२२४
” स्फोटक वृत्ति ...	९०	” ( बीजं ) ...	२२८
तत्त्वार्थबोधप्रकरण ...	१३३		
तर्कदीपिका ...	९०		
तर्कपरीक्षा ...	९०		

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
त्रिचिन्म शत	२८	दमयतीचपूश्रुति	३३४
त्रिपष्टिशलाका पचाशिका	१४२	” चपूश्रुति	३३४
त्रिपष्टिशलाकापुरूपचरित्र काव्य	३३०	” दिप्पिन	३२४
त्रिपष्टिमहापुरूपगुणालकार	२६७	दमयतीप्रबध ( गद्य )	२२४
त्रिसूत्र्यालोक	१०७	” ( श्लोकबद्ध )	२०४
तीर्थकरस्थानप्रकरण	१३८	दशनमाला	१७९
तीर्थमालाप्रकरण	१७९	दशनरत्नाकर	१११
तीर्थमालास्तोत्र(त्यादिसमुच्चय)	८०	दशनगुद्धिप्रकरण	१७९
तीर्थमाला स्तवन ( प्रा )	२८	” श्रुति	१७९
तीर्थस्तव ( यमकबद्ध )	२८	” श्रुति	१७९
तीर्थोद्धार	६२	” अवचूरि	१७९
त्रैवेद्यगोष्ठी	८१	दशन सत्तरा	९९
थ		” अवचूरि	९९
धावचापुत्रकथा	३५३	दशन सत्तरी	१४३
द		दशवैकालिक मूळ	३४
दडक	१२३	” नियुक्ति	३४
” वृत्ति	१०४	” चूर्ण	३४
” अवचूरि	१२४	” बृहद्गति	३४
महादडक ( अवचूरि )	८०४	” श्रुति	३४
दमयती चरित्र	२२४	” लघुवृत्ति	३४
		”	३४
		” अवचूरि	३६
		” अवचूरि	३६
		”	३६
		” (शब्दावश्रुति)	३६

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
दशवैकालिक निर्युक्त्यवचूरि ...	३६	दानसत्तरी ...	१४३
” वृत्ति दीपिका ...	३६	दानादिकथा ...	२५३
दशाश्रुतस्कंध मूल ...	१४	दानादिकुलक चार ...	१९९
” निर्युक्ति ...	१४	” वृत्ति ..	१९९
” चूर्णि ...	१४	” ” ...	१९९
” वृत्ति ...	१४	दानादिकुलक चार ...	१९९
दशदृष्टांतगीता ...	१७९	” वृत्ति ...	१९९
दशश्रावक चरित्र ...	२२४	दिगंबरखंडन ..	१६१
” ( प्रा. ) ...	२२४	दिनकृत्यकुलक ...	१९९
दशश्रावकवृद्धिकुलक	१९९	दीपालिका कल्प ...	२७०
दानोपदेशमाला ...	१८०	” ( वाजो ) ...	२७०
” वृत्ति ...	१८०	” ( त्रीजो ) ...	२७०
दानचतुष्टय कथा ...	२५३	” ( प्रा ) ( चोथो ) ...	२७०
दानप्रकाश ...	१८०	” ( प्रा. ) ( पाचमो ) ...	२७०
दानप्रदीप ...	१८०	” अवचूरि ...	२७०
दानादि प्रकरण ...	३४०	” ( छठो ) ..	२७०
दानमहिमा कुलक ...	१९९	दीक्षाकुलक ...	१९९
दानविधिप्रकरण ...	१४९	दुर्गाशकुन ...	३५५
दानशीलतपोभावना कुलक ...	१९९	दुसमदंडिकाप्रकरण ...	१३३
दानपट्टिशिका ...	१४०	” अवचूरि ...	१३३
” वृत्ति ...	१४०	दुसमदंडिका ...	१३३
” अवचूरि ..	१४०	दुसमव्यवच्छेद दंडिका ...	१३३
		दुसमव्यवच्छेद दंडिका ( प्रा. जी )	१३३

अक्षरानुक्रमवार प्रभोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रभोना नाम	पृष्ठांक
दुःखमाकाङ्क्षमणस्य स्तोत्र	१४६	दृष्टातमाला	१८०
देवकुमारकथा	२५३	दृष्टातरत्नाकर	२६७
” (बीजी)	२५३	दृष्टातशतक	२०८
देवतत्वप्रकरण	१८०	” (बीजु)	२०८
देवधमपरीक्षा	१०४	” (तीजु)	२०८
देवर्द्धि कथा	२१५	” भवचूरि	२८
देवप्रभ मलधारीकृत सामाचारी	१५६	दृष्टिवाद	९०
देववदनकुलक	१९९	दृष्टिविधि	१५३
देवकीचरित्र (प्रा)	२०४	द्रव्यगुणपर्यायनिरूपण	९०
देवगुप्तसूरिकृत श्रावक सामाचारी	१५६	द्रव्यपयायस्वरूप	१२९
देवागम स्तोत्र	२८	द्रव्यप्रकाश प्रकरण	१२४
देवा प्रभो स्तोत्र	२८०	द्रव्यसत्तरी	१४३
” भवचूरि	२८०	” वृत्ति	१४३
देवेंद्रनरकेंद्र प्रकरण	९९	द्रव्यानुयोगव्याख्या	७३
टीका	९९	द्रव्यालकारतक	७३
देवेंद्रस्तव	४६	द्रव्यावली (निघट्ट)	३५९
देवोत्पत्तिस्वरूप प्रकरण	१३३	द्वयक्षरनाममाला	३१०
देवस्थितिस्तव	१४५	द्वयक्षरनेमिस्तव	२८०
” वृत्ति	१४५	द्वादशबुलक	१९९
दृढप्रहारि कथा	२५३	” वृत्ति	१९९
दृढप्रहारि चरित्र	२२४	द्वादशचरण	१६१
दृष्टातद्वयण	८४	द्वादशभाषण स प्रदीप	३४७

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोत्ता नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोत्ता नाम.	पृष्ठांक.
द्वादशभावना ...	१८०	धनपालपंचाशिका ...	२८१
द्वादशभावना कुलक ...	१९९	” वृत्ति ...	२८१
द्वादशभावनाविषये कथा ...	२६७	” वृत्ति ( संक्षिप्त ) ...	२८१
द्वादशव्रत कथा ...	२५३	” अवचूरि ...	२८१
” ( बीजी ) ..	२५३	” अवचूरि ...	२८१
द्वादशव्रत कुलक ..	२००	धनाकथा ...	२५३
द्वादशांगनामग्रंथमान कुलक ...	२००	धनाकाकदी कथा ...	२५३
द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका ...	१८०	धनाचरित्र ...	२२५
” ” ...	१०४	धनुर्विद्या ...	३३२
” वृत्ति ...	१०४	” ” वृत्ति ...	३३२
द्विजवदनचपेटा ...	१६१	धनुर्वेद ...	३६२
द्विजवदनवज्रसूत्री ...	१६१	धन्यशालिचरित्र ...	२२५
द्विवर्णरत्नमालिका ...	२८१	धन्यचरित्र ...	२२५
” वृत्ति ...	२८१	धरणीरगेंद्र स्तव ...	२८१
द्विसंधान ( राघवपाण्डवीय ) ..	३३१	” वृत्ति ...	२८१
द्विपसागरप्रज्ञप्ति. ...	६४	धर्मकल्पद्रुम ...	१८०
ध.		धर्मशर्माभ्युदय ...	३३१
धनंजयनाममाला ...	३१०	धम्मसुयप्रकरण ...	१२७
धनदत्तिका ...	२०९	धर्मकुलक ...	२००
धनदत्तकथा ...	२५३	धर्मदत्तकथा ...	२५३
धनपतिकथा ...	२५३	” ( गद्य ) ..	२५३
		” ( सं. ) ...	२५३
		” ” ...	२५३

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम	पृष्ठांक
धर्मसूत्र	१८०	धर्मविधि	१४९
„ श्रुति	१८०	„ श्रुति	१४९
धमनाथ चरित्र	२४१	„ वृत्ति	१४९
„ ( स )	२४१	धमविधि ( बीजी )	१४९
धर्मपरीक्षा	१०४	धर्मविलास	१८१
„ श्रुति	१०४	धमविशेष	१८१
धमपरीक्षा	१६१	धमादीक्षा	१८१
धमपरीक्षा कथा	२५३	„ श्रुति	१८१
धमपरीक्षा कथा	२६७	धमसप्रद	१४९
धर्मबिंदु	१८१	धमसप्रहणा	९९
„ श्रुति	१८१	„ वृत्ति	१००
धमबिंदु	९९	धमाख्यातक कोश ( प्रा )	२६७
„ श्रुति	९९	„ वृत्ति ( प्रा )	२१७
धर्मभावना कुलक	२००	धर्माचार्यवहुमान कुलक	२०६
धममाहात्म्यकथा	२५४	धमार्धम कुलक	२००
धर्मरत्नकरडक	१८१	धर्माभ्युदय काव्य	३३१
धमरत्न	१८१	धर्माभ्युदय नाटक	३३०
„ वृत्ति	१८१	धमाद्यत	१८१
धमरत्न लघुश्रुति	१८१	„ ( बीजु )	१८१
धर्मलक्षण	१११	धम्मिल कथा	२५४

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
धम्मिल्लचरित्र ( श्लोकबद्ध ) ...	२२५	धातुरत्नाकर ...	३०७
„ ( सं. ) ...	२२५	धातुवाद प्रकरण ...	३५५
धर्मोपदेश ...	१८२	धीषणोपचारसार ...	३५१
„ ( बीजो ) ...	१८२	ध्यानदीपिका ...	१११
„ लघुवृत्ति ...	१८२	ध्यानविचार ...	१११
धर्मोपदेश ( त्रीजो ) ...	१८२	ध्यानशतक ...	२०९
„ ( चोथो ) ...	१८२	„ वृत्ति ...	२०९
धर्मोपदेश कुलक ...	२०५	ध्यानसार ...	१११
„ ( बीजुं ) ...	२०५	धूर्तचरित्र कथा ...	२५४
धर्मोपदेशमाला ...	१८२	धूर्ताख्यान ( प्रा. ) ...	१००—१६२
„ वृत्ति ...	१८२	धूमावलिक्का ...	१८९
„ वृत्ति ...	१८२	„ वृत्ति ...	१४९
धर्मोपदेशमाला ( बीजी ) ...	१८१	ध्वजधूम ...	३५१
धर्मोपदेशामृत ...	२००	न.	
धर्मोपदेशामृत कुलक ...	१११	नंदयति कथा ..	२५४
धन्यसुंदरी कथा ...	२५४	नंदिताव्य ...	३१८
धातुकल्प ...	३६४	„ वृत्ति ...	३१८
धातुतरंगिणी ...	३०७	नदिसूत्र मूळ ...	४२
धातुमंजरी ...	३०७	„ चूर्णि ...	४२
		„ लघुवृत्ति ...	४२

भरानुक्रमवार प्रयोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोना नाम	पृष्ठांक
नदि बृहद्वाचि	४२	नयचक्र	७४
„ लघुवाचि टिप्पणक (विषमपदपयाय)	४०	नयप्रकाश	८१
„सवसिद्धांतविषमपदपर्याय	४२	„ वृत्ति	८१
„ अवचूरि	४२	नयचक्रवाळ	७३
मदिस्तुतिव्याख्या	२८१	„ वृत्ति	७४
नविविधि (प्रा पद्य)	१५४	नयप्रदीप	८२
मंदोपाख्यान	२५४	नयरहस्य	७४
„	२१५	„	१०४
नमस्कार दृष्टत	२५४	नयवाद	९१
नमस्कारद्वान्त्रिचिका	२८१	नर्मदासुदरी कथा	२५४
नमस्कार स्तव (प्रा )	२८१	„ (बीजी)	२५४
„ श्रुति	२८१	„ (श्रीजी)	२५४
नमिनाथ चरित्र (प्रा )	२४३	नयोपदेश	१०४
„ (स )	२४३	„ टीका	१०४
नमिगुण	२८२	नरक्षेत्र विचार	१३७
„	२८०	नरदेव कथा	२५४
नमिरसुरस्तव	२८०	नरनारायणानंद काव्य	३३१
नमोस्तुवद्धमानाय स्तुति	२८२	नरपतिजयचथा	३४८
नयचक्र	९१	नरप्रह्लाचरित्र	२२५
„ श्रुति	९१	नरभयदृष्टातोपनय	१८३
नयचक्र	९१	नरवमकथा	२५४
		नरवमचरित्र	२२८



अक्षरांशुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरांशुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
नरसंवादसुंदर ...	३४३	(२) नवतत्त्वविचार ...	१२४
नेरश्वरसूरिकृत सामाचारी ...	१५६	„ सारोद्धार ...	१२५
नलकथा ...	२५४	(३) नवतत्त्वगाथा ...	१२५
नलविलास नाटक ...	३३५	„ भाष्य ...	१२५
नलायनमहाकाव्य ...	३३१	„ वृत्ति ...	१२५
नलोदय काव्य ...	३३१	(४) बृहन्नवतत्त्व ...	१२५
नलोपाख्यान ...	३३१	नवनंदचरित्र ...	२२५
नवकार प्रकरण ...	१८३	नवपदप्रकरण ...	१८३
नवकारफल कुलक ...	२००	„ वृत्ति ..	१८३
नवग्रहस्तोत्र ...	२८१	नवविधभावना ...	१८३
नवग्रहवृत्ति ...	३५१	नागकुमारचरित्र ...	२२५
नवग्रहराशिविचार ...	३४८	नागदत्तचरित्र ...	२२५
नवतत्त्व कुलक ...	२००	नागराज शतक ...	२०९
नवतत्त्वनाप्रथो ...	१२४	नागश्रीकथा ...	२५४
(१) नवतत्त्व ...	१२४	नागानंदनाटक ...	३३९
„ वृत्ति ...	१२४	नागार्जुनविद्या ...	३६२
„ वृत्ति ...	१२४	नाट्यदर्पणसूत्रं ..	३१६
„ वृत्ति ...	१२४	नाडीसंचारज्ञान ...	३५५
„ वृत्ति ...	१२४	नाथपुस्तिका ..	३५५
„ विवरण ...	१२४	नामाकल्प ...	३६४
„ अक्षरसूत्रि ...	१२४	नानाविचार संग्रह ..	१२९
„ „ ...	१२४		

अक्षरातुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरातुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
नाभाक कथा	२५४	निशीथ वृहद्भाष्य	१०
नाभिनन्दनोद्धार प्रबंध	२१५	„ भाष्य	१०
नाभेयजिनस्तुति	२८२	„ चूर्ण	१०
नाभेयस्तोत्र	२८२	„ विशोद्देशक वृत्ति	१०
नाभेयनेमि द्विसप्तम	३३१	„ विशोद्देशक वृत्ति	१०
नारचंद्र	३४८	„ अवघूर्ण	१२
„ टिप्पण	३४८	„ भाष्य विवेक	१०
नारदोक्तद्विलक्षण	३१५	नि शेषसिद्धांतविचार	१२९
नालधरावर्तविधि	११८	निधेयसाधिगम प्रकरण	१११
नारीबोध	१८५	नीतिकल्पतरु	३३९
नास्तिकनिराकरण	८१	नीतिवाच्यामृत	३३९
निगोदषट्त्रिंशिका	१४०	नीतिसार	३३९
„ वृत्ति	१४०	नेमिगद्यावली	२८०
निजतीर्थिककल्पितकुमंत निरास	१६२	नेमिचरित्रस्तोत्र ( भा )	२८२
निधानादिपरीक्षाशास्त्र	३४८	नेमिशतक	२८०
निरजनपरमात्मत्रिंशतिका	१८२	नेमिशतक	२११
निर्भयमीमें नाटक	३७	नेमिस्तवन	२८१
निवाणकांड	१११	नेमिस्तोत्र	२८२
निशाविराम कुल्ल	००	,	०८२
निशीथ मूल	१०	नेमिद्वय	३३१

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
नेमिनिर्वाण ...	३११	न्यायविदु ...	९५
नेमिनाथ चरित्र ( प्रा. ) ...	२४३	न्यायविनिश्चयालंकार ...	९१
„ ( प्रा. ) ...	२४३	न्यायसदर्थसंग्रह ...	९१
„ ( प्रा. ) ...	२४३	न्यायसार वृत्ति ...	९५
„ ( प्रा. ) ...	२४३	न्यायामृत ...	९१
„ ( सं. ) ...	२४३	न्यायामृत तरंगिणी ...	७५
„ ( स. ) ...	२४३	न्यायालोक ...	७५—१०४
„ ( सं. ) ...	२४३	न्यायालंकार टिप्पन ...	९६
नेमिचरित्र महाकाव्य ...	३३१	न्यायावतार ...	७५
„ टिप्पनक ...	३३१	„ वृत्ति .	७५
नौयोगादि .	३५१	„ वृत्ति ...	७५
न्यायकुमुदचंद्र ...	९१	„ टिप्पन ...	७५
न्यायकुमुद चंद्रोदय ...	९१	न्यायाष्टाध्यायी ...	८२
न्यायखंडखाद्य ...	७५—१०५		
न्यायतत्त्व ...	८२	<b>प.</b>	
न्यायदीपिका ...	९१	पंचकल्प मूळ ...	१६
न्यायधर्मोपदेश ...	१८३	„ भाष्य ...	१६
न्यायप्रवेशक सूत्र ...	७४	„ चूर्णि ...	१६
„ वृत्ति ...	७४	पंचजिनस्तव ( षट्भाषा ) ...	२८२
„ टिप्पन ...	७४	पंचत्रिंशदतिशय स्तव ...	२८३
„ पत्रिका ...	७५	पंचदर्शनखंडन ...	८५

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
पञ्चमस्कारफल	१८३	पञ्चमिमा	७६
पञ्चनिर्मैयविचार	१३७	पञ्चसप्तत्यधिकार	१३०
पञ्चनिर्मैयी प्रकरण	१३४	पञ्चाख्यान ( सारोद्धार )	२५५
„ अवचूरि	१३४	पञ्चागतस्व	३५३
पञ्चपरमेष्टिस्तव	२८२	पञ्चागतिथिविवरण	३४८
„ वृत्ति	२८०	पञ्चागदीपिका	३५१
पञ्चपरमेष्टिस्तव	२८२	पञ्चाचार कुलक	२००
„ वृत्ति	२८१	पञ्चाशक	१००
पञ्चपरमेष्टिस्तोत्र	२८०	„ वृत्ति	१००
„ „	२८३	„ प्र पञ्चाशकचूर्णि	१०
पञ्चपरमेष्टि विवरण	३४	पञ्चास्तिप्रबोध सवध	१३०
पञ्चप्रमाणपञ्चाशिका	१८४	पञ्चोपागमूळ	१०
पञ्चलिंगीप्रकरण	१३४	„ वृत्ति	१०
„ वृत्ति	१३४	प्रज्ञापना मूळ	८
„ लघुवृत्ति	१३४	„ वृत्ति	८
„ निष्पन्न	१३४	„ लघुवृत्ति	८
पञ्चवगपरिहारि नाममाला	३११	„ तृतीयपदसप्रहणी	८
पञ्चवस्तुक	१०	„ अवचूरि	८
„ वृत्ति	१०	पठितसिद्धसारस्वतस्तोत्र	३८२
पञ्चवर्गसमूह नाममाला	३११	पठितमृत्यु शुलक	२००



अक्षरानुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठाक	अक्षरानुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठाक
पर्युषणा कल्पलघुटीका	५०	परमात्मप्रकाश ( दृष्टा )	१४२
„ अवचूरिरूपश्रुति	५०	परमानन्द स्तोत्र	२८३
„ अवचूरिलेश	१०	परमानन्दपञ्चविंशतिका	११०
„ अवचूरी	५०	परमेशिस्तव ( प्रा )	२८३
„ कल्पान्तवाच्य	५०	परहेतुतमोभास्कर स्थल	८७
„ „	५२	परिणामिवस्तुव्यवस्थापना	८५
„ „	५०	परिग्रहपरिमाण	१८४
„ „	५२	„ ( बीज )	१८४
पर्युषणा कल्पसमथन	५२	परिग्रहपरिभोगपरिहार कुलक	२८०
„ कल्पचचा	५२	परीक्षामुप	९१
पर्यंताराधना कुलक	२०१	„ श्रुति ( प्रमेवरत्नमाला )	९१
पर्यंताराधना कुलक	२०७	पवपजिका	१४९
पर्यंताराधना	१८४	पर्वरत्नावली	१६२
पर्यंतोपदेश	१८४	पर्वविचार	१६२
परब्रह्मोत्थापन स्थल	८५	पववित्तिसि शतक	२०९
परमसुख द्वानिश्चिका	२०७	पङ्कविचार	३५५
परमसुख द्वानिश्चिका	११०	पणीशरटशाणित	३५५
„ टीका	११२	परमोपमोपवासविधि	१५४
परमाशुविचार धर्मानिश्चिका	१४०	पाक्षिकसूत्र मूल	५८
„ वृत्ति	१४०	„ श्रुति	५८

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
पाक्षिकसूत्र भवचूरि ...	५८	पार्श्वनाथचरित्र ( सं. ) ...	२४५
„ चूर्णि ...	५८	„ „ ...	२४५
„ विषमपदपर्यायमंजरी ...	५८	पार्श्वस्तोत्र ...	२८३
पाणिनीय द्वयाश्रयकाव्य ..	३३२	„ „ ...	२८३
पादगणसंग्रहाणविवेक ...	३०७	„ „ ...	२८३
पाद्यलब्धि ( सं. ) ...	३६२	पार्श्वनाथाष्टक ...	२८३
पायलच्छीनाममाला ...	३११	„ वृत्ति ...	२८३
पारसीनाममाला ...	३११	पार्श्वनाथ स्तोत्र ...	२८३
पार्श्वचरित्रसंबद्धदशदृष्टात कथा ...	२६७	पार्श्वनाथादि स्तोत्र ...	२८३
पार्श्वस्तव ..	२८३	पार्श्वनाथावली ...	२८४
„ वृत्ति ...	२८३	पार्श्वभक्तप्रसादप्रगति ...	२८४
पार्श्वस्तवन ( सटीक ) ...	२८४	पासाकेवलि ...	३५५
पार्श्वस्तवन ...	२८४	पाचसूत्र ...	१००
पार्श्वनाथचरित्र ( प्रा. ) ...	२४४	„ वृत्ति ...	१००
„ „ ...	२४५	पाडवचरित्र ( सं ) ...	२२६
„ ( सं. ) ...	२४५	„ चीजुं ( गद्य ) ...	२२६
„ „ ...	२४५	„ उद्धार ...	२२६
„ „ ...	२४५	पातंजलकैवल्यपादवृत्ति ...	१०७
„ ( गद्यबद्ध ) ...	२४५	पिंगल सारोद्धार ...	३१८
„ ( सं. ) ...	२४५	पिंडनिर्युक्ति मूळ ...	४०

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठाः	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
पिंडनिर्मुक्ति वृत्ति	४०	पुण्यवर्ताकथा	२५५
„ लघुवृत्ति	४	पुण्यसार कथा	२५५
„ बृहद्गति	४०	„ „	१५५
„ अवचूरि	४०	„ „	२५५
पिंडविशुद्धि	६४	पुद्गलपरावतविचार स्तव	२०४
„ वृत्ति	६४	पुद्गलपरावतगाथाविचार	१३७
„ लघुवृत्ति	६४	पुद्गलपरावतस्तव ( साव )	१४५
„ दीपिका ( लघुवृत्तिरूपा )	६४	पुद्गलपरावतस्वरूप प्रकरण	१३४
„ अवचूरि	६६	„ अवचूरि	१३४
„ „	६६	पुद्गलभगप्रकरण	१३४
„ वृत्ति ( दीपिका )	६६	„ अवचूरि	१३४
„ पत्रिका	६५	पुद्गलपद्मनिशिका	१४०
पिपीलिकाज्ञान ( प्रा )	३५५	„ वृत्ति	१४०
पुढरीक चरित्र	२२६	पुनडकथा	२५५
पुढरीकस्तव	१८४	पुराणहृदि	३४०
„ बीजु ( प्रा )	२८४	पुरुषार्थसिद्धयुपाय	११२
पुण्यघन कथा	१५५	पुरुषार्थसिद्धयुपाय टीका	११३
पुण्यपाप कथा	२०५	पुण्यकुलक ( सटीक )	२ १
पुण्यपाप कुलक	२ १	पुष्पमाला	१८४
पुण्यलाम कुलक	२०१	पुष्पमाला वृत्ति	१८४



अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
पुष्पमाला वृत्ति ...	१८४	पौषघ वृत्ति ...	१४१
„ लघुवृत्ति ...	१८४	प्रक्रातालंकार वृत्ति ...	३१६
„ अवचुरि ...	१८४	प्रणम्य स्तोत्र ( प्रा. ) ...	२८४
पुस्तकेंद्रग्रंथ ...	३५५	प्रणिधान कुलक ...	२०१
पूजाष्टक कथा ( प्रा. ) ...	२५५	प्रतापकतपद्रुम ...	३५९
„ ( सं. ) ...	२५५	प्रतिक्रमण क्रमविधि ...	३२—१५०
पूजादिदशाष्टक ...	२०१	प्रतिलेखना कुलक ...	२०१
पूजाप्रकरण ...	१४९	„ ( वीजुं ) ...	२०१
पूजाप्रक्रम ...	१८५	प्रतिलेखना प्रकरण ...	१८५
पूजापंचाशिका ( सावचूरि ) ...	१४२	प्रतिष्ठा कल्प ( १ थी १० सुधी ).	१५०—१५१
पूजाविधि ...	१५४	प्रतिमास्थापन न्याय ...	१०५
पूर्णमागच्छीयविचार ...	१६२	प्रतिमाहुंढि ...	१६२
पूर्वपुरुषप्रबंध ( गद्य. ) ...	२१५	प्रत्याख्यान चूर्णि ...	३४
पौषदशमी कथा ..	२५६	प्रत्याख्यान विचारणा ...	१५१
पौषघप्रकरण ...	१४९	प्रत्याख्यान विचारणामृत ...	३४
„ वृत्ति ...	१५०	प्रत्याख्यान स्वरूप ...	३२
पौषघविधि ...	१५४	„ वृत्ति ...	३२
पौषघविधि प्रकरण ...	१५०	प्रत्यक्षानुमानाधिक प्रमाण	
„ वृत्ति ...	१५०	निराकरण ...	८५
पौषघ षट्त्रिंशिका ...	१४१	प्रत्याख्यान स्नानविधि (सटीक)	१५४

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
प्रत्याख्यानानादि स्वरूप कुलक	२०१	प्रभावक वृत्ति	२८४
प्रत्याख्यान विवरण	३४—१५४	प्रभातस्मरणकुलक	२०५
प्रत्येकबुद्ध कथा (प्रा)	२५६	प्रद्युम्नचरित्र	२२७
” ” ”	२५५	” बीजु	२२७
प्रत्येकबुद्ध चतुष्टय कथा	२५५	” (प्रा) श्रीजु	२२७
प्रत्येकबुद्ध चरित्र (प्रा.)	२२७	” (स) षोडु	२२७
प्रदेशि चरित्र (प्रा.)	२२७	” पाचमु	२२७
प्रबधकोश	२१५	प्रमाणप्रथ	७६
प्रबधचिंतामणि	२१६	प्रमाण दीपिका	९२
प्रबधपत्रक	२१६	प्रमाण नौका	९२
प्रबधरोहिण्य	३३७	”	९२
प्रबोधचिंतामणि	१८५	प्रमाण निणय	९२
प्रबोधचन्द्रोदयवृत्ति	३३७	प्रमादपरिहार कुलक	२०१
” वृत्ति (बीजी)	३३७	प्रमादस्थान प्रकरण	२०१
प्रबोधसार	११२	प्रमाणपरीक्षा	९१
प्रभावतीकथा	२५६	प्रमाणप्रमेयकलिका	९१
प्रभावतीचरित्र	१८	” वृत्ति	९२
प्रभावक चरित्र	२१६	”	९२
प्रभातिक स्तुति	२०५	प्रमाणप्रमेय न्याय	७६
प्रभावक स्तोत्र	२८४	प्रमाणमीमांसा	७६—९२

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
प्रमाणमासा वृत्ति ...	७६	प्रवचनसदोह ...	१२७
प्रमालक्ष्यालक्षण ...	७७	„ वृत्ति ...	१२७
प्रमाणविलास ...	९२	प्रश्नचिंतामणि ...	१६२
प्रमाणांत.स्तव ...	८२	प्रश्नप्रकाश ...	३४८
प्रमाणसार ...	८२	प्रश्नव्याकरण मूळ ...	६
प्रमाणसुंदर .	७७	„ वृत्ति ...	६
प्रमाणसंग्रह ...	७७	„ वृत्ति ( वीजी ) ...	६
प्रमितवाद ...	९२	प्रश्नव्याकरण वृत्ति ...	३५५
प्रमेयकमलमार्तंड ..	९२	प्रश्नशत ...	३४८
प्रमेयरत्नकोश ...	७७	प्रश्नपट्टिशतक ...	२११
प्रवचनमाता प्रकरण .	१८५	प्रश्नोत्तरपचाशिका ...	१६२
प्रवज्याविधान ..	१८५	प्रश्नोत्तररत्नमाला ...	१८५
„ वृत्ति ..	१८५	„ वृत्ति ...	१८५
„ ” ..	१८५	„ ” ...	१८५
प्रवचनविचार सार ..	१३०	„ अवचूरि ...	१८५
प्रवचनसार प्रकरण ...	१३५	प्रश्नोत्तरसार्धशतक ...	१६२
प्रवचनसारोद्धार ...	१२७	प्रश्नोत्तर सूत्र ...	३५५
प्रवचनसारोद्धार वृत्ति ...	१२७	प्रस्तावरत्नाकर ...	३३९
„ विपनेपदपर्याय ...	१२७	प्रस्ताविक श्लोक ...	३४१
छद्म प्रवचनसारोद्धार ...	१२७	प्राकृतवीरस्तुति ...	२८३

अक्षरात्म्यवार प्रथोता नाम	पृष्ठांक	अक्षरात्म्यवार प्रथोता नाम	पृष्ठांक
प्राकृतयुक्ति	३०७	य	
प्राकृतव्याकरण	३०७	वदुन्भरव स्तोत्र	२८४
” चतुष्कव्याकरण	३०७	बधपदनिदिशिका	१४१
प्रियकरकथा	२५६	” श्रुति	१४२
प्रेमलाभ व्याकरण	२९७	बघहेतुदयत्रिमगी प्रकरण	१३५
पृथ्वीचन्द्रचरित्र ( प्रा )	२२७	” श्रुति	१३५
” टिप्पणक	२२७	बघोदय प्रकरण	१३५
” सकेत (विषमपदव्याख्या)	२२७	” श्वघूरि	१३५
पृथ्वीचन्द्रचरित्र	२२६	बप्पहृदी स्तुति	२८४
” ( बाहु )	२२७	” श्रुति	८४
” ( श्रीहु )	२७	बलभद्रकथा	२५६
” ( चोयु )	२७	बलिनरेंद्र कथा	२५६
” ( पाचमु )	२७	बालबोध व्याकरण	२९७
” ( छट्ट )	२२७	” मूळ (अष्टाध्यायी)	२९७
पृथ्वीधर चरित्र	२९५	” श्रुति	२९७
पृथ्वीराजविजय ( सटीक )	२९५	” वृत्ति	२९७
फ.		” चतुष्कटिप्पण	२९७
फलवर्दिपाश्वस्तव	२८६	” श्रुदवृत्ति टिप्पण	२९८
” विनापन	२८८	” आख्यातश्रुतिदुदिका	२९८
फर्तशाह प्रकाश	३४८	” प्राकृत वृत्ति	२९८

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
बालभारत (चंपू) ...	३३२	भगवती द्वि. गतक वृत्ति ...	४
„ (अंक बीजो) ..	३३२	„ लघुवृत्ति ...	४
बालभारतीय स्तुति ...	२८५	„ बीजक ...	४
बालशिक्षा व्याकरण ...	२९८	भट्टीकाव्य टीका ...	३३५
बालशिक्षा व्याकरण (बीजुं) ...	२९८	भद्रवाहुसंहिता ...	३४८
बाहुबलचरित्र ...	२२८	भयहरस्तवन ...	२८५
बीजनिघंटु ..	३११	भयहरस्तवन वृत्ति ...	२८५
बुद्धिसागर ..	११२	भयहरस्तोत्र ...	२८५
बुद्धिसागर व्याकरण ...	२९८	„ वृत्ति ..	२८५
बोधप्रदीपिका ...	१८५	„ वृत्ति .	२८५
बोधपट्टिशिका ...	१८५	भयहरस्तोत्र ...	२८६
बौद्धमतोत्पत्ति प्रकरण ...	२१६	„ वृत्ति ...	२८६
बौद्धमीमांसा दलन ...	१६३	भरटकद्वित्रिशिका कथा ...	२५६
ब्रह्मदत्ता कथा (प्रा.) ...	२५६	भरतचरित्र ...	२२८
ब्रह्मदत्तादि कथा ...	२५६	भरतनट्यादि कथा ...	२५६
भ.		भरतलेत्रीय जिनस्तुति ...	३६६
भगवती मूल ...	४	भरताष्टक ...	२२८
„ चूर्ण ...	४	भरतेश्वरबाहुबलि वृत्ति ...	२५६
„ वृत्ति ...	४	भवभावना ...	१८५
„ अन्वयिणि ...	४	„ वृत्ति .	१८७

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
भवभावना अवचरि	१८५	भावगतक (बीजु)	२०१
भवस्वरप डुरक	२०१	” (त्रीजु)	२०१
भवस्थितिस्तवन	१४५	” वृत्ति	२१०
भवानीसहस्रनाम	२८६	भावपदत्रिशिखा	१४१
भविष्यदसप्तस्थान	५६	” अवचरि	१८१
” ”	२०८	भावसागर	४८
भविष्योत्तरोद्धार	१६३	भायना	१८६
भय्युडुव चरित्र	२०८	भावना डुरक	२०१
भय्युडुवचरिका टीका	३४१	” (बीजु)	२०१
भानुचंद्रकृत गाममाला	३११	भावनाद्वात्रिशिखा	१८६
भारतशास्त्र	२६२	भायना प्रकरण	१८७
भारती १०८ नाम स्तव	२८६	भायनावृत्त महाकाव्य	३३०
भाव छत्रीगी	३१६	भायना शतक	२१०
भावदेवसूरिकृत यतिगामाचारी	१५६	भायनासधि	१८६
” वृत्ति	१५६	भावार्थ शतक	२१०
भावप्रकरण	१३५	भायामत्री	४२
” अवचरि	१३५	” वृत्ति	५३
भाषविप्रदि मुद्रक	२०३	भाषारहस्य	१०८
भाषराजक	३१६	” टीका	१०५
भाषराजक	२०५	भुवारीनक	३४८

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
भुवनदीपक ढुंढिका ...	३४८	” वृत्ति ...	२०९.
” अवचूरि .	३४८	” ( वीजी ) ...	२०९.
” वृत्ति ...	३८८	भद्रनंदिकुमार कथा ...	२६८
” वृत्ति ( वीजी ) ...	३४८	भद्रवाहु कथा ...	२५६
भुवनभासु चरित्र ( गद्य ) ..	२२८	भोजप्रबन्ध .	२५६
भुवनसुदरी चरित्र ...	२२८	” ( १ वी ५ )	२५६
भूपालचतुर्विंशतिका ...	२८६	भोजव्याकरण ...	२९८
भूयस्कारादिविचार ...	५३७	<b>म.</b>	
भक्तपरिज्ञा मूल्य ...	४४	मणि तवा ताजिक ...	३४९.
” अवचूरि ...	४४	मंगलकलत्र कथा ...	२५६
भक्तामरछाया स्तवन ...	२८५	मंगल कुलक ..	२०२
भक्तामरमाहात्म्य ...	२६८	मग्वाचार्य कथा ...	२५७
भक्तामरस्तोत्र ...	२८५	मंगलमाला ...	२६८
” वृत्ति ...	२८५	मंगलवाद ...	१०७
” ” ...	२८५	मंगलादीश्वरस्तोत्र ...	२८६
” ” ...	२८५	मडपीयसंधप्रशस्ति ...	२५७
” ” ...	२८५	मंडलपद्धति ...	३४६
” ” ...	२८५	मंडलप्रकरण ...	१३५
” ” ...	२८५	” वृत्ति ..	१३५
( अभिनव ) भक्तामर ...	२८५	मंत्रस्तवन ...	२८६
भर्तृहरिशतक त्रय ...	२०९	” वृत्ति .	२८६

अक्षराशुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठांक	अक्षराशुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठांक
मत्रबीजकोश	२८६	मन्दिनाथ चरित्र ( प्रा )	२४२
मत्रीदासीकथा ( श्लोकबद्ध )	२५७	" "	२४०
मत्रमहोदधि	३६७	" ( स )	२४२
मनराजिरहस्य	३६७	महादेवस्तोत्र	२८६
मत्रशास्त्र	३६६	महादेवद्वानिधिका	२८६
मत्स्योदर कथा	२५६	महादेवी उपराग	३५१
मदनरेखा कथा ( मय )	२९०	महादेवी टीका	३५१
मंदनावली कथा	७६	महानरेंद्रकेवली चरित्र	२२९
मन स्थिरिकरण विवरण	११७	महानिशीय मूल	१६
मनोदूत	३३२	महापुरुषचरित्र	२९
मनोनिग्रहभावना कुलक	२७	" ( प्रा )	२२९
मनोनिग्रहभावना कुलक	२०१	" ( स )	२२९
मनोरथ नाममात्रा	३११	महाप्रत्याप्तान मूल	४६
मनोवेग कथा	२५७	महावीर चरित्र	२८७
मनोरमा चरित्र	२२९	महावीरस्वामी चरित्र	२४५
मरणसमाधि	६२	" ( प्रा )	२४५
मलयसुदरी कथा ( मय )	५७	" "	२४५
" ( बीजी )	५७	" "	२४५
मलयसुदरी चरित्र ( प्रा )	२०९	" अपभ्रदा	२४५
" ( प्रा )	२९	" "	२४५
मन्दिनाथ चरित्र ( प्रा )	८	महावीर स्तात्र	२८६
		" हृति	२८६



अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
महावीर स्तोत्र (अपभ्रंश)...	२८७	मित्रचतुष्क कथा ...	२५७
महावीरस्तुति ...	२८७	मित्रानंदामरदत्त कथा (प्रा.)...	२६८
महीश्रस्तोत्र ...	२८७	मिथ्यादुष्कृत कुलक ...	२०२
” ...	२८७	मिथ्यात्वपरिहार कुलक ...	२०२
” अवचूरि ...	२८७	मिथ्यात्वमथनचर्चरी प्रकरण ...	१६३
महाशाल कथा ...	२५७	मिथ्रलिंगकोश ...	३११
महासती कुलक ...	२०१	मिथ्रलिंगनिर्णय ...	३०७
महायमकभयपार्श्व स्तवन ...	२८६	मुखचक्रिकाप्रतिलेखनाधिकार ...	१५४
महाविद्याविडंबना वृत्ति ...	९९	मुक्तियुक्तियोगाविधि ...	१७१
” टिप्पण ...	९९	मुक्ताशुक्ति ...	१०५
महीपाल कथा ..	२५७	मुंजकथा ...	२५७
महीपाल चरित्र .	२२९	मुंजराजादि प्रबंध ...	२१७
” ...	२२९	मुनिचंद्र गुरुस्तुति ...	२०५
भार्गतत्व प्रकरण ...	१८६	” (प्रा.) ...	२०५
भार्गपरिशुद्धि ..	१०५	मुनिपतिचरित्र (प्रा.) ...	२२९
भार्गशुद्धि पूर्वार्द्ध ..	१०७	” (सं.) ...	२२९
भाषकाव्यवृत्ति ...	२३५	मुनिवंदन कुलक ...	२०२
” वृत्ति ...	२३५	मुनिशुभ्रतस्वामी चरित्र (प्रा.)...	२४२
भाषराजपद्धति ...	३५९	” ” ...	१४५
भातृका निघंट ...	३११	” ” ...	२४२
भातृकाकेरलि (सं) ..	३५५	” ” ...	२४३
भासमुद्राभंजन नाटक ...	३३७	मुद्राविधि ...	१५४

अराक्षनुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
सुग्धमेघाकरालकार	३११	मोक्षोपदेशपचाशत्	२०६
मुष्टिव्याकरण	२९८	मानएकादशोमाहात्म्य कथा(स)	२६४
„ श्रुति	९८	मौखिक	३६१
„ (विषमपदविवरण)	२९८	भृगुसुदरी कथा	२५८
सूत्रशतक	२१०	भृगावती सुत्र	२०२
सूत्रविधान	३५२	भृगुश्रवण चरित्र	१३०
सूत्रदेवादिकथा (प्रा स)...	२५७	भृगुसुत्र चरित्र	२३०
सूत्रदेवरुधा	२५७	सुगापुत्रसंधि	१८६
सूत्रश्रुति	१८६	भृगावति चरित्र	२३०
„ श्रुति	८६	सृगाङ्गुमार कथा	२५७
सोपदा	३२	सृगाकादिकथासप्तक	५७
„ श्रुति	३२	घ	
„ पाठावबोध श्रुति	३३	ग	
„ भाष्य	३३५	गणितवैताकसाधन	३६७
„ अर्थश्रुति	३३५	यशस्विनामलि	३६७
सोपनाद षष्ठा (गघ)	८	„ श्रुति	३६७
सोपनाला माली	३४	घनप्रस्तावना	३४९
„ माली	३५६	„ श्रुति	३८९
सोपनादीक्षी कथा (गघ)	९८	घनप्रस्ताव	३४९
सोपनादि षष्ठा		घनप्रस्ताव श्रुति	३८९
सोपनादिभग प्रस्ताव	९३	घनप्रस्तावना प्रस्ताव	३४९
सोपनादिभग प्रस्ताव	९३	घनप्रस्तावना	३४९

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
चंद्रराजागम वृत्ति ...	३८९	युगाद्विदेव स्तोत्र ...	२८७
वृत्तिआहार पणवृत्ति ..	१५१	„ वृत्ति (चंद्रमंत्रगर्भित)...	२८७
यतिजीतकल्प मूल ...	५६	युगादिस्तव ...	२८७
„ वृत्ति ...	५६	युक्तिचिंतामणि ...	९३
यतिदिनकृत्य ...	१००	युक्तिप्रकाश .	७८
यतिदिनचर्या	१५१	युक्तिप्रबोध ...	७८
„ वृत्ति ..	१५१	„ वृत्ति ...	७८
„ „ ...	१५१	युक्त्यनुनामन ..	९३
यतिप्रतिक्रमणाविधि .	१५१	„ वृत्ति .	९०
यतिप्रतिष्ठास्थापन स्थल .	८१	युष्मदस्मदस्तव ...	२८८
यतियोगविधान ...	१५१	युक्तिवाद ...	९२
यतिलक्षणसमुच्चय ...	१०५	योगकल्पद्रुम ...	११२
यतिशिक्षापंचाशिका ...	१८७	योगदृष्टिसमुच्चय ...	१०१
यशोभद्रसूरिकृत चरित्रादि कथा.	२५८	„ वृत्ति ...	१०१
यशोभद्रसूरिकृत स्तुति ..	२८७	„ अवचूरि ...	१०१
यशोविजयवाचककृत सामाचारी.	१५६	योगप्रदीप ...	११२
„ वृत्ति ...	१५६	योगविंदु ...	१०१
यात्रासत्तरी ..	१४३	„ धृति ...	१०१
युगप्रधान चरित्र ..	२३०	यदर्धमाला ...	१८७
युगप्रधान स्तोत्र ( साव. ) ...	१४६	यवनपरिपाठयनुक्रम ...	२७०
युगाद्विदेवस्तुति .	२८७	यमकस्तुति ...	२८७
		„ वृत्ति ...	२८७

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
यवराजाप कथा	२५८	योगशास्त्र श्रुति	१८७
यदास्तिलक ( चम्पू )	२२२	” अवचुरि	१८७
” पत्रिका	२३२	” (भातचैत्यवदनाश्रुति)	१८७
यसोधर काव्य	३३०	” भातश्लोक	१८७
यसोधरचरित्र	२३०	यागसप्तप्रहसार	११३
,	२३०	योगसार	११३
”	२३०	योगाजुतासन	११३
”	२३०	योनिप्राप्त	६६
”	२३०	योनिस्त्व	१८५
”	२३०	र	
योगमुद्रत	३५३	रघुवश श्रुति	३३५
योगरत्ननाटा	२६	” श्रुति ( बीजा )	३३५
योगरत्नावली ( ट्यु )	२६०	” श्रुति ( प्रीती )	३३५
योगचित्तानामि	३५९	” श्रुति ( चोधी )	३३५
योगरत्नासमुच्चय	३५९	रघुविलाप नाटक	३३७
यागरत्नाकर	३ ९	रघुराजनावला	३५९
योगसूतक	३५९	रजपव कथा	२६४
”	३५९	रत्नकोश	२८८
योगसूतक	११३	रत्नचोरा	३४९
यागरत्नासमुच्चय	११३		३४९
योगशास्त्र	१८७	”	३४१-३३९

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोत्तना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोत्तना नाम.	पृष्ठांक.
रत्नकोश व्याख्या ...	३११	रंभांमंजरी ...	३३७
रत्नमाला अनेकार्थ .	३११	रसमंजरी चरित्र .	२३०
रत्नत्रय कुलक .	२०५	रसचिंतामणि	३६०
रत्नदीपक ...	३४९	रससार ..	३११
” ..	३४९	रसाडलो ( प्रा. ) ...	३४१
रत्नप्रदीप ...	३५२	रसालय ( प्रा. ) ..	३४१
रत्नलक्षण ...	३५६	राक्षसकाव्यवृत्ति ...	३३५
रत्नश्रावक प्रबंध ...	२१७	राघवपाठवीथ्य ..	३३२
रत्नसागर ...	३६०	राघवाभ्युदय नाटक(अंक१०) ...	३३६
रत्नसचय ..	१३५	राजतरंगिणी ...	२१७
रत्नचूड चरित्र ..	२३०	राजतरंगिणी ( वीजी ) ...	२१७
रत्नाकर पंचविंशतिका .	२८८	” ( त्रीजी ) ...	२१७
” वृत्ति ...	२८८	” सग्रह ..	२१७
” वृत्ति ( वीजी ) ...	२८८	राजनीति ( प्रा. ) ...	३३९
रत्नाकरावतारिका ...	७८	राजप्रश्नीय मूळ ...	६
” टिपण ..	७८	” वृत्ति ..	६
” ” ...	७८	राजमार्तंड ..	९३
” आद्यश्लोकगतार्थ .	७८	राजहंस चरित्र ...	२३१
रत्नावली ..	१८७	राजावलि पताका ...	२१७
रत्नावली नाटिका .	३३७	राजीमती नाटक ...	३३७
रत्नावलिस्थ प्राकृतव्याख्या	३३७	राणपुर स्तवन ( स. ) ..	२८८

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
रामचरित्र ( गद्य )	२३१	लघुअजितशांति स्तव	२८८
” ( बीजु )	२३१	लघुस्तव	२८८
रामनाटक	३३८	लघुस्तव भाष्य	२८८
रायमत्ताभ्युदय	३३२	लघु रत्नत्रय	११३
रामायण	२६८	” टीका	११३
रावणकृद्विस्वरूप	२७०	लघुस्तोत्र	२८८
रिष्टसमुबयशास्त्र	३५६	” श्रुति	२८८
रुद्रतालकारश्रुति	३१२	लघुत्रिपष्टि चरित्र	२६८
” टिप्पणी	३१२	लघु पौपातिक पहावली	२१७
रुद्रशा	३५६	लघुनातपदी	१६४
रूपमञ्जरी	३१२	लघुशांति	२८९
रूपकमाला	१८७	” अवचरि	२८९
”	१८७	लघुस्तव ( गद्य )	१४५
रूपसोचरित्र	२३१	लघुस्तव	१०७
” ( बीजु )	२३१	लघुस्तव कथा	२५९
रोहिणी कथा	२६४	लघुस्तव नरेश्वरचरित्र	२३१
रोहिणी चरित्र	२३१	लघुस्तव	९६
” ल		लघुस्तव नाममाला	३१२
लघुअजितशांति	२८८	” श्रुति	३१२
” श्रुति	२८८	लघुस्तव शिवाचरि	८२
” ”	२८८	लघुस्तव कथा	२५९

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.
लीलावतीसार कथा .	३३२	वनमालानाटिका ...	३३८
लेखनप्रकार ..	३६२	वनस्पती सत्तरी ...	१४३
लोकतत्त्वनिर्णय ...	१०१	वरकाणापार्श्व विज्ञप्ति ...	२८९
लोकातिकस्तव .	१४५	वरदत्त चरित्र ( गद्य ) ...	२३१
लोकनालि द्वात्रिंशिका ...	१३९	वरसेन कथा ...	२५९
„ अवचूरि ...	१३९	वर्द्धमानदेशना ...	१८७
लोकापवाद कथा (श्लोकवद्ध) ..	२५९	„ ( वीर्जा ) ...	१८८
लोकप्रकाश ...	१२८	„ ( त्रीजी ) ...	१८८
लोकसव्यवहार ...	३१२	वर्णनसागर ( प्रा. ) ...	३४३
ब.		वर्द्धमानविद्या कल्प ..	३६५
वक्रमार्गी ..	३५२	वर्द्धमान पट्टिंशिका ...	२८९
वज्रचरित्र ...	२३१	वर्द्धमान द्वात्रिंशिका ..	२८९
वज्रस्वामी कथा ...	२५९	„ वृत्ति ...	२८९
वज्रायुध कथा ...	२५९	„ अवचूरि ...	२८९
वंकचूल कथा ...	२५९	वसुदेवहिंड ( प्र. खड ) ..	२३२
वगचूलिया .	६८	„ ( द्वि. खड ) ...	२३२
वत्क्रोक्ति पञ्चाशिका ...	३१२	वसुभूति कथा	२५९
वदनकुलक वृत्ति ...	२०२	वसुराजकथा ( सं ) ...	२५९
वंदनस्थान विवरण ...	१५४	वसुराजादि प्रकीर्ण कथा ...	२५९
वंदितु सूत्र ...	६०	वस्यव्यवस्थापन स्थल ...	८५
वंध्याकल्प ...	३६५	वसंतराजशकुन वृत्ति ...	३५६
		वसुधारा ...	३६७

अक्षरातुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरातुक्रमवार ग्रथोना नाम	पृष्ठांक
घस्तुकोश ..	३१२	वादिकौशिक मार्तंड	९३
घस्तुपाल काव्य	३३२	वारिविचार	१६३
घस्तुपाल चरित्र	२१७	वादिविजय	७९
” (बीजुं)	२१७	वाराहसंहिता	३४९
घस्तुपालतेजपाल प्रपद्य (सद्य).	२१८	” वृत्ति	३४९
” (श्लोकचंद्र)	१८	वासवदत्ता ..	३३२
घस्तुपाल प्रपद्य	२१८	” श्रुति	३३२
” (बीजो)	२१८	वासुपुत्र्यस्वामी चरित्र	२४०
घस्तुपालप्रचारित	२१८	” ” (स) ..	२४०
वाक्यप्रकार व्याख्या	९३	” ” (स)	२४०
वाचन्यप्रकाश	३०७	वास्तुशास्त्र	३६२
” धृति	३०७	वासोतिक प्रकरण	१६३
” ”	३०७	विक्रमचरित्र	३३२
” ”	३०७	” (बीजुं)	३३२
वाग्महालकार	३१०	” (त्रीजुं)	३३२
” श्रुति	३१२	विक्रमनृप कथा	२६०
” ”	३१२	विक्रमपद्मदंड प्रपद्य	२६०
” ”	३१२	विक्रम प्रपद्य	२१८
” ”	३१०	विनमादित्य चरित्र	२१८
” ’	३१०	विनमादित्यप्रपद्य	२०८
” अथचूरि	३१२	विक्रमाकाभ्युदय ..	३३३
वागविलास	९३		
वाचन नरी	९३		
वाचरत्नानर	७९		



अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम.	पृष्ठांक.
विचार कुलक ...	२०३	विजयचंद्रकेवळि चरित्र ...	२३२
विचारपंचाशिका ( साव. ) ...	१४२	„ ( बीजु ) ...	२३२
विचारसंजरी प्रकरण ...	१३५	विजयचंद्रकेवळि कथा ( प्रा. ) ...	२६०
विचाररत्नसंग्रह ...	१३०	विद्वद्गोष्टि ...	३४३
विचाररत्नसागर ...	१३०	विद्वद्जननालाप ...	३४३
विचार रत्नाकर ...	१३०	विजययंत्रचिधि ...	३६५
विचार रसायन प्रकरण ...	१३५	विजयप्रशास्तिराम्य ...	३३३
„ भवचूरि ...	१३५	„ श्रुति ...	३३३
विचारश्रेणि ..	१६३	विज्ञाहल श्रुति ...	३४१
विचार शतक ...	१३०	विज्ञप्तिपत्री ...	३४३
„ ( बीजु ) ...	२१०	विज्ञानार्णव ...	३६२
विचार सत्तरी ...	१४४	विद्यालय ( प्रा. ) ...	३४१
„ वृत्ति ...	१४४	„ श्रुति ...	३४१
„ भवचूरि ...	१४४	„ उद्धार ...	३४१
विचारसार ...	१२८	विद्वदशालभोजिका नाटक ...	३३८
विचारसार प्रकरण ..	१३६	विधवा कुलक ...	२०३
„ वृत्ति ...	१३६	विधिप्रपा ..	१५१
विचारसार स्तवन .	२८९	„ ...	१५१
विचारसारसंग्रह ...	१३०	विधिवाद ...	१०७
„ ( बीजो ) ...	१३०	विनयंधर चरित्र ....	२३३
		विनयभुजगमयूरी ...	१६३

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
विनयसत्तरी	१४४	विवेकमजरी	१८८
विनेयहित क्षतक	२१०	„ श्रुति	१८८
„ श्रुति	२१०	„ „	१८८
विप्रवत्कमुद्गर	८२	विवेकविलास	१५२
विपाक मूल	६	„ श्रुति	१५२
„ श्रुति	६	विंशतिस्थान चरित्र	२२३
द्वादशांगी श्रुति	६	विमकोट	२१३
विनुद्ध प्रकरण	१८८	विभक्तत्वप्रकाश	९३
विमक्तिविचार	३०८	विभक्तोचन कोश	३१३
विमल चरित्र	२१८	विभक्तोचनकुमार कथा	२९०
विमलनाथ चरित्र	२४०	विद्याल्लोचन	२८९
„ ( स )	२४०	„ श्रुति	२८९
विमलनाथ चरित्र	२४०	विद्यापहार स्तोत्र	३८९
विमलप्रासाद प्रबंध	२१८	„ „	३८९
विन्दुच चरित्र	३३३	विभाषाक्षतक	१३०
विन्दुचपञ्चाशिका	२८९	„ ( शीउ )	२१०
विशिष्टरूपा	२९८	विशेषावदनक सूत्र	९०
विशिष्टलीधरूप	२१८	विषयव्याप्त्य श्रुति	३३५
विशिष्टरत्नाकर	१३०	विषयपञ्चाशिका	१८८
विशिष्टरत्न	३८९	विषयविनिर्माह पुरुष	२०३

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम.	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम.	पृष्ठांक.
विसंवाद शतक ...	२१०	वीरस्तव ...	८६—२९०
विमंवाद शतक ...	१६३	” अवचूरी ...	२९१
विहरमान एकवीस टाण ...	१३८	वीरचातुर्मासिक प्रकरण ...	१८८
” अवचूरी ...	१३८	” प्रति ...	१८८
विहरमान जिनस्तोत्र (प्रा.) ...	२८९	वीरचरित्र कुलक ...	२०३
विहार शतक ...	२१०	वीरचरित्र स्तव (प्रा.) ...	२९०
” ” ...	२१०	” प्रति ...	२९०
” प्रति ...	२८९	वीरजिनादि स्तोत्र ...	२००
विज्ञप्तित्रिवेणी ...	२८९	वीरभद्र कथा (शेकवद) ...	२६०
वीतरागनमस्कार स्तव ..	२९०	वीरस्तव ...	२९१
वीतराग विज्ञप्ति ...	१८८	” प्रति ...	२९१
वीतराग शतक ...	२१२	वीरस्तव (प्रा.) ...	२९१
” प्रति ...	२९०	” प्रति ...	२९१
वीतराग स्तुति ...	२९०	वीरस्तव मूळ ..	२९१
वीतराग स्तोत्र ...	२९०	वीरस्तवन ..	२९१
” प्रति ...	२९०	वीरमिहावलोकन ...	३६०
” पत्रिका ..	२९०	वीरस्तोत्र ...	२९१
” अवचूरी ...	२९०	वीरसेन कथा .	२६०
” ” ...	२९०	वीरानंद कथा ...	२६०
” ” ..	२९०	वीरविहरमान स्तवन ...	२९१
” ” ...	२९०	वेदखडन ..	८५

अक्षरानुक्रमानुसार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमानुसार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
वदनाद्यतानिराकरण	८५	व्यवहारलेख्यपद्धति	३४४
" "	१०१	व्याख्यानकथनपद्धति	३४४
वैद्यवाक्य	३६०	व्याख्यानविधि पत्रक	२११
वैद्यकसार संप्रदाय	३६०	" प्रति	२११
वैद्यकसारोद्धार	१६०	वृक्षविनायक	३६५
वैद्यकशास्त्रा	२६०	वृक्षशास्त्रात्मिक पत्रावली	२१८
वैद्यकशास्त्रा	२७०	" टीका	३१८
वैद्यकशास्त्रा	१८८	वृक्षशास्त्रात्मिक पत्रावली	१४
वैद्यकशास्त्रा	२१०	" ,	१४
वैद्यकशास्त्रा	२१०	वृक्षशास्त्रात्मिक पत्रावली	१३
वैद्यकशास्त्रा	२०३	वृक्षशास्त्रा	२११
वैद्यकशास्त्रा	१०५	" प्रति	२११
वैद्यकशास्त्रा	२११	" अथर्व	२११
वैद्यकशास्त्रा	३४६	वृक्षशास्त्रा टीका	३३५
वैद्यकशास्त्रा	१४	" टीका	
" भाष्य	१४	वृक्षशास्त्रा	३५६
" पूर्ण	१८	वृक्षशास्त्रा	३५६
" इति	१४	वृक्षशास्त्रा	३५६
" अथर्व	१४	वृक्षशास्त्रा	३५६
" (संज्ञा)	१४	वृक्षशास्त्रा (संज्ञा)	१४

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
शंखेश्वर पार्श्वस्तव	२५२	शब्दरत्नाकर	३१३
शतसंवत्सरिका	३५६	शब्दरूपावली	३०८
शतार्थी	३४४	शब्दसंख्या	३०८
„ विनरण	३४४	शब्दसंदोहसंग्रह	३१३
शत्रुंजयकल्प कथा	२६०	शब्दार्णव	२९८
शत्रुंजय कल्प	२७१	शशाकसंकीर्तन	३३३
„ वृत्ति	२७१	शाईनी कृति	३६२
„ वृत्ति	२७१	शांतसुधारसभावना	१८८
शत्रुंजयचैत्यपरिपाठी	२९२	„ वृत्ति	१८८
शत्रुंजयमाहात्म्यस्तवन	२९२	शातिकर	२९२
शत्रुंजयादि त्रेसठ तीर्थकल्प	२७१	„ अवचूरि	२९२
शत्रुंजयमाहात्म्य	२७१	शांतिनाथ चरित्र	२९२
„ ( गद्य )	२७१	„	२४१
शत्रुंजय षोडशोद्धार वर्णन	२७१	„ ( प्रा. )	२४१
शतपदी	१६४	„ „	२४१
शतपंचाशिका	१४२	„ ( सं )	२४१
शताक्षी	३५३	„ „	२४१
शब्दनिराकरण	८५	„ „	२४१
शब्दभूषण व्याकरण	२९८	„ ( गद्य )	२४१
शब्दभेद नाममाला	३१३	„ „	२४१
„ वृत्ति	३१३	शांतिमती कथा	२६०
		शांतिपर्वविधि	१५४

अक्षरानुक्रमवार प्रथोना नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रथोना नाम	पृष्ठांक
शातिस्तोत्र	२९२	शास्त्रज्ञातासमुच्चय	७९—१०१
शावचरित्र ( म )	३३	„ लघुश्रुति	७९—१०१
शामदेवनामदेव कथा	८०	„ श्रुति ( स्याद्वादकल्पलता )	७९—१०२
शारदा नाममाला	२१३	शास्त्रज्ञार समुद्धार	१३
शारदा स्तव	९२	शिवकुलरु	८०३
शालिचरित्र ( स )	२३३	शिवभद्र टीका	३३५
„ अवचरि	२३३	शिवशक्तिप्रियत	३५६
शालिचरित्र ( प्रा )	२०	शिवपालवध टीका	३३५
शालिचरित्र	२३३	शिवनाथ चरित्र	२६०
„ „	३३	„ ( स )	२४०
„ „	३३	शीलकथा	२६१
शालिचरित्र काव्य	३३३	शीलकुलरु	२०३
शालिनाहन चरित्र	२१८	शीलदत्त काव्य	३३३
„ „	२३३	शीलप्रकाश	१८९
शाशिहोत्र	३६	शीलभावना	१८९
शाश्वतनिमस्तव ( प्रा )	९	„ श्रुति	१८९
„ अवचरि	२९२	शीलपती कथा ( प्रा )	२६१
शाश्वतनिमस्तव श्रुति ( प्रा )	२९०	„ ( म )	९१
शाश्वतनिमस्तवमाहात्म्ये हात	१४५	शीलमधि	१८९
शाश्वतनिमस्तव	१२८	शीलोपदेशमाहा	२६८

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
शीलोपदेशमाला वृत्ति ...	२६८	शृंगारवैराग्यतरंगिणी ...	१८९
„ वृत्ति ( वीजा )...	२६८	„ वृत्ति ...	१८९
„ वृत्ति ( त्रीजा )...	२६८	शृंगारशतक ...	११२
शीलोपदेशमाला कथा ...	२६८	श्राद्धगुण विवरण ...	१८९
शुकदेवसंवाद ...	३१८	श्राद्धजातकल्प मूळ ...	५६
शुक्रराज कथा ( गद्य ) ..	२६१	„ वृत्ति ...	५६
शुकसंवाद कथा ...	२६१	„ अवचरि ...	५६
शुंभलीमत ...	३६३	( लघु ) श्राद्धजातकल्प मूळ ...	५६
शेषनाममाला ...	३१३	„ वृत्ति ...	५६
शोकहर उपदेश कुलक ...	२०५	श्राद्धदिनकृत्य ...	१५२
शोभन स्तुति ..	२४२	„ वृत्ति ...	१५२
„ वृत्ति ...	२४२	„ अवचरि ...	१५२
शोभनस्तुति वृत्ति ..	२९२	श्राद्धविधि ...	१५२
„ ( वीजा ) ...	२९२	„ वृत्ति ..	१५२
„ ( त्रीजा ) ...	२९२	श्राद्धविधिविनिश्चय ...	१५२
„ ( चोथी ) ...	२९३	श्रावक कुलक ...	२०३
„ ( पाचमी )	२९३	श्रावक चरित्र ..	२३३
„ ( छट्टी )	२९३	श्रावक दिनकृत्य कुलक ...	२०३
„ अवचरि ..	२९३	श्रावकधर्म कुलक	२०५
शृंगारमंडन ..	३१३	श्रावकधर्मतंत्र ...	१०२

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक,
भावरूपमतत्र वृत्ति	१०२	श्रीचन्द्रकेवली चरित्र	२३३
भावरूपमविचार	१५२	" (प्रशस्ति)	२३३
भावकथमाधिसार	१५२	श्रीचन्द्रमूरिकृत सुत्रोपमामाचारी	१५७
भावरूपम प्रसरण	१५०—१८९	श्रीधर चरित्र	२३३
" र्गति	१५०—१८९	श्रीनमि पचरपादि स्तुति	२९३
भावरूपप्रतिभमगविधि	१५४	" "	२९३
भावकप्रतिमा प्रसरण	१३६	श्रीपाल कथा ( गडारप्राज्ञा )	२६१
" अवचुरि	१३६	श्रीपाल चरित्र	२३४
भावरूपप्रबोध	१९०	श्रीपालचरित्र टीका	२३४
भावरूपप्रतिष्ठाविषय विचार	१६४	श्रीपाल चरित्र	२३४
भावकभगवत्कविचारगाथादि वृत्ति	१३७	" ( श्रीकवच )	२३४
भावकलक्षण सप्तदशक	१९०	" "	२३४
भावकव्यामिप्रह वृत्तक	२०७	" "	२३४
भावरूपविचार	१९०	" गद्य	२३४
भावकविधि	१५२	" "	२३४
" प्रति	१५०	श्रीपालनाटकगतरसवती वचन	३३८
भावकावधि	१५	श्रीमतीकथा	२६१
भावकव्यामाचारा	१५०	श्रीमतीपकराणाम् स्तवन	२९३
श्रीचन्द्रकेवली चरित्र	३३	" प्रति	२९३
" ( ग )	३३	श्रीपादशतगणधर चरित्र	२९८
		श्रीविणुमारादिकथा	२९९



अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
श्रुतबोधवृत्ति ...	३१८	पटञ्जल्य प्रकरण ...	१३६
” ” ...	३१८	पटस्थान प्रकरण ...	१३८
” ” ...	३१८	” वृत्ति ...	१३८
श्रुतविचार ...	१३०	पटभाषागर्भित वीरस्तोत्र ..	२९३
श्रुतास्वादिशिक्षा .	१९०	पटभूषण ...	३५२
श्रेणिककथा ..	२६१	पटदर्शनदिङ्मात्र विचार ...	८३
श्रेणिक चरित्र ( गद्य ) ..	२३४	पडदर्शनसटन ..	८६
श्रेयें श्रियास्तवन ...	२९३	पडदर्शनस्वरूप ...	८३
श्रेयासनाय चरित्र ...	२४०	पडदर्शनसमुच्चय ..	१०२
” ( प्रा ) ...	२४०	” श्रुति ..	१०२
” ( न. ) ..	२४०	पडदर्शनसमुच्चय ...	७९
लोककल्प ..	३६५	” श्रुति ...	७९
श्वानस्तविचार	३५७	” ” ...	७९
श्वानसत्तरी ...	३५७	” ” ..	७९
श्वानसकुल विचार ...	३५७	” अवचरि ..	७९
श्वेताम्बरदर्शनसिद्धि ...	८३	पडदर्शनसमुच्चय .	७९
<b>घ.</b>		पडावश्यकविधि ...	१५४
सुरूप चरित्र ...	२३५	पण्मतनाटक .	८३
” यस्थितिविचार ...	१३१	पणवतिजिनस्तोत्र	२९३
” नल्पनिर्णय			
शृंगारमंडन ...	१६४	पाष्टिशतक ..	२९२

अक्षराजुनमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षराजुनमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
षष्टिशतक	१९०	सकाश कथा ( श्लोकबद्ध )	२६१
„ वृत्ति	१९०	सधेपेणसवहासिद्धि	८६
„ अवचूरि	१९०	सन्नेश्वर स्तोत्र	१०६
षष्टिशतक	३५०	सर्गात दीपक	३६९
„ वृत्ति	३०	सर्गातसहस्रिगल	३१८
षोडशक	१०	सर्गातमठन	३१३
„ वृत्ति	१०५—१०६	सर्गातरत्नावली	३६३
स.		समदृणीना प्रयो	
शकलादत्त	२९३	त्रिभद्रियवृहत्त समदृणी	१२५
सगरचक्रि चरित्र	२३५	„ वृत्ति	१२५
सविज्ञाविज्ञस्वरूपनिणय	१६५	„ वृत्ति	१५
सत्तरीसयत्तण प्रकरण	१३८	„ वृत्ति	१५
सत्सूच ( स )	२९२	प्रतिकमणरासदृणी	१२८
सत्तावीणभक्त स्तवन ( प्रा )	९३	धीवनीय समदृणी	१२८
सदयवग कथा	२६१	„ वृत्ति	१२८
सद्व्यवहृति	१८	„ अवचूरि	१२८
सद्व्यवहृति	१८	सद्व्यवहृति समदृणी	१२८
सद्व्यवहृति	३६१	द्वारिमनीचवृत्तीय सैमदृणी	१२६
सद्व्यवहृति	१९०	„ वृत्ति	१२६
सद्व्यवहृति ( प्रा )	२३५	द्वारिमनीचवृत्तीय सैमदृणी	१२६
„ महाकाव्य	२३५		

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
संघकुलक ...	२०३	सभाशृंगार ...	३६४
संघपत्रक ...	१६४	संयममंजरी ...	१९२
„ वृत्ति ...	१६४	„ वृत्ति ...	१९२
„ „ ..	१६४	सवरद्वार प्रकरण ...	१३६
„ लघुवृत्ति .	१६४	संघाद शतक .	२११
„ अवचरि ...	१६४	सवादसुद ...	३६४
संजनाख्यान ..	२३५	सवितपटल ...	३६५
संज्ञा कुलक ...	२०३	संवेगचूडामणि ...	१९२
संदेह शतक ...	२११	संवेगद्रुमकंदली ...	१९२
संदेहविषयपत्रिका ...	१६५	संवेगरगमाला ...	२०७
संदेहसमुच्चय ..	१६५	संवेगानृतपद्धति ...	२०७
संदेहदोलावली ...	१६५	„ (सं.) ...	२०७
„ वृत्ति ..	१६५	संवेगमंजरी ...	१९२
„ अवचरि ...	१६५	संवेगमाला ...	१९२
संवोध प्रकरण ..	१९१	संवेगरंगशाला ...	१९६
संवोधरसायन पंचाशिका ..	१९२	संविश्रनियम कुलक ...	२०३
संवोधसत्तरी ...	१९२	संवेग शतक ...	२११
„ वृत्ति .	१९२	संशयीवदनविदारण ...	९४
संवोध प्रकरण ...	१०२	संसक्तनिर्युक्ति ..	६०
संभवनाथ चरित्र .	२३८	सस्तारक मूळ ...	४६
„ (स.) ..	२३८		

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
सस्तारक अवचुरि	४६	समवसरण पचाशिका	१४६
सस्तार कुलक	२५	समवसरण स्तव	१८५
सस्तारभावना कुलक	२०३	समवसरण प्रकरण	१३६
सस्तारघोरस्वरूप कुलक	२०३	„ अवचुरि	१३६
सप्तक्षेत्री	३५	समतितक	७९
सप्तभगी प्रकरण	८३	„ वृत्ति	७९
सप्तभगी तरंगिणी	९६	„ वृत्ति	७९
सप्तनय विवरण	८३	„ वृत्ति	७९
सप्तपदार्थी	९६	सप्तभाव शतक	११३
सप्तशती जिन स्तोत्र (प्रा)	२९३	समयमातृका	२१९
सम्यक्त्वकौमुदी	२६८	ममरादित्य चरित्र	१३५
„ (वाजा)	२६८	„ „	२३५
„ (त्रीजी)	२६८	„ „ (प्रा)	१०२
„ (बोधो)	२६८	„ „ दिप्ता	१०२
समवसरण स्तोत्र	२९३	सम्मत्तशुण	१३७
समता कुलक	०४	सम्यक्त्व कुलक	२४
समस्तसामतचक्रविधि	१९८	सम्यक्त्वकलित्रा	१९०
समस्तदानपरीक्षा	३९८	सम्यक्त्वपरीक्षा	१९०
ममरागण सूत्रधार	३०३	सम्यक्त्वप्रकाश	१९१
समवाय्यांग मूळ	४	सम्यक्त्व प्रकरण	१९१
„ वृत्ति	४		

अक्षरानुक्रमवार प्रथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार प्रथोना नाम.	पृष्ठाक.
सम्यक्प्रकरण वृत्ति ...	१९१	सर्वजिनस्तुति ...	२९१
„ वृत्ति ...	१९१	सर्वज्ञपरीक्षा ...	८३
सम्यक् पंचविंशतिका ...	१३९	सर्वज्ञवादस्यळ ...	८६
„ अवचूरि ...	१३९	सर्वज्ञव्यवस्थापनावाद ...	८६
समत्करत्नमहोदधि ...	१९१	सर्वज्ञ स्तव ...	२९४
सम्यक्करहस्य स्तोत्र ...	१४६	सर्वज्ञमिद्धि प्रकरण ...	८०—१०२
समत्कसप्तिका ...	१९१	सर्वज्ञस्तोत्र ...	२९१
„ वृत्ति ...	१९१	सर्वतीर्थ्यावली स्तव ...	२९१
„ अवचूरि ...	१९१	सर्वमतनिर्णय ...	१६१
सम्यक्स्वरूप स्तव ( साव ) ...	१८५	सर्वस्थल ...	८०
सम्यक्कालकार ...	१९१	सर्वांगसुंदरी कथा ( प्रा. ) ...	२६१
सम्यक्कोत्पादविधि ...	२०६	सर्वार्थनिराकरण स्थल ...	८६
सम्यक्कोद्धार ...	१९१	सवन कथा ...	२६१
समाधितंत्र ...	११३	सहस्रमल्लचोर कथा ...	२६१
„ टीका ...	११३	सातव्यमनकथासमुच्चय ...	२६८
संभाषितक ...	११३	सावर्मा कुलक ...	२०४
समीकापार्श्व स्तोत्र ...	१०६	साधारणजिनस्तव ...	२९४
समीनपार्श्व स्तोत्र ...	२९८	„ अवचूरि ...	२९४
सरस्वती स्तव ( महामंत्रगर्भित ) ...	२९४	साधारणजिनस्तव ...	२९४
सरस्वती स्तोत्र ...	२९४	„ अवचूरि ...	२९४

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
साधुगुण शतक	२११	सामुद्रिकतिलक	३५७
साधुतत्व प्रकरण	१९२	सामुद्रिकशास्त्र	३५६
„ वृत्ति	१९०	„ (बीजु)	३५६
साधुप्रवचनसार प्रकरण	१००	सारसमुच्चय	१३१
साधुप्रतिमा प्रकरण	१३७	सारस्वतमङ्गल	३०५
साधुधर्मपरिभावना	२०४	सारस्वतोद्धार स्तोत्र	२९४
साधुयोग्यनियम कुलक	२०४	सारस्वत वृत्ति	३०५
साधुसामाचारी कुलक	२०४	„ „	३०५
सायप्रद्युम्नप्रवध	२६२	„ „	३०५
सायप्रद्युम्नादि कथा	२६०	„ „	३०५
साम्यशतक	११३	„ „	३०५
सामाचारी	१५७	सारावली	६६
„ (बीजी)	१५७	सावज्ञाष्टक	२९४
सामाचारी प्रकरण	१०५	सारोद्धारशकुन	३५७
„ वृत्ति	१५	साहित्यश्लोक (प्रा)	३४१
सामान्यगुणोपदेश कुलक	२०४	सिद्धचक्र स्तवन (प्रा)	२०६
„ (बीजु)	२०६	सिद्धचक्र स्तवन	२७१
सामान्यधर्मापदेश	१९३	सिद्धज्ञान	२६३
सामुद्रिक	३५७	सिद्धदण्डिका प्रकरण	१३६
„ „	३५७	सिद्धदत्त कथा (स गद्य)	२६२



अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठाक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठाक
सीताचरित्र	२३६	सुबाहु चरित्र	२३१
सीमधरस्तुति	२९५	सुबोधमजरी	८०
„ अवचूरि	२९५	सुभद्रा चरित्र	२३६
सुकोपलाट्यान	२६०	सुभाषित ( प्रा )	३४१
सुकृतसागर	२६८	सुभाषितकोश	२४०
सुदृतसर्वातिन काव्य	३१३	सुभाषित रत्नसदाह	३४०
सुगुणकुमार कथानक	२६२	सुभाषित रत्नावली	३४०
सुग्रीव चरित्र	२२६	सुभाषित पद्मनिशिका	३४२
सुजनभावना कुलक	२०४	„ अवचूरि	३४२
सुजनसप्ततिका	१९३	सुभाषित सारोद्धार	३४१
सुदशना चरित्र	२३६	सुभाषितार्णव	३४१
„ ( चीजु )	२३६	सुभाषितसमुद्र	३४१
सुनक्षत्र चरित्र	२३७	सुभाषितावली	३४२
सुदरनृपकथा		सुमतिनाथ चरित्र ( प्रा )	२३९
( श्लोकवद्ध )	२१२	„ „ ( स )	२३९
सुदरराजकथा	९०	सुमित्र चरित्र	२३७
		( श्लोकवद्ध )	
सुपार्श्वनाथ चरित्र ( प्रा )	२३९	सुयणासत्तरी	१४४
„ ( स )	२३९	„ शक्ति	१४४
सुपार्श्वनाथ स्तान ( स )	२९५	सुरप्रिय कथा	६०
		सुरसुदरनृपकथा ( प्रा )	२६९



अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
सुरसुंदरी कथा ( प्रा. )	२३७	सुकारत्नाकर ( बीजो )	३४२
„ „ ( प्रा. )	२३७	„ ( त्रीजो )	३४२
सुलसा चरित्र (स.)	२३७	सूक्तावली	३४२
सुलसाराधना कुलक	२०८	„ ( बीजी )	३४२
सुवर्णसिद्धि	३६५	सूक्तिसूक्तावली	३४२
„ वृत्ति	३६५	„ ( बीजी )	३४२
सुविधिनाथ चरित्र	२४०	„ ( त्रीजो )	३४२
„ ( सं. )	२४०	सूक्तिसंग्रह	३४२
सुव्रत कथा ( प्रा. )	२६२	सूक्ति द्वात्रिंशिका	१९३
सुव्रतऋषि कथा	२६३	„ वृत्ति	१९३
„ ( प्रा. )	२६३	सूत्ररुताग मूळ	२
सुव्रतऋषि चरित्र	२३७	„ निर्युक्ति	२
सुवृत्तातिलक	३३३	„ चूर्ण	२
सुसढ कथा ( प्रा )	२६३	„ वृत्ति	२
„	२६३	„ दीपिका	२
सुसमा कथा ( प्रा. )	२६३	सूत्रेश्वरमंडळ	३५३
सूक्ष्मविचारगाथा वृत्ति	१३७	सूरिमंत्रकल्प	३६५—३६७
सूक्ष्मार्थसत्तरी	१४४	„ सारोद्धार	३६५—३६७
„ टिप्पण	१४४	„ दूर्गपदविवरण	३६५—३६७
सूकरत्नाकर	३४२	„ प्रदेशविवरण	३६५—३६७

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
सूर्यमन्त्रगर्भित लब्धिस्तोत्र	२९५	स्तोत्रमाला	२९५
सूर्यप्रवृत्ति मूळ	१०	स्तोत्रविधिपंचविंशति	२९५
„ वृत्ति	१०	स्तोत्रावली	१०६
सुषुप्तक	२१२	स्थानाग मूळ	२
सेतुदीपिका	३५०	„ वृत्ति	२
सेनप्रश्न	१६४	„ वृत्तिगतगाथा वृत्ति	०
सेनसूरिकृत स्तोत्र	२९५	„ दीपिका	२
सोमभीमादि कथा	-६३	स्थापनाकल्प ( रा )	३६५
सोमशतक	२११	स्थापनाकल्पविधि	१५४
सोमसौभाग्य	३३३	स्थानप्रतिद्वार	१२८
सोमकप्रवध	१९	स्थापना कुलक	२०४
सोमश्रीकथा ( प्रा )	२६३	स्थूलिभद्र चरित्र (शीलप्रकाश)..	२३७
सौभाग्यसुदरी कथा	९२३	ज्ञानपचाशिका	२६३
स्फुटकविचार	१३७	स्मरनरेंद्रादि कथा	२६८
स्तभनपार्श्वप्रवध	२१९	स्मृतिपुराणशुद्धक	३४२
स्तघनकोश	२९५	स्वाहादकलिका	८३
स्त्रीनिर्वाण प्रकरण	१६५	स्यादिशब्ददीपिका	३०८
स्त्रीनिवाणसिद्धि	८३	स्यादिसमुच्चय	३०८
स्त्रीमोक्षविवाद	१६५	स्याहादकल्पलता	१०६
स्तोत्रकोश	२९५	स्याहादभाषा	८३

अक्षरानुक्रमवार प्रंथोना नाम.	पृष्ठाक.	अक्षरानुक्रमवार प्रंथोना नाम.	६ व.
स्याद्वादमंजरी ..	८०	हरिग्वल चरित्र ( प्रा. ) ...	२३७
स्याद्वादमंजूषा ...	१०८	„ ( ग. ) ...	२३७
स्याद्वादरत्नाकर ...	८०	हरिवलादि कथा ...	२६३
स्याद्वादरहस्य ...	१०७	हरिभद्र कथा ...	२१९
स्वर्जावानुशासन कुलक ...	२०१	हरिभद्रमूर्च्छित श्रावकसामाचारी.	१५७
स्वप्रचिंतामणि ...	३५७	हरिभेखला ...	३७८
स्वप्रलक्षण .	३५७	हरिवाहन कथा ...	२६३
स्वप्रविचार ( प्रा ) ...	३५७	हरिनिर्ममकाव्य ..	३३३
स्वप्रायक विचार ...	३५७	„ वृत्ति ..	३३३
स्वप्रसप्ततिका ...	३५७	हरिविक्रम चरित्र ...	२३७
स्वप्रसप्ततिका वृत्ति ..	३५८	हरिवंश ...	२१९
„ वृत्ति (बीजा) ...	३५८	हरिपेण कथा ..	२६३
स्वरोदय ...	३५८	हरिश्रंद्र कथानक ( प्रा. ) ...	२६३
स्वामिवात्सल्य माहात्म्य ...	२७१	हर्षप्रकाश ..	३५०
ह.		हस्तकाण्ड ...	३५८
हंसकथा ...	२६३	हास्य कथा ...	२६८
हंसराजवत्सराज चरित्र ( गद्य ) ...	२३७	हास्यकथासंग्रह ...	२६८
हम्मीरमर्दन ...	३३८	हिताचरण ...	१९३
हरिप्रभसूरिकृत साधुसामाचारी... ..	१७७	„ वृत्ति ...	१९३
हरिवल कथा ..	२६३	हितोपदेश कुलक ...	२०४—२०६

अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक	अक्षरानुक्रमवार प्रयोगा नाम	पृष्ठांक
हितोपदेशमाला	१९४	हिम-याय	३०३
„ वृत्ति	१९४	हिमधातुपारायण	३०१
हितोपदेशामृत	१९४	„ धातुपाठ (स्वरवर्णातुक्रम)	३०१
धीरकपरीक्षा	३६३	„ धातुपाठ	३०१
धीरप्रश्न	१६५	„ धातुवृत्ति	३०१
धीरविलास काव्य	३३३	„ कियारसनममुचय (सवीजक)	३०१
हरिसौभाग्य काव्य	३३३	हिमप्रक्रिया शब्दसमुच्चय	३०३
„ वृत्ति	३३३	हिमलघुवृत्ति टुटिका	३००
हुतादिनी कथा	२६३	„ अवचूरि	३००
हेतुगहनपाठित्य	८३	„ ,	३००
हिमकौमुदी	३०३	„ प्राकृत व्याकरण	३००
„ प्रक्रिया (बृहत्)	३०३	„ प्राकृतपादवृत्ति	३००
„ प्रक्रिया	३०३	„ दीपिका	३००
„ लघु प्रक्रिया	३०३	„ अयचूरि	३००
„ लघु चांद्र	३०३	हिमवहद्वृत्ति (टुटिका)	३००
हिमबहुर्भपादवृत्ति	३०१	„ टुटिका (बृहत्)	३००
„ उदाहरणवृत्ति	३०१	„ टुटिका (लघु)	३००
„ दोषकाय	३०१	„ , वृत्ति	३००
„ प्राकृतवृत्तिदि	३०१	„ बृहद्वृत्तिगारोद्धार	३००
„ दीपिका	३०१	„ लघुवृत्ति	३००

अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.	अक्षरानुक्रमवार ग्रंथोना नाम.	पृष्ठांक.
हैमलघुवृत्ति ...	३००	हैमव्याकरण दीपिका ...	३०१
हैमवृहद्दृत्ति ...	२९९	„ उणादिवृत्ति ...	३०१
„ वृहन्न्यास ...	२९९	„ „ लघुवृत्ति ...	३०१
„ लघुन्यास ...	२९९	„ लिंगानुशासनवृत्ति ...	३०१
„ लघुन्यास ...	२९९	„ वृत्ति ( बीजी ) ...	३०१
„ परिभाष्य वृत्ति ...	२९९	„ अवचूरि ...	३०१
„ न्यासोद्धार ...	२९९	„ दुर्गपदप्रबोध ...	३०१
„ कक्षापट्ट		हैमव्याकरण मूळ ( सूत्रो ) ...	२९९
( ऋश्तवृत्ति विपमपदव्याख्या ).	२९९	„ उणादि ...	२९९
„ दशपादविशेष ...	२९९	„ लिंगानुशासन ...	२९९
„ दशपादाभिगोषार्थ ...	२९९	हैमव्याकरणस्य न्याय ...	३०२
„ हैमशब्दसंचय ...	२९९	„ न्यायवृत्ति ...	३०२
हैमसमासतद्धितसार प्रकरण ...	३०२	„ लघुन्यायप्रशस्ति अवचूरि ...	३०२
„ समासप्रकरण तथा कृत् प्रत्यय ...	३०२	„ न्यायमंजूपान्यास ...	३०२
„ विभ्रम सूत्र ...	३०२	„ बलावलसूत्र ...	३०२
„ वृत्ति ...	३०२	„ वृत्ति ...	३०२
„ अवचूरि .	३०२		
„ त्रैरंक्समुच्चय .	३०२		
„ वृत्ति ..	३०२		

# अनुक्रमणिका.

## ग्रंथकर्ताओनी अक्षरानुक्रमवार अनुक्रमणिका

कर्तानु नाम	पृष्ठांक	कर्तानु नाम	पृष्ठांक
<b>अ</b>		अमरचंद्र	३३८
अमरलोक	१८८	अमरचंद्र	१७०, १०४, ३८, २५३, ३०३
अमरलोकदेव	२८, ५८, ८७, ९१		२०८, २१५
अमरलोकशिष्य	८९	अमरचंद्ररवि	२१, ३१७, ३१
अमरतदव	२, ६, १, ८७, १६८	अमरप्रभ	२८५
अमरतदेवसूरि	३८	अमितगति	१६१, ३८०
अमरतप्रभ ( पौ )	२८१	अमृतचंद्र	१०, ११०, ११०
अमरतसिंह	२४०	अरिमंत्र	१८०
अनंतदेवसूरि	३६०	अरिसिंह	३३३
अनंतवीथ	९१	अलराजमहीपति	३६०
अनंतहंस	२५०	अल्लु	१८६
अनलगाच्छीय	३०९	अशोकमुनि	१८९
अनप्रसाद	६०४	अगम	२८
अभयतिलक	९६, १८९, ३३०	<b>आ.</b>	
अभयदेव	०, ४, ६, ८, ७९, १००, ११९, १५, १३८, १३८, १५५, १६९, १८६, १०४, २०९, २८२, ३३०	आचलिक	६३९
		आजड	३४०
		आदित्यसूरि	२२५

कर्त्तानुं नाम.	पृष्ठांक.	कर्त्तानुं नाम.	पृष्ठांक.
आनंदविजय...	... १३५, १८८, १९५	उ.	
आनंदमूरि ..	... १२०	उत्तमधि ... .. २६६	
आनंदसुंदर ...	... २६७	उदयंकर ... .. १५१	
आमसूरि ...	... २३२	उदयरीति ... .. ३०७	
आम्रदेव ...	... २०५	उदयचंद्र ... .. ३०२	
आम्रसूरि ...	... २०९	( आग ) उदयधर्म ... .. १८०	
आर्यनदिल ..	... २९१	उदयधर्म ... .. ३०७	
आर्यरक्षित ...	... १०	उदयधर्मगणि ... .. ३४४	
आनाधर ...	... ९०, ९८१	उदयप्रभा ७६, ११६, ११७, १२७, १३१, २१३,	
आसड ..	... १७०, १८८	३३१, ३४६	
आनधर ...	... २७९	उदयवीर ... .. २४५	
आसाधर ...	... ३४२	उदयसागर ... .. ५०, २६३	
	इ.	( आच. ) उदयसागर ३८, २४१, २८९	
इंद्रनंदि ... ..	२८३, ३३९	उदयसिंह ... .. ६६, १४९	
इंद्रसूरि ... ..	२५१, २५९	उदयसौभाग्य ... .. ३००	
इंद्रहस ... ..	२०८	उद्योतनसूरि ... .. २२२, २५०	
	आ.	उमास्वातिवाचक ... .. ७२, १२१, १४९	

कर्तांचे नाम	पृष्ठांक	कर्तांचे नाम	पृष्ठांक
वनककुशाट	१८०, २१९, २६४, २७०,	उमुदाद	१२
	२७७, २८७	कुलघट	१८३
काकचंद्र	३३७	कुलप्रभ	२४, १९५
काकप्रभ	२४१ ९२	कुलभद्र	१२९
कमलप्रभ	२	कुलमन्त्र	८, ३, ५२, १ ४, १४, १५५, ३०६
कमलस्यम	१८ ११९	क्षमाकथाण	१७, १२३, २३०, ३३४
कलापकमुनि	१०४	क्षामाभाषिक्य	३०६
कल्याणविजय	२९१	क्षमारत्नोपाध्याय	२८४
कल्याणमुरि	३०७	क्षेमकर	२३५, २६२
कल्याणगागर	२११	क्षेमसीर्षि	१४, ३५०
( भाँव ) कल्याणगागर	२८४	क्षेमेंद्र	२१०, ३३३, ३३९
कादण	१७	क्षेमराज	१७३
कादणसायल्य	३८०	क्षेपदण	३३५
कामनाग	३१२		रा
की।।चंद्र	८६, ८५, २४९	कचगाव	१२३
कीर्तिरत्न	१७९	कवाय	११६, १५५
( भाँव ) की।।चंद्र	३८	कुलचंद्र	३०२
कीर्तिविजय	१६	कुलपदार्थि	२४५
कीर्तिविजय	१३०		२७१
( दिग् ) कुलचंद्र	११३		११०



कर्त्तानुं नाम.	पृष्ठाक.	कर्त्तानुं नाम.	पृष्ठाक.
( दिग ) गुणभद्र ... ..	२२५	च.	
गुणरत्न ४४, ४५, ५३, ७९, ९१, ९५, १०२, ११७, ११९, १२२, १५०, १६३, ३०१		चक्रेश्वर ११८, १३४, १४६, १५३, १५४, १६५	
गुणरत्नमुरि ... ..	२३६	चंद्रपाल ... ..	३३४
गुणविजय ... २४३, २८८, ३३३, ३३४		चन्द्रकीर्ति ... ..	१२९, ३०५, ३१७
गुणविजयगणि .. ...	३३४	चंद्रगुप्त ... ..	२७९
गुणविनय ... ..	२१०	चंद्रतिलक ... ..	२२०
गुणजील ... ..	१५२	चन्द्रवर्म ... ..	२७४
गुणसमुद्र ... ..	३८६	चंद्रप्रभ ... ..	७७, १७९, १९०, २४०
गुणसागर ... ..	२७७	चंद्रप्रभमहत्तर ... ..	२६०
गुणसुंदर ... ..	२८५	चंद्रमुनि ... ..	१६९
गुणसेन ... ..	२७५	चंद्रधर्महत्तर ... ..	११५, ११९
गुणसौभाग्य .. ...	२८१	चंद्रशेखर ... ..	२१५
गुणाकर २३७, २६०, २८७, ३६२		चंद्रसूरि ... ..	२८०
गुणांकरसूरि ... ..	२६८	चंद्रसेन .. ..	७२
गौवालियमहत्तर शिष्य . .	३६	चंद्रानंद ... ..	१११
गौविंद ... ..	३६४	जामुंडराज ... ..	११०
गौविंदाचार्य ... ..	११६, ३११	चारित्रकीर्ति ... ..	२५३
गौतम ... ..	१७४, ३०५	चारित्ररत्न . .	१८०, २१४
		चारित्रवर्चन . .	१९३, ३३५
		चारित्रवर्चन . .	३३५

कर्त्तानु नाम	पृष्ठांक	कर्त्तानु नाम	पृष्ठांक
चारित्रसुन्दर	१४८, २१३, २२९	जयसोम	१३०, १३९, १४१, १४९, १५०, २५१
चारुचन्द्रिय	२२१	जयानन्द	२२६, २३७, २४९, ८०, ९४, २९५, ३०१, ३०८
ज.		जयामिनदि	२७९
जगद्वेद्य	३५७	ज हण	३४२
जगमालगणि	२९५	जरहणदेव	१४०
जयूकवि	२३९	जिनकीर्त	२०१, १५, २८१, २८२
जयूनाग	१२९	जिनकुशळ	६, २०२, २१४
जयूसुनि	२७९	जिनचन्द्र	६६, १५०, १५१, १८३, १९०, ३६, ३०८
जयकीर्ति	१८९, २३४	जिनतिलक	१९३
जयकेशरी	२७३	जिनदत्त	६, १०९, ११, १५१, १७९, १६०, १६७, १७३, १९५, १९७, १५२, १६६
जयधोप	०	जिनदासमहत्तर	१०, १८४४
जयचन्द्र	३२, ३८, १५०, २०८	जिनदेव	३०, ३०६
जयतिलक	१९, २३७, १७, ३३	जिनपति	१३४, १६४, २८७, ३०८
जयभयण	१४९	जिनपतिशिष्य	२३१
जयमगलाचाय	३५	जिनपाळ	१३७, १८, १६०, १७३, १९९, ३५४, ३५७
जयविजय	२९०, ३३७	जिनप्रभ	१०, ४८, ११०, १५१, १५४, १६०, १८५, २००, २१८, २७०, २७१, २७२, २७६, २७७, २७९, २८०, २८०, २८५, ३००, ३९४, ३०२, ३०५, ३६१
जयशेखर	१७०, १७२, १८४, १८५, १९२, २००, २१५, २७२, २४६, ३१८, ३३०		
जयगागर	१६०, १६० २७४ २७६		
जयमिद	९५, १४९, १७१, १८०, २१३, ३३८		

कर्तातुं नाम.	पृष्ठाक.	कर्तातुं नाम.	पृष्ठाक.
जिनभद्र	१८, ५४, ६०, १२०, १२५, १७२, २८४,	जिनेंद्रशुद्धि	... .. ३०६
	३११	जिनेश्वर	९८, १३४, १७२, १७६, १९७, २३५,
जिनमंडन	... .. १६२, १७९, २११		२४२, २६६, २७७, २८७
जिनसाणिक्य	... .. २५०	जिनोदय शिष्य	... .. ८०
जिनलाभ	... .. १६९	जीनराज	... .. २१५, २१७
जिनवल्लभ	६४, ११७, ११८, १२५, १३८, १५०,	ज्ञानकलय	... .. १६५,
	१५५, १६३, १६४, १८१, १८८, १९७,	ज्ञानचंद्र	... .. ७८
	१९९, २०३, २५८, २७४, २७६, २८२,	ज्ञानतिलक	... .. १९८, ३०८
	२८३, २८७, २८८, २९०, २९१, २९२	ज्ञानप्रमोद	... .. ३१२
जिनवर्धन	... .. ९६, ३१२	ज्ञानभूषण	... .. ११०
जिनविजय	... .. २७५,	ज्ञानविजय	... .. १७८
जिनसमुद्र	... .. २०२	ज्ञानविमल	... .. २३५, ३१३
जिनसागर	... .. १७५, १७६, ३०१	ज्ञानविलास	... .. २९३
जिनसिंह	... .. २८६	ज्ञानसागर...	१८, ३८, ४२, १३२, २२५, २४०,
जिनसुंदर	... .. २६३, २७०		२५८
जिनसूरी	... .. १५५, २२१, २३१, २४८	<b>त.</b>	
जिनसेन	... .. २७४, २७९	तरुणप्रभ	... .. २४
जिनहंम	... .. २, ३१६	तिलकाचार्य	१८, २८, ३०, ३४, ५४, ५६, १५६,
जिनहर्ष	२१७, २२१, २३३, २५८, २६८, ३३६		२४३, २५५
जिनहर्षशिष्य	... .. ३१६	तेजसिंह	... .. २०८, २९५
		त्रिमल्ल	... .. ३१५

कर्त्तानु नाम	पृष्ठांक	कर्त्तानु नाम	पृष्ठांक
		देवदत्त	३०६
दयारत्न	३०५	देवेन्द्र	२२, २६, ६८, ११८, १४ १३६, १३७,
दयावर्द्धन	१६२, २७३, २५८	१४२, १४५, १५०, १७४, १८१, १८३,	
दयासागर	२८४	१८५, १८६, १८८, १९७ १९९,	
दरुपतिराय	२१७	२०१, २३६, २३९, २४१, २६३	
दानविजयीपाध्याय	२९८	देवचन्द्रगणि	३३७
दानशेखर	४	देवेन्द्रमुनि	२९०
दामनदिशिष्य	२४६	दक्षप्रभ	१०९, ३३६
दामोदरगुप्त	२६३	देवप्रभ मन्धारा	१७६
दिगंबर	२८६, २९५, ३१, ३४०, ११, ४, २ ३	दक्षभद्र	१ ०, १७, १७९, १६२, २४४, ६६
दीक्षित दक्षदत्त	२७१	दक्षभद्र मन्धारा	७
दुर्गादेव	३४६, ३५४, ३५६	दक्षमन्सुपाध्याय	२१
दुर्गासिंह	३ ४	देवमूर्ति	२२० ५९ २६२
दुर्लभदान	२५७	देवद्विगणि	४ १२
देवकलोल	२४९	देव्यावसूरि	४२
दक्षगुप्त	१२५, १५३ १८३	देवविजय	१९९ ६, १ ७
देवचन्द्र	७ १०४, १३२, २९३	दक्षविजयगणि	२३१, २६८, २७३
देवचन्द्रजी	१२६	दक्षविमन्	३३३
दक्षसिद्ध	२०५	देवगागर	३१०

कर्त्तांचुं नाम.	पृष्ठांक	कर्त्तांचुं नाम.	पृष्ठांक.
देवसुंदर ... ..	२८५, ३०७	धर्मचंद्र ... ..	२४१, २५७
देवमूरि ८, १५१, १५३, १७८, १७८, २०५,	२३०, २३९	धर्मघोष २६, ५६, ११३, १३६, १४०, १४१,	१४३, १७५, २७१, २७७, २८७, २९९
देवसेन... ..	८७, ८९, ९०, ९१, ९४	धर्मतिलक ... ..	२७८, २८८
देवानंद ... ..	१२०, २९८	धर्मदास ... ..	... १७१
देवीदास ... ..	८८, ३३९	धर्मनंदन ... ..	१३९, १७०
द्रोणाचार्य ... ..	... ४०	धर्मप्रभ ... ..	... २४९
<b>ध.</b>		धर्मभूषण ... ..	८८, ३१, ९२
धनचंद्र ... ..	... ३००	धर्ममेह ... ..	... ३३५
धनंजय ..	२८९, ३११, ३३१	धर्मरत्नसूरि ... ..	... २३६
धनप्रभ ... ..	... ३०७	धर्मवर्द्धन ..	... २३४
धनपाल १५१, १८१, २९०, २९३, ३११, ३३०		धर्मविजय ... ..	... ३३४
धनपालकवि ... ..	... ३३०	धर्मशेखर ... ..	... ३३०
धनरत्नसूरि ... ..	... २५५	धर्मशेखरगाणि ... ..	१३२, २६५
धनराज ... ..	... २०९	धर्मशेखरोपाध्याय ... ..	... २८१
धनविजय ... ..	... १०९	धर्मसागर ८, ५०, ९१, १३९, १५८, १५९, १६२,	१६८, २१८
धनसागर ... ..	... २०९	धर्मसुंदर ... ..	... ३३८
धनेश्वर ... ..	... ११८, २६२, २७१	धर्मसूरि ... ..	२०७, २८६
धर्मकीर्ति ... ..	... २६८	धरसेनाचार्य .	... ६६
धर्मकुमार २२३, ३३३, ३६१, ३४२, ३४३		धीरसुंदर ... ..	... ३८६

कर्त्तानु नाम	पृष्ठांक	कर्त्तानु नाम	पृष्ठांक
न,		नगाधि	२, १३५
नमिऋषि	३१२	नमिसायु	२२
नयचन्द्र	३३७	नययधन	२८९
नयकुनर	१३०	नयमशेखर	३५९
नयविमल	८, १८३	नयसुदर	३०५
नयविजय	१३४	नागचन्द्रमुनि	८९
ननसूरि	१४९	नागार्जुन	३६०, २९६
नरचन्द्रसूरि	९५	नागरान	३१६
नरेश्वर	१७०	नारचन्द्रज्योतिष	१७८
नरेश्वरसूरि	१५६	नदिरत्नगणि	१०७
नरचन्द्र	१९२, ७८, ३४७, ३४८	नदिसागर	२९०
नरचन्द्रमूरि	२६६, ३८८, ३५६	नदिपेण	२७२
नरपति	३५५, ३५७	नेमिचन्द्र	३६, १२७, १९८, २४१, २४५, २५१, २५८, २६५, २८१, ३३७
नरसिंह	२७३	नेमिचन्द्र ( श्रावक )	१९०
नदिरत्नशिष्य	१९४	प.	
नरचन्द्र ( मन्वादी )	१०१	परमानन्द	८१, ११६, १८५, १९४
नरेंद्रसेन	९०	पद्मकुमार	१३०
नरेंद्रसूरि	०९	पद्मदेव	१०१
नरेंद्रप्रभ	३१६	पद्मनदि	१११, ११२, २७८
नरेंद्रप्रभ ( मन्वादी )	३१६		
१२ अनु			

कर्त्तव्यं नाम.	पृष्ठांक.	कर्त्तव्यं नाम.	पृष्ठांक.
पद्मनाग	... ३४९	पुष्पदंत	... २६७
पद्मप्रभ	... २४२, २८३, २८६, २४८	पूज्यपाद	... ११३
पद्ममंदिर	... १७५	पूज्यपादस्वामी	... ८८
पद्मविजय	... २४४, २७७, २८५	पूर्णकलश	... ३३१
पद्मसागर ३८, ७०, ६१, १७१, १८९, २३७, २६७		पूर्णचंद्र	... २६०
पद्मसागरगणि	... ३३३	पूर्णभद्र	... २२२, २२५
पद्मसुंदर	... ७७, २२३, २४५, ३३६	प्रतापसिंहदेव	... ३५९
पद्मसूरि	... ३३२	प्रतिष्ठासोम	... ३४३
पद्मानंद	... २०९	प्रद्युम्नविष्य	... १२
पर्वतवर्मार्थी	... ११३	प्रद्युम्नसूरि	६, १२८, १३६, १८५, १८६, २२६,
पादलिप्तसूरि	... १५०, ३६५		३३५
पालित्तयसूरि	... २७१	प्रबोधचंद्रगणि	... ११५
पार्श्वचंद्र	... २६, २८६, ३५८	प्रबोधमूर्तिगणि...	... ३०५
पार्श्वदेव	... ३०, ७५, २७४, २८३	प्रबोधमाणिक्य...	... ३३४
पार्श्वनाग	... ११०	प्रभाचंद्र	८८, ९१, ९२, ९३, २१६, २३३, २७५
पार्श्वसूरि	... २८, ३०		२७७
पुण्यनंदन	... ३८, १८७	प्रभानंद	... १२६, १९४, २८१, २९०
पुण्यरत्न	... २८१	प्रभादेव	... ८७, ९०, ९१, ९२, ९३
पुण्यसुंदर	... ३०१	प्राज्यभट्ट	... २१७
पुण्यसागर	... ८	पृथ्वीचंद्र	... ४८, १८७, ३०४

कर्तासु नाम,	पृष्ठांश	कर्तासु नाम	पृष्ठांश
पृथ्वाभूषण ..	२८३	भद्राचाय	१५
प्रेमराज .	३३६, २४०	भद्रेश्वरसूरि	२६६
प्रेमलाभ .	२९७	भानुचंद्र	१५२, २९३, ३०५, ३११
घ		भानुचंद्रगणि	३१६
वर्षमहि	२७६, २९४	भाषचंद्र	२४१
चदिकववि .	२३७	भावदव	१५१, १५६, २४५, २४६, ३१५
चलाण	.. २१६	भाषदेवाचाय	३६१
चालचंद्र	८९, १००, १८८, ३३०, ३६	भावप्रभ	२६३, २६४, २७५, २८०, २८६
बुद्धिसागर	७७ २९८	भावविजय	३६, १६४, २५०
ब्रह्म	१९०	भावसेन त्रैविद्यदव	९३
ब्रह्मदेव	८	भुवनकीर्ति	२३३
ब्रह्मनेमिदत्त	२५४	भुवामुग	४४, १७५, २३६, २४२
ब्रह्मर्षि	८, १४	भुवाम्पाल	३४०
भ.		भुवनसुदर	८५, ९६
भक्तिलाभ	२९८	भूपाल	२७८
भद्राकलक	८९, ९२	भोजदेव .	३६२ ३६३
भर्तृहरि	१०९	भोजपडित	७३
भद्रगुप्त	३६६	भोजधायक .	२८९
भद्रवाहु, १२, १४, १८, ३४, ३६, ४०, ४८, ५०, २७४, २८१, ३४७, ३४८		म	
		मतिवदा	१८९, २२०



कर्त्तांनुं नाम.	पृष्ठाक.	कर्त्तांनुं नाम.	पृष्ठाक.
मतिवर्धन ...	... १०२, १७७, २३५	महत्सेन ...	... २२८
मतिसागर ...	... ३४, १५१, १५६	महीदास ...	... ३११
मंडण ...	... ३०५	महीप ...	... ३०९
मंडनकवि ...	... ३२९	महीमेरु ...	... ५०, ३३५
मंडनमंत्रि ...	... ३१३, ३१४, ३३४	महीसागर ...	... २४, १५४
मंत्रि वस्तुपाल ...	... ३३१	महेन्द्रप्रभ ...	... २७२, २८०
मलचंद्र ...	... २०३	महेन्द्रसिंह ...	... ११२, १४४, १६४
मलदेव ...	... ३६६	महेन्द्रमूरि ...	... २५६, २८३, ३०९, ३४९, ३५९
मलधारी देवप्रभ	१२६, २३०, २३६, २७६	महेश्वर ...	... १३५, १३६, १४३, १९२, २२८,
मलधारीहेमचंद्र	२०, ४४, ११७, १८४, १८५,		२५०, ३१२, ३१३
...	... १८६, २४३	माघचंद्रदेव ...	... ३५९
मल्लनागकवि ...	... २१०	माघसिंह ...	... ३४२
मल्लवादि ...	... ७३, ८०, ९५	माणिक्यचंद्र ...	... २३०, २३६, २४१, २४५
मलयगिरि	४, ६, ८, १०, १४, १८, २०, ४०, ४२		२७७, ३१४, ३१६
	६४, १००, ११५, ११७, ११९, १२०,	माणिक्यनदि ...	... ९१
	१२५, २८०	माणिक्यशेखर ...	... २०, ३६, ४०
मलयचंद्र ...	... ३४९	माणिक्यगुंदर	२०९, २२२, २२७, २३३, २५३
मलयप्रभ ...	... १७८		२५७, २६१, २८४
मलयहस्त ...	... २४८	माणिक्यसूरि	३३०, ३३१, ३४२, ३५६
मल्लिपेण ...	... ८०, ३६४, ३६६	मानतुंग	१७८, १८४, २४०, २८५

कर्ताञ्जु नाम	पृष्ठांक	कर्ताञ्जु नाम	पृष्ठांक
मानदेव	१ २, २८९	मेहनदम	. २९१
मानविजय	. १४९	मेरुवाचक	. ११७
मानसागर	. ३४४	मेरुविजय	. २७७, ३४३
मानासिंह	२०३	मोक्षाकर सुत	.. ९०
मुनिचंद्र	२४, ९८, ९९, ११५, ११८, १४३, १७१, १८१, २०५, २०६, २०८, ३४०, ३४१	मोक्षधर	३०४
मुनिदेव	२४१	य	
मुनिभद्र	१८५, २४१	यतीश	३०५
मुनिरत्न	२०, २४३, २४६	यशधर	. ३३७
मुनिविमल	२९१	यश-वद्रगणि	. ३३६
मुनिशेखर	११९, ३००, ३०४	यशोदेव	२८, ३३, ५८, ६४, ८२, ८४, ८५, १०० १०२, ११७, १५, १६३, १८३, १८३, २३९
मुनिमुद्गर	८१, १०९, १७३, २१४, २२४, २२५, २५७, २७८, २८८, २९२, २९५	यशोभद्र	७२
मुनिमुद्गरशिष्य	२६०	यशोविजय	७२, ७४, ७५, ७९, १००, १०३ १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११७ १३४, १५६, १७३, १८८, २७६, २९२, २९४
मेघनद	१२३	यश कीर्ति	११२
मेघप्रभ	३३६, ३४३	यश पाल मन्त्रि	३३७
मेघराज	. . २९०, ३०५	यस मन	६७
मेघविजय	७८, २६८, ३०३, ३६२	योगधर	. . ११२
मेरुग	५४, १६३, १६८, १७०, १७२, १७५ १८२, २०८, २१६, २१७, २१९, २७४ २९७, २९८, ३६७	योगदेव	.. ८९

कर्त्तानुं नाम.	पृष्ठाक.	कर्त्तानुं नाम.	पृष्ठाक.
योगसागरगणि...	... १३३	रविनंदि	... ८९
योगाद्रिदेव	... ८८, ११२	रविप्रभ	... ८६, १८९
र.		रविवर्द्धन	... २१५
रत्नचंद्र	... १०९, १५९, २८५, ३१८	रविसागर	... २२७, २३१, २६४
रत्नदेव	... ३४१	राइधु	... २३४
रत्नप्रभ १२, २८, ७८, १६८, १७१, २२२, २२७	२४३, २५०, २६७,	राजकीर्ति	... १८८
रत्नमंडन	... २१५, २६८	राजकीर्ति वाचक	... २३७
रत्नमींदिरगणि	... १७०, २१३, २१६	राजमल्ल	... १८९
रत्नयोगाद्रि	... २२५	राजमुकुट	... २८८
रत्नशेखर २२, ९६, १२१, १३२, १४०, १४८	१५२, १९७, २३४, ३०१, ३१७, ३३७	राजमुनि	... २९३
रत्नसागर	... ५०, २७६	राजवर्द्धन	... २३०
रत्नसिंह १४०, १४१, ०४६, २०३, २०७, २२७	३४२	राजशेखर ७८, ७९, ८३, ९५, २१४, २१८, ३१६	३३२, ३३६, ३३८
रत्नसूरि	... १७४, १९७, ३०७	राजहंसोपाध्याय	... ३१२
रत्नाकर	... १२२, ३१२	रामचंद्र २१८, २३२, २५३, २८९, २९९, ३३६	३३७, ३३८, ३४२
रविशुभ	... ३१२	रामचंद्रगणि	... ३३६, ३३७
रविदेव	... ३३१	रामचंद्र गुणचंद्र	... ७३, ३१६
रविधर्म	... ३२९	रामदेव	... ११७, ११९
		रामविजय	... १७१, १७७

कर्त्तव्य नाम	पृष्ठांक	कर्त्तव्य नाम	पृष्ठांक
रामार्थ	२८१	वर्धमानकवि	९०
रूपचन्द्र	१२४, ३१२	वराहमिहिर	३४९
रूपविजय	२२७	वडभगणि	२७३, ३०१, ३३३
ल		वल्गभदेव	३३५
लक्ष्मिचन्द्र	३४७	वसतराय	३४९
लक्ष्मिनिधान	२६	वसुनदि	८७
लक्ष्मिसागर	२२७, २६१, ८९	वाग्भट	३१२, ३१४, ११५, ३३१
लक्ष्मचन्द्र	२०१	वाघनी	२८८
लक्ष्मणगणि	३९	वादिचन्द्र	३३६
लक्ष्मीदेव	८८	वादिदशसूरि	८०
लक्ष्मीवाग्भट	३८, ५०	वादिराज	९३, २२०, २५
लक्ष्मीतिलक	१५२	वादिविजय	८३
लक्ष्मीसेन	१६४	वादिवेताळ	१५३
लाभसुशर	१९९	वादिसिंह	१०, १२
लावण्यवाचक	१४३	वानरपि	६, २८०
व		वामदेव	११६
वज्रसेन	१४०, १०७	विजय	२४०, ३३३
वत्सराज	३८६	विजयगणि	१८८, ३३४
वर्धमान	९९, १७१, ०८१, २१७, २२९, १८, २४०, ३०७, ३१३, ३१८, ३९	विजयचन्द्र	१५३, १६१
		विजयनिलक	७४

कर्त्तांचुं नाम.	पृष्ठांक.	कर्त्तांचुं नाम.	पृष्ठांक.
विजयदेव ...	... १३७	विनयविजय ...	५०, १२८, १८८, ३०३
विजयरत्नशिष्य ...	... ३३२	विनयसागर ...	... २३३, २९८
विजयलक्ष्मी ...	... १७१	विनयसुंदर ...	... ३३४
विजयविमल ४६, ६२, १३५, १४२, २०१, २०८,	२०६	विनयहंस ...	... ३४
विजयसिंह ३०, ३८, ११३, १२०, १८२, २०४,	२२८, २८२	विबुधप्रभ ...	... २४२
विजयसेन ...	... २३१, २९५	विबुधमंदिरगणि ...	... ३१६
विजयानंद ...	... ३०५, ३०६	विबुधसेन ...	... ८८
विजयानंदधर्मकीर्ति ...	... १६६	विमल ...	... १७३, २१०
विद्यातिलक ...	... ७९	विमलगणि ...	... ११९, २५१
विद्यानंद ...	८७, ९०, ९२, ९३, १७०	विमलदास ...	... ९४
विद्यापतिभट्ट ...	... २१८	विमलप्रभ ...	... १३३
विद्यारत्न ...	... २५०	विमलसूरि ...	... १८५, १९०, २२६
विनयकुशल ...	१३५, १४४, ३४७	विमलाचार्य ...	... १९०, १९२
विनयचंद्र ४८, ८०, २३८, २४२, २४५, २४९	२७०, ३१५	विरूपाक्ष ...	... ११२
विनयप्रभ ...	... २५४, २९४	विमलविजय ...	... २७८
विनयभुषण ...	... ३०८	विल्हण ...	... २८९, ३३३
विनयरत्न ...	... १४०	विल्हणकवि ...	... २७९
		विवेकसमुद्र ...	... १९१, २५५
		विशाळराज ...	... २९०
		विजाळराजशिष्य ...	... २९४

कृत्ताउ नाम	पृष्ठांक	कृत्ताउ नाम	पृष्ठांक
विश्वमेन	२८०	शातपाहन	३४०
विष्णुमेन	२९३	शाक्तिभद्र	१३५
वीरगणि	२८८	शाक्तिसूरि	३६
वीरदेव	२३०	शाक्तिसूरि	१५१
वीरदेवगणि	२ ९, २५७	शाहदवाम	१७
वीरभद्रगणि	४४ ६४, ३११	शिवदश	१८६, २८०
वीरभद्र	३९१	शिवमन्त्र	९९ १०१
वीरधितव	१६२	शिवगण	११ ११०
वीरध्या	३०३	शास्त्रदेव	११८
वीरगण	९२	शास्त्रविद	३३
वीरगणप	४०	शास्त्रसाय	२१८ २००
वीरसिद्धदेव	३६०	शास्त्रसाय	८
श्री		शास्त्र १० ३०, ४१ ५४, ६४, ६६, ७४ १ ०	
शास्त्रगणपत मा	३४	१ १ ११, २३ ११ ३१८	
शास्त्रगणप	१२८, ३३०	शास्त्रक	१०३, १ १०३
शास्त्रगण	८, २००	शास्त्रक	३८८
शास्त्र ३	३६	शास्त्र	
शास्त्र ३	३६	शास्त्र	२१७
शास्त्र ३	३६	शास्त्र	८, १-२
शास्त्र ३	३६	शास्त्र	३३०
शास्त्र ३	३६	शास्त्र	
शास्त्र ३	३६	शास्त्र	

कर्त्तारुं नाम.	पृष्ठांक.	कर्त्तारुं नाम.	पृष्ठांक.
शुभचन्द्र ...	८७, ८८, ९०, १११, ११२	सदानंदि ...	३०८
शुभचन्द्रशिष्य ...	... ९४	संग्रामसिंह ...	३०८
शुभवर्द्धन ...	१८, १७५, १८७, १९०, २२४	समतभद्र ८७, ८८, ९०, ९३, २७७, २८०, ३०७	
शुभविजय ...	... ८३, ९५, १६४	समयमाणिक्य ..	... १३१
शुभशील १३०, २१६, २१८, २३३, २५३, २५५, २५६, २६०, २६१, २६३, २६६, २६८, २७१, ३१०, ३११		समयसुंदर ३६, ५० १२४, १२९, १३०, '६३, १८७, २०९, २१०, २५८, २९०	
श्रुतकीर्ति ...	... २८३	.. ३१८, ३३५, ३३६, ३८८	
श्रुतसागर ...	... ८८	समुद्राचार्य ...	... १४९
श्रुतसाधु ...	... १३३	सर्वदेवसूरि ...	... २५८
श्वेताम्बरगिष्ठु ...	... ३१२	सलक्षमात्रि ...	... ३११
शैलाचार्य ...	... १२३	सर्वराज १३४	
शोभन ...	... २९२	सर्वराजगणि ...	... १६०
<b>स.</b>		सर्वविजय ...	... १८८, २६१
सकलकीर्ति ...	८९, ९०, २३०, २६८, ३४२	सर्वसुंदर ...	... २५९
सकलचंद्र ...	... १५०, १८१, १९४	सर्वानंद ...	१७१, २३९, २४५, २७०
सकलभूषण ...	... ११०	सवाइजयसिंह ...	... ३४९
सकलहर्ष ...	... २२३	सहजकीर्ति ...	... २९८, ३०७
सत्यराजगणि ...	... ११६, २३४	सहजकुशल ...	... १९०
सत्यशेखर ...	... २८७	सहदेव ...	... २८४
सद्वर ...	... २७४	सागरचंद्र ...	... २७८, ३४८

कृत्तायु नाम	पृष्ठांक	कृत्तायु नाम	पृष्ठांक
सागरदत्त	२१	सुदरगणि	३१३, ३३३
साधुकीर्त	३१३	सुदरमूरि	२०
साधुरत्न	५६, १२४	सुधमस्वामी	२, ४६८, १, १८, ३६
साधुरग	२	सुधावल्लभामुनि	२१०
साधुराज	१०१, २७८	सुबधुक्वि	१०
साधुविजय	७९	सुमतिकलोल	
साधुसुदर	३०६, २०७, ३०८	सुमतिविनय	३२५
साधुसोम	१८४, २३९	सुमतिसूरि	३६
सिद्धचन्द्रगणि	२९३	सुमतिहृष	२४७
सिद्धव्याख्यात्मिक	७५	सुपेण	३५९
सिद्धवि	७२, ७४, १७१, १७४, ३६०	स्थूलिभद्र	२८
सिद्धसूरि	१००, १४२	सूराचाग	२९१, ३३१, ३८०
सिद्धसन ५४, ७५, ९४, १	७, १३८, २७२, २७७,	सोद्वलक्वि	०८८
	२८१ २८९, २९२	सोमकीर्त	२२७, २३०, २३४
सिद्धसेनदिवाकर	७९	सोमचन्द्र	१४३, १६०, २३८, २६१, २१८
सिद्धांतसागर	१११, २७७, ३३२, ३३४	सोमचारिभ्रगणि	३०९
सिद्धिचन्द्र	३०७, ३८९	सोमतिलक ५६, १२२, १३८, १८९, २७३, २८७,	
सिंहतिलक	३४६, ३४८, ३६५, ३६७		२८८ २९४
सिंहदेव	३१२	सोमदेव	९३, २०१, २०३, २७७, ३३२, ३३९,
सिंहमल	३४७		३८२



कर्त्तासुं नाम.	पृष्ठाक.	कर्त्तासुं नाम.	पृष्ठाक.
सोमधर्म ... ..	१७३	ह.	
सोमप्रभ ५६, १८९, १९३, २१३, २३३, २३९, २७७, २७९, २८०, २८७, २९५, ३०६		हंसराज ... ..	२७१, ३१८, ३५९
सोममंडन .. ..	२५८	हसविर्जयं ... ..	३४०
सोमविमल ... ..	१७९	हरिप्रभं ... ..	१००, १५७, ३००
सोमसुंदर ... २६, ५२, २७३, २७९, २८७, ३८८		हरिभद्रं ८, १८, २४, ३४, ४२, ४८, ७२, ७४, ७५ ७९, ८०, ८५, ९८, ९९, १००, १०१, १०२ ११३, ११६, ११७, ११८, १२०, १२६, १४३, १५७, १६१, १६२, १७०, १५८, १८१, १८९, १९१, २१०, २३५, २३९, २४०, २४२, २४३, २६०, ३००, ३४९	
सोमसूत्रि ... ..	६६, १८४	हरिचंद्र ... ..	३३१
सोमोदय .. ..	२९०, २९४	हरिध्वज ... ..	२१३
सौंदर्यगणि ... ..	२६४	हरिदास ... ..	३३९
सौभाग्य ... ..	२८	हरिपेण ... ..	३६८
सौभाग्यनंदि ... ..	२६४	हरिसाधु ... ..	१७६
सौभाग्यसागर ... ..	३००	हर्षकीर्ति १९३, २७५, २८०, २९१, ३०६, ३०७ ३१३, ३१८, ३५९, ३६०	
सौभाग्यसूत्रि . ... ..	२९३	हर्षकुल २, ४, ३८, ६२, १३५, १७१, २१८, ३०७	
संघचंद्र ... ..	१५२	हर्षदेव ... ..	३३७
संघतिलक ... ..	१९१	हर्षदेवगणि ... ..	३५०
संघदास ... ..	१६, २३२	हर्षनंदन ... ..	९७५
संघविजय ... ..	५०		
संयमकवि ... ..	१९२		
संप्रःमसिंह .. ..	११२		

वक्तानु नाम	पृष्ठांक	वक्तानु नाम	पृष्ठांक
दृपभूयण	१०,१५८,१८२	हेमचद्राचार्य	३१
दृपमुनि	८०,०८३	हेमतिलक	३४८
दृपरज	१६४	हेमप्रभ	१८६,३४९,३५६
दृपवद्वन	१०९,१०४,२८१,१८०	हेमविनय	१७६,२०९,२१३,२४५,२६६,
दृपविजय	२४७		७४,२७७
दृम्तिरुचिगणि	३६०	हेमसूरि	१८७,२२९
दृरविनय	८	हेमसूरिशिष्य	१९३
दृरमरि	११	हेमदस	३००,१४६
दृदयसाभाग्य	२०१	हमदसशिष्य	१९२
दृमकुजर	२३०	हेमाचार्य	७८,०७२,०९०,०९९,३००,३०१,
दृमचद्र	१,१,१८०,१०८,००,३०९,३१०		३०९,३११,३१८,३००,३३१,३४९
	३०,३१		



# अनुक्रमणिका.

## रच्याना सालनी ग्रंथना नाम साथेनी अनुक्रमणिका.

रच्यानो सवत्	ग्रंथना नाम	रच्यानो सवत्	ग्रंथना नाम
८०	पद्मचरित्र ( प्रा )	१०७३	नवपद प्रकरण वृत्ति
१ १	आत्ममीमांसा	१०७३	„ वृत्ति
१३०	योनिप्राप्त	१०७३	„ „
७३३	ओषनिर्मुक्ति कूर्ण	१०७३	„ „
८३५	कुवलयमाला	१०७६	जबूस्वामी चरित्र ( वीज )
९१३	उपदेशमाला वृत्ति ( प्रा )	१०७८	आराधनापताका
९१५	धर्मोपदेश लघुवृत्ति	१०८०	अष्टकसूत्र वृत्ति
९२५	महापुरुष चरित्र	१०८८	कथाकोश
९३३	आचारांग वृत्ति	११२०	स्थानांग वृत्ति
१	वैत्यसाधुवदनश्राद्धप्रतिक्रमण वृत्ति	११	समवायांग वृत्ति
१५६	श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र वृत्ति	११२०	शातधर्मकथा वृत्ति
१ २	उपमितिभंगप्रपन्ना ( फ्या )	११२३	पञ्चविधावश्यमसूत्र वृत्ति
९७१	भुवनशुद्धी चरित्र	११२६	पञ्चाशक वृत्ति
१००५	मुनिपति चरित्र ( स )	११२५	सवेगरगशाला
१०१६	यथास्तिलक ( चप् )	११२७	विजयचंद्रकेवलिकथा ( प्रा )
१ १'	जिनशतक पत्रिका	१११८	भगवती वृत्ति
१०४२	अभ्यात्मकल्पद्रुम वृत्ति ( बीजा )	११२९	उत्तराप्ययन लघुवृत्ति

ग्रन्थानो संवत्	ग्रंथसुं नाम	ग्रन्थानो संवत्	ग्रंथसुं नाम.
११२९	पार्श्वनाथ चरित्र ( न ) ...	११७२	प्र पंचाशत्तृणि ...
११३९	महार्घारस्वामी चरित्र ( प्रा. )...	११७२	पटशान्ति श्रुति ...
११३९	जिनभद्रायशृङ्गमंमहर्षणां श्रुति ...	११७२	सार्थगतक श्रुति ...
११४०	मनोरमा चरित्र ( प्रा. ) ...	११७२	बंधम्यामिन्द्र श्रुति ...
११४१	शोभनश्रुति अवचरि ...	११७३	निर्गोधनिशोद्वेगश्रुति ...
११५८	कथारत्नकोज ...	११७४	उपदेशपट श्रुति ...
११६०	आदिनाथ चरित्र ...	११७४	नवतत्त्वगाथा श्रुति ...
११६०	शातिनाथ चरित्र ( प्रा. ) ...	११७४	चैत्यवंदनाचूर्णि ...
११६१	पृथ्वीचंद्र चरित्र ( प्रा ) ...	११७४	चैत्यवंदन विवरण ...
११६२	जीवानुगासन श्रुति ...	११७५	मठिनाथ चरित्र ( प्रा. ) ...
११६४	जीवनमाम श्रुति ...	११७५	पुष्पमाला श्रुति ...
११६५	नवपदप्रकरण श्रुति ( चोर्धा ) ...	११७६	पिंडविशुद्धि लघुश्रुति ...
११६५	पार्श्वनाथ चरित्र ( प्रा. ) ...	११७६	रत्नकोशव्याख्या ..
११६८	न्यायप्रवेशकसूत्र टिपण ...	११७८	सप्तक्षेत्री ...
११६९	न्यायप्रवेशकसूत्र पंजिका ...	११८०	पिंडविशुद्धि श्रुति ...
११७०	भवभावना ...	११८०	पाक्षिकमृत्र श्रुति ...
११७०	भवभावना श्रुति ...	११८२	नवपदप्रकरण श्रुति ( पाचमी )...
११७१	सार्द्धगतक श्रुति ...	११८३	श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र चूर्णि ...
११७२	धर्मरत्नकरंडक ...	११८३	प्रत्याख्यानस्वरूप ...
११७२	मुनिपति चरित्र ( प्रा. ) ...	११८३	,, श्रुति ...

रचयानो सवत्	ग्रथनु नाम	रचयानो सवत्	ग्रथनु नाम
११८४	दर्शनगुह्यप्रकरण वृत्ति	१२२	श्रावकप्रातिक्रमणसूत्र अति
११८५	यतिप्रतिष्ठास्थापनस्थल	१२२४	प्रज्ञप्रमत्सामी चरित्र ( प्रा )
११८६	परिग्रहप्रमाण	१२२६	पृथ्वाचंद्रचरित्र टिप्पणक
११८७	विजयचंद्रकैत्रलि चरित्र	१२२७	जीतकप टिप्पणक
११९०	आर्यायानमणिश्लोक वृत्ति		( विपमपदव्याख्या )
११९२	नगिऊणक्षेत्रसमास वृत्ति	१२०८	पचोपाग वृत्ति
११९३	मुनिमुद्रतस्वामी चरित्र ( प्रा )	१२२९	शीलभावना वृत्ति
११९९	सुरसुदरी कथा	१२२३	नमिनाथ चरित्र ( प्रा )
११९९	गणरत्नमहोदधि	१२३०	नमित्तुवीरक्षत्रसमास वृत्ति
११९९	मुपा वनाथ चरित्र ( प्रा )	१२३८	उपदेशमाला वृत्ति ( दोषटी )
१२०४	उपदेशमाला कथा	१२४१	कुमारपालप्रतिबोध
१२०७	प्रद्युम्नचरित्र ( बीजु )	१२४२	प्रवचनसारोद्धार वृत्ति
१२०७	उत्पादसिद्धि प्रकरण	१२४८	आत्माहित कुलक
१२१४	सनकुमार चरित्र ( प्रा )	१२४८	विवेकमजरी
१२१४	स्याद्वादकलिका	१२५०	अममत्सामी चरित्र
१२१५	नगिऊणसजलक्षेत्रसमास वृत्ति	१२५१	पल्योपमोपवासविधि
१२१६	अनताथ चरित्र ( प्रा )	१२६०	जयताप्रभोत्तरसग्रह वृत्ति
१२१६	नेमिनाथ चरित्र ( प्रा )	१२७१	प्रत्येकबुद्ध चरित्र ( प्रा )
१२१६	नेमिनाथ चरित्र ( प्रा )	१२७४	ऋषिदत्ता चरित्र ( प्रा )
१२१७	नवतत्त्व वृत्ति	१२७४	चंद्रप्रमत्सामी चरित्र (स प्रा )

रचयानो संवत्.	ग्रंथनुं नाम.	रचयानो संवत्.	ग्रंथनु नाम.
१२६६	काव्यप्रकाशसंकेत ...	१२९५	गणधरसार्द्धशतक वृत्ति ...
१२७४	जीतकल्प वृत्ति ...	१२९५	पिंढविशुद्धि वृत्ति दीपिका ...
१२७७	पार्श्वनाथ चरित्र ( प्रा. ) ...	१२९६	आवश्यक लघुवृत्ति ...
१२७७	सम्यक्तकप्रकरण वृत्ति ...	१२९९	वासुपूज्यस्वामी चरित्र ...
१२७८	विवेकमंजरी वृत्ति ...	१२९९	उपदेशमाला वृत्ति ( कर्णिका ) ...
१२७८	जयंतकाव्य ...	१३०२	चंद्रप्रभस्वामी चरित्र ( सं. ) ...
१२८०	हैमसमासतद्धितसार प्रकरण वृत्ति... ..	१३०४	पूर्वपिं चरित्र ...
१३८१	प्रेमलाभ व्याकरण ...	१३०४	हितोपदेशमाला वृत्ति ...
१२८५	कृतपुण्य चरित्र ...	१३०४	वालचोधव्याकरण मूल ...
१२८५	धन्यशालि चरित्र ...	१३०५	धर्मरत्न करंडक ...
१२८६	धर्मविधि वृत्ति ...	१३०७	यात्रय ( प्रा. ) वृत्ति(बीजी) ..
१२८७	स्वप्रसप्तिका वृत्ति ( बीजी ) ...	१३१३	कुमारपाल चरित्र ( बीजुं ) ...
१२८७	गृहस्थधर्मप्रतिपत्ती कुलक(बीजुं)..	१३१७	शातिनाथ चरित्र ( सं. ) ...
१२८८	ऋषिदत्ता चरित्र ...	१३१७	श्रावकधर्मप्रकरण वृत्ति ...
१२८९	उपमितिभवप्रपंचासारोद्धार ...	१३२०	संदेहदोलावली वृत्ति ...
१२९३	द्वादशकुलक वृत्ति ...	१३२२	शातिनाथ चरित्र ( प्रा. ) ...
१२९४	मुनिसुव्रतस्वामी चरित्र ( प्रा ) ...	१३२४	समरादित्य चरित्र ...
१२९४	चर्चरी वृत्ति ...	१३२५	दीपालिकाकल्प ...
१२९४	शीलोपदेशमाला वृत्ति ( त्रीर्जा )... ..	१३२९	वृत्तरत्नाकर वृत्ति ...
१२९४	शतपदी ...	१३३९	श्रेयासनाथ चरित्र( सं. ) ...

रचयानो सवत	प्रथम नाम	रचयानो सवत	प्रथम नाम
१३३२	व्याधय ( स ) वृत्ति	१३६५	दीपालिकाकल्प ( छत्रो )
१३३२	वृहत्कल्प वृत्ति	१३८५	शत्रुजयादिनेपछतीर्थनाथ
१३३३	सधपट्टक लघुवृत्ति	१३८७	दीपालिकाकल्प
१३३४	शालि चरित्र	१३९०	हरिभदीजबुद्धीपसमहणी वृत्ति
१३३४	प्रभावक चरित्र	१३९२	अतरगसधि ( प्रा )
१३३४	शालिचरित्र काव्य	१३९३	विम्बाहल वृत्ति
१३३७	विषयविनिमद्द कुलक वृत्ति	१३९४	पडावश्यकविधि
१३३८	शकुनसारोद्धार	१४००	स्तभनपार्श्वप्रबध
१३३८	प्रवज्याविधान वृत्ति	१४०५	चतुवशति प्रबध
१३४९	स्याद्वादमचरी	१४१०	शातिनाथ चरित्र ( स )
१३६३	विविधप्रपा	१४११	कुमारपाल प्रबध
१३६४	साधुप्रतिक्रमण वृत्ति	१४११	श्राद्धदिनकृत्य वृत्ति
१३६५	भयहरस्तोत्र वृत्ति	१४११	चैत्यवदना वृत्ति बालावबोधा ( जूनीगुर्जर )
१३६५	अजितशातिस्लव वृत्ति	१४१२	पान्थनाथ चरित्र ( प्रा )
१३६८	शुरुपारतत्रयस्तव वृत्ति	१४१९	नरवमकरा
१३७२	पुढराकचरित्र	१४१३	न्हस्वकथासमह
१३७७	धामकधमप्रकरण वृत्ति	१४२९	पारमीनाममाला
१३८३	चैत्यवदनकुलक	१४२२	सम्यक्वसप्ततिका वृत्ति
१३८३	श्राद्धसामायिक प्रतिक्रमणसूत्र- व्याख्याप्रकरण	१४२३	दीपालिकाकल्प ( धीजो )



रचयानो संवत्.	ग्रंथसुं नाम.	रचयानो संवत्.	ग्रंथसुं नाम.
१४२६	भक्तामरस्तोत्र वृत्ति	१८६३	धन्नाकथा
१४२८	श्रीपाल चरित्र	१८६३	श्री वर चरित्र
१४२९	प्रश्नोत्तररत्नमाला वृत्ति	१८६५	सिरिनिलयक्षेत्रसमाम अवचूरि
१४३६	हरिविक्रमकाव्य वृत्ति	१४६६	गुर्वावली
१४३६	उपदेशचिंतामणि वृत्ति	१८६६	हेमधातुपारायण क्रियारत्न-
१४३६	उपदेशचिंतामणि अवचूरि		समुच्चय ( सवीजक )
१४४०	अवश्यक अवचूरि	१४६७	वारिविचार
१४४१	उत्तराध्ययन अवचूरि	१४७८	पर्वरत्नावली
१४४२	कुलमंडनसूरिकृतविचारामृतसंग्रह	१४८०	अचलमतदलन
१४४७	गुणस्थानक्रमारोह	१४८४	मित्रचतुष्ककथा
१४५५	त्रैवेद्यगोष्ठी	१४८६	पशुपणस्थिति
१४५५	नामिज्जणसज्जलक्षेत्रममास वृत्ति	१४८९	श्राद्धगुण विवरण
१४५६	यतिजीतकल्प वृत्ति	१४९०	पंचदण्डत्रप्रबंध
१४५७	सम्यक्तकौमुदी	१४९०	विक्रमचरित्र
१४५९	कर्मस्तव विवरण	१४९४	पत्रपरमेष्टिस्तव
१४६२	सम्यक्तकौमुदी ( चौथी )	१४९४	„ वृत्ति
१४६२	धम्मिलचरित्र ( लोकवद्ध )	१४९५	चित्रोडमहावीरविहारप्रशस्ति
१४६२	पुष्पमाला अवचूरि	१४९५	सदेहदोलावली लघुवृत्ति
१४६२	प्रबोधचिंतामणि	१४९६	विक्रम चरित्र ( बीजु )
१४६३	रत्नशेखर कथा ( गद्यपद्य )	१४९६	पडावश्यक वृत्ति ( अर्थदीपिका).

ख्यानो सवन	प्रथमु नाम	ख्यानो सवन	प्रथमु नाम
१४९६	सिंहासनद्वात्रिंशिका कथा	१५१८	शत्रुजयकरपथथा
१४९७	वस्तुपाल चरित्र ( बीलु )	१ २५	प्रतिक्रमण वृत्ति
१४९७	अष्टादशस्तोत्र अथचूरि	१५३१	श्रीपालनाटक्यत्तरसवता वर्णन
१४९८	पडावदयकावधि	१५४०	शालिवाहन चरित्र
१५०२	वेदतिस्थान चरित्र	१५४१	चतुर्विंशति चिन्स्तुति
१५०४	कथामहादाधि	१५४४	उत्तराध्ययन वृत्ति
१५ ६	प्रतिक्रमणकमविधि	१५६६	उत्तराध्ययन दीपिका
१५०६	श्राद्धविधि वृत्ति	१५६६	दशश्रावक चरित्र ( प्रा )
१५०७	वाक्यप्रकाश	१५५१	कपूरप्रकरण अथचूरि
१५०९	कथाकोश	१५५२	वदमान्देशना
१ १०	वीतरागस्तोत्र अथचूरि (चोया)	१५१०	उत्तराध्ययन वृत्ति
१५१२	पुष्पमाली वृत्ति	१५५४	शुचनभानु चरित्र ( गद्य )
१५१२	विमलनाथ चरित्र	१५५४	श्रीपालचरित्र टीका
१५१४	आरभासिद्धि वृत्ति	१५५४	सोमसौभाग्य
१५१५	यायमजूपायास	१५५७	श्रीपालकथा
१५१५	यायमउखाद्य	१५६०	गान्तरगिणी
१५१६	आचारप्रदीप	१५७०	दशानरत्नाकर
१५१६	मौनपुकादशी कथा ( स )	१ ७३	विचाररहायन प्रकरण
१५ ८	शत्रुजयकरप वृत्ति	१५८२	आचारांग दीपिका
१५१८	उपदेशमाला अथचूरि	१५८३	सुत्रकृतांग दीपिका

रच्यानो संवत्.	ग्रंथनुं नाम.	रच्यानो संवत्.	ग्रंथनुं नाम.
१५९०	भरतेश्वर वाहुवलि वृत्ति ...	१६३९	जंबूद्वीप वृत्ति ...
१५९१	हैमवृहत्त्वृत्ति ङुडिका ( वृहत् ) ...	१६४१	भावशतक ...
१५९१	हैमचतुर्थपाद वृत्ति ...	१६४४	इरियावहीपट्टिशिका वृत्ति ...
१६०३	उपदेशसप्ततिका ...	१६४५	जंबूद्वीप वृत्ति ...
१६०६	शतार्थी ...	१६४५	पौषधपट्टिशिका वृत्ति ...
१६१५	रायमन्त्रानुदय ...	१६४८	गुर्वावली ( बीजा ) ..
१६१७	पौषधविवि प्रकरण वृत्ति ...	१६५०	जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति वृत्ति(प्रमेयरत्नमंजूषा)
१६१७	औष्टिकमतोत्सूत्र दीपिका ...	१६५१	स्तोत्रकोश ...
१६२१	वाग्भट्टालंकार वृत्ति ...	१६५१	अजितशक्तिस्तव ( बीजा ) ...
१६२३	भावप्रकरण ...	१६५२	भक्तामरस्तोत्र वृत्ति ...
१६२७	पिंडविशुद्धि दीपिका अवचुरि ...	१६५२	रामचरित्र ( गद्य ) ...
१६२७	उपदेशरत्नमाला ...	१६५२	चतुर्विंशतिजिनस्तोत्र वृत्ति ..
१६२८	कल्पकिरणावली ...	१६५३	मंडलप्रकरण वृत्ति ...
१६३०	हिताचरण प्राकृतवृत्ति ...	१६५४	मौनएकादशीकथामहात्म्य ...
१६३२	पार्श्वनाथ चरित्र ( सं. ) ...	१६५४	शब्दभेदनाममाला वृत्ति ...
१६३३	नयप्रकाश सटीक ...	१६५४	शिलोच्छनाममाला वृत्ति ...
१६३४	स्थूलिमद्रचरित्र ( शीलप्रकाश ) ...	१६५५	ज्ञानपंचमीकथा ...
१६३४	गच्छाचार वृत्ति ...	१६५६	दानप्रकाश ...
१६३६	रूपसेन चरित्र ...	१६५६	ऋषभशतक ...
१६३७	उत्तरायन दीपिका ..	१६५७	विचाररत्नसंग्रह ...

रचयानो सवत्	प्रपत्रु नाम	रचयानो सवत्.	प्रपत्रु नाम
१६५७	उत्तराच्यनकथाओ	१६८५	अनेकशास्त्रसारसमुच्चय
१६६०	गौतमबुलक लघुश्रुति	१६८८	विजयप्रशस्तिकाल्य वृत्ति
१६६०	पाठवचरित्र ( धोत्रु ) गद्य	१६९६	कल्पसुबोधिना
१६६०	हैमव्याकरण दीपिका दुगपदप्रबोध	१६९७	उपसगहस्तोत्र वृत्ति ( त्रिधा )
१६६३	अनिट्ट कारिका विवरण	१७०५	स्थानांगवृत्तिगतगाथा वृत्ति
१६६३	तकभाषावार्तिक	१७०८	लोकप्रकाश
१६६६	शा दि बुलन चार वृत्ति	१७१०	कल्याणमदिरस्तोत्र वृत्ति
१ ६७	अधिधानचिंतामणि नाममाला	१७११	जैनधमवर स्तोत्र
	साराद्धार	१७११	,, वृत्ति
१६६७	स्याद्वादभाषा	१७१२	पद्मवट्टी
१६६८	कल्याणमदिरस्तोत्र वृत्ति	१७३६	योगरत्नाकर
१६६८	नेमिनाव चरित्र ( स )	१७३७	हैमकौमुदीलघुप्रक्रिया
१६७१	विवेकनिलास वृत्ति	१७४६	अष्टलक्षी
१६७६	कल्पप्रदीपिका	१७४९	चातुर्मासीशाख्यान
१६७६	अप्यात्मरूपद्रुम वृत्ति ( बीजी )	१७५८	हैमकौमुदी
१६७७	कुमताहिविषयजागुली	७६१	प्रदुम्ब चरित्र
१६७७	कल्पदीपिका	१७६५	जातकदीपिका वृत्ति
१६७९	उत्तराच्यन वृत्ति	१७८१	उपदेशमाला वृत्ति
१६८०	घातुरत्नाकर	१७९१	वलयणमदिर स्तोत्र ( धोत्रु ) ..
१६८७	विसत्राद शतक	१७९२	हुताशिनी कथा

रचयानो संवत्.	प्रथमं नाम.		रचयानो संवत्.	प्रथमं नाम.	
१८९३	उपदेश गतक ( वीजुं )	...	१८५०	जीवविचार वृत्ति	...
१८९३	उपदेश गतक	...	१८६८	प्रश्नचिंतामणि	...
१८०४	स्त्रात्रपंचांगिका कथा	...	१८८३	आत्मप्रबोध	...

# शुद्धिपत्र.

पृष्ठांक	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२	१४	वर्षि	चूर्णि
४	३	समवायाग	समवायाग
"	१३	स्पुवति	स्पुवति
"	१९	वर्षि	वृत्ति
६	१३	द्वादशोमीवृत्ति	प्रवर्गयाविधान वृत्ति
८	६	१६०००	१४०००
१०	११	७००	१७४६
१३	३	१००	११००
"	४	प्रयग	प्रयुग
१४	१३	रष्यानो सवर् ८९०	श्लोक ८९०
१२	४	अवचूर्णि	विशेषचूर्णि
"	५	पयाय	सपदिदानविमपदपयाय
३८	१०	श्वेतवदनावचूर्णि	श्वेतवदनावचूर्ण
	५	शुद्धश्वेतवदनसटीक	शकलादृ टीका
३०	३	प्रतिक्रमणसप्तहृणी	आवर्तकनियुक्ति
४८	३	पूव	पूव
५०	६	रत्नसागर	रत्नसागर तथा महत्प्रदीर्घ
५२	८	कल्पसमयन	कल्पोत्तरात्रितवृत्ति
१४	७	श्लोक १८००	श्लोक १७०
६६	७	१ Dec	अनेक पदमा ऐ
,	११	यानिप्राशन ३	देहनमा अप्प
७२	३	S II	S K
७६	३	पचरिण	आरंभगिति
,	४	प्रमाणमथ	दहनमा नदी
७८	४	दुष्प्रियाप	दहनमा नदी
,	५	" वृत्ति	दहनमा नदी
७९	३	बादरनाथर	रत्नकदरान्तर
,	६	श्ल ७०००	श्ल ३०००
८०	६	गिद्धीलक्षण	दहनमा नदी
"	७	गिद्धीलक्षणारथी	दहनमा नदी
८१	१३	गुणविशेष	गुणविशेष
८४	९	अ-मय दशशिराकर्म	अ-मय दशशिराकर्म
८८	४	त्रिकर्णिकार ६	दहनमा नदी

पृष्ठांक.	पंक्ति.	अशुद्ध	शुद्ध.
९०	१६	दृष्टिवाद	षट्दर्शन लघुवृत्ति
९१	१२	न्यायसदर्थसंग्रह	अन्यमतीय
९५	६	अभावप्रथव्याख्या	अन्यमती
१००	१४	हरिभद्र	हरिप्रभ
१०५	१०	मुक्ताशुक्ति	प्रथमनावेस्तवकविनानी
११७	१४	शतक	डेक्कनमां नथी.
"	१५	भाष्य	डेक्कनमा नथी
१२३	६	जीविविचार ( बीजो )	डेक्कनमा नथी.
"	९	चार्य	शैलान्चार्य
१२५	७	बृहन्नवतत्व	मूलनो गुजराति भाषार्थ छे.
१२८	५	शास्त्रवार्तासंग्रह	शास्त्रार्थसंग्रह.
१२९	५	अनेक शास्त्रसारसमुच्चय	बारभावनादिक अनेक प्रकरणो तुटक छे.
"	१०	प्रथसारसमुच्चय	डेक्कनमा नथी.
१३०	५	पंचास्तिप्रबोधसंबंध	डेक्कनमा नथी.
१३२	१८	जिनेश्वरनाम प्रकरण	जिनेश्वरसहस्रनामस्तोत्र.
१३९	६	सिद्धसुखविशिका	हरिभद्रसूरिनी वीशमी वीशी.
१४८	१४	आलोचना रत्नाकर	रत्नाकरपचीशी.
१५३	१४	उपासकपाठ	उपासकदशागसूत्र.
१५५	८	ओषसामाचारी	ओषनिर्मुक्ति.
१५९	६	केवली प्रकरण	डेक्कनमा नथी.
१६३	५	मिथ्यात्वमथनचर्चरी प्रकरण	काळस्वरुप कुलक.
"	६	वादिविचार	वारिविचार ( मैरुतुंगकृत ).
"	८	विचारश्रेणि	महावीरस्वामीनी काळरात्रीसंबंधी चर्चा.
१६४	१३	वृत्ति	डेक्कनमां नथी.
१७३	८	उपदेशशतक	१०० सो दृष्टत.
१७६	१२	कृष्णयुधिष्ठिरधर्मगोष्ठी	जैननोज छे.
"	१३	कामघट	कामघटकथा.
१७८	४	जयंतीप्रश्नोत्तरसंग्रह	डेक्कनमां नथी.
"	५	वृत्ति	डेक्कनमां नथी.
"	१३	ज्ञानचतुर्विंशतिका	नारचंद्रज्योतिष.
१८२	६	धर्मोपदेश	उपदेशशतक.
१८६	७	भावना प्रकरण	भावना कुलक.
१८७	१३	रूपकमाला	कर्ता अन्यमती.
१९०	३	धावकप्रबोध	वर्धमानदेशना.
"	१५	सम्यक्कपरीक्षा	सम्यक्कपरीक्षा नालावबोध.

पृष्ठांक	पंक्ति	अनुद	सुद
१९०	१५	विमलसूरि	विजयविमलसूरि
१९२	७	शुक्ति	देहनमा नधी
१९२	८	सवेगधूममजरी	देहनमा नधी
"	१०	सवेगधूममजरी	शारंगधूममजरीनी ओपाई
"	"	सयमबधि	मुदातसयमबधि
"	११	सवगमजरी	देहनमा नधी
१९३	५	गिदातररनाबली	देहनमा नधी
२०५	४	दवसूरि	दवसूरि
२०९	१५	हेमविजय	( दीग ) हेमविजय
२१४	५	क्षमार्दप्रबध	अनेक प्रबधो छे
२१५	५	नदोपाख्यान	नबनेदुखया
२१६	१०	भोजप्रबध	देहनमा नधी
२१८	८	विक्रमादित्य चरित्र	विक्रमादित्य पचदह छप्रबध
,	"	रामचद	रामचदना शिष्य रामचद (रघ्याना सप्त १४९०)
२१९	४	सोमप्रबध	सुमारपादप्रबधमानो छे
,	८	हरिवरा	ना। अ-दमति ध्याता
"	१५	रुनकावती चरित्र	रुपयोन रुनकावती चरित्र
२२२	९	कृष्णचरित्र	देहामा नधी
२२६	६	पद्मावती चरित्र	पद्मचरित्र ( विमलसूरिद्वय )
२२८	८	भरत चरित्र	देहामा नधी
२२९	४	दशविजयगणि	दशविजय गणि
२३३	१०	धीचन्द्रदेवती चरित्र	देहनमा नधी
,	१८	" " प्रगलित	देहनमा नधी
२३४	१९	खदकारि	खदपीउ
२४५	४	( स )	( प्रा )
"	५	( घ )	( प्रा )